



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2455]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2013/आश्विन 30, 1935

No. 2455]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2013/ASVINA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2013

का.आ.3219(अ).- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2550(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर सुल्तानपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700 कि.मी. से 178.300 कि.मी. (सुल्तानपुर-चाराणसी सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद् अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 12 दिसम्बर, 2012 को "अमर उजाला" और "हिन्दुस्थान" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

## अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सुलतानपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के कि.मी. 134.700 से कि.मी. 178.300 तक (वाराणसी-सुलतानपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित और संरचना रहित आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।								
क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुलतानपुर	(1) सदर	(1) अमहट	299	निजी	कृषि	0.0285	वसीअब्बास अजीजअब्बास पुत्रगण गुलामअब्बास व मुनुरुलअब्बास पुत्र आगाहुसेन व आफताब हुसेन महताब सीमाब हुसैन हसन जहीन सबाब हुसैन पुत्रगण सगीरुलहसन व सदरुलनिशा पत्नी सगीरुलहसन नि० गोरावारिक
				301	निजी	कृषि	0.0488	वसीअब्बास अजीजअब्बास पुत्रगण गुलामअब्बास व मुनुरुलअब्बास पुत्र आगाहुसेन व आफताब हुसेन महताब सीमाब हुसैन हसन जहीन सबाब हुसैन पुत्रगण सगीरुलहसन व सदरुलनिशा पत्नी सगीरुलहसन नि० गोरावारिक
				306	निजी	कृषि	0.0048	फिरोज अब्बास पुत्र मुनीरुल हसन व महताब हुसैन पुत्र सगीरुल हसन व रेहान आगा पुत्र अजहरुल हसन नि० गोरावारिक
				307	निजी	कृषि	0.0084	अजहरुल हसन पुत्र आगा हसन नि० गोरावारिक
				312	सरकारी	नाला	0.0025	उत्तर प्रदेश सरकार
				313	निजी	कृषि	0.0025	हमीद अली जाहिद अली पुत्रगण नासिर अली व आजम अली काजिम अली नाजिम अली पुत्रगण जाहिद अली नि० गोरावारिक
				314	निजी	कृषि	0.0025	कौशरअली व सरवरअली पुत्रगण हामिद नि० ग्राम
				315	निजी	कृषि	0.0025	अजादार हुसैन अलादार हुसैन वाकर हुसैन पुत्रगण इकराम हुसैन नि० गोरावारिक
				317	निजी	कृषि	0.0055	आले मोहम्मद रजाअब्बास पुत्र रियासत हुसैन नि० ग्राम
				319	निजी	कृषि	0.0034	अन्सारहुसैन मो० इसरार मो० सज्जाद मो० अबरार पुत्रगण मंजूर व मुफीदुलहसन मसूदुलहसन अतीउलहसन मसीहुलहसन मदीहुलहसन पुत्रगण रियासतहुसैन व रियाजुल हसन पुत्र फजल व मो० हुसैन खाँ पुत्र रियाजुल हुसैन खाँ व जुलफिकार अली पुत्र मुर्तजा हुसैन व आशिक हुसैन आफताब हुसैन पुत्रगण एखलाख हुसैन नि० गोरावारिक व दिलशाद हुसैन पुत्र हिदायत हुसैन नि० शाहगंज छावनी सदर
				366	सरकारी	खाद का खडडा	0.0138	उत्तर प्रदेश सरकार
				<b>योग</b>			<b>0.1233</b>	
			(2) गोराबारीक	833	सरकारी	कृषि	0.0042	भूदान समिती
				837	निजी	कृषि	0.0217	मो० रजा, हसन रजा पुत्रगण नियाज अली नि० अमहट व रियाज हसन, मो० हैदर, पुत्रगण गुलाम हुसैन नि० अमहट व इमदाद हसन पुत्र मेहदी नि० अमहट व मो० अमीन पुत्र फिदा हुसैन व श्रीमती कनीज जहरा पत्नी फिदा हुसैन नि० अमहट व मो०नाजिम, मो०यम्मन, मो०एहसन, मो०नवकन, मो०रईस जाफर, मो० हसन जाफर पुत्रगण रियासत हुसैन व खुशनुदी बेगम, खलीकुलनिशाँ बेवा पत्नी रियासत हुसैन नि० अमहट व मो०यूसूफ हसन खाँ पुत्र सब्बीर हुसैन उर्फ सब्बीरहसन नि० अमहट व मो०रईस खाँ, मो०कासिमअब्बास खाँ, महताब हुसैन खाँ, अफजल हुसैन, जफर अब्बास खाँ वकारुल अब्दुल खाँ नकी अब्बास खाँ पुत्रगण मो०ताहिर खाँ नि० अमहट व मो०हनीफ खाँ, महमूदुल हसनखाँ, शिपतेहसन खाँ, शेर अली खाँ पुत्रगण शौकतअली व श्रीमती उम्मतबीबी पत्नी शौकतअली नि० अलीगढ मजरे अमहट व हसन मोहम्मद, मो०हसनैन, मो०सईद पुत्रगण नेवाजिसअली नि०ग्राम व मन्सूरहुसैन, मसीहैदर पुत्रगण मासूबहसन व उम्मेलेला पत्नी मासूब हसन नि० अमहट व नायाब हुसैन पुत्र लईक हुसैन व श्रीमती जौहरी बेगम पत्नी स्व० लईक हुसैन नि० अमहट
				849/1	निजी	कृषि	0.0547	डा० रवीन्द्रप्रताप सिंह पुत्र रामयश सिंह नि० सिरवारा रोड मजरे छावनी सदर
				849/2	निजी	कृषि		नाजिम अली पुत्र कासिद हुसैन नि० ग्राम
				867	सरकारी	गड्ढा	0.0284	उत्तर प्रदेश सरकार
				868	निजी/सरकारी	कृषि/गेरकृषि	0.0399	हसन मेहदी पुत्र गुलामअली खाँ नि० ग्राम व सै० मुजफ्फर अब्बास, सै० मो० अब्बास, सै० हामिद अब्बास, सै० जामिन अब्बास, सै० सगीर अब्बास, सै० जहीर अब्बास पुत्रगण एहतेशाम हुसैन साकिन भाई नि० ग्राम

							व अफजल हुसेन पुत्र जागिन हुसेन नि० ग्राम व दिलदार हुसेन, ताजदार हुसेन, वफादार हुसेन पुत्रगण मुजावर हुसेन नि० ग्राम व हसन मेहंदी मेहदीहसन पुत्र गुलामअली व गुलामअली खॉ पुत्र रसूलखॉ व श्रीमती नाजिराबेगम पत्नी औसाफअली नि० ग्राम व बंजर, उत्तर प्रदेश सरकार व गडढा, उत्तर प्रदेश सरकार
			1033	निजी	कृषि	0.0164	राजबहादूर, रामचन्द्र पुत्रगण रामआसेर नि०ग्राम
			1071	निजी	कृषि	0.0084	राजमणि मिश्र, सूर्यमणि मिश्र पुत्रगण कृष्णकान्त मिश्र व श्रीमती कैलाशा देवी पत्नी स्व० कृष्णकान्त मिश्र नि० पयागीपुर व श्रीमती उजराखातून पत्नी असगर हुसेन खॉ नि० भाई
			1072	निजी	कृषि	0.0140	श्रीमती द्रोपती देवी पत्नी आद्याप्रसाद तिवारी नि० देवरीया पर० बरौसा
			1073	निजी	कृषि	0.0088	श्रीमती द्रोपती देवी पत्नी आद्याप्रसाद तिवारी नि० देवरीया पर० बरौसा
			1074	निजी	कृषि	0.0126	श्रीमती द्रोपती देवी पत्नी आद्याप्रसाद तिवारी नि० देवरीया पर० बरौसा
			1075	निजी	कृषि	0.0129	राजमणि मिश्र, सूर्यमणि मिश्र पुत्रगण कृष्णकान्त मिश्र व श्रीमती कैलाशा देवी पत्नी स्व० कृष्णकान्त मिश्र नि० पयागीपुर मीट एसोसियेट प्राईवेट लिमिटेड रजि०सं० 20-25600 कम्पनी रजिस्ट्रार उ० प्र० कानपुर डाईरेक्टर देवेन्द्र सिंह पुत्र बल्देव सिंह नि० सिविल लाइन सुल्तानपुर
			1076	निजी	कृषि	0.0087	दीपक जैन, विनीत जैन पुत्रगण जोगीराम जैन नि० कुडवार नाका सुल्तानपुर व गिरीश चन्द्र पुत्र हरिश्चन्द्र नि० ग्राम
			1077	निजी	कृषि	0.0305	श्रीमति साफिया खातून पत्नी सगीर अहमद नि० रसूलपुर मजरे लौहरदक्षिण व सगीर अहमद पुत्र अब्दूल लतीफ नि०ग्राम
			1079	निजी	कृषि	0.0302	आसुतोष पाण्डेय, सन्तोष पाण्डेय पुत्रगण अरविन्द कुमार व श्रीमती ललिता देवी पत्नी अरविन्द कुमार नि० गभडया व अनिल कुमार अरुण कुमार अतुल कुमार पुत्रगण महावीर प्रसाद नि० गभडिया व देवीप्रसाद पुत्र रामयश नि० उधरनपुर तह० कादीपुर
			1080	निजी	कृषि	0.0314	राजकुमार अग्रवाल पुत्र रामसेवक अग्रवाल नि० छावनी सदर
			1495	निजी	कृषि	0.0199	गिरीशचन्द्र पुत्र हरिश्चन्द्र नि०ग्राम
			1497	निजी	कृषि	0.0388	आसुतोष पाण्डेय, सन्तोष पाण्डेय पुत्रगण अरविन्द कुमार व श्रीमती ललितादेवी पत्नी अरविन्दकुमार नि० गभडया व अनिल कुमार अरुण कुमार अतुल कुमार पुत्रगण महावीर प्रसाद नि० गभडिया
			1498	निजी	कृषि	0.0378	आसुतोष पाण्डेय, सन्तोष पाण्डेय पुत्रगण अरविन्द कुमार व श्रीमती ललितादेवी पत्नी अरविन्दकुमार नि० गभडया व अनिलकुमार अरुण कुमार अतुल कुमार पुत्रगण महावीर प्रसाद नि० गभडिया
			1499/2	निजी	कृषि	0.0380	आसुतोष पाण्डेय, सन्तोष पाण्डेय पुत्रगण अरविन्द कुमार व श्रीमती ललितादेवी पत्नी अरविन्दकुमार नि० गभडया व अनिलकुमार अरुण कुमार अतुल कुमार पुत्रगण महावीर प्रसाद नि० गभडिया
			1303	निजी	कृषि	0.0222	गिरीशचन्द्र पुत्र हरिश्चन्द्र नि० अमहट व श्रीमती अकबरी बीबी पत्नी आबिदखां नि० अमहट
			1304	निजी	कृषि	0.0250	कन्धई लाल पुत्र सुख मंगल नि० ग्राम व रामदेव पुत्र श्रीराम नि० ग्राम व सुरेन्द्र कुमार, रवीन्द्र कुमार, राजकुमार पुत्रगण रामसेवक नि०ग्राम
			1781	निजी	कृषि	0.1271	रामेन्द्रविक्रमसिंह, शिवेन्द्रविक्रमसिंह पुत्रगण अवधेशनरायनसिंह व श्रीमती अशोककुमारी पत्नी अवधेश नरायनसिंह नि० लक्ष्मणपुर व श्रीमती कृष्णावती पत्नी बसन्तलाल मौर्य नि० ग्राम व श्रवणकुमार भार्गव पुत्र फेरई भार्गव नि० शाहगंज व श्रीमती मन्जू जायसवाल पत्नी हेमराज व हेमराज पुत्र उमाचरन नि० छावनीसदर व हरीशंकर कृष्णशंकर रविशंकर मुकुन्दशंकर पुत्रगण रमाशंकर नि० सिविललाईन सुल्तानपुर व श्रीमती सीतापती पत्नी रघुवीर प्रसाद नि० करौंदिया व अनिल कुमार चौहान पुत्र झगईराम चौहान नि० दरियापुर व श्रीमती सूरसती पत्नी वसन्तलाल यादव नि० रानीगज गोवाबारिक व दिनेश कुमार प्रजापति पुत्र मोहनलाल प्रजापति नि० दरियापुर व अशोककुमारमिश्र पुत्र रामप्रतापमिश्र नि० करौंदिया व मो०अली खां पुत्र मियादीन खां नि० बनकेपुर व श्रीमती अतहरयासमीन पत्नी मो०नसीम खां नि० पूरेपहलवानमजरे हाजीपट्टी
			835	निजी	कृषि	0.0047	आबिदअली पुत्र वाहिद अली नि० ग्राम व तेय्यवादी पत्नी मो० मुस्लिम नि० ग्राम व अब्दूल रज्जाक खां, अब्दूल हमीद खां पुत्रगण मुसाहिब खां नि०

							ताजखानपुर व द्वारिका पुत्र शिवप्रसाद व श्रीमती चमेला पत्नी किशोरीलाल नि० अलीगढ मजरे अमहट व फखरुल हसन पुत्र मौलाना आगा नजफअली नि० अलीगढ मजरे अमहट व मसरुल हसन पुत्र महमूदुल हसन नि० अलीगढ मजरे अमहट व विक्रम नाबा० 16 वर्ष पुत्र सूरज संरक्षिका श्रीमती कमला देवी नि० ग्राम व श्रीमती विल्कीन्सवानों पत्नी आलेहसन नि० ग्राम व आशीष सतीश पुत्रगण सूरज नि०ग्राम
			836	निजी	कृषि	0.0078	आलेहसन पुत्र नुरुलहसन नि०ग्राम
			849	निजी	कृषि	0.0181	डा० रवीन्द्रप्रताप सिंह पुत्र रामयश सिंह नि० सिरवारा रोड मजरे छावनी सदर नाजिम अली पुत्र कासिद हुसेन नि० ग्राम
			1804	सरकारी	गैरकृषि	0.0409	उत्तर प्रदेश शासन
			1810	निजी	कृषि	0.0071	शमीमुल हसनैन, सफदर आगाखाँ, नफीसुलहसन खाँ, अजहरुलहसन खाँ पुत्रगण नजमुलहसन व वनरगीसजहाँ पत्नी स्व० नजमुलहसन नि०ग्राम
			1811	निजी	कृषि	0.0134	गुरुसरन पुत्र रघुवीर नि०ग्राम व शमीमुल हसनैन, सफदर आगाखाँ, नफीसुलहसन खाँ, अजहरुलहसन खाँ पुत्रगण नजमुलहसन व वनरगीसजहाँ पत्नी स्व० नजमुलहसन नि०ग्राम व श्रीमती शफीकाबानों पत्नी अजहरुल हसन नि०गोराबारिक प्रणय गुप्ता पुत्र चन्द्रप्रकाश नि० पारकीन्सगंज
			1833	निजी	कृषि	0.0147	धर्मनरायन पुत्र परमेश्वरदीन नि० पूरेबाघराय पर०मीरानपुर व मंगलाप्रसाद द्विवेदी पुत्र अनन्तप्रसाद द्विवेदी नि० सिविललाईन सुल्तानपुर व रामअजोर वर्मा पुत्र लुटई वर्मा नि० सिरारा तह०जलालपुर व श्रीराम यादव पुत्र रामसमुझ यादव नि० सोनावाँ पर०चान्दा व मयंक पुत्र अशोक व किसलय पुत्र प्रेमनरायन व रन्जीत पुत्र श्रीनाथ व रघुवीर पुत्र गंगाराम नि०ग्राम व विजय कुमार राजकुमार विनोद कुमार धर्मेन्द्र कुमार विनय कुमार विवेक कुमार पुत्रगण सन्तलाल जायसवाल व यशोदा देवी श्रीमती रत्नादेवी पत्नीगण सन्तलाल जायसवाल नि० 210 पारकीन्सगंज छावनी सदर
			1836	सरकारी	मार्ग	0.0167	उत्तर प्रदेश सरकार
			2011	सरकारी	गड्ढा	0.2033	उत्तर प्रदेश सरकार
			योग			<b>0.9585</b>	
		(3) पयागीपुर	5	निजी	कृषि	0.0419	कन्धईलाल पुत्र सुखमंगल व रामदेव पुत्र श्रीराम व सुरेन्द्रकुमार, रवीन्द्रकुमार पुत्रगण रामसेवक व राजकुमार पुत्र सुरेन्द्रकुमार नि० गोरावारिक
			9	सरकारी	मार्ग	0.0460	उत्तर प्रदेश सरकार
			6	सरकारी	चकमार्ग	0.0069	उत्तर प्रदेश सरकार
			8	निजी	कृषि	0.0687	ओमप्रकाश पुत्र रामविलाश नि० अगनाकोल व मेसर्स कामशियल आटोसेल्स प्रा०लि० कानपुर रोड शहर इलाहाबाद द्वारा डायरेक्टर संस्कार गुप्ता पुत्र वी०एम०गुप्ता नि०बलरामपुर हाऊस व अभिषेक मिश्र पुत्र ब्रजराज मिश्र नि०ग्राम व नय्यर शमीम पुत्री शमीम अहमद नि० 1/13/39 डी० निकट टेण्डर हार्ट पब्लिक स्कूल सिविल लाईन फैजाबाद व श्रीमती तहसीम बानो पत्नी इसरार अहमद नि०सुल्तानपुर
			10	सरकारी	नाला	0.0174	उत्तर प्रदेश सरकार
			13 मि.	सरकारी	सड़क	0.1225	उत्तर प्रदेश सरकार
			13 मि.	सरकारी	आबादी		नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर
			12	निजी	कृषि	0.1304	आशीष श्रीवास्तव पुत्र शैलेन्द्र नि० रुद्रनगर मेजरगंज व श्रीमती गौहर जिया पत्नी शफदर रजा खाँ व सूर्य प्रताप सिंह पुत्र नारायन प्रताप सिंह नि०खजुरहट जिला फैजाबाद व वैकुण्ठ प्रसाद पुत्र नन्दलाल रामविशाल कृष्णकान्त पुत्रगण ब्रजलाल रामशब्द रामदत्त पुत्रगण गनपति नि०ग्राम व हृदय प्रसाद पुत्र रामजस नि०ग्राम
			12 ग	निजी	कृषि		कृष्णकान्त, रामशब्द, रामदत्त पुत्रगण गनपति नि०ग्राम
			15	निजी	कृषि	0.0066	नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर
			18 क	सरकारी	आबादी	0.0104	नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर
			28	सरकारी	नवीन परती	0.2145	उत्तर प्रदेश शासन
			29	निजी	कृषि	0.1555	अमरनाथ तिवारी पुत्र जमुना प्रसाद तिवारी व रामस्वारथ, ठाकुरप्रसाद पुत्रगण राममनोरथ नि०ग्राम व रामस्वारथ, ठाकुरप्रसाद पुत्रगण राममनोरथ व रामस्वरूप, देवीप्रसाद पुत्रगण रामआधार व चिन्तामणि, रामरुद्र पाठक पुत्रगण हरिप्रसाद व गयाप्रसाद पाठक पुत्र रामश्रृंगार व श्रीमती अशरफी देवी पत्नी रामश्रृंगार नि०ग्राम

			30	शासकीय	सड़क	0.0371	उत्तर प्रदेश शासन
			104	निजी	कृषि	0.0010	कृष्णकान्त, रामशब्द, रामदत्त पुत्रगण गनपति नि0ग्राम
			106	निजी	कृषि	0.0599	रामशब्द पुत्र गनपति नि0ग्राम
			107	निजी	कृषि	0.0111	कृष्णकान्त, रामशब्द, रामदत्त पुत्रगण गनपति नि0ग्राम
			109	निजी	कृषि	0.0380	जयकुमार पुत्र राजबहादुर नि0ग्राम
			97	निजी	कृषि	0.1259	डा0 धीरेन्द्रचन्द पुत्र महेशचन्द नि0 सदर सुल्तानपुर व ज्ञानमती पत्नी चिन्तामणि पुत्री भोलानाथ नि0 पयागीपुर व श्रीमती सावित्री देवी पुत्री अमरनाथ नि0वोखरेपुर व महन्थप्रसाद पुत्र जगन्नाथ व सुशीलादेवी पत्नी महन्थप्रसाद नि0 छावनी सदर व रामनिवास पुत्र विदेश्वरी नि0खुनशेखपुर तह0कादीपुर व शशिसिंह पुत्र मुनेश्वरसिंह नि0तीरिया पर0मिझौडा व शुशीला पत्नी रामबरन नि0 नरायनपुर व विद्यावती शुक्ला पत्नी कमलदेव शुक्ला नि0छपरा व शिवकुमार मिश्र पुत्र भवानीफेर नि0पितम्बरपुर कलां व श्रीमती नोहरा देवी पत्नी लालमणि चौरसिया नि0बरुआ कादीपुर
			96	निजी	कृषि	0.1076	देवीदास पुत्र रामआधार व श्रीमती ममता पत्नी सचेन्द्र कुमार नि0नारायणपुर व राजेश कुमार पुत्र सीताराम नि0 वैतीकलां व श्रीमती ज्ञानादेवी पत्नी राधेश्याम नि0 लक्ष्मणपुर व श्रीमती अंजली सिंह पत्नी विनय कुमार सिंह नि0 बहरौली व श्रीमती पूनम पत्नी रामतीर्थ नि0 महमूदपुर जंगल व श्रीमती विमला देवी पत्नी गयाप्रसाद नि0 ग्राम
			88	निजी	कृषि	0.1110	अनिलकुमार शुक्ल पुत्र केशव शुक्ल व दिनेशकुमार, रत्नेशकुमार, ज्ञानेशकुमार, करुणेशकुमार, देवेशकुमार पुत्रगण पारसनाथ नि0 खैराबाद
			86	निजी	कृषि	0.0403	श्री भगवान पुत्र द्वारिकाप्रसाद व कुसुमदेवी उर्फ कुसुमलता पत्नी सुरेशचन्द्र व राजकरन सिंह पुत्र रामनरेश सिंह नि0 ग्राम
			85	सरकारी	खलिहान	0.0374	उत्तर प्रदेश सरकार
			79	निजी	कृषि	0.0760	विदमती पत्नी विद्याभूषण व जगदीश, रामेश्वर, गयाप्रसाद पुत्रगण विक्रमादीत्य व प्रेमशंकर, देवशंकर, विजयशंकर पुत्रगण गंगाप्रसाद व अमरनाथ, छोटेलाल, श्रीभगवान पुत्रगण द्वारिकाप्रसाद नि0ग्राम
			78	निजी	कृषि	0.0250	विदमती पत्नी विद्याभूषण व जगदीश, रामेश्वर, गयाप्रसाद पुत्रगण विक्रमादीत्य व प्रेमशंकर, देवशंकर, विजयशंकर पुत्रगण गंगाप्रसाद व अमरनाथ, छोटेलाल, श्रीभगवान पुत्रगण द्वारिकाप्रसाद नि0ग्राम
			77	निजी	कृषि	0.0250	समजीत पुत्र अनन्तप्रसाद नि0सिविल लाईन सुल्तानपुर
			76	सरकारी	समिति	0.0188	भूमिदान समिति, सुल्तानपुर
			72	निजी	कृषि	0.0204	रामनायक पुत्र राधेश्याम नि0ग्राम
			71	निजी	कृषि	0.1140	गंगाराम, गंगासहाय, शिवप्रसाद, रामकेवल, अशोककुमार पुत्रगण रघुनाथ व रामप्रकाश सिंह पुत्र सभाजीत सिंह व देवीप्रसाद सिंह पुत्र रघुराज सिंह नि0ग्राम
			69	सरकारी	रास्ता	0.0029	उत्तर प्रदेश सरकार
			70	निजी	कृषि	0.0880	अनिलकुमार पुत्र रामशब्द व रुद्रप्रताप मिश्र पुत्र जयनारायन मिश्र व श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी वीरेन्द्र नि0 शास्त्रीनगर
			113	सरकारी	नाला	0.0280	उत्तर प्रदेश सरकार
			114	निजी	कृषि	0.0457	अलीराशिद दिलशाद मो. काजिम व मो. असलम पुत्रगण मोमिन हुसैन नि0 अमहट व श्रीमती लता गुप्ता पत्नी विनोदकुमार नि0 छावनीसदर
			111	सरकारी	सड़क	0.0820	उत्तर प्रदेश सरकार
			112	सरकारी	मार्ग	0.0030	उत्तर प्रदेश सरकार
			119	सरकारी	नाला	0.0440	उत्तर प्रदेश सरकार
			122	निजी	कृषि	0.0167	श्रीमती जगपती पत्नी जोखू नि0सोनारा
			123	निजी	कृषि	0.0306	अफजल हुसैन पुत्र जामिन हुसैन नि0अहमट व श्रीमती लता गुप्ता पत्नी विनोद कुमार नि0छावनी सदर व अलीराशिद, दिलशाद, मो0 काजिम, मो0असलम पुत्रगण मोमिन हुसैन नि0अहमट व
			128	सरकारी	नाला	0.0330	उत्तर प्रदेश सरकार
			146	सरकारी	सड़क	0.1480	उत्तर प्रदेश सरकार
			145	निजी	कृषि	0.1686	हरीशंकर वर्मा, राममूर्ति वर्मा पुत्रगण नन्हकू नि0 नरायनपुर व सुरेशचन्द्र पाठक पुत्र जयनारायन पाठक व उमेशचन्द्र पुत्र नरसिंहनारायन व गुलामरब्बाकी, तौकिर अहमद पुत्रगण मो0 हसन व श्रीमती खतीजाबीबी पत्नी मो0 हसन व हरीशचन्द्र पाठक, कृष्णचन्द्र पाठक पुत्रगण राजनारायन नि0 ग्राम
			147	निजी	कृषि	0.0727	श्रीमती शशीसिंह पत्नी रामकरन सिंह व हरीशचन्द्र पाठक, कृष्णचन्द्र पाठक पुत्र राजनारायन व उमेशचन्द्र

							पुत्र नरसिंह नारायण व सुरेशचन्द्र पाठक पुत्र जयनारायण नि०ग्राम
			148	निजी	कृषि	0.0068	मुन्नालाल, किशोरीलाल पुत्रगण मेडई नि०सिविल लाईन व रामस्वरूप, देवीदास पुत्रगण रामअधार नि०ग्राम
			281	निजी	कृषि	0.1097	मुन्नालाल पुत्र मेडई व राजेश कुमार मालोटिया, पुनीत कुमार मालोटिया, रितेश कुमार मालोटिया पुत्रगण भगवती प्रसाद अग्रवाल नि० नमकमण्डी छावनीसदर
			289	निजी	कृषि	0.1415	अवधनारायण पुत्र बिन्देश्वरी व कौशल्या रानी पत्नी रामसहाय व मनोजकुमार अग्रवाल पुत्र रामसहाय अग्रवाल व सुरेश चन्द्र पुत्र जय नारायण व हरीशचन्द्र पाठक, कृष्णचन्द्र पाठक पुत्रगण राजनारायण व उमेशचन्द्र पुत्र नरसिंह नारायण पाठक नि० ग्राम
			284	सरकारी	भीटा	0.0104	उत्तर प्रदेश सरकार
			291	सरकारी	बंजर	0.0463	बंजर, उत्तर प्रदेश सरकार
			292	सरकारी	रेलवे	0.1452	रेलवे विभाग
			293	निजी	कृषि	0.0725	भारतभूषण, विद्याभूषण पुत्रगण उमाशंकर व कृष्णभगवान, अवधराज पुत्रगण शिवकुमार व राजीव मिश्र, राहुलकुमार पुत्रगण सुरेशचन्द्र व श्रीमती शीला पत्नी सुरेशचन्द्र व शशिकान्त पुत्र उमाशंकर व गौरी मिश्रा पत्नी ऋषिकेश व कमलादेवी पत्नी उमाशंकर व श्रीमती आरती मिश्र पत्नी ऋषिकेश मिश्र व दीपक मिश्र, सुनिल मिश्र पुत्रगण अवधनारायण मिश्र व अवधनारायण मिश्र पुत्र शिवकुमार मिश्र नि०ग्राम
			294	निजी	कृषि	0.0532	रमाशंकर, विजयशंकर, रविशंकर पुत्रगण नन्दकिशोर व शिवशंकर पुत्र दुर्गाप्रसाद नि०ग्राम
			295	निजी	कृषि	0.1089	रवीन्द्र कुमार जायसवाल पुत्र रामसुन्दर जायसवाल नि०धौरा व प्रवीण सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह नि० नारायणपुर व नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र बमबहादुर सिंह व रामस्वरूप, देवीदास पुत्रगण रामअधार व रामरुद्रपाठक, गयाप्रसाद पाठक पुत्रगण रामश्रंगार व श्रीमती अशरफी देवी पत्नी रामश्रंगार व रामस्वारथ पुत्र रामनोरथ नि०ग्राम व प्रेमकिशोर पुत्र रामअधार व माधुषी मिश्र पत्नी प्रेमकिशोर नि०नारायणपुर व शिवकुमार गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता व श्रीमती अनारादेवी पत्नी हीरालाल गुप्ता व हीरालाल पुत्र परमेश्वरी नि०ग्राम
			297	निजी	कृषि	0.0478	जीमैसर्स राहुल पयूज प्रा०लि०द्र० प्रबन्ध निदेशक विजय प्रकाश सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह नि०लालबाग व फैजाबाद रामस्वरूप देवीदास पुत्रगण रामअधार व रामस्वारथ ठाकुरप्रसाद पुत्रगण रामनोरथ नि०ग्राम व रामस्वारथ, ठाकुरप्रसाद पुत्रगण रामनोरथ व देवीदास पुत्र रामअधार व रामरुद्र, गयाप्रसाद पुत्रगण रामश्रंगार व अशरफी देवी पत्नी रामश्रंगार नि०ग्राम
			373	सरकारी	गौर कृषि	0.0368	उत्तर प्रदेश शासन
			382	निजी	कृषि	0.0806	मनमोहन पुत्र शिवसरन व कृष्णमोहन, ओझा, मदनमोहन पुत्रगण रामसरन व प्रदीप कुमार पुत्र शिवकुमार व शिवकुमार पुत्र भवानीफेर व कृपाशंकर पुत्र सूर्यपाल मिश्र व आलोक तिवारी पुत्र रामआसरे व श्रीमती अनीता सिंह पत्नी प्रदीप कुमार सिंह व कन्हैयालाल, राजाराम यादव पुत्रगण खदेरू यादव व प्रेमकिशोर मिश्र पुत्र रामअधार मिश्र व विकास यादव बा० विशाल यादव नाबा० उम्र 16 वर्ष पुत्रगण वासदेव सं०रामपती माता अरविन्द कुमार अतुल कुमार शुक्ला अखिल कुमार शुक्ला पुत्रगण अच्युतानन्द शुक्ला नि०ग्राम व विदमती पत्नी विद्याभूषण व कमला देवी पत्नी उमाशंकर नि०ग्राम
			383	निजी	कृषि	0.0052	हरिशंकर, कृष्णशंकर, रविशंकर पुत्रगण रमाशंकर नि० सिविल लाईन सुल्तानपुर
			374	निजी	कृषि	0.0250	कृष्णमोहनओझा, मदनमोहनओझा, राकेशदत्तओझा पुत्रगण रामशरण व विवेककुमार, अभिषेक कुमार ओझा ना०बा आयु क्रमशः 15 व 13 वर्ष संरक्षिका रेनू पत्नी मनमोहन व रेनू पत्नी मनमोहन नि०ग्राम
			381	निजी	कृषि	0.0212	कमलादेवी पत्नी उमाशंकर व विदमती देवी पत्नी विद्याभूषण नि०ग्राम
			376	निजी	कृषि	0.0380	भारतभूषण, विद्याभूषण पुत्रगण उमाशंकर व कृष्ण भगवान, अवधराज पुत्रगण शिवकुमार व अनिलकुमार पुत्र जगनारायण व प्रदीप, दिलीप पुत्रगण मोहन व शशिकान्त पुत्र उमाशंकर व गौरीमिश्र पुत्र ऋषिकेश व श्रीमती कमलादेवी पत्नी उमाशंकर व राजीव मिश्र, राहुल कुमार पुत्रगण सुरेश चन्द्र व श्रीमती शीला पत्नी सुरेशचन्द्र नि०ग्राम

				375	निजी	कृषि	0.0137	भारतभूषण, विद्याभूषण पुत्रगण उमाशंकर व कृष्ण भगवान, अवधराज पुत्रगण शिवकुमार व अनिलकुमार पुत्र जगनरायन व प्रदीप, दिलीप पुत्रगण मोहन व शशिकान्त पुत्र उमाशंकर व गौरौमिश्र पुत्र ऋषिकेश व श्रीमती कमलादेवी पत्नी उमाशंकर व राजीव मिश्र, राहुल कुमार पुत्रगण सुरेश चन्द्र व श्रीमती शीला पत्नी सुरेशचन्द्र नि0ग्राम
				377	निजी	कृषि	0.0077	भरतभूषण, विद्याभूषण, शशिकान्त पुत्रगण उमाशंकर व गौरव मिश्र पुत्र ऋषिकेश व श्रीमती कमलादेवी पत्नी उमाशंकर व विन्दूमती देवी पत्नी विद्याभूषण नि0ग्राम
				411	निजी	कृषि	0.0250	सुरेशचन्द्र पाठक पुत्र जयनरायण व राजेश कुमार, दिनेश कुमार पुत्रगण रामधनी व श्रीभगवान, छोटेलाल पुत्रगण द्वारिका प्रसाद व प्रेमशंकर, विजयशंकर, देवशंकर पुत्रगण गंगाप्रसाद नि0ग्राम
				410	निजी	कृषि	0.0723	सुरेशचन्द्र पाठक पुत्र जयनरायण व राजेश कुमार, दिनेश कुमार पुत्रगण रामधनी व श्रीभगवान, छोटेलाल पुत्रगण द्वारिका प्रसाद व प्रेमशंकर, विजयशंकर, देवशंकर पुत्रगण गंगाप्रसाद नि0ग्राम
				409	निजी	कृषि	0.0370	श्रीसेवक पुत्र कृष्णपाल व शान्ती पत्नी शिवसेवक व रामू पुत्र अलगू नि0ग्राम
				404	निजी	कृषि	0.0094	हृदय प्रसाद पुत्र रामजस नि0ग्राम
				415	सरकारी	चकमार्ग	0.0012	उत्तर प्रदेश सरकार
				414	निजी	कृषि	0.0890	भारतभूषण, विद्या भूषण, शशिकान्त पुत्रगण उमाशंकर व अवधराज पुत्र शिवकुमार व अनिल कुमार पुत्र जयनरायन व प्रदीप, दिलीप पुत्रगण मोहन व वीना सिंह पत्नी नन्द कुमार सिंह व गौरव मिश्र पुत्र ऋषिकेश व श्रीमती आरती पत्नी ऋषिकेश व कमलादेवी पत्नी उमाशंकर व हृदय प्रसाद पाठक पुत्र रामजस पाठक व सुरेश पुत्र हरदत्त व श्रीमती सविता पत्नी गुंजन नि0ग्राम
				413 क	निजी	कृषि	0.1003	भारतभूषण, विद्याभूषण पुत्रगण उमाशंकर व कृष्ण भगवान, अवधराज पुत्रगण शिवकुमार व अनिलकुमार पुत्र जगनरायन व प्रदीप, दिलीप पुत्रगण मोहन व शशिकान्त पुत्र उमाशंकर व गौरौमिश्र पुत्र ऋषिकेश व श्रीमती कमलादेवी पत्नी उमाशंकर व राजीव मिश्र, राहुल कुमार पुत्रगण सुरेश चन्द्र व श्रीमती शीला पत्नी सुरेशचन्द्र नि0ग्राम
				416	निजी	कृषि	0.0155	बेचई पुत्र मखोशर व रामकिशोर, कुंवर प्रसाद, देवीप्रसाद, दिनेश कुमार, सरजू पुत्रगण रामू व कृपाली पत्नी रामू व सावित्री देवी पत्नी भारतभूषण मिश्र व विन्दुमती पत्नी विद्याभूषण नि0ग्राम व शीलादेवी पत्नी सुखलाल नि0पुरेना अचल गुरुनी विह
				419	निजी	कृषि	0.0111	राममूरत पुत्र राजपती व श्रीमती यशोदा देवी बेवा पत्नी राजपती नि0ग्राम
				420	निजी	कृषि	0.0447	कैलासी पत्नी लल्लनप्रसाद नि0ग्राम व लल्लनप्रसाद पुत्र रामदुलारे नि0ग्राम
				435	निजी	कृषि	0.0130	रामस्वारथ, ठाकुरप्रसाद पुत्रगण राममनोरथ व रामस्वरूप, देवीदास पुत्रगण रामअधार व कृष्ण कमल तिवारी पुत्र भगौतीप्रसाद नि0ग्राम
				434	निजी	कृषि	0.0380	रामस्वारथ, ठाकुरप्रसाद पुत्रगण राममनोरथ व रामस्वरूप, देवीदास पुत्रगण रामअधार व कृष्ण कमल तिवारी पुत्र भगौतीप्रसाद नि0ग्राम
				436	सरकारी	सड़क	0.0130	उत्तर प्रदेश सरकार
				437	सरकारी	खलिहान	0.0367	उत्तर प्रदेश सरकार
				439	सरकारी	सड़क	0.0130	उत्तर प्रदेश सरकार
				438	सरकारी	आबादी	0.0250	उत्तर प्रदेश सरकार
				440	निजी	कृषि	0.0567	कृपाशंकर पुत्र धर्मराज व जगदीश प्रसाद, रमेश्वर प्रसाद, गयाप्रसाद पुत्रगण विक्रमादित्य व प्रेमशंकर, देवशंकर, विजयशंकर पुत्रगण गंगाप्रसाद व अमरनाथ, श्रीभगवान, छोटेलाल पुत्रगण द्वारिका प्रसाद व कुसुमदेवी पत्नी सुरेशचन्द्र नि0ग्राम व शिवम पुत्र हरिकुमार गर्ग व अमरनाथ पुत्र द्वारिका नि0खैराबाद
				योग			4.0040	
		(4)	नरायनपुर	472	सरकारी	चकमार्ग	0.0056	उत्तर प्रदेश सरकार
				473	निजी	कृषि	0.0196	रामस्वरूप देवीप्रसाद पुत्रगण रामअधार गयाप्रसाद रामरुद्र पुत्रगण रामश्रृंगार श्रीमती अशर्फी देवी पत्नी रामश्रृंगार श्रीमती हेमा सिंह पत्नी वृजेन्द्र कुमार सिंह श्रीमती सरोज सिंह पत्नी अनिल कुमार सिंह एडवोकेट श्रीमती मधू सिंह पत्नी पंकज कुमार सिंह श्रीमती आशापाण्डेय पत्नी वासुदेव पाण्डेय श्रीमती श्यामादेवी पत्नी दयाशंकर मिश्र प्रेमकुमार पाण्डेय पुत्र रामजग पाण्डेय श्रीमती सरला पत्नी सच्चिदानन्द उपाध्याय

							नि०ग्राम
			474	निजी	कृषि	0.0090	रामस्वारथ व ठाकुर प्रसाद पुत्रगण राममनोरथ नि० पयागीपुर
			470	निजी	कृषि	0.0177	सतीश कुमार अग्रवाल पुत्र बुन्नुलाल अग्रवाल श्रीमती प्रियम्बदा पत्नी सुभाष चन्द्र नि०सुल्तानपुर व श्रीमती चन्द्रावती सोनी पत्नी छोटेलाल श्रीमती सुनीता सोनी पत्नी मोतीलाल श्रीमती प्रियम्बदा पत्नी सुभाषचन्द्र नि०लखनऊ
			492	निजी	कृषि	0.0016	शिवप्रसाद पुत्र रघुनन्दन नि०पयागीपुर श्रीमती स्नेहलता पान्डेय पत्नी डा० रवीन्द्रपान्डेय नि०सरैया पर०बरोसा
			493	निजी	कृषि	0.0046	जयबक्श पुत्र सुकई नि०पटना
			494	निजी	कृषि	0.0064	रामनायक पुत्र राधेश्याम नि०पयागीपुर
			495	निजी	कृषि	0.0033	श्रीमती दीपशिखा पत्नी शशिनाथ मिश्र नि०ग्राम
			496	निजी	कृषि	0.0048	प्रेमकिशोर पुत्र रामअधार नि०ग्राम
			497	निजी	कृषि	0.0042	शिवकुमार पुत्र रामअभिलाख नि०लोहरामऊ
			498	निजी	कृषि	0.0083	रामउजागिर पुत्र राधेश्याम नि०पयागीपुर व श्रीमती गंगाजली पत्नी हीरालाल नि०बेनीपुर पर०चाँदा
			499	निजी	कृषि	0.0073	रामनायक पुत्र राधेश्याम नि०पयागीपुर
			500	निजी	कृषि	0.0198	कपिलमुनि पुत्र त्रिलोकी नाथ नि०ग्राम
			501	निजी	कृषि	0.0277	रामप्रकाश मदन पुत्रगण टीडी सीता पत्नी स्व० टीडी सन्तोषकुमार विश्वकर्मा विनोदकुमार विश्वकर्मा पुत्रगण राजाराम विश्वकर्मा नि०ग्राम व श्रीमती शिवमती पत्नी कल्पनाथ तिवारी नि०नरायनपुर
			505	निजी	कृषि	0.0241	दीपनारायण पुत्र अछैवर हृदय शंकर तिवारी दयाशंकर तिवारी पुत्रगण कल्पनाथ संजीव कुमार सिंह राजीव कुमार सिंह हरिशंकर सिंह पुत्रगण रूपनारायण सिंह संजय कुमार सिंह राजेश्वर सिंह पुत्रगण सुरेन्द्रप्रताप सिंह कमला सिंह पत्नी रूपनारायण सिंह श्रीमती बीना सिंह पत्नी विजय कुमार सिंह नि०ग्राम व हृदय शंकर तिवारी दयाशंकर तिवारी पुत्रगण कल्पनाथ संजय कुमार सिंह राजेश्वर सिंह पुत्रगण सुरेन्द्रप्रताप सिंह श्रीमती विन्दू सिंह पत्नी विक्रमनारायण सिंह श्रीमती शोभारानी चतुर्वेदी पत्नी अमरबहादुर चतुर्वेदी नि०ग्राम
			507	निजी	कृषि	0.0591	नीरजकुमार, अनिलकुमार, रश्मिकुमार पुत्रगण जगदीशलाल व श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी स्व० जगदीशलाल नि०ग्राम
			509	निजी	कृषि	0.0250	जगदीश नारायण सिंह, गिरीश नारायण सिंह पुत्रगण अवधनारायण सिंह व उपेन्द्र, विक्रम सिंह, सुरेन्द्र नारायण सिंह पुत्रगण श्याम नारायण सिंह व राधिकादेवी पत्नी स्व० श्याम नारायण सिंह व बृजेशनारायण सिंह, कमलेशनारायण, दिनेशनारायण पुत्रगण महेश नारायण सिंह व सतीश नारायण सिंह, अजीत नारायण सिंह, विजय नारायण सिंह पुत्रगण प्रकाश नारायण सिंह व श्रीमती उर्मिलादेवी पत्नी स्व० प्रकाश नारायण सिंह व स्वर्ण बहादुर सिंह, स्वर्णकुमार सिंह, स्वर्णप्रताप सिंह पुत्रगण सुरेश नारायण सिंह व विमलादेवी पत्नी स्व० सुरेश नारायण सिंह व चन्दन सिंह ना० आयु 12 वर्ष पुत्र उदयनारायण सिंह सं० सुशीलादेवी व सुशीलादेवी पत्नी स्व० उदयनारायण सिंह नि०ग्राम
			510	सरकारी	सड़कें	0.0107	उत्तर प्रदेश शासन
			534	सरकारी	गैर कृषि	0.0353	उत्तर प्रदेश सरकार
			432	निजी	कृषि	0.0159	जितेन्द्र बहादुर सिंह हरिवंश नारायण सिंह पुत्रगण प्रसिद्धनारायण सिंह पवन कुमार सिंह नाबा० उम्र 15 वर्ष पुत्र हरीशननारायण सिंह सं० प्रमिला सिंह श्रीमती प्रमिला सिंह पत्नी स्व० हरीशननारायण सिंह शेषनारायण सिंह त्रियोगी नारायण सिंह पुत्रगण वीरेन्द्र नारायण सिंह लल्ली सिंह पत्नी वीरेन्द्र नारायण सिंह नि०ग्राम व विनोद कुमार सिंह पुत्र कन्हैयाबक्श सिंह श्रीमती रेखा सिंह पत्नी पवन कुमार सिंह नि०छापर परगना चाँदा
			535	सरकारी	चकमार्ग	0.0037	उत्तर प्रदेश सरकार
			539	निजी	कृषि	0.0211	प्रीतमसिंह पुत्र सरदार लाम सिंह नि०खैराबाद सुल्तानपुर
			540	सरकारी	नलकूप	0.0198	नलकूप विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
			541	निजी	कृषि	0.0231	आद्याशंकर पुत्र रामानुज नि०भटौता तुलसीपट्टी परगना अल्देमऊ तह०कादीपुर
			543	सरकारी	नलकूप	0.0159	उत्तर प्रदेश सरकार
			542	सरकारी	नलकूप	0.3089	उत्तर प्रदेश सरकार
			544	सरकारी	नलकूप	0.2076	उत्तर प्रदेश सरकार
			545	सरकारी	नलकूप	0.0440	उत्तर प्रदेश सरकार
			546	सरकारी	नलकूप	0.0090	उत्तर प्रदेश सरकार



			552	सरकारी	बंजर	0.0203	उत्तर प्रदेश शासन
			561	निजी	कृषि	0.2068	बलराम पुत्र रामसुख नि0ग्राम व सन्दीप कुमार सिंह प्रदीप कुमार पुत्रगण प्रेमचन्द्र सिंह श्रीमती कमलेश पत्नी बजरंगबहादुर सिंह रन्जीतसिंह अजयसिंह बा0 विजयसिंह नाबा0 आयु 17 वर्ष विक्रान्त सिंह नाबा0 आयु 16 वर्ष पुत्रगण बजरंग बहादुर सं0 कमलेश श्रीमती मधुसिंह पत्नी प्रेमचन्द्र सिंह सुभाषचन्द्र सिंह बालचन्द्र विश्वासचन्द्र रामचन्द्र पुत्रगण शमशेर बहादुर सिंह नि0ग्राम व सुरेन्द्रबहादुर इन्द्रबहादुरसिंह राजेन्द्रबहादुर सिंह पुत्रगण महीपनरायनसिंह विशुन नरायनसिंह पुत्र विजयबहादुर सिंह नि0ग्राम
			567	निजी	कृषि	0.0539	राधेश्याम यादव पुत्र बंदीप्रसाद यादव नि0कुंवरशाहपुर पटटी पर0 मीरानपुर तह0 लम्मुआ
			568	निजी	कृषि	0.0497	राजाराम पुत्र रामअधर व रामधनी, रामदयाल पुत्रगण महाराजदीन व वृजगोपाल पुत्र जगरूप व रामगोपाल पुत्र बल्लू व श्रीमती दर्शनदेवी पत्नी रामदयाल व अमरबहादुर पुत्र रामगोपाल व शिवमूर्ति पुत्र रामधनी व श्रीमती राजपति पुत्री अभिलासी उर्फ अभिलाखी पत्नी रामकृपाल व समरजीतसिंह पुत्र रामचरण सिंह व विजयपाल मिश्र पुत्र हौसिलाप्रसाद मिश्र नि0ग्राम
			569	निजी	कृषि	0.0424	नरेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र ब्रह्मकुमार श्रीवास्तव नि0खैराबाद व श्रीमती राकेशकुमारी पाण्डेय पत्नी चन्द्रमणि पाण्डेय नि0मानिकपुर मीरापुर
			570	निजी	कृषि	0.0793	नरेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र ब्रह्मकुमार श्रीवास्तव नि0खैराबाद शिवशंकर पुत्र इनुमानप्रसाद नि0हडौरावाजार पर0वरीसा व रघुवीर यादव पुत्र गंगाराम यादव नि0करोदिया व श्रीमती सुधादेवी पत्नी शिवमूर्ति नि0ग्राम
			571	सरकारी	खाद गड्ढा	0.0202	उत्तर प्रदेश सरकार
			572	निजी	कृषि	0.0507	सत्यवीर यादव पुत्र जयगोपाल यादव व जयगोपाल पुत्र जगरूप नि0ग्राम
			योग			1.4864	
		(5) सावरमऊ	601	निजी	कृषि	0.0160	रुद्रनरायन पुत्र जयनरायन नि0ग्राम
			602	सरकारी	रास्ता	0.0130	उत्तर प्रदेश सरकार
			600	निजी	कृषि	0.0024	गंगाराम, गंगाधर, श्यामसुन्दर पुत्रगण रामदेव नि0ग्राम
			598	निजी	कृषि	0.0116	कृष्णमोहन, नन्दमोहन, श्याममोहन पुत्रगण बृजवासीलाल नि0 नारायनपुर
			604	सरकारी	रास्ता	0.0427	उत्तर प्रदेश सरकार
			606	निजी	कृषि	0.0123	रामधनी पुत्र रामसहाय नि0ग्राम
			605	निजी	कृषि	0.0130	रामधनी पुत्र रामसहाय नि0ग्राम
			607	निजी	कृषि	0.0333	रामधनी पुत्र रामसहाय नि0ग्राम
			608	सरकारी	रास्ता	0.0310	उत्तर प्रदेश सरकार
			609	निजी	कृषि	0.0195	श्रीमती इसराजी पत्नी रामकलप सिंह नि0नारायणपुर
			610	सरकारी	चकमार्ग	0.0037	उत्तर प्रदेश सरकार
			644	निजी	कृषि	0.0492	श्रीमती इसराजी पत्नी रामकलप सिंह नि0नारायणपुर
			649 मि.	निजी	कृषि	0.1026	डा0 सुधाकर सिंह पुत्र स्व0 लालधारी सिंह नि0 1709 पंजाबी कॉलोनी खैराबाद सुलतानपुर
			649 मि.	निजी	कृषि		डा0 सुधाकर सिंह पुत्र स्व0 लालधारी सिंह नि0 1709 पंजाबी कॉलोनी खैराबाद सुलतानपुर
			649 मि.	निजी	कृषि		सालिकराम गुप्ता पुत्र जगन्नाथ गुप्ता व श्रीमती गुजराती पत्नी श्रीपाल यादव व श्रीमती कमलादेवी पत्नी अच्छेलाल व अच्छेलाल, जीतलाल पुत्रगण बच्चूलाल व विजयनरायन पुत्र श्यामनरायन व देवनरायन, विजय बहादुर, रामबहादुर पुत्रगण रामबली नि0ग्राम
			651/737	सरकारी	नाली	0.0040	उत्तर प्रदेश सरकार
			647/741	सरकारी	गैर कृषि	0.1270	उत्तर प्रदेश सरकार
			651	सरकारी	चकरोड	0.0420	उत्तर प्रदेश सरकार
			652	सरकारी	रास्ता	0.1465	उत्तर प्रदेश सरकार
			654	निजी	कृषि	0.0510	श्रीमती राजमनी देवी पत्नी रामआधार सिंह व लक्ष्मीनरायन पुत्र रामगोपाल व शिवप्रताप सिंह, चन्द्रप्रताप सिंह, इन्द्रप्रताप सिंह पुत्रगण रामआधारसिंह नि0नबीपुर
			655	निजी	कृषि	0.1178	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र अम्बिका प्रसाद व श्यामलाल पुत्र जगदम्बा प्रसाद व कन्हैया पुत्र त्रियुगी व भवानी बक्स पुत्र शिवराज व श्रीमती सिंगारी पत्नी रबीन्द्रप्रताप त्रिपाठी नि0निरालानगर व रामकुमार शुक्ला पुत्र रामअकबाल शुक्ला नि0बौरहा व विमल कुमार पाल पुत्र शिवप्रसाद पाल नि0गंकेहटी
			662	निजी	कृषि	0.0167	मीरादेवी जायसवाल पत्नी मुन्नालाल जायसवाल व श्रीमती प्रतिभा जायसवाल पत्नी किशोरीलाल जायसवाल नि0 सिविललाइन मुतालका छावनीसदर

			656	निजी	कृषि	0.0510	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र अम्बिका प्रसाद व श्यामलाल पुत्र जगदम्बा प्रसाद व कन्हैया पुत्र त्रियुगी व भवानी बक्स पुत्र शिवराज व श्रीमती सिंगारी पत्नी रबीन्द्रप्रताप त्रिपाठी नि०निरालानगर व रामकुमार शुक्ला पुत्र रामअकबाल शुक्ला नि०बौरहा व विमल कुमार पाल पुत्र शिवप्रसाद पाल नि०गंकेहटी
			657	निजी	कृषि	0.0510	मीरादेवी जायसवाल पत्नी मुन्नालाल जायसवाल व श्रीमती प्रतिभा जायसवाल पत्नी किशोरीलाल जायसवाल नि० सिविललाइन मुतालका छावनीसदर प्रेमशंकर देवशंकर विजय शंकर पुत्रगण गया प्रसाद श्री भगवान व छोटेलाल पुत्रगण द्वारिका प्रसाद कुमुम देवी पुत्री अमरनाथ नि. पयागीपुर
			658	निजी	कृषि	0.0964	वीरेन्द्र कुमार पिता रामलाल उर्फ लालता प्रसाद नि. घासीपुर, भारत प्रसाद द्विवेदी पिता भवानीबक्श नि. घासीपुर, शिवप्रसाद द्विवेदी पिता भवानीबक्श नि. घासीपुर, कमला देवी पति रामलाल उर्फ लालताप्रसाद नि. घासीपुर, महेन्द्र कुमार धीरेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल नि. ग्राम, सुरेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल नि. ग्राम, संध्यादेवी पति कन्हैयालाल नि. ग्राम, उमाशंकर पिता अंबिका प्रसाद नि. एकडला पर. चांदा तह. बदलापुर जि. जौनपुर, अर्चना सिंह पति सुरेश सिंह नि. सोनारी पर. आसल तह. अमैठी
			659	निजी	कृषि	0.1010	श्रीमती प्रतिभा जायसवाल पत्नी किशोरीलाल जायसवाल नि० सिविललाइन मुतालका छावनीसदर अरुण कुमार सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह नि. ग्राम प्रेमशंकर देवशंकर विजय शंकर पुत्रगण गया प्रसाद श्री भगवान व छोटेलाल पुत्रगण द्वारिका प्रसाद कुमुम देवी पुत्री अमरनाथ नि. पयागीपुर
			<b>योग</b>			<b>1.1547</b>	
		(6) घासीपुर	1	सरकारी	चकमार्ग	0.0253	उत्तर प्रदेश सरकार
			2	निजी	कृषि	0.0051	श्रीमती चन्द्रप्रभा सिंह पत्नी अजयकुमार सिंह नि०गरयं व सत्येन्द्रप्रतापसिंह पुत्र अवधेशनारायन सिंह नि० सरायकल्याण दारापुर व राजमनीदेवी बेवा पत्नी रामअधारसिंह नि० सकवा प.मीरानपुर तह. लम्भुआ
			7	निजी	कृषि	0.0010	लक्ष्मीनारायन, विधिनारायन, विजय नारायन पुत्रगण रामभरोस व सुधीर कुमार पुत्र सत्यदेव व सावित्री देवी पत्नी सत्यदेव नि०ग्राम
			<b>योग</b>			<b>0.0313</b>	
		(7) अलहदादपुर	224	निजी	कृषि	0.0607	विजयलक्ष्मी पत्नी शिवनायक व गायत्रीदेवी पत्नी रामसुख नि० खैराबाद
			222	सरकारी	नाला	0.0054	उत्तर प्रदेश सरकार
			221	निजी	कृषि	0.0496	बसन्त कुमार, उमाशंकर पुत्रगण रामअभिलाख व सन्तप्रसाद, जन्त्रीप्रसाद पुत्रगण रामनिरजन व सुमेरे, श्रीभगवान पुत्रगण सूर्यपाल व श्रीमती जयकली पत्नी रामनायक दूबे व श्रीमती गायत्री पत्नी कृपाशंकर दूबे व श्रीमती गीता पत्नी लालमणि दूबे व गौरीशंकर, इन्द्रकुमार, अखिलेश कुमार पुत्रगण यादराम नि०ग्राम व रोहित कुमार पुत्र विजयनारायन व सावित्री देवी पत्नी सत्यदेव व लता देवी पत्नी विधिनारायन व सगुनादेवी पत्नी विजयनारायन नि०घासीपुर व लता देवी पत्नी विधिनारायन व सतीस कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद व श्रीमती सुगनादेवी पत्नी विजयनारायन व लक्ष्मीनारायन, विधिनारायन, विजयनारायन पुत्रगण रामभरोस व श्रीमती सरोज सिंह पत्नी सतीशचन्द्र सिंह व सुधीर कुमार पुत्र सत्यदेव व सावित्री देवी पत्नी सत्यदेव नि० घासीपुर व लता देवी पत्नी विधिनारायन व सतीश कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद व सुधीर कुमार पुत्र सत्यदेव प्रसाद व श्रीमती सुगनादेवी पत्नी विजयनारायन नि०घासीपुर व श्रीमती लतादेवी पत्नी विधिनारायन व सावित्री देवी पत्नी सत्यदेव व सतीशकुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद व सुधीरकुमार पुत्र सत्यदेवप्रसाद व श्रीमती सुगनादेवी पत्नी विजयनारायन व श्रीमती सरोज सिंह पत्नी सतीशचन्द्र सिंह व श्रीमती पूनम चतुर्वेदी पत्नी धीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी नि ग्राम
			219	निजी	कृषि	0.1362	रामसुमिरन, रामनारायन पुत्रगण गोपीनाथ व प्रसिद्धनारायन पुत्र रामबलसर नि०घासीपुर
			218	निजी	कृषि	0.0586	सुरेन्द्रबहादुरसिंह, रायसहाबसिंह, हीरासाहबसिंह पुत्रगण दानबहादुरसिंह नि०शिवगढ व श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी विरेन्द्रसेनसिंह नि०भरखरे
			217	निजी	कृषि	0.0847	श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी विरेन्द्रसेनसिंह नि०भरखरे व हीरासाहबसिंह पुत्र दानबहादुरसिंह नि० शिवगढ

				193	निजी	कृषि	0.0583	रमेशचन्द्र, उमेश चन्द्र, सतीश चन्द्र पुत्रगण महेश नरायन व दिनेशचन्द्र मिश्र पुत्र जयप्रकाश नरायन मिश्र व जयप्रकाश, रतननरायन पुत्रगण शिवनरायन व कृष्णचन्द्र पुत्र प्रेमनरायन व श्रीमती सुमित्रादेवी पत्नी प्रेमनरायन नि०नरायनपुर
				192	निजी	कृषि	0.0792	राजकिशोर पुत्र देवनारायण दूबे नि० गोलाघाट व श्रीमती विद्या त्रिपाठी पत्नी डा० ओमप्रकाश त्रिपाठी नि०सिविल लाईन सीताकुण्ड मुतालका छावनी सदर सुल्तानपुर
				191	निजी	कृषि	0.0651	डा० शैलेन्द्र त्रिपाठी, शिवेन्द्र त्रिपाठी पुत्रगण डा० ओमप्रकाश त्रिपाठी व श्रीमती विद्या त्रिपाठी पत्नी डा० ओमप्रकाश त्रिपाठी नि० राजीवगांधी मार्ग सिविल लाईन -1 सीताकुण्ड मुतालका छावनी सदर
				190	निजी	कृषि	0.0054	रामकिशुन, राममूरत पुत्रगण रामदास नि०भगवानपुर
				188	निजी	कृषि	0.0800	श्रीमती ज्योति पत्नी विवेक पाण्डेय नि० कटकखानपुर व रेनू पाण्डेय पत्नी सन्तोष कुमार नि०भरथी पुर
				187	निजी	कृषि	0.0888	कुतराजी पुत्र रामअधर नि० उत्तरदशा व आलोक जायसवाल पुत्र घनश्याम कृष्ण नि०दरीयापुर
				186	निजी	कृषि	0.1061	रामकुबेर पुत्र कालू नि०बालीपुर
				185	निजी	कृषि	0.0037	रामअंजोर, रामकुबेर, रामदेव पुत्रगण कालू व रामऔतार, रामनयन पुत्रगण स्वामीनाथ व राजाराम, दशरथ पुत्रगण रामसुमेर व चन्द्रबली पुत्र रामदेव व भैयाराम, जयराम पुत्रगण रामलाल व सूरसती पत्नी रामलाल नि०बालीपुर पूनम देवी पत्नी जगदंबा प्रसाद तिवारी नि. फैजाबाद
				184	निजी	कृषि	0.0190	रामअंजोर, रामकुबेर, रामदेव पुत्रगण कालू व रामऔतार, रामनयन पुत्रगण स्वामीनाथ व राजाराम, दशरथ पुत्रगण रामसुमेर व चन्द्रबली पुत्र रामदेव व भैयाराम, जयराम पुत्रगण रामलाल व सूरसती पत्नी रामलाल नि०बालीपुर पूनम देवी पत्नी जगदंबा प्रसाद तिवारी नि. फैजाबाद
				182	निजी	कृषि	0.0185	रामअंजोर, रामकुबेर, रामदेव पुत्रगण कालू व रामऔतार, रामनयन पुत्रगण स्वामीनाथ व राजाराम, दशरथ पुत्रगण रामसुमेर व चन्द्रबली पुत्र रामदेव व भैयाराम, जयराम पुत्रगण रामलाल व सूरसती पत्नी रामलाल नि०बालीपुर पूनम देवी पत्नी जगदंबा प्रसाद तिवारी नि. फैजाबाद
				251	निजी	कृषि	0.0137	शैलेन्द्र पुत्र बेचू सिंह व चन्द्रमोहन सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रगण रुद्रप्रताप सिंह व द्वारिकाप्रसाद, माताप्रसाद, गयाप्रसाद पुत्रगण भगवानबक्स व रामअंजोर, रामकुबेर, रामदेव पुत्रगण कालू व भैयाराम, जयराम पुत्रगण रामलाल व श्रीमती सूरसती पत्नी रामलाल व रामऔतार, रामचन्द्र पुत्रगण स्वामीनाथ व रामनरायण पुत्र स्वामीनाथ ना०बा० अंजनी माता खुद राजाराम दशरथ पुत्रगण रामसुमेर चन्द्रबली पुत्र रामदेव नि० लोहारमऊ
				252	निजी	कृषि	0.0130	रामअंजोर, रामकुबेर, रामदेव पुत्रगण कालू व रामऔतार, रामनयन पुत्रगण स्वामीनाथ व राजाराम, दशरथ पुत्रगण रामसुमेर व चन्द्रबली पुत्र रामदेव व भैयाराम, जयराम पुत्रगण रामलाल व सूरसती पत्नी रामलाल नि०बालीपुर श्रीमति रामवती निषाद पत्नी राजेन्द्र कुमार निषाद नि. सुल्तानपुर
				226	निजी	कृषि	0.0835	श्री राम आर्य पुत्र बहरेची व श्रीमती सुमद्रा पत्नी श्रीराम आर्य नि०घासीपुर
				227	निजी	कृषि	0.0557	योगेन्द्रप्रताप, रवीन्द्रप्रताप पुत्रगण सुरेन्द्रप्रताप व श्रीमती गीता पत्नी संजयप्रताप व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी सुरेन्द्रप्रतापसिंह नि०लोहारमऊ
				228	निजी	कृषि	0.0413	गजानन्द पुत्र चन्द्रिका व सत्यनरायण पुत्र रामप्रसाद नि०ग्राम व गजानन्द पुत्र चन्द्रिका व शान्तीदेवी पत्नी स्व० रामखुशी व श्रीराम, रामआर्य पुत्रगण बहरेची आर्य व सुभद्रा आर्य पत्नी श्रीराम आर्य व आलोक कुमार आर्य, अशीष कुमार, आनन्दकुमार आय पुत्रगण श्रीराम आर्य नि०गोलाघाट व गंगासागर पुत्र रामसहोदर नि०घासीपुर
				229	सरकारी	बंजर	0.2350	उत्तर प्रदेश सरकार
				230	निजी	कृषि	0.2938	गयाप्रसाद, राजमणि पुत्रगण रामअधर नि०घासीपुर व भानुप्रकाश पुत्र लालताप्रसाद व गिरजाशंकर पुत्र जगन्नाथ व सुरेशकुमार, दिनेशकुमार, रमेशकुमार, गनेशकुमार, पुत्रगण गिरजाशंकर व गोरीशंकर, कृपाशंकर, जटाशंकर, मूलशंकर, जयशंकर पुत्रगण राममुरत नि०धर्मदासपुर व श्रीमती आशासिंह पत्नी बसन्तकुमार सिंह नि०विवेकानन्दनगर व श्रीमती प्रानपती पत्नी रामनाथ मौर्य व हरसुवरन पुत्र राधेश्याम नि०घासीपुर व श्रीमती ज्ञाना उपाध्याय पत्नी राधेश्याम

							उपाध्याय नि०लक्ष्मणपुर व राजमणि पत्नी रामअधर नि०घासीपुर व श्रीमती प्रानपती पत्नी रामनाथ नि०खैराबाद व सुरेशकुमार, दिनेशकुमार, रमेशकुमार, गनेशकुमार पुत्रगण गिरजाशंकर नि०धर्मदासपुर व श्रीमती आशासिंह पत्नी बसन्तकुमार सिंह नि०विवेकानन्दनगर व श्रीमती आशासिंह पत्नी बसन्तकुमार सिंह नि०विवेकानन्दनगर
			232	सरकारी	नवीन परती	0.0159	उत्तर प्रदेश सरकार
			233	निजी	कृषि	0.0610	रामदयाल शुक्ल पुत्र त्रिभुवनदत्त व उदयप्रताप सिंह, राणाप्रताप सिंह, धीरेन्द्रप्रताप सिंह, नेगेन्द्रप्रताप पुत्रगण पारसनाथ व वैभवसिंह बा० विशालसिंह ना०बा० 15 वर्ष पुत्रगण भानुप्रताप संरक्षिका श्रीमती आशा सिंह श्रीमती आशा सिंह पत्नी भानुप्रताप नि०सकवा परगना मीरानपुर तह०लम्बुआ
			237	सरकारी	चकमार्ग	0.0068	उत्तर प्रदेश सरकार
			241	निजी	कृषि	0.1106	सुरजमल पुत्र बदीप्रसद नि०चौक
			243	निजी	कृषि	0.0131	भैयाराम, जयराम पुत्रगण रामलाल व सुरसती पत्नी रामलाल नि०बालीपुर
			<b>योग</b>			<b>1.8627</b>	
		(8) बालीपुर	30	सरकारी	बंजर	0.0008	उत्तर प्रदेश सरकार
			32	सरकारी	रास्ता	0.0016	उत्तर प्रदेश सरकार
			<b>योग</b>			<b>0.0024</b>	
		(9) सूदापुर	167	सरकारी	बंजर	0.0206	उत्तर प्रदेश सरकार
			166	सरकारी	बंजर	0.0110	उत्तर प्रदेश सरकार
			159	सरकारी	सड़क	0.0016	उत्तर प्रदेश सरकार
			142	सरकारी	रास्ता	0.0020	उत्तर प्रदेश सरकार
			140	निजी	कृषि	0.0008	गयाबक्श सिंह पुत्र रामपाल सिंह नि०लोहरामऊ
			139	सरकारी	बंजर	0.0055	उत्तर प्रदेश सरकार
			136	सरकारी	बंजर	0.0054	उत्तर प्रदेश सरकार
			135	निजी	कृषि	0.0049	श्रीमती कान्ती देवी पत्नी शंकरजी सोनी नि०खैराबाद व श्रीमती शान्ती देवी पत्नी गोविन्द प्रसाद नि०सूखी अजरानसरीन पत्नी मो०उमर नि०घरहाकलां
			111	सरकारी	तालाब	0.0368	उत्तर प्रदेश सरकार
			110 क	सरकारी	बंजर	0.0238	जमुनाप्रसाद, राकेशलाल पुत्रगण त्रियुगीनरायन व ओमप्रकाश, विष्णुप्रकाश, केतकीप्रकाश पुत्रगण रूद्रप्रसाद नि० लोहरामऊ व श्रीमती राजपति पत्नी त्रिबेणी नि० हीरापुर बनवा व श्रीमती शिवपती पत्नी रमाकान्त नि० धरमदासपुर व राममूरति, रामतीरथ पुत्रगण भारतनाथ नि० पीताम्बरपुर कलां व सर्बात्तमकुमार, अतिउत्तमकुमार पुत्रगण उत्तमप्रकाश व श्रीमती सरला देवी पत्नी उत्तमप्रकाश व रामचन्द्र प्रेमचन्द्र हरिष्यन्द्र पुत्रगण बनवारी लाल नि० पखरौली व उदयभानु पुत्र बलराम व उदयराज पुत्र हरखू बरन व शिवकुमार पुत्र भवानीफेर नि० पीताम्बरपुर व राधेश्याम पुत्र महाराजदीन व श्रीमती गीतातिवारी पत्नी आलोक तिवारी व श्रीमती किरन पत्नी अनिलकुमार गुप्ता व श्रीमती राधा पत्नी अशोककुमार नि० धर्मदासपुर व शिवकुमार पुत्र रामसुमिरन लाल व श्रीमती मंजू श्रीवारत्तव पत्नी राकेशलाल श्रीवारत्तव नि०ग्राम
			110 ख	निजी	कृषि		श्रीमती किरन देवी पत्नी उमाशंकर बरनवाल नि० रुद्रनगर व शिवकुमार पुत्र भवानीफेर व राधेश्याम पुत्र महाराजदीन नि० पीताम्बरपुर व श्रीमती कमलादेवी पत्नी भरत कुमार व शिव सागर पुत्र रामआसरे नि० लोहरामऊ
			105	सरकारी	तालाब	0.0238	उत्तर प्रदेश शासन
			103 मि.	निजी	कृषि	0.0113	श्री कृष्णलाल, मंगली प्रसाद पुत्रगण भवानी सहायलाल व विजयप्रकाश पुत्र हरिमोहन व ओमप्रकाश, सत्यप्रकाश, ज्ञानप्रकाश पुत्रगण हरिशंकर लाल नि० लोहरामऊ
			103 मि.	निजी	कृषि		श्री कृष्णलाल, मंगली प्रसाद पुत्रगण भवानी सहायलाल व विजयप्रकाश पुत्र हरिमोहन व ओमप्रकाश, सत्यप्रकाश, ज्ञानप्रकाश पुत्रगण हरिशंकर लाल नि०लोहरामऊ व हरीराम पुत्र रामबहोर नि० भगवानपुर
			96	सरकारी	वन	0.0072	उत्तर प्रदेश सरकार
			95	निजी	कृषि	0.0141	भानुप्रताप, नगेन्द्र प्रताप पुत्रगण अमयराज सिंह व लल्लन सिंह पुत्र देवी प्रसादसिंह व तेजप्रताप सिंह, लालप्रताप सिंह, रामप्रतापसिंह पुत्रगण उदयराज सिंह व जगप्रतापसिंह जगदीशप्रतापसिंह पुत्रगण अमयराजसिंह नि०लोहरामऊ
			91	निजी	कृषि	0.0006	राजेश कुमार पुत्र रामपदारथ सिंह व रामनाथ पुत्र

							सन्तोषी नि0ग्राम
			90	निजी	कृषि	0.0012	खेलानव, करिया, रजई, ललई पुत्रगण कलहू नि0 लोहरामऊ
			88	सरकारी	चकमार्ग	0.0001	उत्तर प्रदेश सरकार
			87	निजी	कृषि	0.0007	रामकुमार पुत्र तुलसीराम नि0 भगवानपुर व शिवप्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, जगन्नाथर नरेन्द्र कुमार पुत्रगण रामफेर नि0 महानपुर
			86	निजी	कृषि	0.0007	शिवकुमार पुत्र रामअभिलाख नि0लोहरामऊ
			169	निजी	कृषि	0.0058	रघुवीर सरन, स्वामीसरन, श्यामबिहारी, बसन्तकुमार पुत्रगण गयाप्रसाद व लक्ष्मीकान्त, उमाकान्त, शिवाकान्त, कमलाकान्त पुत्रगण रमाकान्त व अभिषेक ना0बा0 9 वर्ष पुत्रगण श्रीकान्त संरक्षिका गीता माता व विजयकुमार पुत्र नारायण दत्त व राजदेवी पत्नी नारायण दत्त नि0 धरमदासपुर
			177	सरकारी	बंजर	0.0049	उत्तर प्रदेश सरकार
			182	सरकारी	नवीन परती	0.0014	उत्तर प्रदेश सरकार
			184	सरकारी	बंजर	0.0070	उत्तर प्रदेश सरकार
			185	निजी	कृषि	0.0060	सर्वोत्तमकुमार श्रीवास्तव पुत्र उत्तमपेकाश श्रीवास्तव नि0 लोहरामऊ व रघुवीरशरण पुत्र गयाप्रसाद व माधुरी तिवारी पत्नी रघुवीरशरण व ओमप्रकाश, विष्णुप्रकाश पुत्रगण रुद्रप्रसाद नि0 धरमदासपुर व सरला देवी बेवा पत्नी उत्तमप्रकाश श्रीवास्तव व अतिउत्तमकुमार श्रीवास्तव पुत्र उत्तमप्रकाश श्रीवास्तव नि0 लोहरामऊ व ओमप्रकाश, जयप्रकाश पुत्रगण शोभलाल व रामकल्प, रामशिरोमणि पुत्रगण रामबरन नि0 अलहदादपुर व सुरेशचन्द्र, सत्यदेव पुत्रगण बरसाती व जमुनाप्रसाद पुत्र शम्भूनाथ व शोभादेवी पत्नी बृजमोहनसिंह नि0 लोहरामऊ व उदयभान पुत्र रामकुमार व श्रीमती लखपती पत्नी रामकुमार नि0 अलहदादपुर व केतकीप्रसाद पुत्र रुद्रप्रसाद व श्रीमती गीता तिवारी पत्नी आलोककुमार तिवारी रामअछैबर मनोकानिका पुत्रगण माताप्रसाद सुरेश चन्द्र सत्यदेव अर्जुनकुमार पुत्रगण बरसाती नि0ग्राम
			186	सरकारी	आबादी	0.0359	उत्तर प्रदेश सरकार
			220	सरकारी	रास्ता	0.0440	उत्तर प्रदेश सरकार
			236	निजी	कृषि	0.0009	श्री कृष्णलाल, मंगली प्रसाद पुत्रगण भवानी सहायलाल व विजयप्रकाश पुत्र हरिमोहन व ओमप्रकाश, सत्यप्रकाश, ज्ञानप्रकाश पुत्रगण हरिशंकर लाल नि0लोहरामऊ
			237	सरकारी	सड़क	0.0003	उत्तर प्रदेश सरकार
			238	सरकारी	वन	0.0037	उत्तर प्रदेश सरकार
			239	सरकारी	वन	0.0029	उत्तर प्रदेश सरकार
			<b>योग</b>			<b>0.2849</b>	
		<b>(10)</b>	<b>404</b>	सरकारी	बंजर	0.0275	उत्तर प्रदेश सरकार
			405	सरकारी	नाली	0.0121	उत्तर प्रदेश सरकार
			402	सरकारी	नाली	0.0133	उत्तर प्रदेश सरकार
			427	सरकारी	बंजर	0.0063	उत्तर प्रदेश सरकार
			428	सरकारी	नवीन परती	0.0019	उत्तर प्रदेश सरकार
			429	सरकारी	चकमार्ग	0.0004	उत्तर प्रदेश सरकार
			484	निजी	कृषि	0.0026	सुनील कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रमाशंकर श्रीवास्तव नि0ओमनगर व श्रीमती केवलादेवी पत्नी विन्हादीन नि0मुजेश पर0वरौसा व श्रीमती जासोवती पत्नी बाबूलाल नि0दरियापुर व श्रीमती लालती देवी पत्नी रामस्वरूप नि0मिश्रपुर पुरेना
			485	निजी	कृषि	0.0052	उदयभान पुत्र रामकुमार व रामकल्प, रामशिरोमणि पुत्रगण रामबरन नि0सजैया मजरे अलहदादपुर
			486	निजी	कृषि	0.0075	राकेशकुमार, राजेशकुमार, रामसागर, शिवसागर, प्रेमसागर पुत्र रामआसरे व सुखलाल पुत्र रामसमुझ व श्रीमती शकीलावानो पत्नी मो0सदीक व अंकित पुत्र ओमप्रकाश व रामअभिलाख पुत्र तेजबहादूर व अविनाश नाबा0 17 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश संरक्षिका जसोदादेवी (दादी) नि0ग्राम
			487	निजी	कृषि	0.0077	महेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रगण अमरबहादूर सिंह व अजय सिंह, विजय सिंह, संजय सिंह पुत्रगण जसवन्त बहादूर व श्रीमती लीलावती देवी पत्नी जसवन्त बहादूर व श्रीमती शान्ती देवी पत्नी अमरबहादूर सिंह व समरबहादूरसिंह पुत्र राममूरत सिंह व रामअछैवर सिंह मनोकानिका पुत्र माताप्रसाद नि0ग्राम
			488	निजी	कृषि	0.0037	ब्रम्हानन्द, रामेन्द्र कुमार, शिवकुमार पुत्रगण रामअभिलाख व बजरंगबली, राजदेव, विष्णुदेव पुत्रगण सूर्यनारायण व श्रीमती अंगनादेवी पत्नी सूर्यनारायण व

							कृष्णकुमार, रमेशकुमार पुत्रगण रामदत्त व हरिश्चन्द्र, हरिकेस, श्रीकेस पुत्रगण हृदयनरायन व प्रेमनरायन पुत्र रामदुलार व अन्नतनरायन, महेशकुमार, कपिलदेव पुत्रगण अवधनरायन व सावित्रीदेवी पत्नी स्व० अवधनरायन नि०ग्राम
			489	निजी	कृषि	0.0041	भुलईराम गुप्ता पुत्र रामलाल गुप्ता व दिनेशकुमार साहू, अरुणेश साहू पुत्रगण भुलईराम गुप्ता व श्रीमती बीना गुप्ता पत्नी हरीशंकर गुप्ता व श्रीमती फूलवासी पत्नी रमेशचन्द्र सिंह नि०नरायनपुर
			492	निजी	कृषि	0.0070	चंचलादेवी पत्नी शारदा प्रसाद सिंह व अजयकुमार सिंह, संजयकुमार सिंह, चन्दन सिंह पुत्रगण शारदाप्रसाद सिंह व वासदेव पुत्र रजई नि०ग्राम
			493	निजी	कृषि	0.0021	रामआसरे, गंगाप्रसाद पुत्रगण कालू व मिश्रीलाल पुत्र दुखी व आशीष कुमार पुत्र कान्ती कुमार व पंकजकुमार पुत्र हरिहरप्रसाद नि०छावनी सदर व श्रीमती हेमवती पत्नी प्रभाकर लाल श्रीवास्तव नि०दरियापुर
			586	निजी	कृषि	0.0004	ओमप्रकाश सिंह पुत्र गंगाप्रसादसिंह व राजेन्द्र कुमार, शिवकुमार पुत्रगण रामअभिलाख नि०ग्राम व चंचला देवी पत्नी शारदा प्रसाद सिंह व अजयकुमार सिंह, संजयकुमार सिंह, कोमल सिंह, चन्दन सिंह पुत्रगण शारदाप्रसाद सिंह नि०ग्राम व समरबहादुर सिंह पुत्र राममूरत सिंह व अजय सिंह, विजय सिंह, संजय सिंह पुत्रगण जसवन्त बहादुर व श्रीमती लीलावती देवी पत्नी जसवन्त बहादुर व महेन्द्र सिंह पुत्र अमरबहादुर सिंह व श्रीमती शान्ती देवी पत्नी अमरबहादुर सिंह व उमेश सिंह पुत्र रामबहादुरसिंह व पूर्णमासी, फागूलाल, भईयाराम, हरिश्चन्द्र पुत्रगण रामसुमेर व शिवकुमार पुत्र रामअभिलाख नि०ग्राम व प्रवेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्यामसुन्दर पाण्डेय नि०अम्बरनाथ व सुनीलकुमार सिंह, सुशीलकुमार सिंह, राजकुमार सिंह पुत्रगण तालुकेंदार सिंह नि०ग्राम व विनोदकुमार सिंह पुत्र लालताप्रसाद सिंह नि० सोनबरसा तालुकेंदार मेमोरियल उ०मा०विद्यालय ग्राम लोहरामऊ द्वारा प्रबन्धक सुनील कुमार सिंह पुत्र तालुकेंदार सिंह नि०लोहरामऊ व संतोषीराम पुत्र कंधई व उदयराज पुत्र अमरजीत सिंह व भानुप्रताप सिंह, जगदीशप्रताप, नगेन्द्रप्रतापसिंह पुत्रगण अभयराज सिंह व लालप्रताप सिंह, रामप्रताप सिंह, तेजप्रताप सिंह, उदयराजसिंह, वृजकुमार सिंह पुत्र शिवप्रताप सिंह नि०ग्राम व श्रीनाथ, पारसनाथ पुत्रगण रामभरोष व विनोदकुमार, हरीशकुमार पुत्रगण शिवप्रसाद व श्रीमती भानमती पत्नी शिवप्रसाद नि०ग्राम
			586 क	सरकारी	बंजर		उत्तर प्रदेश सरकार
			584	सरकारी	बंजर	0.0035	उत्तर प्रदेश सरकार
			583	निजी	कृषि	0.0052	शिवराम, शिवगुलाम, काशीनाथ, राजेन्द्रकुमार उर्फ मुनीश पुत्रगण रघुराज नि०ग्राम
			582	निजी	कृषि	0.0118	भवानीफेर, रामआसरे पुत्रगण शिवदीन व श्रीमती कलावती देवी पत्नी रामलाल व रमाकान्त, तेजबहादुर, श्यामलाल, उमालाल पुत्रगण रामआनन्द नि०ग्राम
			625	निजी	कृषि	0.0347	रामाश्रय पुत्र महाराजदीन व श्रीमती केशकुमारी पत्नी श्यामबरन व प्रदीपकुमार पुत्र रामप्रसाद नि०ग्राम
			627	सरकारी	रास्ता	0.0022	उत्तर प्रदेश सरकार
			628 मि.	सरकारी	बंजर	0.0056	उत्तर प्रदेश सरकार
			629 क	निजी	कृषि	0.0058	सरजू बांके पुत्रगण नरायन व गोविन्द पुत्र रामलौट व श्रीमती शान्ती देवी पत्नी रामलौट व रामबली पुत्र नोहर व हरीराम, श्रीराम पुत्रगण माताफेर नि० ग्राम
			629 ख	निजी	कृषि		जगराम, जगदीश, गिरधारी, बिहारी पुत्रगण हैबत व छोटेलाल पुत्र प्रसाद नि० ग्राम
			646	निजी	कृषि	0.0032	कृष्णकुमार, रमेशकुमार पुत्रगण रामदत्त व बम्हानन्द, रामेन्द्रकुमार, शिवकुमार पुत्रगण रामअभिलाख नि०ग्राम
			647	सरकारी	खलिहान	0.0045	उत्तर प्रदेश सरकार
			648	निजी	कृषि	0.0863	अमृतलाल, शिवलाल पुत्रगण रामदीन नि०ग्राम व श्रीप्रकाश गुप्ता पुत्र हौसिला प्रसाद गुप्ता व प्रदीप कुमार पुत्र देवीप्रसाद नि० धर्मदासपुर व राजन सिंह पुत्र प्रेमकुमार व श्रीमती अमरावती पत्नी सालिकराम नि० मरुई विशुनदासपुर व रवीन्द्र प्रतापसिंह पुत्र शेर बहादुरसिंह व रामदेई पत्नी शेर बहादुरसिंह नि० ग्राम व वृजमोहनसिंह पुत्र शिवनेवाजसिंह नि० ग्राम व हाजीजमीरुद्दीन पुत्र हाजीनसीरुद्दीन नि० भुलकी व विशवमोहन अग्रवाल पुत्र श्री कृष्णमोहन अग्रवाल नि० शाहगंज व सज्जन सिंह, राजन सिंह, रमेश कुमार

							पुत्रगण प्रेमकुमार सिंह नि० मरुईकिशुन दासेपूर व सीताराम, रामलाल पुत्रगण छोटई व शैलेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णकुमार व श्रीमती देवी पत्नी इन्द्रपाल यादव नि० ग्राम
			714	निजी	कृषि	0.0267	सज्जनसिंह, राजनसिंह, रमेशकुमार पुत्रगण प्रेमकुमारसिंह नि०मरुई किशुनदासपुर
			715	निजी	कृषि	0.0626	पुटनी पुत्र बेचु व अमरनाथ, ललितकुमार, मन्जीत कुमार बा० परमजीत कुमार नाबा० 12 वर्ष पुत्रगण मेहीलाल संरक्षिका श्रीमती मेवाती देवी श्रीमती मेवाती देवी पत्नी मेहीलाल नि०ग्राम
			720	निजी	कृषि	0.0279	शिवलाल पुत्र रामदीन नि० ग्राम
			721	निजी	कृषि	0.0554	अमृतलाल पुत्र रामदीन नि०ग्राम
			722	निजी	कृषि	0.0350	दुर्गाप्रसाद मिश्र पुत्र रामकुबेर मिश्र व श्रीमती राजकुमारी पत्नी दुर्गाप्रसाद मिश्र नि०अरसिया बाजार तह०शाहगंज
			723	निजी	कृषि	0.0085	सीताराम पुत्र धनराज नि०अरसिया
			1211	निजी	कृषि	0.0014	लियाकत उल्ला पुत्र इनायत व मो०इन्द्रीश पुत्र अमानत नि०मिश्रपुर व अमीरुल निशां पत्नी आबादउल्ला नि०महानपुर
			1212	सरकारी	नवीन परती	0.1018	उत्तर प्रदेश शासन
			1218	निजी	कृषि	0.3010	अ०हईखां पुत्र गुलामहैदरखां नि०महानपुर
			1219	निजी	कृषि	0.1578	तुलैफअहमद, मो०खालिक पुत्रगण नजीरअहमद व सरीफननिशा पत्नी मो०नजीर नि०महानपुर
			1220	सरकारी	नाली टयूब बेल	0.0295	उत्तर प्रदेश सरकार
			1230	निजी	कृषि	0.0139	अख्तरुलनिशा पत्नी मो०सखीरखां नि०महानपुर
			1246	निजी	कृषि	0.1201	रामअभिलाख पुत्र रामनरेश नि०मिश्रपुर
			1247	निजी	कृषि	0.1270	रामसुख पुत्र रामनरेश नि०मिश्रपुर
			1248	सरकारी	चकमार्ग	0.0350	उत्तर प्रदेश सरकार
			1252	निजी	कृषि	0.0284	जगदीशप्रसाद, हृदयराम पुत्रगण उदयानन्द व श्यामसुन्दर पुत्र गयादीन व मातंगीदेवी पत्नी गोपालकृष्ण व दयाशंकर, उमाशंकर पुत्रगण महेश्वरी व श्रीमती अभिराजी पत्नी मथुराप्रसाद व विजयशंकर पुत्र महेश्वरी व राकेश मिश्र, विवेक मिश्र पुत्रगण हरीशंकर मिश्र व श्रीमती सावित्रीदेवी पत्नी हरीशंकर मिश्र व अवधेश मिश्रा पुत्र जयशंकर मिश्रा व श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी जयशंकर मिश्रा व श्रीमती सारिका मिश्रा पत्नी राघवेन्द्र मिश्रा नि०पखरीली
			1287	सरकारी	चकमार्ग	0.0031	उत्तर प्रदेश शासन
			1288 क	निजी	कृषि	0.0766	रामलुटावान, शारदाप्रसाद, सुरेशचन्द्र पुत्रगण बरसाती व श्रीमती सुनरादेवी पत्नी बरसाती नि० महानपुर
			1288 ख	निजी	कृषि		वहीद खां पुत्र मो० यासीन खां व राज बहादुर खां, मो० आरफ खां पुत्रगण तौफिक खां नि० महानपुर
			1289	निजी	कृषि	0.0169	रामकिशोर पुत्र गनपति नि०महानपुर
			1290	निजी	कृषि	0.0337	राममनोरथ पुत्र बैजनाथ व ओंकारनाथ, सुरेन्द्रकुमार, धमेन्द्र कुमार, पन्चनरायन पुत्रगण महाबीर व श्रीमती चन्द्रकला पत्नी महाबीर नि०पखरीली
			1291	निजी	कृषि	0.0368	इन्सानउल्लाखां पुत्र अमानउल्ला नि०महानपुर
			1292	निजी	कृषि	0.0693	इन्सानउल्लाखां पुत्र अमानउल्ला नि०महानपुर
			1293	सरकारी	नाली	0.0140	उत्तर प्रदेश सरकार
			1294	निजी	कृषि	0.0740	रामउजागिर, रमाशंकर, राजेन्द्रप्रसाद, रामचन्द्र पुत्रगण टीडी नि० महानपुर
			1295	निजी	कृषि	0.0590	रामउजागिर, रमाशंकर, राजेन्द्रप्रसाद, रामचन्द्र पुत्रगण टीडी नि० महानपुर
			1296	सरकारी	नाली	0.0270	उत्तर प्रदेश सरकार
			1297	निजी	कृषि	0.0459	रामकुमार दुबे पुत्र रामनेवाज दुबे व रामबरन पुत्र रामदयाल नि०महानपुर
			1298	निजी	कृषि	0.0279	रामउजागिर, रमाशंकर, राजेन्द्रप्रसाद, रामचन्द्र पुत्रगण टीडी नि० महानपुर
			1299	निजी	कृषि	0.0480	अ०कय्यूम खां, अ०वहददखां पुत्रगण अ०लतीफ खां व हसनैन, अहमद, इमरान, अहमद पुत्रगण अ०बहाव खां व इम्तियाजखां, इन्तखाब खां पुत्रगण अब्दुल हक खां व श्रीमती केशरीबेगम पत्नी अब्दुल हक खां नि०महानपुर
			<b>योग</b>			<b>1.9285</b>	
		(11) महानपुर	13	निजी	कृषि	0.0222	मोईन खां, मतीन खां, मोवीन खां, नवीन खां पुत्रगण लुकमान व श्रीमती हफीजुलनिशा वेवा लुकमान खां नि० ग्राम
			11	सरकारी	नाली	0.0017	उत्तर प्रदेश सरकार
			14	सरकारी	चकमार्ग	0.0380	उत्तर प्रदेश सरकार
			10	निजी	कृषि	0.0065	अब्दुलहई पुत्र गुलाम हैदर नि० ग्राम

				9	निजी	कृषि	0.0093	तुफैलअहमद, अ0खालिक पुत्रगण मो0 नजीरखां
				8 मि.	निजी	कृषि	0.0201	मु0इकबाल, मु0जमाल, मु0मुबीन, मु0माबूद, मु0नसीम पुत्रगण मो0 मुस्तकीम व मु0मुस्तफा पत्नी मु0इलियास खां व अब्दुल बारिक, अब्दूल वारिस, अब्दूल वासिल पुत्रगण रऊफ व नूरजहाँ पत्नी रऊफ नि0 ग्राम
				8 मि.	निजी	कृषि		मु0 इकबाल खां, मु0 जमाल खां, मु0 मुबीन खां पुत्रगण मुस्तकिम खां नि0 ग्राम
				7	सरकारी	बंजर	0.0060	उत्तर प्रदेश सरकार
				30	निजी	कृषि	0.0101	अमीना पत्नी बुधू व सौकतअली, सखावतअली पुत्रगण हबीब खां व मो0मुख्तार खां पुत्र मो0 हबीब व एहसान, अतीकखां पुत्रगण मो0 रऊफखां व शकील, अहमदखां पुत्रगण नईमखां व इस्तियाकखां, असफाकखां पुत्रगण आबिद खां नि0 ग्राम
				31	निजी	कृषि	0.0068	सलामतउल्ला, कलीमउल्ल पुत्रगण नसीरखां व लियाकतउल्ला, इशरतउल्ला, सराफतउल्ला पुत्रगण रियासतउल्ला व हबीबुल निशा देबा पत्नी रियासत उल्ला नि0 ग्राम आबाद उल्ला पुत्र अहमद उल्ला
				32	निजी	कृषि	0.0060	मु0इकबाल, मु0जमाल, मु0मुबीन, मु0माबूद, मु0नसीम पुत्रगण मो0मुस्तकीम व मु0महमूदखां, मु0महबूबखां, मु0मुस्तफा, मु0अयूब, मु0हलीम पुत्रगण मु0इलियास खां व सदरुल बेगम पत्नी मु0 इलियास खां व अब्दूल बारिक, अब्दूल वारिस, अब्दूल वासिल पुत्रगण रऊफ व नूरजहाँ पत्नी रऊफ नि0 ग्राम
				33	निजी	कृषि	0.0021	मु0इकबाल, मु0जमाल, मु0मुबीन, मु0माबूद, मु0नसीम पुत्रगण मो0मुस्तकीम व मु0महमूदखां, मु0महबूबखां, मु0मुस्तफा, मु0अयूब, मु0हलीम पुत्रगण मु0इलियास खां व सदरुल बेगम पत्नी मु0 इलियास खां व अब्दूल बारिक, अब्दूल वारिस, अब्दूल वासिल पुत्रगण रऊफ व नूरजहाँ पत्नी रऊफ नि0 ग्राम
				34	सरकारी	तालाब	0.0161	उत्तर प्रदेश सरकार
				35	निजी	कृषि	0.0255	मो0हारुनखां, मो0फारूकखां, मो0शाहरुनखां, मो0असलमखां, मो0अख्तरखां, एकलाख अहमदखां पुत्रगण जलील अहमदखां व अ.हमीद पुत्र मियादीन व मो0जाकिरखां, मो0साकिरखां पुत्रगण इनायतउल्लाखां व मो0अमीन, मो0फरीद पुत्रगण पीर गुलाम व मो0जाहिर पुत्र शमीउल्ला व मो0तौइयबखां पुत्र ताहिरखां व रईसअहमद, अनीसअहमद, नफीसअहमद, अशीषअहमद पुत्रगण खलील अहमद व नजीरखां पुत्र उमरावखां व अब्दूलहई पुत्र गुलामहैदरखां व रईशखां पुत्र याकूबखां व मुसीरखां, शमीरखां पुत्रगण निसारखां व अमीरखां ना0बा0 आयु 15 वर्ष पुत्र निसारखां व मन्सूरखां, मन्जूरखां, मकसूदखां पुत्रगण कल्लूखां व अब्दूलरऊफखां पुत्र अजीजखां व मो0इकबालखां, मो0जमालखां, मो0मुबीनखां, मो0माबूद, मो0नसीमखां पुत्रगण मो0मुस्तकीमखां व मो0महमूदखां, मो0महबूब, मो0मुस्तफाखां, मो0अयूबखां, मो0हलीमखां पुत्रगण मो0इलियासखां व सदरुल बेगम पत्नी मो0इलियासखां व सलामतउल्लाखां पुत्र नसीरखां व आबादउल्लाखां पुत्र अहमदउल्लाखां व कलीमउल्लाखां पुत्र नसीरखां व लियाकतउल्ला, इशरतउल्ला, सराफतउल्ला पुत्रगण रियासतउल्ला व हबीबुलनिशा पत्नी रियासतउल्ला व शौकतअलीखां, शखावतअलीखां, मो0मुक्तारखां पुत्रगण हबीबखां व एहतशामखां, अतीकखां पुत्रगण रऊफखां व शकीलखां पुत्र नईम खां व श्रीमती आमिना पुत्री बुद्धूखां व इस्तियाकखां, असफाकखां पुत्रगण आबिदखां व शकीलखां पुत्र मो0यूनुसखां व कमरुल निशा पत्नी मो0यूनुसखां व अमानउल्लाखां पुत्र रहमतउल्लाखां व इस्माइलखां पुत्र मो0शफीखां नि0ग्राम
				38	निजी	कृषि	0.0709	मो0हारुनखां, मो0फारूकखां, मो0शाहरुनखां, मो0असलमखां, मो0अख्तरखां, एकलाख अहमदखां पुत्रगण जलील अहमदखां व अ.हमीद पुत्र मियादीन व मो0जाकिरखां, मो0साकिरखां पुत्रगण इनायतउल्लाखां व मो0अमीन, मो0फरीद पुत्रगण पीर गुलाम व मो0जाहिर पुत्र शमीउल्ला व मो0तौइयबखां पुत्र ताहिरखां व रईसअहमद, अनीसअहमद, नफीसअहमद, अशीषअहमद पुत्रगण खलील अहमद व नजीरखां पुत्र उमरावखां व अब्दूलहई पुत्र गुलामहैदरखां व रईशखां पुत्र याकूबखां व मुसीरखां, शमीरखां पुत्रगण निसारखां व अमीरखां ना0बा0 आयु 15 वर्ष पुत्र निसारखां व मन्सूरखां, मन्जूरखां, मकसूदखां पुत्रगण कल्लूखां व अब्दूलरऊफखां पुत्र अजीजखां व मो0इकबालखां, मो0जमालखां, मो0मुबीनखां, मो0माबूद, मो0नसीमखां



							पुत्रगण मो0मुस्तकीमखां व मो0महमूदखां, मो0महबूब, मो0मुस्तफाखां, मो0अयूबखां, मो0हलीमखां पुत्रगण मो0इलियासखां व सदरुल बेगम पत्नी मो0इलियासखां व सलामतउल्लाखां पुत्र नसीरखां व आबादउल्लाखां पुत्र अहमदउल्लाखां व कलीमउल्लाखां पुत्र नसीरखां व लियाकतउल्ला, इसरतउल्ला, सराफतउल्ला पुत्रगण रियासतउल्ला व हबीबूलनिशा पत्नी रियासतउल्ला व शौकतअलीखां, शखावतअलीखां, मो0मुक्तारखां पुत्रगण हबीबखां व एहतशामखां, अतीकखां पुत्रगण रऊफखां व शकीलखां पुत्र नईम खां व श्रीमती आमिना पुत्री बुद्धूखां व इशितयाकखां, असफाकखां पुत्रगण आबिदखां व शकीलखां पुत्र मो0यूनुसखां व कमरुल निशा पत्नी मो0यूनुसखां व अमानउल्लाखां पुत्र रहमतउल्लाखां व इस्माइलखां पुत्र मो0शफीखां नि0ग्राम
			40	निजी	कृषि	0.0838	श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी वीरेन्द्रसेनसिंह नि0 भरखरे परगना चान्दा तह0 लम्बुआ
			41	निजी	कृषि	0.0604	मु0इकबाल, मु0जमाल, मु0मुबीन, मु0माबुद, मु0नसीम पुत्रगण मो0मुस्तकीम व मु0महमूदखां, मु0महबूबखां, मु0मुस्तफा, मु0अयूब, मु0हलीम पुत्रगण मु0इलियास खां व सदरुल बेगम पत्नी मु0 इलियास खां व अब्दूल बारिक, अब्दूल वारिस, अब्दूल वासिल पुत्रगण रऊफ व नुरजहाँ पत्नी रऊफ नि0 ग्राम
			42	निजी	कृषि	0.0132	मो0हारुनखां मो0फारुकखां मो0शाहरुनखां मो0असलमखां मो0अखतरखां एकलाख अहमदखां पुत्रगण जलील अहमदखां अब्दूल हमीदखां पुत्र मियादीनखां मो0जाहिरखां पुत्र समीउल्लाखां मो0तौइयबखां पुत्र ताहिरखां रईशअहमद अनीस अहमद नफीसअहमद अशीषअहमद पुत्रगण खलीलअहमदखां मो0नजीरखां पुत्र उमरावखां अब्दूलहई पुत्र गुलामहैदरखां मो0इकबालखां मो0जमालखां मो0मुबीनखां मो0माबुदखां मो0नसीमखां पुत्रगण मो0मुस्तकीमखां मु0महमूदखां मु0महबूबखां मो0मुस्तफाखां मो0अयूबखां मो0हलीमखां पुत्रगण मो0इलियासखां सदरुल बेगम पत्नी मो0इलियासखां मो0नजीरखां पुत्र उमरावखां मो0शकीलखां पुत्र मो0यूनुसखां कमरुलनिशा पत्नी मो0यूनुसखां अमानउल्ला पुत्र रहमतउल्ला मुहीबउल्ला इस्लामउल्ला पुत्रगण शरीफखां रईशखां पुत्र याकूबखां मुसीरखां पुत्र याकूबखां अमीरखां ना0बा0 15 वर्ष संरक्षिका मु0नसीरुलनिशा पत्नी निसारखां मन्जूरखां मकसूदखां पुत्रगण कल्लूखां शकीलअहमद पुत्र आबिदखां श्रीमती आमिता पत्नी बुद्धूखां शौकतअलीखां शखावतअलीखां मो0मुक्तारखां पुत्रगण हबीबखां सलामतउल्लाखां कलीमउल्लाखां पुत्रगण नसीरखां व लियाकतउल्ला इसरतउल्ला शराफतउल्ला पुत्रगण रियासतउल्ला हबीबूलनिशा पत्नी रियासतउल्ला अब्दूलहई पुत्र गुलामहैदरखां बब्बनखां पुत्र फरीदअहमद मो0अरमान पुत्र मकबूलखां मो0सलमान ना0बा0 उम्र 14 वर्ष पुत्र मकबूलखां संरक्षिका सरवरीबेगम बिट्टनबेगम पत्नी फरीदअहमद अब्दूलवारिक अब्दूलवारिस अब्दूलवासिल पुत्रगण रऊफ नुरजहाँ पत्नी रऊफ शमीरखा पुत्र निसारखां नि0ग्राम
			44	निजी	कृषि	0.0269	जमीरअहमद, सगीरअहमद, जहीरअहमद, समीरअहमद, अमीरअहमद पुत्रगण मो0बशीरखां व शफीकअहमद पुत्र शब्बीरखां व मारुफखा शमशादखां पुत्रगण रफीकअहमद व कुदूसखां ना0बा0 11 वर्ष पुत्र रफीकअहमद संरक्षिका नजमाबेगम माता व अखतरुलनिशा पत्नी शब्बीरखां व नुरजहाँ पत्नी बसीरखां नि0ग्राम
			49	सरकारी	नाली	0.0003	उत्तर प्रदेश सरकार
			50	निजी	कृषि	0.0026	श्रीमती रकीबुल निशा पत्नी रियाज अहमद नि0ग्राम
			51	निजी	कृषि	0.0064	जमीरअहमद, सगीरअहमद, जहीरअहमद, समीरअहमद, अमीरअहमद पुत्रगण मो0 बशीरखां व शफीकअहमद पुत्र शब्बीरखां व मारुफखां, शमशादखां पुत्रगण रफीकअहमद व कुदूसखां ना0बा0 11 वर्ष पुत्र रफीकअहमद संरक्षिका नजमाबेगम माता नूरजहाँ पत्नी मो0 वसीर व वहीदखां पुत्र यासीनखां व राजबहादुरखां, मो0आरिफखां पुत्रगण तौफिकखां व अखतरुलनिशा पत्नी शब्बीरखां नि0ग्राम
			52	निजी	कृषि	0.0068	वहीदखां पुत्र यासिनखां व राजबहादुर, मो0 आरिफखां पुत्रगण तौफिकखां नि0ग्राम
			53	सरकारी	रास्ता	0.0006	उत्तर प्रदेश सरकार

				54	निजी	कृषि	0.0082	वहीदखां पुत्र यासिनखां व राजबहादुर, मो0 आरिफखां पुत्रगण तौफिकखां नि0ग्राम
				147	निजी	कृषि	0.0017	रईद, अनीश, नफीश, अशीशअहमद पुत्रगण खलीलअहमद व मो0तौईयबखां पुत्र ताहिरखां व मो0जहीरखां पुत्र समीउल्ला व मो0जाकिरखां, मो0साकिरखां पुत्रगण इनायतउल्ला व बब्बनखां पुत्र फरीद अहमद व मो0 अरमान पुत्र मकबूलखां व सलमानखां ना0बा0 15 वर्ष पुत्र मकबूलखा संरक्षिका सरवरीबेगम माता बिट्टनबेगम पत्नी फरीदअहमद नि0ग्राम
				148	निजी	कृषि	0.0028	रईद, अनीश, नफीश, अशीशअहमद पुत्रगण खलीलअहमद व मो0तौईयबखां पुत्र ताहिरखां व मो0जहीरखां पुत्र समीउल्ला व मो0जाकिरखां, मो0साकिरखां पुत्रगण इनायतउल्ला व बब्बनखां पुत्र फरीद अहमद व मो0 अरमान पुत्र मकबूलखां व सलमानखां ना0बा0 15 वर्ष पुत्र मकबूलखा संरक्षिका सरवरीबेगम माता बिट्टनबेगम पत्नी फरीदअहमद नि0ग्राम
				149	निजी	कृषि	0.0029	अब्दुलहई पुत्र गुलामहैदर व तुफेलअहमद, अब्दुलखलील पुत्रगण मो0नजीर नि0ग्राम
				150	सरकारी	बंजर	0.0007	उत्तर प्रदेश सरकार
				180	निजी	कृषि	0.1150	बसन्तवरनवाल पुत्र कृष्णमोहन व छोटेलाल पुत्र त्रिवेणीप्रसाद नि0 दरियापुर व नवीनकुमार अग्रवाल, प्रवीन कुमार अग्रवाल पुत्रगण रामनिवास अग्रवाल नि0 मो0 शाहगंज छावनीसदर
				202	निजी	कृषि	0.0048	अब्दुल कयूम, अब्दुल वदूद खां, पुत्रगण अब्दुल लतीक खां इन्तियाज खान, इन्तजार खान पुत्रगण अब्दुल हक व कैशरी बेगम पत्नि स्व.अ.हक व याहियां खां पुत्र इब्राहीम खां व हसनैन अहमद, इमरान अहमद पुत्रगण अ0वहाब खां नि0 ग्राम
				203	सरकारी	खाद का गड्डा	0.0057	उत्तर प्रदेश सरकार
				204	निजी	कृषि	0.0130	रामवरन, राममूरत पुत्रगण रामदयाल नि0ग्राम व सुरेन्द्रकुमार, अरुण कुमार, अरविन्द कुमार पुत्रगण जोखूराम व अमरावती देवी पत्नी जोखूराम नि0ग्राम
				208	निजी	कृषि	0.0202	रामजस पुत्र श्रीराम व राम कुमार पुत्र रामनेवाज व वद्री प्रसाद पुत्र राम अजोर नि0ग्राम
				210	निजी	कृषि	0.2076	मो0हारूनखां मो0फारूकखां मो0शाहरूनखां मो0असलमखां मो0अख्तरखां एकलाखखां अहमदखां पुत्रगण जलील अहमदखां अब्दुल हमीद पुत्र मियांदीन मो0जाकिरखां मो0साकिरखां पुत्रगण इनायतउल्लाखां मो0अमीन मो0फरीद पुत्रगण पीर गुलाम मो0जाहिर पुत्र शमीउल्ला मो0तौईयबखां पुत्र ताहिरखां रईसअहमद अनीसअहमद नफीसअहमद अशीषअहमद पुत्रगण खलील अहमद नजीरखां पुत्र उमरावखां अब्दुलहई पुत्र गुलामहैदरखां रईशखां पुत्र याकूबखां मुसीरखां शमीरखां पुत्रगण निसारखां अमीरखां ना0बा0 आयु 15 वर्ष पुत्र निसारखां संरक्षिका नसीरुलनिशा पत्नी निसारखां मन्सुरखां मन्जूरखां मकसूदखां पुत्रगण कल्लूखां अब्दुलरऊफखां पुत्र अजीजखां मो0इकबालखां मो0जमालखां मो0मुवीनखां मो0माबूद मो0नसीमखां पुत्रगण मो0मुस्तकीमखां मो0महमूदखां मो0महबूब मो0मुस्तफाखां मो0अयूबखां मो0हलीमखां पुत्रगण मो0इलियासखां सदरूल बेगम पत्नी मो0इलियासखां सलामतउल्लाखां पुत्र नसीरखां आबादउल्लाखां पुत्र अहमदउल्लाखां कलीमउल्लाखां पुत्र नसीरखां लियाकतउल्ला इसरतउल्ला सराफतउल्ला पुत्रगण रियासतउल्ला हबीबूलनिशा पत्नी रियासतउल्ला शौकतअलीखां शखावतअलीखां मो0मुक्तारखां पुत्रगण हबीबखां एहतशामखां अतीकखां पुत्रगण रऊफखां शकीलखां पुत्र नईम खां श्रीमती आमिना पुत्री बुद्धूखां इशतियाकखां असफाकखां पुत्रगण आबिदखां शकीलखां पुत्र मो0यूनसखां कमरुल निशा पत्नी मो0यूनसखां अमानउल्लाखां पुत्र रहमतउल्लाखां इस्माइलखां पुत्र मो0शफीखां नि0ग्राम
				211	निजी	कृषि	0.1200	माताप्रसाद पुत्र चन्द्रपाल व महाराजदीन पुत्र दुर्गाप्रसाद व राजदेई पत्नी अवध बिहारी व पारसनाथ पुत्र रामकुमार व रामकिशोर पुत्र गणपति व कमलाकर पुत्र देवतादीन व श्रीमती कमलावती पत्नी देवतादीन नि0 पखरोली
				योग			0.9449	

		(12) हरिहरपुर	133 क	निजी	कृषि	0.0167	रामजग, रामसुमिरन पुत्रगण साधू व जगमोहन, अमरनाथ पुत्रगण गयादीन व साधुराम, छोटेलाल, रामकुमार पुत्रगण रामअधार नि0 पखरौली
			133 ख	सरकारी	सड़क		उत्तर प्रदेश सरकार
			134	निजी	कृषि	0.0069	अब्दुल हक, अब्दुल समद पुत्रगण मो0 हासिम व नियामुलहक, सिराजुलहक पुत्रगण रहमतउल्ला व मो0शमीम, मो0वसीम, मो0कलीम पुत्रगण मो0शफी व अब्दुल खालिक, जिहारूलहक पुत्रगण रहमतउल्ला नि0पखरौली
			161	सरकारी	नाली	0.0518	उत्तर प्रदेश सरकार
			176	निजी	कृषि	0.1700	भगू पुत्र शीतल नि0महानपुर
			175	निजी	कृषि	0.1650	रोघईराम पुत्र स्व0 अलगू निवासी ग्राम महानपुर
			174	निजी	कृषि	0.0400	श्रीमती कर्मा देवी पत्नी स्व0 फिरतू नि0महानपुर
			173	निजी	कृषि	0.0415	बहाऊ पुत्र जियावन व बाबूलाल, रामगरीब पुत्रगण द्वारिका नि0 महानपुर
			172	निजी	कृषि	0.0016	पतईराम, सतईराम, रामदत्त, अर्जुनकुमार पुत्रगण गुरुदीन नि0 मिश्रौली
			171	निजी	कृषि	0.2641	ओमप्रकाश, श्री भगवान स्व0 माताप्रसाद व श्रीमती चन्द्रावती पत्नि स्व0 माताप्रसाद नि0.गाम पखरौली
			170	सरकारी	चकमार्ग	0.0105	उत्तर प्रदेश सरकार
			177	निजी	कृषि	0.1566	पुन्नवासी पुत्र रामप्रसाद व पट्टीलाल पुत्र विन्ध्यादीन व श्रीमती मनजोका पत्नी स्व0 विन्ध्यादीन नि0 महानपुर
			178	सरकारी	चकमार्ग	0.0346	उत्तर प्रदेश सरकार
			181	निजी	कृषि	0.0118	श्रीमती वारिसुलनिशां पत्नी मंसूर खां नि0महानपुर
			182	निजी	कृषि	0.0670	राममिलन पुत्र रामदीन नि0 महानपुर व हृदयराम, सीताराम पुत्रगण रामसुन्दर नि0 पखरौली
			183	सरकारी	चकमार्ग	0.0129	उत्तर प्रदेश सरकार
			184	निजी	कृषि	0.0218	काशीराम, राममिलन पुत्रगण रामदीन नि0 महानपुर
			173	निजी	कृषि	0.0542	बहाऊ पुत्र जियावन व बाबूलाल, रामगरीब पुत्रगण द्वारिका नि0 महानपुर
			190	निजी	कृषि	0.3090	बुद्धिराम पुत्र ईन्दल नि0महानपुर
			191	निजी	कृषि	0.0509	श्रीमती कुरेशा पत्नी आशिक अली व श्रीमती फातमाखातून पत्नी मो. सलीम नि0 रामपुरहुनमानगंज व अरविन्द कुमार सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह नि0 सौराई
			192	निजी	कृषि	0.0008	श्रीमती कुलसुम पत्नी जलालुद्दीन नि0पखरौली
			193	निजी	कृषि	0.3394	श्रीमती महरूलनिशां पत्नी सिराजुद्दीन नि0महानपुर
			194	निजी	कृषि	0.0744	राममनोहर पुत्र बैजनाथ व ओंकारनाथ, सुरेशचन्द्र, धर्मेन्द्रकुमार, पंचनारायण पुत्रगण महावीर व श्रीमती चन्द्रकला पत्नी स्व0 महावीर नि0पखरौली
			195	सरकारी	चकमार्ग	0.0105	उत्तर प्रदेश सरकार
			201	निजी	कृषि	0.0387	रामजस पुत्र श्रीराम व रामकुमार पुत्र रामनेवाज व बद्रीनाथ पुत्र रामअंजोर व रामसिंगारी पत्नी रामअंजोर नि0 महानपुर
			योग			<b>1.9506</b>	
	(2) लम्मुआ	(1) शाहू पुर	55	निजी	कृषि	0.0005	केशराम, शम्भूनाथ पुत्रगण रामआसरे, सुरेशचन्द्र, राजेशकुमार, दिनेशकुमार पुत्रगण ठाकुरप्रसाद, श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी स्व0 ठाकुरप्रसाद नि0पखरौली
		योग				<b>0.0005</b>	
		(2) पुरैना	82 क	निजी	कृषि	0.0096	भगवानदीन पुत्र रामखेलावन नि0 मिश्रपुर
			82 ख	निजी	कृषि		रामनायक पुत्र राजनरायण व भगवानदीन पुत्र रामखेलावन नि0 मिश्रपुर
			84	निजी	कृषि	0.0108	रामनायक पुत्र राजनरायण व भगवानदीन पुत्र रामखेलावन नि0 मिश्रपुर
			85	निजी	कृषि	0.2910	दयाराम, रामजस, रामबली पुत्रगण भगौतीदीन नि0 ग्राम
			86	निजी	कृषि	0.0953	मिदूलाल, मोतीलाल पुत्रगण रामखेलावन नि0 ग्राम
			90	निजी	कृषि	0.0117	जगदीश प्रसाद, ज्ञानप्रकाश, रामकृष्ण, सत्यप्रकाश पुत्रगण शिवनन्दन नि0 ग्राम
			91	निजी	कृषि	0.1040	सालिकराम पुत्र राम अजोर व श्रीमती सूरसती पत्नि राम अजोर नि0 ग्राम
			361	सरकारी	रास्ता	0.0194	उत्तर प्रदेश सरकार
			362	सरकारी	बंजर	0.1454	उत्तर प्रदेश सरकार
			363 क	निजी	कृषि	0.0059	रामदौर पुत्र भूमिनरेश व शीतलाप्रसाद पुत्र रामनाथ व रामलखन पुत्र मनबोध व गिरजा शंकर, राहुलरोशन, राजेशकुमार पुत्रगण रामदौर नि0 ग्राम
			363	निजी	कृषि		रामलखन पुत्र मनबोध नि0 ग्राम
			365	सरकारी	बंजर	0.0017	उत्तर प्रदेश सरकार
			366	निजी	कृषि	0.0007	सुरेशकुमार, रामहित, दुर्गस कुमार पुत्रगण बहाऊ व संतमिला देवी पत्नी फागू नि0 ग्राम

				367	निजी	कृषि	0.0161	सुरेशकुमार, रामहित, दुर्गेश पुत्रगण बहाऊराम नि0 ग्राम
				368	निजी	कृषि	0.0278	हासिमअली चांद, अली वारिस अली पुत्रगण स्व0 इमताज नि0ग्राम
				369	निजी	कृषि	0.0398	पॉचू पुत्र करामत नि0 ग्राम
				370	निजी	कृषि	0.0530	पॉचू पुत्र करामत नि0 ग्राम
				371	निजी	कृषि	0.0700	इरशाद, अहमद, अलाउद्दीन पुत्रगण शब्बीर अली नि0 ग्राम शमशाद अली शहाबुद्दीन पिता अली हुसैन जैनबानों पत्नी अली हुसैन
				372	सरकारी	चकमार्ग	0.0170	उत्तर प्रदेश सरकार
				373	निजी	कृषि	0.1517	पत्नी पुत्र रामलखन नि0 ग्राम
				374	निजी	कृषि	0.3034	राकेश कुमार राजेश कुमार ना.बा. 15 व 8 वर्ष पिता राजकुमार उर्फ मंगरू संरक्षिका माता स्वयं प्रेमादेवी पत्नी राजकुमार
				376	सरकारी	नाली	0.0457	उत्तर प्रदेश सरकार
				377	निजी	कृषि	0.1694	रमाशंकर सुरेशचन्द्र रविप्रकाश पुत्रगण रामरूप, राजाराम रामकरन रामशब्द पुत्रगण रामपियारे, श्रीमती पत्नी रामपियारे नि0ग्राम
				378	निजी	कृषि	0.1543	रामनायक पुत्र राजनरायन नि0 मिश्रपुर
				379	निजी	कृषि	0.0539	रामदौर पुत्र भूमिनरेश नि0 ग्राम
				436	सरकारी	तालाब	0.5586	उत्तर प्रदेश शासन
				437	निजी	कृषि	0.0692	रामसबद पुत्र रामपियारे नि0 ग्राम
				438	निजी	कृषि	0.0284	रामशब्द पुत्र रामपियारे व गिरजाशंकर, राहुल, रोशन, राजेशकुमार पुत्रगण रामदौर नि0 ग्राम
				439	सरकारी	होली का स्थान	0.0033	उत्तर प्रदेश सरकार
				456	सरकारी	तालाब	0.0010	उत्तर प्रदेश शासन
				464	निजी	कृषि	0.0079	इरशाद, अहमद, अलाउद्दीन पुत्रगण शब्बीर अली नि0 ग्राम शमशाद अली शहाबुद्दीन पिता अली हुसैन जैनबानों पत्नी अली हुसैन
				463	निजी	कृषि	0.3336	रामअछेवर, रामपियारे, गयाप्रसाद पुत्रगण रामफेर नि0 ग्राम
				462	सरकारी	चारागाह	0.0675	उत्तर प्रदेश शासन
				461	निजी	कृषि	0.1436	शान्तिभूषण, लालजी पुत्रगण रामनरेश नि0 ग्राम
				460	निजी	कृषि	0.0674	जयप्रकाश पुत्र मोतीलाल नि0 ग्राम
				458	निजी	कृषि	0.0060	जगदीश प्रसाद पुत्र राधेश्याम नि0 मनकापुर परासिन
				457	निजी	कृषि	0.0060	केदारनाथ पुत्र श्रीराम नि0ग्राम
				455	निजी	कृषि	0.0046	जगपत्नी पुत्र रामनेवाज नि0 ग्राम
				470	सरकारी	तालाब	0.1147	उत्तर प्रदेश शासन
				474	निजी	कृषि	0.0201	मथुरा पुत्र मातादीन नि0 ग्राम
				475	सरकारी	नाली	0.0060	उत्तर प्रदेश शासन
				476	निजी	कृषि	0.0332	जगदीश प्रसाद पुत्र राधेश्याम नि0 मनकापुर परासिन
				477	निजी	कृषि	0.0690	राधेश्याम पुत्र माताभीख नि0 मनिकापुर परासिन
				478	निजी	कृषि	0.0007	जगदीशप्रसाद पुत्र राधेश्याम नि0 परासिन
				480	निजी	कृषि	0.1111	लालबहादुर, अमरबहादुर, फतेहबहादुर पुत्रगण रामसमुझ नि0 मनिकापुर परासिन
				489	निजी	कृषि	0.0193	राधेश्याम पुत्र रामगोपाल व शंकरलाल, शीतलाप्रसाद पुत्रगण रामसहाय व मथुराप्रसाद पुत्र मातादीन व कल्लूराम पुत्र काशीराम व रामनेवाज पुत्र रामनिरंजन व संतराम, शिवमूरत पुत्रगण रामअजोर व जेहरा पत्नी रामअजोर नि0 मनिकापुर परासिन
				490	सरकारी	चकमार्ग	0.0330	उत्तर प्रदेश सरकार
				491	निजी	कृषि	0.1067	छोटेलाल पुत्र बिहारी नि0 ग्राम
				492	निजी	कृषि	0.1185	नान्हूराम, दुखीराम पुत्रगण परगास नि0 ग्राम
				493	निजी	कृषि	0.0018	रामकृपाल पुत्र रामआधार नि0ग्राम
				494	निजी	कृषि	0.0040	रामगुलाम पुत्र रामबहारे नि0ग्राम
				495	निजी	कृषि	0.0040	रामपाल पुत्र रामबहारे नि0ग्राम
				496	निजी	कृषि	0.0040	रामकृपाल पुत्र रामआधार नि0ग्राम
				497	निजी	कृषि	0.0670	गयाप्रसाद, देवतादीन पुत्रगण मोती नि0 मनिकापुर परासिन
				498	निजी	कृषि	0.1547	गीतादेवी पत्नी श्यामकृष्ण नि0 विकवाजितपुर, बुद्धू पुत्र गंगा नि0 मनिकापुर परासिन
				499	निजी	कृषि	0.2296	गोविन्दप्रसाद पुत्र पैकरमा नाथ व जयभारत नाबा0 14 वर्ष व आजादभारत नाबा0 9 वर्ष पुत्रगण जयहिन्द संरक्षिका गुड्डन देवी माता व राजकली पत्नी स्व0 पैकरमा नाथ नि0 ग्राम
				500	निजी	कृषि	0.0459	श्रीराम हरिराम पिता दुखई
				501	निजी	कृषि	0.0038	जितेन्द्रकुमार, सत्येन्द्रकुमार पुत्रगण कमला प्रसाद नि0

							मनिकापुर परासिन
			512	सरकारी	चकमार्ग	0.0170	उत्तर प्रदेश सरकार
			519	निजी	कृषि	0.0482	गायत्री प्रसाद पुत्र रामदुलार व अमरेज कुमार, सुनीलकुमार नाबा0 उम्र 14 वर्ष, संजय कुमार पुत्रगण शिवप्रसाद संरक्षिका शारदा माता नि0 मनिकापुर परासिन
			520	निजी	कृषि	0.1220	हरिप्रसाद, कृष्णकुमार, सुरेन्द्रप्रताप, महेन्द्रप्रताप पुत्रगण देवतादीन व अवधेशकुमार नाबा0 15 वर्ष पुत्र देवतादीन संरक्षिका सुमेरादेवी व सुमेरादेवी पत्नी देवतादीन नि0 ग्राम
			521	निजी	कृषि	0.1260	परमादेवी पत्नी सूर्यलाल नि0 ग्राम
			522	निजी	कृषि	0.1630	भवानी प्रसाद पुत्र रामदुलार नि0 आनापुर नरायनगंज
			523	सरकारी	चकमार्ग	0.0201	उत्तर प्रदेश सरकार
			524	निजी	कृषि	0.0294	दशरथदेई पत्नी स्व0 कमलाप्रसाद व राजकली पत्नी स्व0 पैकरमानाथ नि0 मनिकापुर परासिन रामकुबेर पिता महावीर
			<b>योग</b>			<b>5.0809</b>	
		(3) मनकापुर परासिन	50	निजी	कृषि	0.0218	जितेन्द्रकुमार सत्येन्द्रकुमार पुत्रगण कमला प्रसाद, श्रीराम, हरिराम पुत्रगण दुखई नि0 ग्राम
			49	निजी	कृषि	0.0127	अमरेजकुमार पुत्र शिवप्रसाद, गायत्रीप्रसाद पुत्र रामदुलार, हरिप्रसाद कृष्णकुमार महेन्द्रप्रताप अवधेशकुमार पुत्रगण देवतादीन, प्रमादेवी पत्नि सूर्यपाल, विजयशंकर अजयशंकर पुत्रगण भवानीप्रसाद, संजयकुमार सुनीलकुमार पुत्रगण शिवप्रसाद, सुरेन्द्र प्रताप पुत्र देवतादीन नि0 ग्राम
			48	सरकारी	बंजर	0.0206	उत्तर प्रदेश सरकार
			47	निजी	कृषि	0.0250	रामखेलावन रामकुमार रामसनेही अमरनाथ पुत्रगण रामरूप नि0 ग्राम
			46	सरकारी	बंजर	0.0077	उत्तर प्रदेश सरकार
			45	निजी	कृषि	0.7013	रामशिरोमणि राजमणि शेषमणि पुत्रगण रामपुताप, श्रीमती भानमती पत्नि रामप्रताप नि0 ग्राम
			38	निजी	कृषि	0.4482	गोविन्दप्रसाद पुत्र पैकरमानाथ, जयभारत पुत्र जयहिन्द, आजाद भारत नाबा0 13 वर्ष पुत्र जयहिन्द संरक्षिका गुड्डन देवी माता, श्रीमती राजकली देवी पत्नी स्व0 पैकरमानाथ नि0 ग्राम
			39	निजी	कृषि	0.0048	रामकैलाश पुत्र रामदेव, रामफेर पुत्र नरायन नि0ग्राम
			111	सरकारी	नवीन परती	0.0270	उत्तर प्रदेश सरकार
			110	निजी	कृषि	0.1079	चन्द्रमोहन चन्द्रशेखर पुत्रगण रामजी, श्रीमती श्यामकली पत्नी स्व0 रामजी नि0ग्राम
			111/295	निजी	कृषि	0.0472	सुखदेव दत्तक पुत्रगण साधू नि0 ग्राम
			112	सरकारी	रास्ता	0.0351	उत्तर प्रदेश सरकार
			214	निजी	कृषि	0.0803	नोखेलाल बाबूलाल सियाराम पुत्रगण गयादीन नि0 ग्राम
			213	निजी	कृषि	0.0250	जंगबहादुर सिंह पुत्र रजपाल सिंह नि0 उतुरी
			212	निजी	कृषि	0.1830	चन्द्रमोहन चन्द्रशेखर पुत्रगण रामजी, श्रीमती श्यामकली पत्नी स्व0 रामजी नि0ग्राम
			211	निजी	कृषि	0.0125	रामसुख रामसुफल पुत्र इन्द्रपाल नि0 ग्राम
			210	निजी	कृषि	0.0120	रामशिरोमणि राजमणि शेषमणि पुत्रगण रामप्रताप, श्रीमती भानमती पत्नी स्व0 रामप्रताप, बूजलाल सजनलाल बरसाती पुत्रगण जगनरायन नि0 ग्राम
			209	निजी	कृषि	0.0075	बरसाती पुत्र जगनरायन नि0 ग्राम
			208	निजी	कृषि	0.0122	रामदुलार पुत्र ब्रहमादीन नि0 ग्राम
			207	सरकारी	बंजर	0.0947	उत्तर प्रदेश सरकार
			206	निजी	कृषि	0.2306	उदयराज पुत्र रामलवट नि0 ग्राम
			205	सरकारी	चकरोड	0.0191	उत्तर प्रदेश सरकार
			204	सरकारी	चकरोड	0.0235	उत्तर प्रदेश सरकार
			203 मि.	निजी	कृषि	0.1253	श्रीमती प्राणपती पत्नी छोटई नि0ग्राम
			203 मि.	निजी	कृषि		लालमती पुत्र रामराज नि0ग्राम
			203 मि.	निजी	कृषि		मु. जहरा पुत्र नन्हकू दयाधिकारिणी, मनीराम नन्हलाल पुत्रगण भरथू, शनि नाबा0 7 साल पुत्र मुखाली संरक्षिका श्रीमती कुसुमादेवी, श्रीमती कुसुमादेवी पत्नी स्व0 मुखाली, अनिल पुत्र मुन्नू, सुनील व गोलू नाबा आयु 13 व 8 पुत्रगण मुन्नू संरक्षिका श्रीमती चमेल देवी, श्रीमती चमेलदेवी पत्नी स्व0 मुन्नू नि0ग्राम
			202	सरकारी	नाली	0.0007	उत्तर प्रदेश सरकार
			201	निजी	कृषि	0.0560	जयप्रकाश रामप्रताप नन्हलाल विक्रमाप्रसाद पुत्रगण राजाराम नि0 ग्राम
			200	निजी	कृषि	0.0300	सूर्यभान पुत्र झगरू नि0 ग्राम
			199	निजी	कृषि	0.2238	सूर्यभान विजयप्रकाश पुत्रगण झगरू नि0ग्राम
			198	निजी	कृषि	0.1229	राजबहादुर अमर बहादुर पुत्रगण जोखू, मोहनलाल

							नाबा0 आयु 12 वर्ष पुत्र जोखू संरक्षिका अमरावती देवी माता, अमरावती पत्नी स्व0 जोखू नि0 ग्राम
			197	निजी	कृषि	0.0270	जगन्नाथ पुत्र अयोध्या नि0 ग्राम
			196	निजी	कृषि	0.0280	गंगाप्रसाद रामचन्द्र कृष्णदेव कृष्णचन्द्र पुत्रगण देवनरायन नि0 विकवाजितपुर
			195	निजी	कृषि	0.0213	रतीपाल झगरू पुत्रगण दत्ता नि0 विकवाजितपुर
			194	निजी	कृषि	0.0736	हृदयराम पुत्र जयकरन, रामतीरथ रामकुमार रामधीरज अजयकुमार पुत्रगण स्वामीनाथ, श्रीमती नौरगी देवी पत्नी स्व0 स्वामीनाथ नि0 विकवाजितपुर
			193	सरकारी	चकरोड	0.0300	उत्तर प्रदेश सरकार
			192	निजी	कृषि	0.0427	सूर्यभान विजयप्रकाश पुत्रगण झगरू नि0 ग्राम
			191	निजी	कृषि	0.0354	रामकुमार पुत्र खेलारी, सुकई मुन्नालाल राधेश्याम पुत्रगण दूधनाथ, सन्तोष नाबा0 आयु 8 वर्ष पुत्र राजेन्द्रप्रसाद संरक्षिका उर्मिला माता, श्रीमती राजपति पत्नी स्व0 रामनरेश नि0 विकवाजितपुर
			190	निजी	कृषि	0.0143	रामनेवाज पुत्र चमरू नि0 विकवाजितपुर
			189	निजी	कृषि	0.0100	जगदेव रामदेव पुत्रगण बट्टी नि0 विकवाजितपुर
			188	सरकारी	सड़क	0.0374	उत्तर प्रदेश शासन
			187	निजी	कृषि	0.2394	जयप्रकाश रामप्रताप नन्हेलाल विक्रमाप्रसाद पुत्रगण राजाराम नि0 ग्राम
			186	निजी	कृषि	0.0285	रामप्रसाद पुत्र रामसुमझ नि0 ग्राम
			<b>योग</b>			<b>3.3060</b>	
		(4) बिकवाजीतपुर	115	निजी	कृषि	0.0113	छोटई पुत्र सोमई, रामकुमार विजयकुमार पुत्रगण कन्धई, श्रीमती पन्नादेवी पत्नी स्व0 कन्धई नि0ग्राम
			114	निजी	कृषि	0.0116	तुलसीराम रमदुलार मखदूम अर्जुन पुत्रगण सुदू नि0 ग्राम
			113	निजी	कृषि	0.0396	केशराम श्यामलाल पुत्रगण मोतीलाल नि0ग्राम
			112	निजी	कृषि	0.0147	जयप्रकाश रामप्रताप नन्हेलाल विक्रमाप्रसाद पुत्रगण राजाराम नि0 ग्राम
			111	निजी	कृषि	0.0061	रतीपाल झगरू पुत्रगण दत्ता नि0 ग्राम
			110	सरकारी	नाला	0.0473	उत्तर प्रदेश सरकार
			109	सरकारी	सड़क	0.0190	उत्तर प्रदेश सरकार
			108	निजी	कृषि	0.2479	श्यामकुमार नन्दकुमार पुत्रगण बैजनाथ, अनिल कुमार पुत्र कौशल कुमार, श्रीमती रन्नो देवी पत्नी कौशल कुमार, राजेन्द्र कुमार वीरेन्द्र कुमार राजेश कुमार पुत्रगण केशरी कुमार, श्रीमती मालती देवी पत्नी केशरी कुमार नि0 ग्राम
			107	निजी	कृषि	0.3618	हृदयराम पुत्र जैकरन, रामतीरथ रामकुमार रामधीरज अजयकुमार पुत्रगण स्वामीनाथ, श्रीमती नौरगी देवी पत्नी स्वामीनाथ नि0ग्राम
			106	निजी	कृषि	0.0175	घनश्याम पुत्र रामकुबेर नि0 ग्राम
			105	निजी	कृषि	0.0208	सूरजलाल पुत्र भवानीभीख नि0 ग्राम
			104	निजी	कृषि	0.0189	राम प्रसाद पुत्र राम दास नि0 ग्राम
			103	निजी	कृषि	0.0569	श्याम कुमार लाल पुत्र बैजनाथ लाल नि0 ग्राम
			102	निजी	कृषि	0.1390	अखिलेशकुमार प्रदीपकुमार दिलीपकुमार कुलदीपकुमार दिनेशकुमार पुत्रगण रघुनन्दनलाल, सूर्यनरायनलाल पुत्र रामअधरलाल, गुरुदेव बहादुर पुत्र राजबहादुर, हरदयाल पुत्र हरिप्रसाद, देवेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार पुत्रगण दुर्गादयाल नि0 परऊपुर, हृदयराम पुत्र जयकरन नि0ग्राम, गुरुदयाल पुत्र बृजबहादुर नि0 परऊपुर
			101	सरकारी	आबादी	0.0250	उत्तर प्रदेश सरकार
			100	सरकारी	बंजर	0.0250	उत्तर प्रदेश सरकार
			99 क	निजी	कृषि	0.3526	हृदयराम पुत्र जैकरन, रामतीरथ रामकुमार रामधीरज अजयकुमार पुत्रगण स्वामीनाथ नि0 ग्राम
			99 ख	निजी	कृषि		रामअछेवर राधेश्याम घनश्याम पुत्रगण रामकुबेर नि0ग्राम
			98	सरकारी	चकमार्ग	0.0203	उत्तर प्रदेश सरकार
			91	निजी	कृषि	0.0922	अनिल कुमार पुत्र कौशल कुमार, श्रीमती रन्नो देवी पत्नी कौशल कुमार नि0 ग्राम
			89	सरकारी	नवीन परती	0.0227	उत्तर प्रदेश सरकार
			88	सरकारी	तालाब	0.0157	उत्तर प्रदेश सरकार
			87	सरकारी	बंजर	0.0048	उत्तर प्रदेश सरकार
			86	निजी	कृषि	0.0130	श्यामबिहारीलाल कुन्जबिहारीलाल छैलबिहारीलाल राजबिहारीलाल पुत्रगण रामनाथ, अमित अनूप आशीष पुत्रगण कृष्णबिहारीलाल नि0 ग्राम
			85	सरकारी	बंजर	0.0190	उत्तर प्रदेश सरकार
			84	निजी	कृषि	0.6512	श्यामबिहारीलाल कुन्जबिहारीलाल छैलबिहारीलाल राजबिहारीलाल पुत्रगण रामनाथ, अमित अनूप आशीष

				82	निजी	कृषि	0.1780	पुत्रगण कृष्णबिहारीलाल नि० ग्राम धर्मेनरायन अवधनरायन राजनरायन अशोक कुमार पुत्रगण श्यामकिशोर नि० ग्राम
				81	निजी	कृषि	0.1033	त्रिभुवन पुत्र सीताराम नि० ग्राम
				305	निजी	कृषि	0.1954	श्रीमती चन्द्रकली उर्फ चन्द्रावती पत्नी शिवबहादुर नि०ग्राम
				306	निजी	कृषि	0.2011	श्रीमती चन्द्रकली उर्फ चन्द्रावती पत्नी शिवबहादुर नि०ग्राम
				309	निजी	कृषि	0.0906	श्रीमती चन्द्रकली उर्फ चन्द्रावती पत्नी शिवबहादुर नि०ग्राम
				312	सरकारी	खलिहान	0.0069	उत्तर प्रदेश सरकार
				314	सरकारी	खलिहान	0.0010	उत्तर प्रदेश सरकार
				316	निजी	कृषि	0.0446	श्रीमती चन्द्रकली उर्फ चन्द्रावती पत्नी शिवबहादुर नि०ग्राम
				319	निजी	कृषि	1.2839	श्यामबिहारीलाल कुन्जबिहारीलाल छैलबिहारीलाल राजबिहारीलाल पुत्रगण रामनाथ, अमित अनूप आशीष पुत्रगण कृष्णबिहारीलाल नि० ग्राम
				320	निजी	कृषि	0.1691	राधेश्याम घनश्याम रामअछेबर पुत्रगण रामकुबेर, प्रदीपकुमार धर्मेन्द्र कुमार पुत्रगण रामदेव, रविकुमार पुत्र जगदेव प्रसाद, श्रीमती मनोरमा पत्नी राजनरायन, श्रीमती मीरा पत्नी अशोककुमार नि० विकवाजितपुर
				339	निजी	कृषि	0.0171	धर्मेनरायन अवधनरायन राजनरायन अशोक कुमार पुत्रगण श्यामकिशोर नि० ग्राम
				344	सरकारी	चकमार्ग	0.0292	उत्तर प्रदेश शासन
				355 स	निजी	कृषि	0.2617	जगदेवप्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद नि० ग्राम
				355 स	निजी	कृषि		जगदम्बाप्रसाद आत्माप्रसाद पुत्रगण बंशी, प्रदीप कुमार पुत्र विक्रमाजीत नि०ग्राम
				355 स	निजी	कृषि		जगदेव पुत्र शिवचरन, मिट्टूलाल निखिलाल पुत्रगण रामदीन नि०गोपालपुर, जुम्मन रफीक पुत्रगण मो० अली नि०ग्राम
				354	सरकारी	गैर कृषि	0.0005	बाबा भगवानदास आदर्श विद्यालय
				353	सरकारी	गैर कृषि	0.1049	बाबा भगवानदास आदर्श विद्यालय
				352	निजी	कृषि	0.5469	विनोद कुमार पुत्र भगोती प्रसाद नि० ग्राम
				351	निजी	कृषि	0.0130	फूलमानी पुत्र राम आसरे नि० ग्राम
				350	सरकारी	गैर कृषि	0.0538	बाबा भगवानदास आदर्श विद्यालय
				349	निजी	कृषि	0.1583	शोभनाथ पुत्र कालिकाप्रसाद, देवनाथ दिनेशनाथ पुत्रगण बैजनाथ, धर्मा पत्नी बैजनाथ, राजाराम सत्यराम पुत्रगण रामनरायन, रामराज कौलेश्वरनाथ विमलेश्वरनाथ सिद्धनाथ पुत्रगण पारसनाथ, कृष्णदेव बृजेशकुमार विनयकुमार पुत्रगण श्रीराम, श्रीमती जडावती देवी पत्नी श्रीराम, जितेन्द्रकुमार पुत्र कामतानाथ, अमितकुमार बा० शुभम नाबा० आयु 14 वर्ष पुत्रगण धर्मेन्द्रकुमार संरक्षिका श्रीमती मिथिलेश माता श्रीमती मिथिलेश पत्नी स्व०धर्मेन्द्रकुमार श्रीमती विमलादेवी पत्नी स्व०कामतानाथ नि०मुरारपुर
				348	निजी	कृषि	0.0376	बाबा भगवानदास आदर्श विद्यालय
				333	सरकारी	सड़क	0.0142	उत्तर प्रदेश सरकार
				योग			5.7647	
		(5)		82	निजी	कृषि	0.0575	कन्हई फेरई पुत्रगण झुनई नि०ग्राम
		गोपालपुर		83	निजी	कृषि	0.0155	जंजाली पुत्र लुरखुर नि०ग्राम
				87	निजी	कृषि	0.1626	रामजीत मोतीलाल हीरालाल भोलानाथ बांकेलाल पुत्रगण गजाधर नि०ग्राम
				88	निजी	कृषि	0.1079	ओमप्रकाश राजेश पुत्रगण आद्याप्रसाद नि०ग्राम
				90	निजी	कृषि	0.0011	रामप्रसाद रामसहाय पुत्रगण पयाग नि०ग्राम
				91	सरकारी	चकमार्ग	0.0480	उत्तर प्रदेश शासन
				92	निजी	कृषि	0.0730	श्रीकृष्ण पुत्र नवकू नि०ग्राम
				93	सरकारी	तालाब	0.0929	उत्तर प्रदेश सरकार
				94	निजी	कृषि	0.0798	फेरई पुत्र झुनई नि०ग्राम
				96	सरकारी	चकमार्ग	0.0870	उत्तर प्रदेश सरकार
				108	सरकारी	तालाब	0.4817	उत्तर प्रदेश सरकार
				109 मि.	सरकारी	तालाब	1.3174	उत्तर प्रदेश सरकार
				113	निजी	कृषि	0.0267	कमलाप्रसाद पुत्र माताप्रसाद नि० ईशीपुर
				114	सरकारी	चकमार्ग	0.0360	उत्तर प्रदेश शासन
				115	सरकारी	बंजर	0.0433	उत्तर प्रदेश शासन
				116	सरकारी	तालाब	0.1362	उत्तर प्रदेश शासन
				117	सरकारी	तालाब	0.0894	उत्तर प्रदेश शासन
				118	सरकारी	बंजर	0.1217	उत्तर प्रदेश शासन
				119	सरकारी	बंजर	0.0023	उत्तर प्रदेश शासन
				128	सरकारी	चकमार्ग	0.0190	उत्तर प्रदेश शासन

			129	निजी	कृषि	0.0006	श्रीकृष्ण पुत्र नक्कू नि०ग्राम
			130	सरकारी	बंजर	0.0242	उत्तर प्रदेश शासन
			144	निजी	कृषि	0.1586	इन्द्रपाल पुत्र रामसुन्दर नि०ग्राम
			145	सरकारी	चकमार्ग	0.0042	उत्तर प्रदेश शासन
			146	सरकारी	नवीन परती	0.0031	उत्तर प्रदेश शासन
			<b>योग</b>			<b>3.1898</b>	
		(7) अभियाखुर्द	191	निजी	कृषि	0.1928	केदारनाथ बैजनाथ पुत्र ठाकुरदीन नि० गोपालपुर
			192	सरकारी	तालाब	0.0936	उत्तर प्रदेश सरकार
			195	सरकारी	सड़क	0.1520	उत्तर प्रदेश सरकार
			232	निजी	कृषि	0.0347	राममूरत जोधासिंह भानुप्रताप भारतसिंह पुत्रगण रामप्रताप सिंह नि० बरुई
			233	निजी	कृषि	0.1061	हरिशंकर सिंह पुत्र भगवान प्रसाद नि० ग्राम, गनपति सहाय पुत्र भुमपाल सिंह नि० बरुई
			235	निजी	कृषि	0.3147	शम्भूनाथ पुत्र रामअवध नि० गोपालपुर, रामरूप पुत्र तुलसी नि० ग्राम, रामचन्द्र पुत्र रामलखन नि० गोपालपुर, रामअँजोर सूर्यनरायन पुत्रगण अछैबर, राजेन्द्र व राजबहादुर पुत्रगण रामबोध, श्रीमती राजपती पत्नी रामबोध नि० ग्राम
			236	निजी	कृषि	0.1112	रामजग पुत्र चमारू नि० गोपालपुर
			237	सरकारी	नवीन परती	0.0064	उत्तर प्रदेश सरकार
			238	सरकारी	बंजर	0.0225	उत्तर प्रदेश सरकार
			239	निजी	कृषि	0.0130	रामसनेही पुत्र पाँचू नि० गोपालपुर
			240	सरकारी	नाला	0.0062	उत्तर प्रदेश सरकार
			241	निजी	कृषि	0.2753	रामसनेही पुत्र पाँचू नि० गोपालपुर
			242	निजी	कृषि	0.1519	सीताराम पुत्र दुखी नि०ग्राम
			96	सरकारी	चकमार्ग	0.0279	उत्तर प्रदेश शासन
			97	निजी	कृषि	0.0038	रामराज महाराजदीन पुत्रगण गोवर्धन नि० गोपालपुर, इबारा अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद नि०ग्राम अंगनाकोल के०एन०आई० पर० मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर
			98	निजी	कृषि	0.0145	सुरेशकुमार संजयकुमार सुजीत पुत्रगण विश्वनाथ, श्रीमती सरोजा पत्नी विश्वनाथ नि०गोपालपुर
			287	निजी	कृषि	0.0886	जयराम पुत्र पुल्ली नि० गोपालपुर
			288	निजी	कृषि	0.2918	धर्मराज पुत्र अगनूप्रसाद नि० गोपालपुर
			289	सरकारी	चकमार्ग	0.0193	उत्तर प्रदेश सरकार
			290	निजी	कृषि	0.1254	पाँचू पुत्र रोघई नि० ग्राम
			291	निजी	कृषि	0.1564	रामसुमेर पुत्र रामनाथ नि० ग्राम
			292	निजी	कृषि	0.1379	सीताराम पुत्र दुखी नि०ग्राम
			293	निजी	कृषि	0.1842	सीताराम पुत्र दुखी नि०ग्राम
			294	निजी	कृषि	0.0002	नरसिंहनरायन बंदीप्रसाद पुत्रगण बेनीमाधव, विवेककुमार पुत्र देवनरायन, मंगरू पुत्र विन्दा नि०ग्राम जनादन सतीश अशोक कुमार अनिलप्रताप पुत्रगण रामआज्ञा सिंह नि० रामपुर हनुमानगंज
			295	निजी	कृषि	0.2045	राजेन्द्र पुत्र धनी, श्रीमती रामपति पत्नी धनी नि० ग्राम
			296 मि.	निजी	कृषि	0.1633	उत्तर प्रदेश सरकार
			296 मि.	सरकारी	बंजर		
			297 ब	निजी	कृषि	0.0191	यशोदादेवी पत्नी रामकृपाल नि०ग्राम
			297 अ	निजी	कृषि		रामसुमेर पिता रामनाथ नि. ग्राम,
			298	निजी	कृषि	0.0456	सूर्यबली पुत्र माताबदल नि० ग्राम
			299	निजी	कृषि	0.1697	रिन्कू सिंह पुत्र रामभारथ नि० रामपुर हनुमानगंज, श्यामनरायन सुरेश कुमार पुत्रगण भगवत नि० ग्राम
			300	निजी	कृषि	0.0246	कृष्णानन्द पुत्र रामबहल नि० ग्राम
			301	निजी	कृषि	0.0300	परमानन्द पुत्र रामबहल नि० ग्राम
			302	निजी	कृषि	0.0300	कृष्णानन्द परमानन्द पुत्रगण रामबहल नि० ग्राम
			303	निजी	कृषि	0.0365	कमलादेवी पत्नी पाचू नि० ग्राम
			304	सरकारी	चकमार्ग	0.0160	उत्तर प्रदेश सरकार
			274	सरकारी	चकमार्ग	0.0080	उत्तर प्रदेश सरकार
			275	निजी	कृषि	0.0032	रामचन्द्र रामहित पुत्र जमुनाप्रसाद नि० ग्राम
			307	सरकारी	चकमार्ग	0.0291	उत्तर प्रदेश सरकार
			450	निजी	कृषि	0.0194	अशोक कुमार रिन्कू सिंह जनार्दन सतीश अनिलप्रताप पुत्रगण रामआज्ञा सिंह नि० रामपुर हनुमानगंज
			454	निजी	कृषि	0.0008	रामलाल पुत्र घेराऊ, मोहनलाल रामधीरज भारत सुरेश बजरंगबली नि० ग्राम
			455 क	निजी	कृषि	0.0145	सूरजकुमार पुत्र रामकृपाल, यशोदादेवी पत्नी रामकृपाल, श्वामीदीन सुरेशकुमार श्यामनरायन पुत्रगण भगवत नि० ग्राम
			456	सरकारी	नवीन परती	0.0228	उत्तर प्रदेश सरकार



			457	निजी	कृषि	0.0030	विमलादेवी पत्नी विजयकुमार पाण्डेय, सपना देवी पत्नी बृजेशकुमार पाण्डेय, अखिलेश कुमार पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय, रीता पाण्डेय पत्नी राकेशकुमार उर्फ हनुमानप्रसाद नि0 ग्राम
			461	निजी	कृषि	0.0449	विमलादेवी पत्नी विजयकुमार पाण्डेय, सपना देवी पत्नी बृजेशकुमार पाण्डेय, अखिलेश कुमार पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय, रीता पाण्डेय पत्नी राकेशकुमार उर्फ हनुमानप्रसाद नि0 ग्राम
			462	सरकारी	बंजर	0.0250	उत्तर प्रदेश सरकार
			463	सरकारी	बंजर	0.0159	उत्तर प्रदेश सरकार
			464	निजी	कृषि	0.0250	रमाकान्त उमाकान्त पुत्र केदारनाथ, राधेश्याम श्यामकरन पुत्र रामदीन, राकेश उर्फ हनुमानप्रसाद अखिलेश पुत्रगण राधेश्याम नि0 ग्राम
			465	निजी	कृषि	0.3745	राधेश्याम पुत्र रामदीन नि0 ग्राम
			466	सरकारी	चकमार्ग	0.0243	उत्तर प्रदेश सरकार
			467	निजी	कृषि	0.1729	निर्मलादेवी उर्फ बबना पत्नी वाचस्पति नि0उतरौला
			468	निजी	कृषि	0.2270	कुसुमा पत्नी भल्लर पुत्री तरसू नि0 ग्राम
			469	निजी	कृषि	0.0859	सीताराम पुत्र दुखी नि0ग्राम
			470	निजी	कृषि	0.0385	चन्द्रवली पुत्र देवतादीन नि0ग्राम
			475	सरकारी	नवीन परती	0.0072	उत्तर प्रदेश सरकार
			476	सरकारी	नवीन परती	0.0035	उत्तर प्रदेश सरकार
			477	निजी	कृषि	0.4969	श्यामकरन पुत्र रामदीन नि0ग्राम
			478	निजी	कृषि	0.0039	सालिकराम पुत्र रामसुकाल, भोला नाथ पुत्र माताप्रसाद, अशोककुमार प्रमोदकुमार विनोदकुमार पुत्रगण परमेश्वरदीन व श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व0 परमेश्वरदीन नि0ग्राम
			481	सरकारी	आबादी	0.0691	उत्तर प्रदेश सरकार
			483	निजी	कृषि	0.0065	मंगरू पुत्र बहिरू, श्रीमती नन्हका पत्नी मंगरू नि0 ग्राम
			484	निजी	कृषि	0.5568	देवनरायन पुत्र खुशीयाल, रामशिरोमणि पुत्र देवतादीन नि0ग्राम
			485	निजी	कृषि	0.0672	गयाप्रसाद पुत्र रामअभिलाख नि0 ग्राम
			486	निजी	कृषि	0.0168	गयाप्रसाद पुत्र रामअभिलाख नि0 ग्राम
			490	सरकारी	चकमार्ग	0.0158	उत्तर प्रदेश सरकार
			493	निजी	कृषि	0.0021	धर्मराज पुत्र अगनूप्रसाद नि0 गोपालपुर
			495 मि.	निजी	कृषि	0.0877	प्रहलाद लोट्ट पुत्र अम्बर नि0 ग्राम
			495 मि.	निजी	कृषि		भानमती पत्नी अशोक कुमार नि0ग्राम
			496	निजी	कृषि	0.0552	विजय प्रकाश पुत्र रमाशंकर नि0 लाखीपुर
			497	निजी	कृषि	0.0886	काशीराम पुत्र रामआसरे, चन्द्रशेखर कृपाशंकर पुत्र रामकुमार, सरजूदेई पत्नी स्व0 रामकुमार नि0ग्राम
			498	निजी	कृषि	0.1541	राधेश्याम श्यामकरन पुत्रगण रामदीन, रमाकान्त उमाकान्त पुत्रगण केदारनाथ, सालिकराम पुत्र सुकाल, दिलीपकुमार दिनेशकुमार पुत्रगण जगदीश प्रसाद, माताफेर पुत्र पारसनाथ, राकेशकुमार उर्फ हनुमानप्रसाद अखिलेशकुमार पुत्रगण राधेश्याम, शरदकुमार व विपिनकुमार आलोककुमार पुत्रगण भोलानाथ नि0 ग्राम, अशोक कुमार प्रमोद कुमार विनोद कुमार पुत्रगण परमेश्वरदीन, श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व0 परमेश्वरदीन नि0ग्राम
			499	निजी	कृषि	0.2032	सूरजकुमार पुत्र रामकृपाल, यशोदादेवी पत्नी रामकृपाल, कृष्णादेव पुत्र खुशीयाल, अरविन्दकुमार रवीन्द्रकुमार पुत्रगण रामसुमेर, श्रीमती फुलकुमारी पत्नी स्व0 रामसुमेर, श्यामनरायन सुरेशकुमार पुत्रगण भगवत, रामचन्द्र रामहित पुत्रगण जमुनाप्रसाद, रामकुवेर सत्यराम रामयज्ञ पुत्रगण अवधनरायन, चन्द्रबली पत्नी देवतादीन नि0ग्राम, श्रीमती सोना हरीराम इन्टर कालेज अभियाखुर्द प्रबन्धक अनिलकुमार पुत्र हरीराम शुक्ल नि0 गोपालपुर
			500	निजी	कृषि	0.1368	सूरजकुमार पुत्र कृपाल, यशोदा देवी पत्नी रामकृपाल, अरविन्दकुमार पाण्डेय रवीन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्रगण रामसुमेर, श्रीमती फुलकुमारी पत्नी स्व0 रामसुमेर, श्यामनरायन सुरेशकुमार पुत्रगण भगवत, रामचन्द्र रामहित पुत्रगण जमुना प्रसाद, रामकुवेर रामयज्ञ सत्यराम पुत्र अवध नरायन, रामशिरोमणि चन्द्रबली पुत्रगण देवतादीन, स्वामीदीन पुत्र भगवतप्रसाद नि0 ग्राम
			योग			6.3757	
		(8) अभिया कलाँ	240	निजी	कृषि	0.0030	रामकिशोर पुत्र गजाधर नि0ग्राम
			251	सरकारी	चकमार्ग	0.0017	उत्तर प्रदेश सरकार
			252	निजी	कृषि	0.0546	रामअनुज पुत्र द्वारिका नि0 ग्राम

				253	निजी	कृषि	0.0758	विजयप्रकाश पुत्र रमाशंकर नि० लाखीपुर
				254	निजी	कृषि	0.0060	गयाप्रसाद रामजस पुत्रगण रामलखन, रामकरन पुत्र शम्भुनाथ नि०ग्राम
				255	निजी	कृषि	0.0105	रामानिहोर पुत्र रामदुलार नि०ग्राम व दुखना देवी पत्नी रामअनंद नि०ग्राम व रामकलप पुत्र दुनकू, नि०ग्राम व बैजनाथ पुत्र भागीरथी नि०ग्राम व किशुन पुत्र नीमर व दुखी पुत्र रामदत्त व अनारादेवी पत्नी स्व० बम्बहादुर नि०ग्राम
				256	निजी	कृषि	0.0139	रामप्रसाद पुत्र बदल नि० अभियाकला व लालजी पुत्र रोघई व सेरा बेवा पत्नी रोघई नि० ग्राम
				257	सरकारी	चकमार्ग	0.0059	उत्तर प्रदेश सरकार
				258	निजी	कृषि	0.0464	रमाशंकर रमाकान्त उमाकान्त पुत्रगण रामसुमेर व श्यामादेवी पत्नी रामसुमेर नि०ग्राम
				259	निजी	कृषि	0.0479	रामकलप पुत्र रामलाल नि० अभियाकला
				260	निजी	कृषि	0.0477	रमापति पुत्र रामनरेश नि० अभियाकला साधना पत्नी रामजी
				262	निजी	कृषि	0.0130	गयाप्रसाद रामजस पुत्रगण रामलखन, रामकरन पुत्र शम्भुनाथ नि०ग्राम
				263	निजी	अकृषिक	0.0162	अमरनाथ पुत्र अलगू नि०ग्राम
				264 मि.	निजी	कृषि	0.0154	झगरू धनी गणपति पुत्रगण किराची उर्फ मुनेसर नि०ग्राम, राममूल पुत्र जगरूप नि०झौवारा
				264 मि.	निजी	कृषि		दुखी पुत्र खेदू नि०ग्राम, दयाराम पुत्र कालीदीन नि०पूरैना
				264 मि.	निजी	कृषि		दुखी पुत्र खेदू नि०ग्राम, दयाराम पुत्र कालीदीन नि०पूरैना
				374	सरकारी	चकमार्ग	0.0039	उत्तर प्रदेश सरकार
				414	निजी	कृषि	0.0263	रामकुमार पुत्र बनवारीलाल नि०ग्राम
				415	निजी	कृषि	0.0569	मातादीन रामकेवल पुत्रगण बच्चा नि० ग्राम व श्रीमती गुजराती देवी पत्नी रामनैपाल वर्मा नि० अभियाकला व राजेन्द्रप्रसाद चौरसिया पुत्र रामलाल चौरसिया नि० भपटा
				416	निजी	कृषि	0.0230	हरिश्चन्द्र रविशंकर अजीत कुमार पुत्रगण त्रिवेनी व पंचदेव नाबा० उम्र 16 पुत्र त्रिवेनी संरक्षिका श्रीमती पार्वती, श्रीमती पार्वती पत्नी त्रिवेनी नि० ग्राम
				417	निजी	कृषि	0.0072	सन्तराम पुत्र वंशी नि० अभियाकला व हरिश्चन्द्र रविशंकर अजीत कुमार पुत्रगण त्रिवेनी व पंचदेव नाबा० उम्र 16 पुत्र त्रिवेनी संरक्षिका श्रीमती पार्वती, श्रीमती पार्वती पत्नी त्रिवेनी नि० ग्राम व रामकुमार श्यामू पुत्रगण बैरागी निवासी ग्राम व रामलाल श्यामलाल पुत्रगण रामफेर नि०ग्राम
				419 मि.	निजी	कृषि	0.0065	दुखी पुत्र खेदू निवासी ग्राम
				419 मि.	निजी	कृषि		हरिश्चन्द्र रविशंकर अजीत कुमार पुत्रगण त्रिवेनी व पंचदेव नाबा० उम्र 16 पुत्र त्रिवेनी संरक्षिका श्रीमती पार्वती, श्रीमती पार्वती पत्नी त्रिवेनी नि० ग्राम
				423	निजी	कृषि	0.0198	सीताराम पुत्र फेरई नि० ग्राम
				424	निजी	कृषि	0.0316	खजान्ची पुत्र रामदुलार, नि० अभियाकला व सीताराम रामलौट पुत्रगण फेरई नि० अभियाकला व मो०अली पुत्र अ०समद नि०कुछमुछ व बब्बन कुमार पुत्र विश्वनाथ नि०सिप्तापुर
				425	निजी	कृषि	0.0227	शीतलाप्रसाद सुरेशचन्द्र लालजी पुत्रगण ज्वालाप्रसाद नि० ग्राम व अछेवर माताप्रसाद पुत्रगण रामनरेश नि० बभनगवां व मु० पार्वती पत्नी रामप्रताप नि० ग्राम
				426	निजी	कृषि	0.0291	जगदीशप्रसाद पुत्र त्रियुगीनरायन नि०ग्राम व रुद्रनरायन योगेशनरायन पुत्रगण जयनरायन नि० बभनगवां व श्रीमती जयकली पत्नी राममूल नि०ग्राम झौवारा
				427	निजी	कृषि	0.0250	रामदयाल, भगौतीदीन,सिविलसाजन उर्फ पोकी पुत्र माताफेर नि० अभियाकला व खजान्ची, बजरगी पुत्रगण रामदुलार,नि० अभियाकला व सीताराम, रामलौट पुत्रगण फेरई, नि० अभियाकला व काशीराम रामसिंह अमरसिंह पुत्रगण रामप्रसाद नि० अभियाकला
				482	सरकारी	चकमार्ग	0.0025	उत्तर प्रदेश सरकार
				451	निजी	कृषि	0.0801	रमापति पुत्र रामनरेश रामअनुज पुत्र द्वारिका गोकर्न शिवकरन पुत्र रामदीन नि० अभियाकला विजय प्रकाश पुत्र रमाशंकर नि० लाखीपुर रमाशंकर रमाकान्त उमाकान्त पुत्रगण रामसुमेर श्यामादेवी पत्नी रामसुमेर नि०ग्राम
				452	निजी	कृषि	0.0310	राधेश्याम श्यामकरन पुत्रगण रामदीन, रमाकान्त उमाकान्त पुत्रगण केदारनाथ, राकेश कुमार उर्फ हनुमान प्रसाद अखिलेशु कुमार पुत्र राधेश्याम नि० अभियाखुर्द

			453	सरकारी	नहर	0.0890	उत्तर प्रदेश सरकार
			454	सरकारी	नहर	0.0288	उत्तर प्रदेश सरकार
			455	सरकारी	नहर	0.0004	उत्तर प्रदेश सरकार
			479	निजी	कृषि	0.1548	देवपती पत्नी जगदीशप्रसाद नि0ग्राम
			480	निजी	कृषि	0.2333	नरसिंहनरायण पुत्र बेनी माधव नि0 ग्राम, राजेन्द्र कुमार शिवकुमार पुत्रगण जगप्रसाद, श्रीमती राजकली पत्नी जगप्रसाद नि0 अभियाखुर्द, विवेक कुमार पुत्र देवनरायण, मंगद पुत्र विधा प्रसाद नि0 ग्राम
			481	निजी	कृषि	0.0036	चंद्रिका देवी पत्नी देवनरायण नि0 ग्राम
			487	निजी	कृषि	0.0878	जगन्नाथ पुत्र रामसुंदर नि0 अभियाखुर्द
			488	सरकारी	चकमार्ग	0.0237	उत्तर प्रदेश सरकार
			489 मि.	निजी	कृषि	0.0572	टीडी पुत्र रामआसरे नि0 ग्राम
			489 मि.	सरकारी	बंजर		उत्तर प्रदेश सरकार
			493	निजी	कृषि	0.0837	ओमप्रकाश पुत्र श्यामकरन नि0ग्राम
			494	निजी	कृषि	0.0493	श्रीमती विद्यादेवी पत्नी हौसिलाप्रसाद नि0 ग्राम
			496	निजी	कृषि	0.0040	श्रीमती घुटुरा पत्नी गयादीन नि0 ग्राम
			471	सरकारी	रास्ता	0.0303	उत्तर प्रदेश सरकार
			473	निजी	कृषि	0.2377	रामबहाल पुत्र रामफल नि0अभियाकला
			474	निजी	कृषि	0.4355	आँकारनाथ पुत्र राजाराम नि0 अभियाकला
			475	निजी	कृषि	0.0654	श्रीमती सुमेरा पत्नी रामपदारथ, अवधेश पुत्र रामपदारथ नि0 ग्राम
			476	निजी	कृषि	0.2242	रमापति पुत्र रामनरेश नि0 अभियाकला, बिजय प्रकाश पुत्र रमाशंकर नि0 लाखीपुर, रामअनुज पुत्र द्वारिका, गोकर्ण पुत्र रामदीन, रमाशंकर रमाकान्त उमाकान्त पुत्रगण रामसुमेर, श्यामादेवी पत्नी स्व0रामसुमेर नि0 अभियाकला
			500	निजी	कृषि	0.1081	देवतादीन पुत्र रामअभिलाख नि0 अभियाकला
			501	निजी	कृषि	0.2023	रामलखन पुत्र रामअंजोर नि0 अभियाकला
			502	निजी	कृषि	0.1550	सूरसती पत्नी रामयज्ञ दूबे नि0 ग्राम
			503	निजी	कृषि	0.1081	पतिराम पुत्र नोहरी, जियालाल राममगन पुत्र बुधिराम नि0 ग्राम
			504 मि.	निजी	कृषि	0.0792	रामखेलावन पुत्र जेदू, कमला देवी पत्नी रामखेलावन नि0बधुपूर
			504	निजी	कृषि		रामचरन रामगरीब पुत्रगण भगौती, बाबूलाल कल्लू पुत्रगण रामदास, रामसनेही नीहुट मोतीलाल पुत्रगण चेतू नि0ग्राम
			505	निजी	कृषि	0.2456	शिवकरन पुत्र रामदीन नि0ग्राम
			506	निजी	कृषि	0.2073	ओमप्रकाश कृष्णकुमार पुत्र राजनाथ नि0 ग्राम
			728/1117	निजी	कृषि	0.0137	देवदत्त देवेन्द्रनाथ पुत्रगण रामप्रसाद, कपिलदेव पुत्र देवचन्द्र, उषादेवी पत्नी स्व0 देवचन्द्र नि0अभियाखुर्द
			506/1118	निजी	कृषि	0.0127	रामविशाल ओमप्रकाश पुत्रगण श्यामकरन, श्रीमती राजपती देवी पत्नी प्रभात कुमार शुक्ल, कमलेश चन्द्र अखिलेश चन्द्र पुत्रगण श्यामकरन, गोकर्ण पुत्र रामदीन, श्यामकरन पुत्र कृष्णानन्द, शिवकरन पुत्र रामदीन, मिथलेश चन्द्र पुत्र श्यामकरन, रामउजागिर पुत्र कृष्णानन्द, राममूरत पुत्र रामकुमार, फूलनदेवी पत्नी रामनाथ नि0ग्राम
			731	निजी	कृषि	0.0692	सिविल सार्जन उर्फ ओमप्रकाश पुत्र माताफेर नि0 ग्राम, श्रीमती नीलम सिंह पत्नी चंद्र कुमार सिंह नि0 ग्राम वरुई, श्रीमती विद्या मिश्रा पत्नी श्रीराम मिश्र नि0लोदीपुर
			732	निजी	कृषि	0.0513	ओमप्रकाश जयप्रकाश पुत्रगण जोखई, फूलमती पत्नी स्व0जोखई नि0 ग्राम
			733	निजी	कृषि	0.2302	माताप्रसाद पुत्र रामराजमुखई, सन्नरक्षक अन्ननतराम पुत्र माताप्रसाद नि0 ग्राम
			736	निजी	कृषि	0.0514	झगरू धनी गनपति पुत्र किराची उर्फ मुनेसर नि0 ग्राम
			737	सरकारी	बंजर	0.1230	उत्तर प्रदेश सरकार
			738	निजी	कृषि	0.0310	सुरेन्द्रनाथ पुत्र रामबहोर, हिमाशुधर शीताशुधर पुत्रगण शीताशुधर, मयंकधर पुत्र शशिनाथ, मल्लिकादेवी पत्नी शशिनाथ नि0 झव्वारा, राधाकृष्ण पुत्र जगमोहन, हरिनाथ केदारनाथ पुत्र रामनरेश नि0 अभियाकला, गौरीशंकर भोलानाथ पुत्रगण विश्रवम्भर नाथ, बृजेन्द्रकुमार रामअवध करुणेश पुत्रगण भगवतप्रसाद, केशवराम दहन मगन सनद कुमार राजकुमार पुत्रगण शिवमूरत नि0 झव्वारा, शैलेन्द्र जितेन्द्र भूपेन्द्र पुत्रगण राजेन्द्रनाथ व श्रीमती जानकी पत्नी स्व0 राजेन्द्रनाथ नि0 झव्वारा, सर्वेश त्रिपाठी पुत्र उमानाथ व श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 उमानाथ नि0 झव्वारा
			739 मि.	निजी	कृषि	0.3501	रामभरोस पुत्र रामखेलावन नि0 ग्राम
			739 मि.	सरकारी	नवीन परती		उत्तर प्रदेश सरकार

			739 मि.	निजी	कृषि		दुखी पुत्र खेदू निवासी ग्राम
							केश कुमार कलसा पुत्रगण रामखेलावन, पवन कुमार मंगल प्रसाद पुत्रगण स्व० रामअधार, श्रीमती कैलाशा देवी पत्नी स्व० रामअधार नि० वैनी परगना चौदा व मुन्नालाल पुत्र रामहरख नि०ग्राम देवरी पूरनपुर पर० चौदा तह० लम्मुआ
			743	सरकारी	चकमार्ग	0.0107	उत्तर प्रदेश सरकार
			744	निजी	कृषि	0.1361	गयाप्रसाद पुत्र रामलखन नि०ग्राम
			745	निजी	कृषि	0.2230	मातादीन रामकेवल पुत्रगण बच्चा, सुकईराम पुत्र मातादीन नि० ग्राम
			753	निजी/सरकारी	कृषि/अकृषि	0.0880	(753/1110) रामभरोस पुत्र रामखेलावन नि० ग्राम व बंजर, उत्तर प्रदेश सरकार व गैर मुमकिन, उत्तर प्रदेश सरकार
			754	सरकारी	गैर मुमकिन	0.1436	उत्तर प्रदेश सरकार
			756/1131	निजी	कृषि	0.0401	मयंकधर पुत्र शाशिनाथ, मल्लिकादेवी पत्नी शाशिनाथ नि० झब्बारा
			<b>योग</b>			<b>5.2121</b>	
		(9) टिकरी परना	61	निजी	कृषि	0.0151	श्रीमती अभिराजी पत्नी माताप्रसाद नि० ग्राम
			62	निजी	कृषि	0.0741	अवनीशकुमार ग्रीसकुमार पुत्रगण महावीर नि०ग्राम
			73 मि.	निजी	कृषि	0.0237	श्रीमती जग्गी पत्नी पृथ्वी पाल नि० ग्राम
			73 मि.	सरकारी	नवीन परती		उत्तर प्रदेश शासन
			74	सरकारी	रास्ता	0.0021	उत्तर प्रदेश सरकार
			81	निजी	कृषि	0.0902	केदारनाथ पुत्रगण अम्बिकाप्रसाद, रामचरित्र रामशिरोमणि मनोजकुमार प्रदीपकुमार पुत्रगण करमराज, रामआसरे पुत्र रामअधार विजय कुमार पुत्र करमराज रामलखन पाण्डेय पुत्र जोखू राम पाण्डेय नि० सलाहपुर त्रिवेणी प्रसाद सिंह पुत्र रामबोध सिंह अशोक कुमार सिंह पुत्र माता फेर सिंह नि० बभनगवां राजेन्द्र प्रसाद मिश्र पुत्र शिवकुमार मिश्र नि० लोदीपुर लालजी बरनवाल पुत्र रामलखन बरनवाल नि० ग्राम त्रिवेणीप्रसाद सिंह पुत्र रामबोध सिंह नि० बभनगवां विमलादेवी पत्नी रमाशंकर तिवारी नि०सरैयाम्बर सिंह कृष्णदेव विजयबहादुर पुत्रगण रामअभिलाख जानकी देवी पत्नी स्व० रामअभिलाख नि० ग्राम रामबोध छोटेलाल पिता बद्दीनारायण पारसनाथ भारत राम रामशब्द पिता रामदेव मानिकलाल पिता रामप्रसाद उमाशंकर शिवशंकर प्रेमशंकर जयशंकर पिता सालिकराम रामकलप रामदुलार रामअवध रामकृपाल पिता रामजस रामचंदर पिता रामराज तारादेवी पति हरिशंकर पाण्डेय
			82	निजी	कृषि	0.0448	हीरालाल अच्छेलाल मोतीलाल रामसागर जयराम पुत्रगण दरगाही नि० उमापुर
			581	सरकारी	नाली	0.0041	उत्तर प्रदेश सरकार
			583	निजी	कृषि	0.0295	श्रीमती राजदेई पत्नी शिवराम, भारद्वाज पुत्र रामखेलावन, रामहित पुत्र जगैसर नि० ग्राम
			584	निजी	कृषि	0.0284	संदीप कुमार कपिल कुमार आशीष कुमार पुत्रगण रमाशंकर, गुजराती देवी पत्नी स्व० रमाशंकर नि० ग्राम
			585	निजी	कृषि	0.1875	रामकरन रामवहाल पुत्रगण रामअधार, कृष्णदेव विजयबहादुर पुत्रगण रामअभिलाख, जानकी देवी पत्नी स्व० रामअभिलाख नि० ग्राम अमरावती पति अरुण कुमार
			586	निजी	कृषि	0.0157	श्रीनाथ पुत्र रामबरन, प्रदीपकुमार नाबा० आयु 14 वर्ष पुत्र हरीराम संरक्षिका अमरावती देवी माता, श्रीमती अमरावतीदेवी पत्नी स्व०हरीराम, रामबहोर पुत्र रामचरन नि० ग्राम
			587	निजी	कृषि	0.0410	रमाशंकर पुत्र रघुराज, राजकिशोर पुत्र कमलाप्रसाद, श्रीमती विद्यादेवी पत्नी स्व०कमलाप्रसाद नि०ग्राम
			588	निजी	कृषि	0.0310	संदीप कुमार कपिल कुमार आशीष कुमार पुत्रगण रमाशंकर, गुजराती देवी पत्नी रमाशंकर नि० ग्राम राधेश्याम घनश्याम पिता प्रागदीन
			589	सरकारी	रास्ता	0.0032	उत्तर प्रदेश शासन
			590	सरकारी	सड़क	0.0023	उत्तर प्रदेश शासन
			592	निजी	कृषि	0.0450	रामआसरे पुत्र शोभनाथ नि० ग्राम
			593	सरकारी	चकमार्ग	0.0219	उत्तर प्रदेश शासन
			594	निजी	कृषि	0.0250	रामकृपाल पुत्र जयकरन, रामसरन पुत्र बलिकरन, रामसजन राममिलन पुत्रगण विजय, श्रीमती सूरसती पत्नी स्व० विजय नि० ग्राम
			595	सरकारी	सड़कें	0.0130	उत्तर प्रदेश शासन
			596 ख	निजी	कृषि	0.0219	बद्रीविशाल भारद्वाज चन्द्रभान रामदत्त पुत्रगण रामखेलावन, रिखीराम पुत्र गंगा प्रसाद, भगवानप्रसाद

							रामनायक राजदेई पुत्रगण शिवराम नि0ग्राम
			596 क	निजी	कृषि		रामआसरे श्रीराम पुत्रगण शोभनाथ, अशोककुमार वीरेन्द्रकुमार देवेन्द्रकुमार पुत्रगण बेदप्रकाश नि0 ग्राम
			597	निजी	कृषि	0.0094	विशुनाथ पुत्र रमेश प्रसाद नि0 भदैया
			598	निजी	कृषि	0.0125	विशुनाथ पुत्र रमेश प्रसाद नि0 भदैया
			603	सरकारी	चकमार्ग	0.0038	उत्तर प्रदेश शासन
			608	निजी	कृषि	0.0333	सोनू पुत्र शिवराम, श्रीराम श्रीनाथ पुत्रगण रामसहाई नि0 ग्राम
			609	निजी	कृषि	0.0190	रमाशंकर पुत्र रघुराज, राजकिशोर पुत्र कमलाप्रसाद, श्रीमती विद्यादेवी पत्नी स्व0कमलाप्रसाद नि0ग्राम
			610	निजी	कृषि	0.0092	बद्री प्रसाद पुत्र रामसहाय नि0 ग्राम
			612	सरकारी	सडकें	0.0138	उत्तर प्रदेश शासन
			613 क	निजी	कृषि	0.0260	केदारनाथ आँकारनाथ पुत्रगण महावीर, रामसुरेश पुत्र मुक्तनाथ नि0 भदैया
			613 ख	निजी	कृषि		सुरेशचन्द्र पुत्र मुक्तनाथ, सत्यनरायन पुत्र पुनपुन नि0 भदैया
			616 ख	निजी	कृषि	0.0328	राजेन्द्र पुत्रगण उदयराज नि0ग्राम रामचरित्र रामशिरोमणि विजय कुमार मनोज कुमार प्रदीप कुमार पिता करमराज
			616 क	निजी	कृषि		केदारनाथ पुत्रगण अम्बिका प्रसाद नि0 ग्राम रामबोध छोटेलाल पिता बद्रीनारायण
			617	सरकारी	बंजर	0.0333	उत्तर प्रदेश शासन
			624	निजी	कृषि	0.0130	देवदत्त पुत्र रामहरख नि0 पूरेबाघराय, रामनेवाज पुत्र सहोदर नि0 ग्राम
			625	सरकारी	बंजर	0.0090	उत्तर प्रदेश शासन
			626	सरकारी	नवीन परती	0.0062	उत्तर प्रदेश शासन
			637	सरकारी	सडकें	0.0035	उत्तर प्रदेश शासन
			1266	निजी	कृषि	0.0110	रामअछैवर पुत्र रामअजोर रामआसरे पुत्र भवानीदत्त नि0 ग्राम
			1266 क	निजी	कृषि		अजयकुमार पुत्र छेदी, धनपती पत्नी स्व0 छेदी, आदेश व आदर्श व आदित्य नाबा0 आयु 6, 4, 2 वर्ष पुत्रगण विजयकुमार संरक्षिका शीलादेवी माता, शीलादेवी पत्नी स्व0विजयकुमार नि0ग्राम
			1266 ग	निजी	कृषि		रामनारायन पुत्र सुक्खू, रामअकबाल रमाकान्त पुत्रगण पंडोही, पवन कुमार दत्तक पुत्र भवानी बक्स नि0ग्राम, श्रीमती जानकी पत्नी रामजस पुत्री रामपाल नि0 बसहू श्रीमती सुमित्रा पत्नी मनोजकुमार पुत्री रामपाल नि0पयागीपुर, श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी बनवारी प्रसाद नि0भदैया
			1263	निजी	कृषि	0.0012	गयादीन पुत्र महादेव नि0ग्राम
			1262 ग	निजी	कृषि	0.0204	अनिल कुमार प्रदीप कुमार सुधीर कुमार पुत्रगण विशम्भरनाथ नि0ग्राम
			1262	निजी	कृषि		शिवकुमार पुत्र रामलल्लन, श्रीमती कर्मादेवी पत्नी मानिकलाल नि0ग्राम
			1262 ख	निजी	कृषि		सावित अली इमताज अली पुत्रगण जान मोहम्मद, मो0 मोहयद्दीन पुत्र पीरदीन, मो0शकील मो0हफीज मो0इरसाद पुत्रगण मो0मुनीर अहमद, मु0रऊफ मु0अयूब मु0मारुफ पुत्रगण मु0रोजई नि0ग्राम
			1262 क	निजी	कृषि		मुनीर अहमद पुत्र अब्दुल शकूर नि0 ग्राम
			1077	सरकारी	आबादी	0.0736	उत्तर प्रदेश शासन
			1076	निजी	कृषि	0.0047	मानिकलाल पुत्र गिरधारी नि0 ग्राम
			1075	निजी	कृषि	0.0007	मानिकलाल पुत्र गिरधारी नि0 ग्राम
			1069 क	निजी	कृषि	0.0402	रामकृपाल मानिकलाल पुत्रगण गिरधारी नि0 ग्राम, श्रीमती हीरावती देवी पत्नी आद्याप्रसाद पाण्डेय नि0 जगदीशपुर
			1069 ख	निजी	कृषि		सुलेमान पुत्र याकूब नि0भदैया
			1068	निजी	कृषि	0.0024	सुलेमान पुत्र याकूब नि0भदैया
			1268	निजी	कृषि	0.0030	सियाराम श्रीराम रामफूल पुत्रगण गंगादीन नि0ग्राम
			1269	निजी	कृषि	0.0130	त्रिभुवन ब्रह्मदेव पुत्रगण रामलखन, रामविलाश दूबे दिवाकर पुत्रगण राधेश्याम, श्रीमती गेनादेवी पत्नी स्व0राधेश्याम नि0ग्राम
			1270	निजी	कृषि	0.1613	त्रिभुवन ब्रह्मदेव पुत्रगण रामलखन, रामविलाश दूबे दिवाकर पुत्रगण राधेश्याम, श्रीमती गेनादेवी पत्नी स्व0राधेश्याम नि0ग्राम
			1273	निजी	कृषि	0.2429	सियाराम श्रीराम रामफूल पुत्रगण गंगादीन नि0ग्राम
			1274	निजी	कृषि	0.0188	बद्रीविशाल भारद्वाज चन्द्रमान रामदत्त पुत्रगण रामखेलावन, रिखीराम पुत्र गंगा प्रसाद, दुर्वासप्रसाद भगवानप्रसाद रामनायक राजदेई पुत्रगण शिवराम नि0ग्राम
			1275	निजी	कृषि	0.0130	रामदुलार जगन्नाथ पुत्रगण भागीरथी नि0 ग्राम, लालबहादुर पुत्र रामसमुझ नि0 रायचन्दपुर, कृष्णकुमार

							विनोदकुमार पुत्रगण घिंगन नि० ग्राम, आद्याप्रसाद पुत्र ब्रम्हादीन नि० चाचपारा, बडका उर्फ कैलासी पत्नी रामदुलार, पारसनाथ पुत्र रामदेव नि० ग्राम, हीरावती पत्नी आद्याप्रसाद नि० चाचपारा
			1276	निजी	कृषि	0.1010	श्यामलाल पुत्र रामसुमेर, श्रीमती मोहनी पत्नी स्व० रामसुमेर नि० ग्राम
			1277	निजी	कृषि	0.1450	जयबहादुर पुत्र सहदेव सिंह, विश्वप्रकाश पुत्र सरजूप्रसाद सिंह, महेन्द्रप्रतापसिंह राजेन्द्र प्रताप पुत्रगण तेजबहादुर, पंकजकुमार पुत्र वीरेन्द्रप्रताप सिंह, सुरेन्द्रप्रताप कौशलेन्द्रप्रताप शैलेन्द्र प्रताप पुत्रगण गंगाप्रसाद सिंह, चक्रवती पत्नी जितेन्द्रप्रतापसिंह नि० पखरौली, अवनीशकुमार सिंह पुत्र धीरेन्द्रप्रताप सिंह, श्रीमती सुनीतासिंह पत्नी स्व० धीरेन्द्रप्रताप सिंह नि०ग्राम प्रमिला सिंह पत्नी अवनीश कुमार सिंह
			1278	निजी	कृषि	0.0397	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी शिवमूर्ति नि० सिन्तापुर
			1279	निजी	कृषि	0.0023	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी शिवमूर्ति नि० सिन्तापुर
			1290	सरकारी	सड़क	0.0077	उत्तर प्रदेश शासन
			1291	निजी	कृषि	0.0827	रिबईराम पुत्र बहाऊ, रामअकबाल रमाकान्त पुत्रगण पण्डोही नि०ग्राम
			1291/1818	निजी	कृषि		रामगोपाल पुत्र लहुरी नि०ग्राम
			1291/1818	निजी	कृषि		श्रीमती फूलपती पुत्री झंगई पत्नी हरदेव राना, मुन्नर पुत्र हैरानी नि०ग्राम
			1292 मि.	निजी	कृषि	0.0720	रामफेर पुत्र मोहन नि०ग्राम
			1292	निजी	कृषि		रामसरन पुत्र बलिकरन व रामसजन राममिलन पुत्रगण विजय व श्रीमती सूरसती पत्नी स्व० विजय नि० ग्राम
			1293	निजी	कृषि	0.0106	नन्दलाल शीतला प्रसाद पुत्रगण गोकुल प्रसाद नि० ग्राम, श्रीमती विद्यादेवी पत्नी बृन्दावन तिवारी नि० सरैया अम्बरसिंह
			1294	निजी	कृषि	0.0130	रामबोध रामफेर पुत्रगण रामअजोर, प्रदीपकुमार जगदीशप्रसाद राजेशकुमार पुत्रगण जीतलाल, श्रीमती कामिनी देवी पत्नी स्व० जीतलाल, इन्द्राज उदयराम पुत्रगण गोकुलप्रसाद नि० ग्राम
			1295	सरकारी	नवीन परती	0.0800	उत्तर प्रदेश शासन
			1295 मि.	निजी	कृषि		पवन कुमार नाब० 11 वर्ष पुत्र रघुनाथ संरक्षक जिलाधिकारी सुल्तानपुर नि० ग्राम
			1299	निजी	कृषि	0.1665	अनिरुद्ध रामउजागिर दयाराम पुत्रगण काशीराम, जगन्नाथ पुत्र रामलखन, राजपति पत्नी काशीराम नि० अभियाकला
			1300	निजी	कृषि	0.0070	रामनारायण पुत्र सुखु, रामअकबाल रामकान्त पुत्रगण पंडोही, शत्रुघ्न यादव पुत्र रामनारायण नि०ग्राम, श्रीमती जानकी पत्नी रामजस पुत्री रामपाल नि०बस्हु तह०अमेठी, श्रीमती सुमित्रा पत्नी मनोजकुमार पुत्री रामपाल नि० पयागीपूर
			1301	निजी	कृषि	0.0060	राममनोहर पुत्र महादेव नि०ग्राम
			1302	निजी	कृषि	0.0296	रामकरन रामवहाल पुत्रगण रामअधार, कृष्णदेव विजयबहादुर पुत्रगण राम अभिलाख, जानकी देवी पत्नी स्व० रामअभिलाख नि० ग्राम
			1303	निजी	कृषि	0.2095	केदारनाथ पुत्रगण अम्बिका प्रसाद, रामचरित्र रामशिरोमणि पुत्रगण करमराज, रामआसरे पुत्र रामधनी, विजयकुमार मनोजकुमार प्रदीपकुमार पुत्रगण करमराज नि० ग्राम, श्रीमती कुसुमा पाण्डेय पत्नी प्रदीपकुमार पाण्डेय नि० सुरौली, श्रीमती कर्मावती उर्फ करमादेवी पत्नी रामकुमार नि० भरथीपुर, श्रीमती कलावती पत्नी शिवप्रसाद पाण्डेय नि० रायचन्द्रपुर, श्रीमती रीता तिवारी पत्नी शिवकमल तिवारी, श्रीमती कीर्ति तिवारी पत्नी राजकमलतिवारी नि० बभनगवां, विजय लक्ष्मी पत्नी दयाकान्त दूबे नि० ग्राम, विमलादेवी पत्नी गोकुलप्रसाद दूबे नि० गंगापुर कुसुम देवी पति जवाहिर कमला प्रसाद रामाशंकर पिता रघुराज रामबोध छोटेलाल पिता बद्रीनारायण विजय लक्ष्मी पति दयाकांत कमला देवी पति बड़ेलाल कौशल
			1304 मि.	निजी	कृषि	0.0033	पूदन पुत्र रामदीन नि० ग्राम
			1304 मि.	निजी	कृषि		रामलोट पुत्र झूनी, शेखईराम रामबदन पुत्रगण रामबहोर, श्रीमती कर्मादेवी पत्नी स्व० रामबहोर नि०ग्राम
			1306	निजी	कृषि	0.0833	संदीप कुमार कपिल कुमार आशीष कुमार पुत्रगण रमाशंकर, गुजराती देवी पत्नी स्व० रमाशंकर, रमेश कुमार सुरेश कुमार पुत्रगण करसन प्रसाद, दिनेश कुमार पुत्र करसनप्रसाद, शिवकुमार राजकुमार बसन्तकुमार पुत्रगण घेरंड नि० ग्राम, प्रदीप कुमार पुत्र गनेश लाल साहू नि० नरेन्दापुर राधेश्याम घनश्याम पिता परागदीन

			1307	निजी	कृषि	0.0878	रमेशकुमार सुरेश कुमार दिनेश कुमार पुत्रगण करसनप्रसाद नि० ग्राम
			1653	सरकारी	सडकें	0.0264	उत्तर प्रदेश सरकार
			1654	निजी	कृषि	0.0190	रामआसरे पुत्र शोभनाथ नि० ग्राम
			1661	निजी	कृषि	0.0432	रुद्रप्रतापसिंह विजयप्रतापसिंह रवीन्द्रप्रताप राजेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्रगण जगदीश प्रसाद सिंह, पवनविक्रम अजयविक्रम पुत्रगण भानुप्रताप सिंह, श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी स्व० भानुप्रताप सिंह नि० चाचपारा
			1662	सरकारी	नाली	0.0049	उत्तर प्रदेश शासन
			1663	निजी	कृषि	0.0355	जगदीश प्रसाद सिंह पुत्र रामदुलार सिंह नि० भदैया
			1664 मि.	निजी	कृषि	0.0630	करिया पुत्र नोहर नि० ग्राम
			1665	निजी	कृषि	0.0060	श्रीमती कुसुमदेवी पत्नी जवाहरलाल उर्फ छंगू नि०ग्राम
			1666	निजी	कृषि	0.0412	रामतीरथ पुत्र श्रीराम, श्रीमती कुसुमदेवी पत्नी जवाहरलाल उर्फ छंगू नि० ग्राम
			1667	निजी	कृषि	0.0067	गंगाप्रसाद जमुनाप्रसाद त्रिवेणी प्रसाद सरजूप्रसाद पुत्रगण छंगू, श्रीमती कुसुमदेवी पत्नी स्व०छंगू नि०ग्राम
			1670	सरकारी	नाली	0.0057	उत्तर प्रदेश शासन
			1672	निजी	कृषि	0.1832	करमराज राजेन्द्र पुत्रगण उदयराज नि०ग्राम
			1673	सरकारी	रास्ता	0.0080	उत्तर प्रदेश शासन
			1677	निजी	कृषि	0.0286	करमराज राजेन्द्र पुत्रगण उदयराज नि०ग्राम
			1678	निजी	कृषि	0.2417	रिखीराम पुत्र गंगाप्रसाद, भगवानप्रसाद रामनायक राजदेई पुत्रगण शिवराम नि० ग्राम, श्रीमती अनीता तिवारी पत्नी सम्पूर्णानन्द तिवारी नि० पखरौली वर्तमान निवासी टिकरीपरना, श्रीमती झीनकली पत्नी ओमप्रकाश यादव नि० ग्राम सूरज देई पति शिवराम
			1691	निजी	कृषि	0.0067	रामसहाय पुत्र पाले, पवन कुमार मंगला प्रसाद पुत्रगण राम अधार, श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी स्व० राम अधार नि० ग्राम, शिवचन्द्र सुरेश चन्द्र रमेशचन्द्र जयचन्द्र पुत्रगण भगेलू नि० दुबेपुर
			1692	निजी	कृषि	0.0214	उमाकान्त पुत्र रामशिरामणि नि० ग्राम, देवदत्त पुत्र रामहरख नि० पूरेवाघराय, अशोककुमार पुत्र देवनारायण नि० बभनगवां, कमलाप्रसाद पाण्डेय पुत्र रमाशंकर पाण्डेय, लालताप्रसाद मिश्र पुत्र केशवप्रसाद मिश्र नि० पूरेनथउ
			1694 मि.	निजी	कृषि	0.0042	कृष्णप्रसाद पुत्र रामलाल नि० भदैया
			1694 मि.	निजी	कृषि		कमलाप्रसाद पुत्र रघुराज नि०ग्राम
			1694 मि.	निजी	कृषि		राघव राम पुत्र भगौती प्रसाद तिवारी नि० बभनगवां, सूर्यनारायण पुत्र महावीर नि०सलाहपुर, श्रीमती सुमित्रादेवी पत्नी रामचन्द्र, श्रीमती शोभादेवी पत्नी कृष्णचन्द्र पाण्डेय नि० भदैया
			1695	निजी	कृषि	0.0166	रामआसरे श्रीराम पुत्रगण शोभनाथ, अशोककुमार वीरेन्द्रकुमार देवेन्द्रकुमार पुत्रगण बेदप्रकाश नि० ग्राम
			1696	निजी	कृषि	0.0079	कमलाप्रसाद रमाशंकर पुत्रगण रघुराज नि० ग्राम
			1697 क	निजी	कृषि	0.0028	बृजेन्द्रनाथ राजेन्द्रनाथ उपेन्द्रनाथ राकेश सुरेन्द्रनाथ पुत्रगण भगवतप्रसाद नि०ग्राम
			1697 ख	निजी	कृषि		भोलाप्रसाद तिवारी पुत्र महादेव तिवारी नि०बभनगवा
			1722	सरकारी	आबादी	0.0023	उत्तर प्रदेश शासन
			1723	सरकारी	आबादी	0.0209	उत्तर प्रदेश शासन
			1724	निजी	कृषि	0.0018	कल्लन क्यूम पुत्रगण मुस्तकीम नि० ग्राम
			योग			3.4947	
		(10) भदैया	212	निजी	कृषि	0.0047	मो०इंद्रीश मो०मुस्ताक मो०इकबाल पुत्रगण अब्दुल मजीद नि०पन्ना टिकरी
			213	सरकारी	आबादी	0.0020	उत्तर प्रदेश शासन
			214	निजी	कृषि	0.0008	पारसनाथ पुत्र बालगोविन्द नि०टिकरीपरना
			215 क	निजी	कृषि	0.0010	शिवमूर्ति रामसुरति हरिनारायण जयनारायण पुत्रगण श्रीराम नि० ग्राम
			215 ख	निजी	कृषि		इंद्रराज उदयराज पिता गोकुल प्रसाद
			216 क	निजी	कृषि	0.0018	श्रीमती चन्द्रकली पत्नी जगदीशबहादुर सिंह नि० चाचपारा
			216 ख	निजी	कृषि		गोकुलप्रसाद पुत्र बलिराज नि० टिकरी परना
			217	निजी	कृषि	0.0036	श्रीमती चन्द्रकली पत्नी जगदीशबहादुर सिंह नि० चाचपारा
			218	सरकारी	चकमार्ग	0.0004	उत्तर प्रदेश सरकार
			219	निजी	कृषि	0.0011	रामऔतार पुत्र बिदेशी नि०सकवा, श्रीमती निर्मला देवी पत्नी जगदेव प्रसाद, मालती देवी पत्नी रामसुमेर, कालीप्रसाद कन्हईलाल मनीराम पुत्रगण मेवालाल नि० सलाहपुर
			232	निजी	कृषि	0.0184	रमेशकुमार बा० महेशकुमार नाबा० 13 वर्ष गनेशकुमार नाबा० 10 वर्ष पुत्रगण श्रीराम स. कमरादेवी माता नि० ग्राम

				236	सरकारी	आबादी	0.0360	उत्तर प्रदेश सरकार
				237	निजी	कृषि	0.0280	ताडकनाथ पुत्र रामनिहोर, रमेश कुमार श्रीराम महेश कुमार गनेश कुमार ना.बा. 15 वर्ष पुत्र श्रीराम संरक्षिका करमा देवी माता
				238	निजी	कृषि	0.0740	भारतलाल पुत्र गयाप्रसाद, श्रीमती निर्मलसिंह पत्नी रणधीरसिंह नि० ग्राम सुचिता सिंह पति मुसाफिर सिंह शिवकुमार यादव पिता मेहंदी रामदयाल यादव राधादेवी पति रामलौट रेनूदेवी पति जयप्रकाश रीता देवी पति भानुप्रकाश गीता देवी पति वेदप्रकाश पुत्री जवाहर लाल
				239	निजी	कृषि	0.0428	श्रीमती सविता देवी पत्नी अरविन्दकुमार गुप्ता नि० ग्राम जियालाल पिता पकई माधुरी पति रामनरेश यादव
				250	सरकारी	चकमार्ग	0.0042	उत्तर प्रदेश सरकार
				260	निजी	कृषि	0.0451	गंगाप्रसाद पुत्र बंदी नि० ग्राम
				261	सरकारी	नाला	0.0058	उत्तर प्रदेश सरकार
				262	सरकारी	चकमार्ग	0.0030	उत्तर प्रदेश सरकार
				263	निजी	कृषि	0.0437	बजरगबली ब्रह्मदेव इन्द्रदेव पुत्रगण महाराजदीन नि० ग्राम लालती देवी पति राजितराम
				265	निजी	कृषि	0.0335	गोमती प्रसाद पुत्र टीभू पाल नि० ग्राम
				268	सरकारी	तालाब	0.0255	उत्तर प्रदेश सरकार
				269	निजी	कृषि	0.0553	इन्द्रजीत सिंह दत्तक पुत्र हुबराजी बिधवा त्रिवेनी सिंह, जगदीश प्रसाद सिंह पुत्र रामचरन, जैकृष्ण पुत्र रामअधार नि० ग्राम होरीलाल बालिग संत कुमार दिलीप कुमार ना.बा. 14 व 15 वर्ष प्रेमा देवी माता स्वयं पु. भडारी प्रेमादेवी पति भडारी
				270	निजी	कृषि	0.0175	सुनील कुमार सिंह पुत्र सुरजू राजेश कुमार पुत्र अशोक कुमार, अनिल कुमार सुनील कुमार पुत्रगण सुरजू इन्द्रपाल सिंह पुत्र फतेहबहादुर सिंह नि० ग्राम
				271	निजी	कृषि	0.0045	सुनील कुमार सिंह पुत्र सुरजू राजेश कुमार पुत्र अशोक कुमार, अनिल कुमार सुनील कुमार पुत्रगण सुरजू इन्द्रपाल सिंह पुत्र फतेहबहादुर सिंह नि० ग्राम
				274	निजी	कृषि	0.0441	शीतला प्रसाद लालचन्द्र सुभाषचन्द्र प्रेमचन्द्र पुत्रगण जगन्नाथ नि० ग्राम
				275	निजी	कृषि	0.0325	गंगाप्रसाद जमुनाप्रसाद पुत्रगण रामअभिलाख, श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी कृष्णप्रसाद, राजेश कुमार रमेश कुमार सुखदेव पुत्रगण कृष्णप्रसाद, वृजभूषण चन्द्रप्रताप पुत्रगण अर्जुनप्रसाद नि०ग्राम
				362	निजी	कृषि	0.0020	श्रीराम पुत्र बृजलाल नि० ग्राम
				363	निजी	कृषि	0.0271	श्रीराम पुत्र बृजलाल नि० ग्राम
				364	निजी	कृषि	0.0225	हृदयनरायन इन्द्रजीत पुत्रगण रामआसरे, रामअधार पुत्र दुखी नि० ग्राम राजाराम रामबाबू अनिल पिता भगवानदीन विश्वदेवी पति भगवानदीन रामसागर सचिन पिता रामकिशुन मानसी देवी पति रामकिशुन धीरज कुमार नीरज कुमार पिता बालकिसन भोला देवी पति बालकिसन
				365	निजी	कृषि	0.0098	इन्द्रजीत सिंह दत्तक पुत्र हुबराजी बिधवा त्रिवेनी सिंह, जगदीश प्रसाद सिंह पुत्र रामचरन, जैकृष्ण पुत्र रामअधार नि० ग्राम होरीलाल बालिग संत कुमार दिलीप कुमार ना.बा. 14 व 15 वर्ष प्रेमा देवी माता स्वयं पु. भडारी प्रेमादेवी पति भडारी
				366	सरकारी	चकमार्ग	0.0034	उत्तर प्रदेश सरकार
				367	निजी	कृषि	0.0273	रामपियारे रामकिशोर रामनिहोर रामअजोर रामपाल पुत्रगण रामलौट नि० ग्राम
				368	निजी	कृषि	0.0065	रामकेवल उर्फ टीभू पुत्र फली, सुशीला देवी पत्नी बाबूलाल, लालती देवी पत्नी दुखी नि० ग्राम
				369	निजी	कृषि	0.0048	गोपाल लालचन्द्र पुत्रगण रामकेवल नि० ग्राम
				370	निजी	कृषि	0.0061	कृष्णकुमार रामकुमार पुत्रगण त्रिभुवनदत्त पाण्डेय नि०ग्राम
				371	निजी	कृषि	0.0052	सुरेशकुमार पुत्र मूलचन्द्र नि० ग्राम
				372	निजी	कृषि	0.0028	रामकृपाल उर्फ रामजनक सूयमान पुत्रगण रामदेव नि० ग्राम
				430	निजी	कृषि	0.0057	अशोक कुमार पुत्र राजकरन नि० मिश्रपुर
				431	निजी	कृषि	0.0137	विनोद कुमार सिंह प्रमोद कुमार दिलीप कुमार पुत्रगण तेजबहादुर सिंह नि० ग्राम
				433	निजी	कृषि	0.0011	विनोद कुमार सिंह प्रमोद कुमार दिलीप कुमार सिंह पुत्रगण तेजबहादुर सिंह, बीरेन्द्र कुमार जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्रगण श्यामबहादुर सिंह, सतीश कुमार सिंह पुत्र कृष्णबहादुर सिंह नि० ग्राम संतोष कुमार सिंह अरुण कुमार सिंह महेश कुमार सिंह पिता रविन्द्र कुमार सिंह राम दुलारी पति रविकुमार सिंह
				443	निजी	कृषि	0.0362	विनोद कुमार सिंह प्रमोद कुमार दिलीप कुमार पुत्रगण



							तेजबहादुर सिंह नि0 ग्राम
			1363	निजी	कृषि	0.0310	गंगाप्रसाद जमुनाप्रसाद पुत्रगण रामअभिलाख नि0ग्राम
			1364	निजी	कृषि	0.0669	गंगाप्रसाद जमुनाप्रसाद पुत्रगण रामअभिलाख नि0ग्राम
			1365	निजी	कृषि	0.0271	मो0आरिफ पुत्र दरगाही, मो0रऊफ पुत्र रज्जाक, सब्बीर सादी बीपत पुत्रगण हसनू नि0ग्राम
			1366	निजी	कृषि	0.0256	लक्ष्मीनारायण शिवकुमार संजयकुमार पुत्रगण प्रेमचन्द्र नि0 ग्राम
			1367	निजी	कृषि	0.0056	लक्ष्मीनारायण शिवकुमार संजयकुमार पुत्रगण प्रेमचन्द्र नि0 ग्राम
			1368	सरकारी	आबादी	0.0197	उत्तर प्रदेश सरकार
			1371	सरकारी	नवीन परती	0.0024	उत्तर प्रदेश सरकार
			1376	निजी	कृषि	0.0056	अच्छेलाल राजेश कुमार पुत्रगण प्रेमचन्द्र नि0 ग्राम
			1377	निजी	कृषि	0.0005	मो0आरिफ पुत्र दरगाही, मो0रऊफ पुत्र रज्जाक, सब्बीर सादी बीपत पुत्रगण हसनू नि0ग्राम
			1378	निजी	कृषि	0.0128	मो0आरिफ पुत्र दरगाही, मो0रऊफ पुत्र रज्जाक, सब्बीर सादी बीपत पुत्रगण हसनू नि0ग्राम
			1414	निजी	कृषि	0.0955	गनपति पुत्र किराची, रामसुख पुत्र सरजू, कोहराम हौसिला प्रसाद रामबोध रामहरख पुत्रगण रामलखन, श्रीमती मूलवती पत्नी बैरागी नि0ग्राम
			1429	सरकारी	चकमार्ग	0.0075	उत्तर प्रदेश सरकार
			1430	निजी	कृषि	0.0569	मो0 मोबीन पुत्र सहादत नि0 ग्राम, इसमुद्दीन पुत्र हनीफशाह नि0 खुदौली
			1431	निजी	कृषि	0.0207	मैंडई उर्फ मेढाई पुत्रगण करामत नि0 ग्राम
			1432	निजी	कृषि	0.0176	सरोज सिंह पति सतीश चंद्र सिंह
			1433	निजी	कृषि	0.0263	सोहराब पुत्र यासीन नि0 ग्राम
			1434	सरकारी	चकमार्ग	0.0053	उत्तर प्रदेश सरकार
			1435	निजी	कृषि	0.0207	अ0रहमान पुत्र सतार नि0 ग्राम
			1438	निजी	कृषि	0.0950	मोहम्मद रफोक मो0 रशीद मो0 लतीफ पुत्रगण मोहम्मद हनीफ नि0 ग्राम
			1439	निजी	कृषि	0.0502	रामआसरे पुत्र रामनरेशलाल नि0 भदैया
			1441	निजी	कृषि	0.0662	राधेश्याम पुत्र केदारनाथ, कैलाशनाथ पुत्र जयसुख, श्रीमती चन्द्रवती पत्नी स्व0 जयसुख, सतीशकुमार पुत्र शोभनाथ, कमला देवी पत्नी स्व0 शोभनाथ, दिवाकरप्रसाद पुत्र कालू नि0 ग्राम
			1442	निजी	कृषि	0.0696	अवधेशकुमार पुत्र उदयराज, छविराजी पत्नी जगरनाथ, सूर्यनारायण हरिकेश केतक कुमार पुत्रगण अपरवल सिंह, सुरेशकुमार राकेशकुमार पुत्रगण अमरपाल, चन्द्रभूषण शशिभूषण पुत्रगण राजपति, रवीन्द्र प्रताप वीरेन्द्रप्रताप पुत्रगण इन्द्रपाल सिंह, राजबहादुर सिंह नरेन्द्रबहादुर पुत्रगण रामदेव सिंह, इन्द्रपाल पुत्र फतेहबहादुर सिंह, शालेन्द्र प्रताप सिंह नाबा0 17 वर्ष पुत्र इन्द्रपाल सिंह सं. सावित्री देवी, लखराज सिंह राजेश्रवरी प्रसादसिंह विजय पाल सिंह जयगोपाल सिंह पुत्रगण रामबहादुर सिंह, रायजनक मिश्र राजाबली मिश्र पुत्रगण केशव प्रसाद मिश्र, लखराजसिंह राजेश्रवरीप्रसादसिंह विजयपालसिंह जयगोपालसिंह पुत्रगण रामबहादुर सिंह नि0ग्राम जयप्रकाश राधेश्याम सिंह पिता अंगद सिंह थुरी सिंह पति अंगद सिंह
			1443	सरकारी	बंजर	0.0283	उत्तर प्रदेश सरकार
			1444 ख	निजी	कृषि	0.0060	सत्यनारायण सिंह राजकरन सिंह उमाशंकर सिंह पुत्रगण सीताराम सिंह रामसिंह सुखमंगल सिंह पुत्रगण महादेव सिंह राधेश्याम माताप्रसाद देवी प्रसाद भवानी प्रसाद रामसन्मुख पुत्रगण हरिनन्दन चन्द्रभूषण सिंह शशिभूषण पुत्रगण राजपति सिंह रामबहादुर सिंह सत्यनारायण सिंह सूर्यनारायण सिंह हरिकेश सिंह केतक कुमार सिंह पुत्रगण अपरवल सिंह अंगद सिंह पुत्र लालबहादुर सिंह सुरेश कुमार सिंह राकेश कुमार सिंह पुत्रगण अमरपाल सिंह इन्द्रपाल सिंह पुत्र फतेहबहादुर सिंह रामप्रताप पाण्डेय बृजेन्द्र प्रताप पाण्डेय पुत्रगण राधेश्याम पाण्डेय नि0ग्राम
			1445	निजी	कृषि	0.0256	सत्येन्द्रप्रकाश गुनेन्द्रप्रकाश भाष्करेन्द्रप्रकाश पुत्रगण राधेश्याम नि0 ग्राम
			1446	निजी	कृषि	0.0219	सियाराम पुत्र बदाली, मनोजकुमार सुशीलकुमार दीपककुमार पुत्रगण रामअजोर, श्रीमती मीनाकुमारी पत्नी स्व0 रामअजोर नि0 ग्राम प्रेमचंद्र पिता जियावन भगेलू नि. ग्राम
			1455	निजी	कृषि	0.0680	ओकारनाथ पुत्र महावीर, सुरेशचन्द्र पुत्र मुक्तनाथ, हरिशचन्द्र प्रेमचन्द्र गुलाबचन्द्र पुत्रगण केदारनाथ नि0 ग्राम
			1459 क	निजी	कृषि	0.2136	माताप्रसाद पुत्र हरिनन्दन नि0 ग्राम
			1459 ख	निजी	कृषि		रवीन्द्र नाथ पुत्र जगई, समरजीत अमरजीत सभाजीत पुत्रगण पारसनाथ, जयकला देवी पत्नी पारसनाथ

							नि0ग्राम
		2535	निजी	कृषि	0.1573		विजय कुमार दिनेशकुमार पुत्रगण शिवमूर्ति, राममूर्ति रामअजोर रामचन्द्र कृष्णचन्द्र पुत्रगण गयाप्रसाद नि0 ग्राम
		2538	निजी	कृषि	0.1689		बाबूलाल पुत्र झूरी नि0 ग्राम, शिवप्रसाद बैजनाथ प्राणनाथ पुत्रगण टीडी नि0 धनुपुर, सुषमा देवी पत्नी लालमणि नि0 मदनपुर पनियार, विश्वनाथ पुत्र रामप्रताप नि0 धनुपुर
		2577 क	सरकारी	बंजर	0.0178		उत्तर प्रदेश सरकार
		2577 ख	निजी	कृषि			भगनी पत्नी स्व0 गंगादीन नि0ग्राम
		2578 ख	निजी	कृषि	0.0437		तीथराज पुत्र राधेश्याम नि0ग्राम
		2578	निजी	कृषि			लक्ष्मीनारायण उर्फ बल्ली पुत्र रमेश्वर, ओमप्रकाश विजयप्रकाश पुत्रगण कामता, रामकेवल विश्वनाथ शिवनाथ पुत्रगण रमेश्वर, गौतमकुमार मिश्रा पुत्र राजबहादुर मिश्रा, श्रीमती रेखादेवी पत्नी रवीन्द्रकुमार, श्रीमती मायादेवी पत्नी आत्मालाल, श्रीमती संगीतादेवी पत्नी राजमणि नि0 ग्राम
		2579	निजी	कृषि	0.0716		सुनील कुमार बालिक बद्धीप्रसाद नाबा. 16 वर्ष अजय शंकर (मंदबुद्धि) पुत्रगण पारसनाथ दुबे संरक्षिका हीरावती देवी माता हीरावती देवी पति पारसनाथ दुबे
		2586	निजी	कृषि	0.0380		उमेश कुमार तिवारी पुत्र शिवश्याम तिवारी नि0 विसावा परगना बरौसा
		2587	निजी	कृषि	0.1016		विन्देश्वरी प्रसाद पुत्र शिवचरण, वीरेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण रामप्रताप, राकेश कुमार राजेश कुमार पुत्रगण राधेश्याम, सन्तोष कुमार पुत्र भानुप्रताप, दुखना पत्नी स्व0 भानुप्रताप नि0 ग्राम
		2588	निजी	कृषि	0.1665		श्रीमती गीता देवी पत्नी अयोध्या प्रसाद नि0 बरौसा, रमेश कुमार राकेश कुमार सुरेश कुमार अखलेश कुमार पुत्रगण नानकप्रसाद नि0 शाहपुर हरिबंस
		3210	निजी	कृषि	0.0785		बाबूलाल पुत्र झूरी, शिवप्रसाद नन्दलाल बैजनाथ प्राणनाथ पुत्रगण टीडी नि0 ग्राम, अमरबहादुर सिंह विमलेश कुमार सिंह पुत्रगण रघुराज सिंह नि0 तेरयें, रंजीत कुमार पाण्डेय पुत्र कृपाशंकर पाण्डेय नि0 सरैया पूरे गौतम
		3191	निजी	कृषि	0.2307		आनन्दकुमारसिंह आलोककुमार पुत्रगण हीरासाहब सिंह, बिशाल कुमार सिंह प्रकाश सिंह पुत्रगण राय साहब सिंह, रायसाहबसिंह हीरासाहब सिंह पुत्रगण दानबहादुर सिंह नि0 शिवगढ पर.चांदा
		3190 क	निजी	कृषि	0.0775		बी0डी0डी0बी0 महिला महाविद्यालय दानबहादुर नगर भदैया प्रबन्धक रायसाहबसिंह पुत्र दानबहादुर सिंह नि0 शिवगढ
		3190 ख	निजी	कृषि			रायसाहबसिंह हीरसिंह पुत्रगण दानबहादुर सिंह नि0 शिवगढ
		3439	निजी	कृषि	0.0013		जयप्रकाश सिंह राधेश्याम सिंह पिता अंगद सिंह दुलारी सिंह पति अंगद सिंह
		3438	निजी	कृषि	0.0069		रघू रामकुमार पुत्रगण रामअधार नि0 परना टिकरी
		3437	निजी	कृषि	0.0029		अशोककुमार पुत्र देवनारायण नि0 बभगवा
		3418	निजी	कृषि	0.0640		लखराज सिंह राजेश्वरीप्रसाद सिंह विजयपाल सिंह जयगोपाल पुत्रगण रामबहादुर सिंह नि0 ग्राम
		3405	सरकारी	नाली	0.0051		उत्तर प्रदेश सरकार
		3404	निजी	कृषि	0.0249		बेचु पुत्र बगवन्ता नि0ग्राम
		3403	निजी	अकृषिक	0.0060		कामता रामकेवल पुत्रगण रमेश्वर, रामकृपाल उर्फ रामजनक सुर्यभान पुत्रगण रामदेव, विश्वनाथ शिवनाथ पुत्रगण रमेश्वर, बृजलाल पुत्र मुनेश्वर, बाबूराम अमरचन्द्र पुत्रगण रामसेवक, कृष्णकुमार ना0बा0 15 वर्ष पुत्र रामसेवक संरक्षिका चमेलादेवी माता, दिलीपकुमार पुत्र हजारीलाल, प्रदीपकुमार ना0बा0 12 वर्ष पुत्र हजारीलाल संरक्षक दिलीपकुमार भाई संगी, रामनरेश पुत्र नगेश्वर, भोलानाथ श्यामलाल रामनाथ पुत्रगण रामपयारे, रामचन्द्र पुत्र रामजस, केशवप्रसाद पुत्र रामगुलाम, सुर्यलाल पुत्र रामसहाय, हरीनारायण पुत्र नन्दलाल नि0ग्राम
		3402	निजी	कृषि	0.0233		सीताराम पुत्र रामअकबाल, पारसनाथ पुत्र जगन्नाथ नि0 सलाहपुर
		3401	निजी	अकृषिक	0.0060		गंगाप्रसाद जमुनाप्रसाद पुत्रगण रामअभिलाख, श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी कृष्णप्रसाद, राजेश कुमार रमेश कुमार सुखदेव पुत्रगण कृष्णप्रसाद, बृजभूषण चन्द्रप्रताप पुत्रगण अर्जुनप्रसाद नि0ग्राम
		3400	निजी	कृषि	0.3127		श्रीमती शारदादेवी पत्नी लालभान प्रतापसिंह नि0 ग्राम सुमन बरनवाल पति दिनेश कुमार बरनवाल
		3399	सरकारी	चकमार्ग	0.0035		उत्तर प्रदेश सरकार

				3398	निजी	कृषि	0.0405	रामलखन पुत्र पाँचू, शिवमूर्ति राममूर्ति रामचन्द्र रामअजोर कृष्णचन्द्र पुत्रगण गयाप्रसाद नि० ग्राम, भक्त राज पुत्र रामप्रताप नि० कयामुद्दीन
				3397	निजी	कृषि	0.0299	प्रेमचन्द्र कौशल पुत्र सूर्यलाल कौशल नि० ग्राम रामलखन पिता पाँचू
				3396	निजी	कृषि	0.1548	रामलखन पुत्र पाँचू, भक्त राज पुत्र रामप्रसाद नि० ग्राम
				3361	सरकारी	नाला	0.0073	उत्तर प्रदेश सरकार
				3352	निजी	कृषि	0.2046	वीरेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण रामप्रताप, राकेश कुमार राजेश कुमार पुत्रगण राधेश्याम, सन्तोष कुमार पुत्र भानुप्रताप, दुखना पत्नी स्व० भानुप्रताप नि० ग्राम जगदीश प्रसाद पिता बिन्देसरी प्रसाद
				3351	निजी	कृषि	0.0250	कालूसिंह पुत्र बुद्धसिंह, फतेहबहादुरसिंह रामबहादुर पुत्रगण कालूसिंह, दानबहादुर सिंह पुत्र रामलखन सिंह, समरबहादुर सिंह पुत्र कालूसिंह नि० ग्राम
				3350	निजी	कृषि	0.0110	अनवरी असगरी पुत्रगण मो० रजा, मो० इंद्रीश मो० कयूम मुस्ताक अहमद पुत्रगण अयुब, जहील जलील जहीर शब्बीर पुत्रगण खलील, मो०इसराइल शमद मो०रज्जाक पुत्रगण मो०इसमाइल, श्रीमती रईशा पत्नी स्व० मो० इसमाइल नि० ग्राम
				3349	निजी	कृषि	0.1058	अनवरी असगरी पुत्रगण मो० रजा, मो० इंद्रीश मो० कयूम मुस्ताक अहमद पुत्रगण अयुब, जहील जलील जहीर शब्बीर पुत्रगण खलील, मो०इसराइल शमद मो०रज्जाक पुत्रगण मो०इसमाइल, श्रीमती रईशा पत्नी स्व० मो० इसमाइल नि० ग्राम गायत्री सिंह पति रामबहादुर सिंह
				3347	सरकारी	तालाब	0.0797	उत्तर प्रदेश सरकार
				3346	निजी	कृषि	0.0609	अवधेश कुमार सिंह पुत्र उदयराज सिंह, रणजय सिंह पुत्र बृजराज सिंह, रवीन्द्र प्रताप सिंह वीरेन्द्र प्रताप सिंह सत्येन्द्र प्रताप सिंह पुत्रगण इन्द्रपाल सिंह, सूर्यनारायण सिंह हरिकेश सिंह केतक सिंह सुरेश कुमार सिंह राकेश कुमार सिंह पुत्रगण अमरपाल सिंह, लखराज सिंह राजेश्रवरी प्रसाद सिंह विजय पाल सिंह जयगोपाल सिंह पुत्रगण रामबहादुर सिंह, इन्द्रपाल सिंह पुत्र फतेहबहादुर सिंह नि० ग्राम जयप्रकाश सिंह राधेश्याम सिंह पुत्रगण अंगद सिंह दुलारी सिंह पति अंगद सिंह
				3345	सरकारी	नाला	0.0334	उत्तर प्रदेश शासन
				3344	निजी	कृषि	0.0897	फतेहबहादुर सिंह पुत्र कालू सिंह नि० ग्राम
				3343	निजी	कृषि	0.0270	राजकुमार पुत्र सीताराम नि० ग्राम
				3282 मि.	निजी	कृषि	0.0520	कृपाशंकर पुत्र जयनारायण नि० ग्राम
				3281	निजी	कृषि	0.0060	हनुमानदीन पुत्र रामसमुझ, रविशंकर गयाशंकर पुत्रगण संगम, जयशंकर ना०बा० 17 वर्ष पुत्र संगम संरक्षिका शान्तिदेवी माता, गंगा लल्लू पुत्रगण जमुना, प्रेमकिशोर पुत्र झरीहग उपनाम रामगुलाम नि०ग्राम
				3280	सरकारी	खाद के गड्डे	0.0251	उत्तर प्रदेश सरकार
				3276	सरकारी	चकमार्ग	0.0001	उत्तर प्रदेश सरकार
				3275	निजी	कृषि	0.0160	मोहम्मद असमल पुत्र हयात अहमद नि० ग्राम
				3274	निजी	कृषि	0.0205	सतीशकुमारसिंह पुत्र कृष्णबहादुरसिंह नि० ग्राम
				4675	निजी	कृषि	0.0433	पारसनाथ पुत्र परभू नि० ग्राम
				4677	सरकारी	बंजर	0.1196	उत्तर प्रदेश शासन
				4678	निजी	कृषि	0.1236	अशोककुमार दिनेशकुमार पुत्रगण रामलखन नि० ग्राम
				4845	सरकारी	बंजर	0.1614	उत्तर प्रदेश सरकार
				4846	निजी	कृषि	0.0063	सरोज सिंह पति सतीश चंद्र सिंह
				4853	निजी	कृषि	0.0085	सत्येन्द्रप्रकाश गुनेन्द्रप्रकाश भाष्करेन्द्रप्रकाश पुत्रगण राधेश्याम, शशिकुमार ललितकुमार अनिलकुमार सुशीलकुमार नितिनकुमार पुत्रगण राधौराम, प्रेमचन्द्र ईश्वरचन्द्र पुत्रगण रामदयाल, सुभाषचन्द्र विकासचन्द्र पुत्रगण त्रिभवनलाल, अविनेश सर्वेशकुमार पुत्रगण छोटेलाल, रामकृष्ण लाल पुत्र शिवसरनलाल नि० ग्राम सरोज सिंह पति सतीश चंद्र सिंह
				4854	सरकारी	बंजर	0.0695	उत्तर प्रदेश शासन
				4855	निजी	कृषि	0.0570	रामपाल गर्ग पिता गुरुप्रसाद नि. ग्राम
				4856	निजी	कृषि	0.0607	रामदुलार पुत्र छितानी, श्रीमती जयराजी पत्नी छितानी, आँकारनाथ देवनाथ पुत्रगण रामसुख नि० ग्राम
				4857	निजी	कृषि	0.0277	बृजेन्द्र प्रताप पाण्डे पिता राधेश्याम पाण्डे
				4858	निजी	कृषि	0.0221	बृजेन्द्रपाल दीपकपाल पुत्रगण हितलाल, कौशिल्या पत्नी स्व० हितलाल नि० ग्राम
				4859	निजी	कृषि	0.0295	जफरुला पति मो. समीर मु. जान पिता सलीम
				4860	निजी	कृषि	0.0086	रामदुलार रामकुमार पुत्रगण छितानी, श्रीमती जयराजी पत्नी छितानी नि० ग्राम, जैसराम पुत्र श्रीराम नि०

								बभनगंवा
			4861	निजी	कृषि	0.1140		रामसेवक पुत्र रामअधार, रामतीर्थ पुत्र रामप्रकाश नि० ग्राम
			4862	निजी	कृषि	0.0017		कल्पू पुत्र कगलू नि० ग्राम
			4865	निजी	कृषि	0.0302		अ०अजीद अ०मजीद अ०हलीम अ०जलील पुत्रगण महबूब, दिलावर पुत्र याकूब नि० ग्राम उदय प्रताप सिंह पिता ब्रजेश प्रताप सिंह
			4871	निजी	कृषि	0.0229		अ०अजीद अ०मजीद अ०हलीम अ०जलील पुत्रगण महबूब, दिलावर पुत्र याकूब नि० ग्राम
			4872	निजी	कृषि	0.0380		गजेन्द्रपालसिंह सुरेन्द्रपालसिंह राजेन्द्रपालसिंह अतुलपालसिंह ना. पुत्रगण मृत्युन्जयपाल सिंह स. पिता स्वयं नि० तेन्दुआ जि. बस्ती वारिदह, भदैया
			4873	निजी	कृषि	0.0228		प्रसिदनरायन कालीसहाय पुत्रगण शिवदत्त नि० भदैया, ओंकारनाथ केदारनाथ अमरनाथ पुत्र संकटा नि० ग्राम
			4876	निजी	कृषि	0.1446		लक्ष्मीनारायण उर्फ बल्ली पुत्र रमेश, ओमप्रकाश विजयप्रकाश पुत्रगण कामता, रामकेवल विश्वनाथ शिवनाथ पुत्रगण रमेश नि० ग्राम
			4877	निजी	कृषि	0.0380		ओंकारनाथ पुत्र महावीर, सुरेशचन्द्र पुत्र मुक्तनाथ, हरिश्चन्द्र प्रेमचन्द्र गुलाबचन्द्र पुत्रगण केदारनाथ नि० ग्राम
			4878	निजी	कृषि	0.0850		सीताराम राधेश्याम माताप्रसाद देवीप्रसाद भवानीप्रसाद रामसन्मुख पुत्रगण हरिनन्दन, रामविशाल पुत्र जगदम्बा, प्रसिद्धनारायण कालीसहाय पुत्रगण शिवदत्त, भगवतप्रसाद कामताप्रसाद पुत्रगण धर्मनारायण नि० ग्राम
			4879	निजी	कृषि	0.4343		दीपचन्द्र पुत्र ओंकारनाथ, इन्द्रावती देवी पत्नी जन्त्री प्रसाद, हरिनारायण हेमन्त कुमार पुत्रगण जयनारायण, विपिन कुमार नितिन कुमार पुत्रगण रामनारायण, रामखेलावन पुत्र रामदीन, रामहरख पुत्र भगवानदीन, छितानी पुत्र मथुरा, महदेई पत्नी स्व० रामपियारे, रामशिरोमणि दिलीप कुमार रामसजीवन पुत्रगण रामपियारे, मो०रऊफ मो० हारून पुत्रगण बबू अली नि० ग्राम
			4881	निजी	कृषि	0.1302		जन्त्री प्रसाद रमेश कुमार पुत्रगण विसराम, मालती पत्नी विसराम नि०ग्राम
			4882	सरकारी	चकमार्ग	0.0062		उत्तर प्रदेश सरकार
			4883	निजी	कृषि	0.0775		मो० मुस्लिम पुत्र घसीट, कृष्णचन्द्र पाण्डेय पुत्र गयाचन्द्र पाण्डेय नि० ग्राम
			4889	निजी	कृषि	0.0480		वृजेन्द्रपाल दीपकपाल पुत्रगण हितलाल, कौशिल्या पत्नी स्व०हितलाल नि० ग्राम
			4890	निजी	कृषि	0.1640		सुरेश कुमार रमेश कुमार पुत्रगण शिवाधार छोटेलाप पिता शारदा प्रसाद नि० पूरे नथऊ मजरा भदैयां
			4891	निजी	कृषि	0.0547		नन्हकू पुत्र नोहर नि०ग्राम
			4891 ख	निजी	कृषि			दयाराम गंगाप्रसाद पुत्रगण भागीरथी श्रीमती भूलरा पत्नी स्व०भागीरथी नि०ग्राम
			4892 क	निजी	कृषि	0.0475		सूरजदीन लहरी जगदीश बुधिराम पंचम पुत्रगण गिन्दूरी नि० ग्राम
			4892 नि.	निजी	कृषि			रामलोचन पुत्र उदई नि० ग्राम
			4892	निजी	कृषि			सूरजदीन पुत्र गिन्दूरी नि० ग्राम
			4893	निजी	कृषि	0.1221		सरजू प्रसाद पुत्र सत्यनारायण, रामचन्द्र कृष्णचन्द्र पुत्रगण गया प्रसाद नि० ग्राम
			4900	निजी	कृषि	0.1407		सरजू प्रसाद पुत्र सत्यनारायण, रामचन्द्र कृष्णचन्द्र पुत्रगण गया प्रसाद नि० ग्राम
			4901	निजी	कृषि	0.0933		रामअजोर सियाराम पुत्रगण बदाली नि० ग्राम
			4902	निजी	कृषि	0.0907		रामपियारे पुत्र बचई, जोखना पत्नी रामअधार, दुखी पुत्र सुखराज, बृजलाल रामनयन पुत्रगण भोरई नि० ग्राम
			4903	निजी	कृषि	0.0524		रामपियारे पुत्र बचई जोखना पत्नी रामअधार दुखी पुत्र सुखराज बृजलाल रामनयन पुत्रगण भोरई नि० ग्राम
			4906	निजी	कृषि	0.2144		सियाराम पुत्र बदाली, मनोजकुमार सुशीलकुमार दीपककुमार पुत्रगण रामअजोर, श्रीमती मीनाकुमारी पत्नी रामअजोर नि० ग्राम
			4907	निजी	कृषि	0.0258		रामहरख पुत्र भगवानदीन, रामखेलावन पुत्र रामदीन, राजमणि पुत्र रामप्यारे, श्रीमती पत्नी पत्नी रामअभिलाख नि० धनूपुर मजरे भदैया
			4908	निजी	कृषि	0.0449		रामहरख पुत्र भगवानदीन, रामखेलावन पुत्र रामदीन, राजमणि पुत्र रामप्यारे, श्रीमती पत्नी पत्नी रामअभिलाख नि० धनूपुर मजरे भदैया
			4909	सरकारी	नाला	0.0521		उत्तर प्रदेश शासन
			4910	निजी	कृषि	0.0060		रामहरख पुत्र भगवानदीन, रामखेलावन पुत्र रामदीन, गोपीचन्द्र पुत्र श्री रामसुन्दर नि० ग्राम
			योग			7.4331		

			(11) रहायकपुर	1	निजी	कृषि	0.2381	सुरेश कुमार, श्यामनरायन पुत्रगण रामपलट व वंशादेवी पत्नी रामपलट नि० ग्राम व देवनरायन, अवधेशनरायन पुत्रगण रामतवंकल नि० ग्राम व अभयनरायन पुत्र केदारनाथ नि० ग्राम व देवीप्रसाद, विजयनरायन, लालमणि, सुभाषचन्द्र पुत्रगण सभापति व श्रीमती देवमती पत्नी स्व० सभापति नि० ग्राम व दुर्गाप्रसाद पुत्र शोभनाथ नि० ग्राम व स्वामीनाथ पुत्र चन्दनी नि० ग्राम व भगवान प्रसाद राधेमणि, चन्द्रभान, अनिलकुमार पुत्रगण रामपियारे नि० ग्राम व श्रीमती समरुलनिशाँ पुत्री मु० इंद्रीश नि० ग्राम व अम्बिकाप्रसाद पुत्र अछैबर नि०ग्राम व श्रीमती तारादेवी पत्नी सुरेशकुमार नि० पूरेनथउ मजरे भदैया व श्रीमती चल्लीदेवी पत्नी जयराम मिश्र नि०पूरेनथऊ मजरे भदैया श्रीमती देवी पत्नी रामअकबाल नि० वैनी व राजपती पत्नी नन्दकिशोर नि० इलाहाबाद व राजनाथ, विपेन्द्रनाथ, देवेन्द्रनाथ पुत्रगण स्वामीनाथ व मु० लालदेई पत्नी स्वामीनाथ नि० ग्राम
				5	सरकारी	तालाब	0.0148	उत्तर प्रदेश सरकार
				6	निजी	कृषि	0.0003	देवनरायन, अवधेशनरायन पुत्रगण रामतवंकल नि० ग्राम व सभापति, उभयनरायन पुत्रगण केदारनाथ नि० ग्राम व भगवान प्रसाद, राधेमणि, चन्द्रभान, अनिलकुमार पुत्रगण राम पियारे नि० ग्राम व शोभनाथ पुत्र कालीचरन नि० ग्राम व स्वामीनाथ पुत्र चन्दनी नि० ग्राम व अम्बिका प्रसाद पुत्र अछैबर नि० ग्राम व सुरेशकुमार, श्यामनरायन पुत्रगण रामपलट व वंशादेवी पत्नी स्व० रामपलट नि० ग्राम व कैलाशनाथ, अरविन्दकुमार, पुत्रगण शम्भूनाथ व द्रोपती पत्नी शम्भूनाथ नि० ग्राम
				7	सरकारी	वन	0.0130	उत्तर प्रदेश सरकार
				8	निजी	कृषि	0.0045	रामउजागिर, राममिलन, रामभजन पुत्रगण भगवानदीन नि० ग्राम व देवतादीन पुत्र रामनाथ व श्रीमती अमृता पत्नी स्व० रामनाथ नि० ग्राम व जगन्नाथ पुत्र शिवधारी नि० ग्राम व रामदुलारे पुत्र रामविहारी नि० ग्राम व शिवकुमार व्यस्क. राजकुमार नाबा० 12 वर्ष पुत्रगण रामजतन व श्रीमती अनारा पत्नी स्व० रामजतन नि० ग्राम व कलावती पत्नी पूर्णमासी नि० मदारडीह व रामहिमांचल पुत्र रामसमुझ नि० ग्राम व रामअचल, रामधनी पुत्रगण विन्देश्वर नि० ग्राम व छोटकी पुत्र विशुनाथ नि० ग्राम व सीताराम पुत्र नगेशर नि० ग्राम व बरसाती यादव, वीरेन्द्रकुमार पुत्रगण रामअधार यादव नि० ग्राम
				221	निजी	कृषि	0.0085	रामआधार पुत्र शिवप्रसाद नि० ग्राम व रामसुन्दर पुत्र मलई नि० ग्राम व सन्तोषकुमार, अशोककुमार, अजयकुमार पुत्रगण रामहरख यादव नि० रहायकपुर
				222	निजी	कृषि	0.1208	राम सुन्दर पुत्र मलई नि० ग्राम व अमरबहादुर, विमलेशबहादुर पुत्रगण रघुराज सिंह नि० ग्राम
				224	निजी	कृषि	0.1648	रामआधार पुत्र शिवप्रसाद नि० ग्राम व रामसुन्दर पुत्र मलई नि०ग्राम व सन्तोषकुमार, अशोककुमार, अजयकुमार पुत्रगण रामहरख यादव नि० रहायकपुर
				225 क	निजी	कृषि	0.0896	रामयज्ञ,रामविशाल, रामअकबाल, राममूरत, रामसुन्दर पुत्रगण ठाकुरप्रसाद नि० ग्राम
				225 ख	निजी	कृषि		शीतला प्रसाद आत्मानन्द पुत्रगण दयाशंकर नि०शाहपुर हरिवंश व शिवराम, पारसनाथ पुत्रगण मेवालाल नि०मदनपुर
				226 ख	निजी	कृषि	0.0203	त्रिवेनीप्रसाद, जमुनाप्रसाद पुत्रगण बैजनाथ नि० ग्राम व देवनरायन, अवधेशनरायन पुत्रगण रामतवंकल नि० ग्राम व देवीप्रसाद, विजयनरायन, लालमणि, सुभाषचन्द्र पुत्रगण सभापति व देवमति पत्नी स्व० सभापति नि० ग्राम व अभयनरायन पुत्र केदारनाथ नि० ग्राम व भगवान प्रसाद राधेमणि चन्द्रभान अनिलकुमार पुत्रगण राम पियारे नि० ग्राम व अम्बिकाप्रसाद पुत्र अछैबर नि० ग्राम व स्वामी नाथ पुत्र चन्दनी नि० ग्राम व काली प्रसाद पुत्र ठाकुरदीन नि० सरैया व रामबहाल पुत्र रामनेवाज उर्फ भुलन पाण्डेय नि० वैनी व शिवसरन पाण्डेय पुत्र हरिराम पाण्डेय नि० वैनी व सुरेशकुमार, श्यामनरायन पुत्रगण रामपलट व वंशादेवी पत्नी रामपलट नि० ग्राम व राजनाथ विपेन्द्रनाथ देवेन्द्रनाथ पुत्रगण स्वामीनाथ व मु० लालदेई पत्नी स्वामीनाथ नि० ग्राम
				226 ब	निजी	कृषि		अम्बिकाप्रसाद पुत्र अछैबर नि० ग्राम व देवनरायन, अवधेशनरायन पुत्रगण रामतवंकल नि० ग्राम व देवीप्रसाद, विजयनरायन, लालमणि, सुभाष चन्द्र पुत्रगण सभापति व देवमति पत्नी स्व० सभापति नि० ग्राम व अभयनरायन पुत्र केदारनाथ नि० ग्राम व

							स्वामीनाथ पुत्र चन्दनी नि० ग्राम व श्रीमति कुशलावती देवी पत्नी राममिलन नि० ग्राम व श्रीमति केशरी बेगम पत्नी अब्दुल कादिर नि० सरैया व काली प्रसाद पुत्र ठाकुरदीन नि० सरैया व भगवान प्रसाद, राधेमणि, चन्द्रभान, अनिलकुमार पुत्रगण राम पियारे नि० सरैया व रामबहाल पुत्र रामनेवाज उर्फ मुलन पाण्डेय नि० बैनी व शिवसरन पाण्डेय पुत्र हरिराम पाण्डेय नि० बैनी व शान्तीदेवी पत्नी श्यामनरायन मिश्र नि० ग्राम व सुरेशकुमार, श्यामनरायन, राजनाथ पुत्रगण रामपलट व वंशादेवी पत्नी रामपलट नि० ग्राम व विपेन्द्रनाथ, देवेन्द्रनाथ पुत्रगण स्वामीनाथ व लालदेई पत्नी स्वामीनाथ नि० ग्राम
			228 क	निजी	कृषि	0.0505	रामयज्ञ,रामविशाल, रामअकबाल, राममूरत, रामसुन्दर पुत्रगण ठाकुरप्रसाद नि० ग्राम
			228 ख	निजी	कृषि		शीतलाप्रसाद पुत्र दयाशंकर नि०शाहपुर हरिवंश व पारसनाथ पुत्र मेवालाल नि०मदनपुर
			234	निजी	कृषि	0.0105	हरिहरनाथ पुत्र सत्यनरायन नि० ग्राम व रामहिमाचल पुत्र रामसमुझ नि० ग्राम व रामकलप, रामअचल पुत्रगण शम्भू व छेदीलाल, श्यामलाल, शमशेर, पुत्रगण गंगादीन व पारसनाथ, रामलौट, रामकेवल पुत्रगण रामखेलावन नि० ग्राम व राजमनि, इन्द्रमनि पुत्रगण रामप्रमोद नि० ग्राम व रामबहाल, रामसरन पुत्रगण रामदुलारे नि० ग्राम व रामकुमार, सुरेशकुमार, रमेशकुमार पुत्रगण रामकिशोर व लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व० रामकिशोर नि० ग्राम व सुनील, प्रदीप, हरिशंकर, सोनू, जितेन्द्र पुत्रगण रामअवध व बसन्तादेवी पत्नी स्व०रामअवध नि० ग्राम व राधेमणि, अमरनाथ, रणजीत बहादुर पुत्रगण लालताप्रसाद मिश्र नि० ग्राम छेदीलाल श्यामलाल शमसेर पुत्रगण गंगादीन
			योग			<b>0.7357</b>	
		(12) बैदौली	115	निजी	कृषि	0.0036	राजकरन पुत्र रामनरेश, अवधेशनरायन दिनेशनरायन रमेशकुमार राजेशकुमार पुत्रगण रामकरन, श्रीमती विमलादेवी पत्नी रामकरन, कमलेश नारायन सुरेश चन्द्र पुत्रगण राजकरन नि० मदनपुर पनियार, रायसाहब सिंह पुत्र दानबहादुर सिंह नि० शिवगढ
			119	निजी	कृषि	0.0055	करमअली इस्लाम अली पुत्रगण महबूब अली नि० मदनपुर पनियार
			120	निजी	कृषि	0.0036	करमअली इस्लाम अली पुत्रगण महबूब अली नि० मदनपुर पनियार
			196	सरकारी	रास्ता	0.0052	उत्तर प्रदेश सरकार
			197	निजी	कृषि	0.0106	भागीरथी पुत्र भवानीभीख, अजय कुमार पुत्र भगवानदत्त, इसराजी पत्नी भगवानदत्त नि० बैनी
			204	निजी	कृषि	0.0090	कृष्ण प्रताप राम प्रताप पुत्रगण कुज बिहारी, राधौराम सालिकराम हृदयराम पुत्रगण त्रिभुवन दत्त, राम प्रताप रामधीर पुत्रगण केदार, भागीरथी पत्नी भवानीभीख, माताफेर नारायन चन्द्रबली पुत्रगण बोडई नि० बैनी, अजय कुमार पुत्र भगवानदत्त, इसराजी पत्नी भगवानदत्त, राम बहाल पुत्र राम नेवाज उर्फ भूलन नि० ग्राम
			205	सरकारी	नवीन परती	0.0061	उत्तर प्रदेश सरकार
			206	सरकारी	चकरोड	0.0055	उत्तर प्रदेश सरकार
			207	निजी	कृषि	0.0485	राधेमणि अमरनाथ रणजीतबहादुर पुत्रगण लालताप्रसाद नि० रहायकपुर
			208	सरकारी	चकरोड	0.0077	उत्तर प्रदेश सरकार
			209	निजी	कृषि	0.0150	विनोद शरद कृष्णा पुत्रगण रामअचल, श्रीमति शान्तीदेवी पत्नी स्व० रामअचल नि० रहायकपुर
			210	निजी	कृषि	0.0085	रामकलप पुत्र मग्गू नि० रहायकपुर
			211	निजी	कृषि	0.0130	नवलकिशोर मिश्र पुत्र श्रीनाथ मिश्र नि० मदनपुर पनियार
			213	निजी	कृषि	0.0130	छेदीलाल पुत्र गंगादीन, नवल किशोर पुत्र श्रीनाथ नि० मदनपुर पनियार
			214	निजी	कृषि	0.0160	सुनील प्रदीप बा० हरिशंकर सोनू जितेन्द्र नाबा० उम्र 17, 14, 10 वर्ष पुत्रगण रामअवध संरक्षिका श्रीमति बसन्ता माता, श्रीमती बसन्ता पत्नी स्व० रामअवध नि० रहायकपुर
			217	निजी	कृषि	0.0180	राम लौट पुत्र राम खेलावन नि० रहायकपुर
			218	निजी	कृषि	0.0170	पारसनाथ पुत्र रामखेलावन नि० रहायकपुर, श्रीमती दुर्गावती पत्नी भगौतीप्रसाद पाण्डेय नि० बैनी
			219	निजी	कृषि	0.0205	अच्छेलाल दुर्गाप्रसाद पुत्रगण रामफेर नि० मदनपुर पनियार
			220	निजी	कृषि	0.0216	अच्छेलाल दुर्गाप्रसाद पुत्रगण रामफेर नि० मदनपुर पनियार

			221	निजी	कृषि	0.0886	मेवालाल छोटेलाल पुत्रगण जगन्नाथ, श्रीमती जगवन्ती पत्नी स्व० जगन्नाथ नि० मदनपुर पनियार
			222	सरकारी	चकरोड	0.0064	उत्तर प्रदेश सरकार
			243	निजी	कृषि	0.0200	देवीप्रसाद विजयनारायन लालमणि सुभाषचन्द्र पुत्रगण समापति, श्रीमती देवमती पत्नी स्व० समापति नि० मदनपुरपनियार
			244	निजी	कृषि	0.0035	राम अछैवर पुत्र काली चरन नि० रहायकपुर दुर्गाप्रसाद पिता शोभनाथ
			260	निजी	कृषि	0.0008	सै. मुजतबा अली पुत्र रहम अली नि० मदनपुर पनियार
			261	निजी	कृषि	0.0072	मुशीरअहमद महमुदुल हसन पुत्रगण मो० तकी, लइकअहमद खलीलअहमद पुत्रगण अकील अहमद नि० मदनपुर पनियार, शबीहुलहसन पत्नी मो० तकी नि० ग्राम
			267	सरकारी	रास्ता	0.0008	उत्तर प्रदेश सरकार
			268	निजी	कृषि	0.0009	शिवकुमार पिता रामसिरोमणि नि. ग्राम
			269	निजी	कृषि	0.0006	नवोसिस अली पुत्र मोहम्मद अली नि० मदनपुर पनियार
			योग			0.3767	
		(13) मदनपुर पनियार	867/1170	सरकारी	नवीन परती	0.0048	उत्तर प्रदेश सरकार
			867	निजी	कृषि	0.0086	रामतीरथ रामउजागिर रामदुलार पुत्रगण राम अछैवर नि० ग्राम
			868	निजी	कृषि	0.0152	रामशिरोमणि पुत्र रामनेवाज नि० सरैया, मुनीम निरंजनलाल पुत्रगण रामप्रताप, संजयसिंह राजनसिंह पुत्रगण हनुमान प्रसाद, शिवम सिंह नाबा० 12 वर्ष पुत्र श्यामसिंह संरक्षिका अमरावती माता, अमरावती पत्नी श्यामसिंह, राधेश्याम उदयप्रताप पुत्रगण तेज बहादुर नि० ग्राम, श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी राजेन्द्रप्रसाद नि० सरैया, श्रीमती मिथिलेश सिंह पत्नी रामकरनसिंह, राजेन्द्रप्रसाद पुत्र गंगाप्रसाद, श्रीमती निर्मला मिश्रा पत्नी रमेशकुमार मिश्रा नि० ग्राम
			869	निजी	कृषि	0.0593	रामसुमेर पुत्र बुधई नि० ग्राम
			870	सरकारी	चकमार्ग	0.0015	उत्तर प्रदेश सरकार
			887	निजी	कृषि	0.0239	सगीर अहमद अजीम अ० पुत्रगण सिराजुलहक, मो० मुसतकीम. मो० मुर्सलीन पुत्रगण समीउल्ला नि० ग्राम
			888	निजी	कृषि	0.0142	श्रीमती अनारादेवी पत्नी जगतपाल नि० ग्राम
			889	निजी	कृषि	0.0115	सोहनलाल पुत्र रामकेशोर, उर्मिला पत्नी स्व० मोहनलाल, सलोनी शिवानी शिवांगी पुत्रीगण मोहनलाल सं० माता उर्मिला
			890	निजी	कृषि	0.0185	लियाकतअली पुत्र वारिसअली नि० ग्राम
			891	सरकारी	रास्ता	0.0012	उत्तर प्रदेश सरकार
			892	निजी	कृषि	0.0141	समझावन पुत्र अवतार नि० ग्राम
			893	निजी	कृषि	0.0036	केवलप्रसाद पुत्र जगन्नाथ, राजपति पुत्र केवलप्रसाद, प्रासिद्धनारायण पुत्र रामहरख, देवमणि लालमणि चन्द्रमणि पुत्रगण माताफेर, माताप्रसाद पुत्र चन्दीप्रसाद नि०ग्राम
			894	निजी	कृषि	0.0114	रामप्रसाद रामनेवाज पुत्रगण माधव, अशोक कुमार मनोजकुमार सुरेशकुमार पुत्रगण रामदीन नि० ग्राम
			927	सरकारी	नाली	0.0146	उत्तर प्रदेश सरकार
			929	निजी	कृषि	0.0347	चंद्रशेखर पुत्र महादेव, अवनीश कुमार पुत्र घनश्याम तिवारी, विन्देश्वरी सहाय पुत्र राम अंजोर, गौरीशंकर पुत्र राधेश्याम नि० ग्राम
			931	निजी	कृषि	0.0715	कृषणचंद चन्द्रशेखर पुत्रगण महादेव, रामअकबाल लालमणि राजमणि पुत्रगण रामचन्द्र, त्रिलोकी पुत्र रामउदित, राधेश्याम पुत्र महादेव नि० ग्राम
			932	सरकारी	नवीन परती	0.0777	उत्तर प्रदेश सरकार
			1054	निजी	कृषि	0.0093	रामतीरथ रामउजागिर रामदुलार पुत्रगण राम अछैवर नि० ग्राम
			1052	निजी	कृषि	0.0342	मेवालाल मुन्नालाल पुत्रगण बरसाती, गंगाराम भगौतीदीन भुलेसर मुन्नेलाल पुत्रगण स्व० भरोस, नीमर दूबर पुत्रगण जिबोध, राधेश्याम आनन्दकुमार पुत्रगण सरजूप्रसाद, श्रीमती मनोरमा पत्नी सरजूप्रसाद नि० ग्राम
			1049	सरकारी	चकमार्ग	0.0018	उत्तर प्रदेश सरकार
			1048	निजी	कृषि	0.0157	रामअजोर पुत्र भोला, प्रमोद कुमार विनोद कुमार संतोष कुमार पुत्रगण सन्तू, श्रीमती केवला देवी पत्नी सन्तू नि० ग्राम
			1046	निजी	कृषि	0.0016	देवीप्रसाद पुत्र गजाधर नि० ग्राम
			1045 ख	निजी	कृषि	0.0177	देवीप्रसाद पुत्र गजाधर नि० ग्राम
			1045 क	निजी	कृषि		प्रसिद्ध नारायण पुत्र रामहरख, देवमणि लालमणि चन्द्रमणि पुत्रगण माताफेर नि० ग्राम

			1045 क	निजी	कृषि		प्रसिद्ध नरायण पुत्र रामहरख, देवमणि लालमणि चन्द्रमणि पुत्रगण माताफेर नि० ग्राम
			1001	निजी	कृषि	0.0130	धर्मराज ब्रजराज रामप्रताप पुत्रगण गयाप्रसाद, सत्येन्द्र नीरज दीपक पुत्रगण रामराज नि० ग्राम
			1010	निजी	कृषि	0.0111	रामप्रसाद रामनेवाज पुत्रगण माधव, अशोक कुमार मनोजकुमार सुरेशकुमार पुत्रगण रामदीन नि० ग्राम
			1005 ख	सरकारी	आबादी	0.0060	उत्तर प्रदेश सरकार
			1005 क	सरकारी	आबादी	0.0588	उत्तर प्रदेश सरकार
			1006	निजी	कृषि	0.0172	रामप्रसाद रामनेवाज पुत्रगण माधव, अशोक कुमार मनोजकुमार सुरेशकुमार पुत्रगण रामदीन नि० ग्राम
			986	सरकारी	आबादी	0.0275	उत्तर प्रदेश सरकार
			985	सरकारी	आबादी	0.0219	उत्तर प्रदेश सरकार
			984	निजी	कृषि	0.0333	हरिहरप्रसाद हौसिलाप्रसाद पुत्रगण द्वारिकाप्रसाद, भगवतप्रसाद पुत्र गयादीन, दूधनाथ रामअभिलाख पुत्रगण रामलखन, शिवमंगल पुत्र रामसहाय, हीरावती पत्नी रामसहाय नि० ग्राम
			983	निजी	कृषि	0.0813	केवलप्रसाद पुत्र जगन्नाथ, राजपति पुत्र केवलप्रसाद, प्रसिद्धनरायण पुत्र रामहरख, देवमणि लालमणि चन्द्रमणि पुत्रगण माताफेर, माताप्रसाद पुत्र चंदीप्रसाद नि०ग्राम
			976	निजी	कृषि	0.0179	राअभिलाख रामअचल रामशबद पुत्रगण रामनेवाज, जोखनलाल सुनीलकुमार पुत्रगण रामनरेश, रामपत्नी पत्नी रामनेवाज, राममिलन पुत्र सन्तराम, इसराजी पत्नी सन्तराम नि० सरैया, रामफेर रामउजागिर पुत्रगण फोदी, श्रीमती जग्गी बेवा पत्नी फोदी नि० ग्राम
			975	निजी	कृषि	0.0190	वन्डी पुत्र झुरिहा नि० ग्राम
			974	निजी	कृषि	0.0440	कृष्णचंद चन्द्रशेखर पुत्रगण महादेव, रामअकबाल लालमणि राजमणि पुत्रगण रामचन्द्र, महदेई पुत्र गंगाचरन, राधेश्याम पुत्र महादेव, राममिलन पुत्र सन्तराम, इसराजी पत्नी सन्तराम नि० सरैया
			973	निजी	कृषि	0.0703	कृष्णचंद चन्द्रशेखर पुत्रगण महादेव, रामअकबाल लालमणि राजमणि पुत्रगण रामचन्द्र, महदेई पुत्र गंगाचरन, राधेश्याम पुत्र महादेव, राममिलन पुत्र सन्तराम, इसराजी पत्नी सन्तराम नि० सरैया
			972	निजी	कृषि	0.0780	रमेशचन्द्र पुत्र रामअछैबर, अरविन्दकुमार पुत्र कमलेशचन्द्र श्रीमती सुशीला पत्नी कमलेशचन्द्र, दिनेशचन्द्र सुरेशचन्द्र पुत्रगण रामशंकर, दुर्गावती पत्नी रामशंकर नि० ग्राम
			971	निजी	कृषि	0.0220	दूधनाथ रामअभिलाख पुत्रगण रामलखन, शिवमंगल पुत्र रामसहाय, हीरावती देवी पत्नी रामसहाय नि० ग्राम
			968	निजी	कृषि	0.0005	केवलप्रसाद पुत्र जगन्नाथ, राजपति पुत्र केवलप्रसाद, प्रसिद्धनरायण पुत्र रामहरख, देवमणि लालमणि चन्द्रमणि पुत्रगण माताफेर, माताप्रसाद पुत्र चंदीप्रसाद नि०ग्राम
			967 क	निजी	कृषि	0.0464	राजकिशोर पुत्र गायत्रीप्रसाद, पारसनाथ अशोककुमार त्रिभुवनदत्त पुत्रगण बदीप्रसाद, जगदीश श्रीनाथ पुत्रगण ठाकुरप्रसाद, श्यामनरायण पुत्र विस्वनाथ नि० ग्राम
			967 क	निजी	कृषि		रामचन्द्र पुत्र रामयज्ञ, पारसनाथ अशोककुमार त्रिभुवनदत्त पुत्रगण बदीप्रसाद, जगदीश श्रीनाथ पुत्रगण ठाकुरप्रसाद, श्यामनरायण पुत्र विश्वनाथ, माताप्रसाद राजकिशोर पुत्रगण रामदुलार, पती पत्नी राजपति नि० ग्राम
			966	निजी	कृषि	0.0527	श्यामनरायण लल्लूप्रसाद पुत्रगण रामअभिलाख, श्रीमती सुषमा पत्नी स्व० अजयनरायण, मनोजकुमार विनोदकुमार अतुलकुमार पुत्रगण रामअभिलाख, चन्द्रमणि नाबा० 11 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद संरक्षिका गीता देवी, गीता देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद नि० ग्राम
			965 क	निजी	कृषि	0.0380	राजकिशोर पुत्र गायत्रीप्रसाद, पारसनाथ अशोककुमार त्रिभुवनदत्त पुत्रगण बदीप्रसाद, जगदीशप्रसाद श्रीनाथ पुत्रगण ठाकुरप्रसाद, श्यामनरायण पुत्र विस्वनाथ नि० ग्राम
			965 ख	निजी	कृषि		रामचन्द्र पुत्र रामयज्ञ, पारसनाथ अशोककुमार त्रिभुवनदत्त पुत्रगण बदीप्रसाद, जगदीश श्रीनाथ पुत्रगण ठाकुरप्रसाद, श्यामनरायण पुत्र विश्वनाथ, माताप्रसाद राजकिशोर पुत्रगण रामदुलार, पती पत्नी राजपति नि० ग्राम
			964	सरकारी	तालाब	0.3147	उत्तर प्रदेश सरकार
			963	निजी	कृषि	0.2059	माताचरन राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण रमेश, भगौतीप्रसाद कृष्णभगवान नरेन्द्रप्रसाद पुत्रगण द्वारिका, सिंधारीदेवी पत्नी भगौतीप्रसाद नि० ग्राम
			962	निजी	कृषि	0.0130	राजेन्द्रप्रसाद पुत्र सहदेव नि० परसरामपुर



			योग			<b>1.6593</b>	
	(14) मुरली	186	सरकारी	गैर कृषि		0.0815	उत्तर प्रदेश सरकार
		187	निजी	कृषि		0.1534	नरसिंहनारायण पुत्र रामचन्द्र नि0ग्राम
		194	सरकारी	तालाब		0.0724	उत्तर प्रदेश सरकार
		191	सरकारी	सड़के		0.0486	उत्तर प्रदेश सरकार
		189	निजी	कृषि		0.1317	राजेंद्रप्रसाद पुत्र सहदेव नि0 परसरामपुर
		190 क	निजी	कृषि		0.3610	रामसूरत पुत्र कलपनाथ, बृजलाल दत्तक पुत्र बासदेव, रामसजीवन रामदयाल पुत्रगण जगदेव, रामअवध दत्तक पुत्र रामनरेश, रामकिशोर पुत्र भगौतीदीन, रामनिहोर पुत्र महावीर, सच्चिदानन्द राधेकृष्ण कृष्णमोहन राममोहन पुत्रगण राजपति, हीरावती पत्नी स्व0 ईश्वरचन्द, रामजनक पुत्र जमुना प्रसाद, राअभिलाख रामअकबाल पुत्रगण अद्याप्रसाद, रामनिहोर पुत्र महावीर, रामकिशोर पुत्र भगौती दीन नि0 ग्राम मु0 अवधराजी पत्नी देवव्रत नि0 जैसिंहपुर
		190 ख	निजी	कृषि		0.2734	भोलानाथ पुत्र रामजग, चिन्तामणि पुत्र रामदिनेश नि0 ग्राम, श्रीमती राजदेई पत्नी माता प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद देवेन्द्र प्रसाद पुत्रगण रामसुजन, शान्ति पत्नी स्व0 रामसुजन, सुरेशचन्द्र रमेशचन्द्र उमेशचन्द्र पुत्रगण माताचरन नि0 डकाही, चन्द्रावती पत्नी माताचरन नि0 मदनपुर, सरजू देवी पत्नी महाराजदीन यादव नि0भेटौरा, कृष्णानन्द कृष्णमोहन राधेकृष्ण पुत्रगण रामपियार, श्रीमती सुगनादेवी पत्नी स्व0 रामपियार नि0ग्राम
		343	निजी	कृषि		0.2665	रामचन्द्र रामजीत बिश्वनथ पुत्रगण रामकलप, रमाशंकर पुत्र रामहित, लवकुश नाबा0 12 वर्ष पुत्र उमाशंकर संरक्षिका अमरावती माता अमरावती पत्नी स्व0उमाशंकर नि0ग्राम
	योग					<b>1.3885</b>	
	(15) विकहर	112 क	निजी	अकृषिक		0.0310	रामसूरत पुत्र कलपनाथ, रामचरन रामवरन रमाशंकर दयाशंकर कृपाशंकर पुत्रगण रामकिशोर नि0मुरली
		112 ख	निजी	अकृषिक			रामसूरत पुत्र कलपनाथ, रामचरन रामवरन रमाशंकर दयाशंकर कृपाशंकर पुत्रगण रामकिशोर नि0मुरली
		113	सरकारी	आबादी		0.0290	उत्तर प्रदेश सरकार
		114	सरकारी	नहर		0.0290	उत्तर प्रदेश सरकार
		115	निजी	कृषि		0.3550	राजाराम पुत्र मेंडई, जगई पुत्र पाचू, रामदुलार पुत्र बाबूलाल नि0रामपुर, देवीप्रसाद पुत्र ठाकुरदीन नि0 बिकहर, अजयकुमार रमेशकुमार सन्तराम पुत्र शिवराज, श्रीमती सावित्री देवी पत्नी रामलाल गुप्ता, श्रीमती फूलकुमारी पत्नी श्यामलाल गुप्ता, श्रीमती गंगादेवी पत्नी बद्रीदीन नि0 रायपुर, राममूरति रामसूरति पुत्रगण मंगरू प्रसाद नि0मदनपुर पनियार, श्रीमती विनीता देवी पत्नी रामप्रकाश धूरिया नि0 सरायजुआर मंजू देवी राकेश कुमार यादव सीता देवी पति रामसेवक यादव रामसुमेर पिता मोहन धुरिया आमप्रकाश पाण्डे ललन प्रसाद पाण्डे पुत्रगण रामदीन पाण्डे कमला देवी पति माकेदार यादव सुशीला देवी पति दिनेश चंद्र पाण्डे रामसुख ब्रजेश पु.गण मोतीलाल रामपति पति मोतीलाल श्रीराम रामतीर्थ सीताराम पिता सेतुराम सुरजा देवी पति सेतुराम आशा देवी पति कमलाशंकर
		62	सरकारी	चकरोड		0.0082	उत्तर प्रदेश सरकार
		63 अ	निजी	कृषि		0.0159	लालताप्रसाद पुत्र सुदामा नि मुरली
		63 ब	निजी	कृषि		0.0173	लालताप्रसाद पुत्र सुदामा नि मुरली
		64	निजी	कृषि		0.0220	मिठदू पुत्र दिनई, अछैवर रामबरन जोखू पुत्रगण फुलेसर, गंगादेई पत्नी फुलेसर नि0ग्राम
		65	निजी	अकृषिक		0.0440	मिठदू पुत्र दिनई, अछैवर रामबरन जोखू पुत्रगण फुलेसर, गंगादेई पत्नी फुलेसर, रामसुमेर बुद्धिराम सिद्धराम श्रवणकुमार रामकिशुन पुत्रगण माताबदल, श्रीराम पुत्र भागीरथी, मु0 पावती पत्नी भागीरथी नि0ग्राम
		73	निजी	कृषि		0.1654	रामसजीवन रामदयाल पुत्रगण जगदेव नि0मुरली
		74	निजी	कृषि		0.2194	रामजियावन पुत्र राजदेव नि0मुरली
		78 अ	निजी	कृषि		0.0845	लालमणि कृष्णमणि पुत्रगण रामलखन, अनारकली पत्नी रामलखन नि0मुरली
		78 ब	निजी	कृषि			लालमणि कृष्णमणि पुत्रगण रामलखन, अनारकली पत्नी रामलखन नि0मुरली
		79 अ	निजी	कृषि		0.0692	रामसुरेमन पुत्र रामदिहल नि0मुरली
		79 ब	निजी	कृषि			रामसुरेमन पुत्र रामदिहल नि0मुरली
		80	सरकारी	चकरोड		0.0070	उत्तर प्रदेश सरकार
		85	निजी	कृषि		0.1089	सच्चिदानन्द राधेकृष्ण कृष्णमोहन राममोहन पुत्रगण राजपति, हीरावती पत्नी ईश्वरचन्द, रामसूरत पुत्र कलपनाथ नि0मुरली

			86	निजी	कृषि	0.1142	इन्द्रजीत पुत्र रामनेवाज, श्रीमती कटोरादेवी पत्नी स्व०रामनेवाज, साधु पुत्र भगेलू नि०ग्राम
			90	सरकारी	नवीन परती	0.0370	उत्तर प्रदेश सरकार
			91	सरकारी	आबादी	0.0344	उत्तर प्रदेश सरकार
			92 क	निजी	कृषि	0.0412	मिटठू पुत्र दिनेई, अछैबर रामबरन जोखू पुत्रगण फुलेसर, गंगादेई पत्नी फुलेसर नि०ग्राम
			92 ग	सरकारी	नवीन परती		उत्तर प्रदेश सरकार
			93	सरकारी	आबादी	0.0340	उत्तर प्रदेश सरकार
			95	सरकारी	नहर	0.0615	उत्तर प्रदेश सरकार
			96	निजी	कृषि	0.0911	मिटठू पुत्र दिनेई, अछैबर रामबरन जोखू पुत्रगण फुलेसर, गंगादेई पत्नी फुलेसर नि०ग्राम
			110	सरकारी	नाली	0.0130	उत्तर प्रदेश सरकार
			109	निजी	अकृषिक	0.1834	रामसूरत पुत्र कलपनाथ नि०मुरली
			108	निजी	अकृषिक	0.1557	हरीश पुत्र राममूर्ति नि०छापर, शोभावती पत्नी नरसिंहनरायन नि०मुरली लालजी जायसवाल माता प्रसाद जायसवाल
			117	सरकारी	चकरोड	0.0055	उत्तर प्रदेश सरकार
			118 अ	निजी	कृषि	0.1314	बुधिराम सिधिराम श्रवनकुमार पुत्रगण रामकिशुन नि०ग्राम
			118 ब	निजी	कृषि		बुधिराम सिधिराम श्रवनकुमार पुत्रगण रामकिशुन नि०ग्राम
			119 अ	निजी	कृषि	0.0517	श्रीराम पुत्र भागीरथी, मु०पार्वतीदेवी पत्नी भागीरथी नि०ग्राम
			119 ब	निजी	कृषि		श्रीराम पुत्र भागीरथी, मु०पार्वतीदेवी पत्नी भागीरथी नि०ग्राम
			120	निजी	कृषि	0.0675	जोखू पुत्र फुलेसर, मिठू पुत्र दिनेई नि०ग्राम
			121	निजी	कृषि	0.1778	अछैबर पुत्र फुलेसर नि०ग्राम
			योग			2.6118	
		(16) डकाही	190	सरकारी	नाली	0.0046	उत्तर प्रदेश शासन
			198	निजी	कृषि	0.0985	रामचंद्र रामजीत विश्वनाथ पुत्रगण कल्पनाथ, रमाशंकर पुत्र रामहित, लवकुश पुत्र उमाशंकर नि० ग्राम
			202	निजी	कृषि	0.0640	रामचंद्र रामजीत विश्वनाथ पुत्रगण कल्पनाथ नि०ग्राम
			204	सरकारी	नाली	0.0121	उत्तर प्रदेश शासन
			205	सरकारी	नवीन परती	0.0201	उत्तर प्रदेश शासन
			206	निजी	कृषि	0.0276	हौसिला राममिलन रामतीरथ पुत्रगण मंगरू नि० मुरली
			207	सरकारी	सडकें	0.0958	उत्तर प्रदेश शासन
			208	निजी	कृषि	0.0218	रामपियारे रामसागर श्यामसागर पुत्रगण वीपति नि० मुरली
			209	निजी	कृषि	0.0145	निर्मलादेवी पत्नी रामसुख, हरखाली गोपाल खेलाडी पुत्रगण रामदीन नि० मुरली
			212	निजी	कृषि	0.0417	रामदयाल निरहू पुत्र दासी नि० मुरली
			213	निजी	कृषि	0.0627	बुधू गंगाराम अयोध्या पुत्रगण खेलावन नि० मुरली
			214	निजी	कृषि	0.0643	रामहुकुम पुत्र सम्पति, रामचरन पुत्र लफूदी नि० चौकिया, दुलारी नन्हका रेशमा पुत्रीगण किसुन नि० डकाही, जदुराम पुत्र गयादीन नि० जखनीकलां, शेरबहादुर पुत्र रामकुमार, जितेंद्रकुमार ना०बा० उम्र०१३वर्ष पुत्र रामकुमार संरक्षिका विद्यादेवी माता, विद्यादेवी पत्नी रामकुमार नि०ग्राम
			215	सरकारी	चकमार्ग	0.0076	उत्तर प्रदेश शासन
			218	निजी	कृषि	0.2360	रमाशंकर पुत्र रामहित, लवकुश पुत्र उमाशंकर नि० ग्राम
			219	सरकारी	रास्ता	0.0347	उत्तर प्रदेश शासन
			220	निजी	कृषि	0.3210	रामतीरथ रामसूरत पुत्रगण रामकुमार, रामराज पुत्र खेमई नि०ग्राम, इसराजी पत्नी रामकुमार, विजयप्रताप वर्मा पुत्र रामकल्प नि०ग्राम, रामअवध अजयकुमार पुत्रगण रामनरेश नि०परसरामपुर, बचईराम पुत्र श्रीराम नि०धारपुर, श्रीमती निर्मला देवी पत्नी रामगोपाल नि०अतरसुमा पर०बरोसा तह०सदर, मखनलाल सूर्यलाल बाबूराम नन्दलाल शिवराम पुत्रगण रामदयाल नि०गारवपुर ममता बरनवाल पति सतीश कुमार बरनवाल
			221	निजी	कृषि	0.0717	रामसुधार पूदन पुत्र भगल नि०ग्राम, कमलादेवी पत्नी रमई पाल नि० पिलखिनी
			222	सरकारी	नाली	0.0165	उत्तर प्रदेश शासन
			223	निजी	कृषि	0.3552	रामसुधार पूदन पुत्र भगल नि०ग्राम
			224	निजी	कृषि	0.1450	रामबक्श पुत्र रामहरख नि० सेमरीराजापुर
			225	निजी	कृषि	0.1488	रामदीन लालजी हरीश चन्द्र छोटेला रतनलाल पुत्रगण रामगुलाब नि० सेमरीराजापुर, रबी नाबा० उम्र १०वर्ष पुत्र प्यारेलाल सं० जिलाधिकारी सुलतानपुर नि०

								ग्राम
			226	निजी	कृषि	0.1533		रामजस पुत्र रामदेव नि० सेमरीराजपुर, दिनेशकुमार सुरेशकुमार अशोक कुमार हितेश कुमार पुत्रगण फूलचन्द्र, केवलादेवी पत्नी फूलचन्द्र नि०ग्राम
			227	निजी	कृषि	0.1016		सैयद पुत्र रहमत नि० सेमरी
			228	निजी	कृषि	0.1049		जमुनाप्रसाद बृजलाल नन्हकू पुत्रगण रामदुलार नि० सम्भुआ
			229	निजी	कृषि	0.0220		जमुनाप्रसाद बृजलाल नन्हकू पुत्रगण रामदुलार नि० सम्भुआ
			230	निजी	कृषि	0.0204		जमुनाप्रसाद बृजलाल नन्हकू पुत्रगण रामदुलार नि० लम्भुआ
			232	निजी	कृषि	0.0002		विधानन्द पुत्र धनपति नि०ग्राम
			233	निजी	कृषि	0.0120		हरीनारायन श्रीनारायन तारकेश्वर पुत्रगण पारसनाथ नि०ग्राम
			234	निजी	कृषि	0.0303		हरीनारायन श्रीनारायन तारकेश्वर पुत्रगण पारसनाथ नि०ग्राम
			235	निजी	कृषि	0.0143		गीता पत्नी भोलानाथ नि० लम्भुआ
			236	निजी	कृषि	0.0246		भोलानाथ पुत्र धनपति नि० लम्भुआ
			237	सरकारी	नाली	0.0203		उत्तर प्रदेश शासन
			238	निजी	कृषि	0.1200		राधाकान्त पत्नी बंदी नि० लम्भुआ
			239	निजी	कृषि	0.0220		जगन्नाथ पुत्र बंदी नि० लम्भुआ
			240	निजी	कृषि	0.0103		जगदीश पुत्र बंदी नि०लम्भुआ
			243	सरकारी	चकमार्ग	0.0299		उत्तर प्रदेश शासन
			172	निजी	कृषि	0.1079		अशोक कुमार विजय कुमार राजेश कुमार पुत्रगण रामजी नि० लम्भुआ विजया देवी पति रमेश कुमार शांतिप्रकाश पिता रमेश कुमार
			173	निजी	कृषि	0.0364		फौजदार कमलेशकुमार पुत्रगण कृष्णप्रसाद, भानादेवी पत्नी जमादार, शिवेंद्र विक्रम पुत्रगण रमेशकुमार नि० सेमरीराजापुर
			245	निजी	कृषि	0.1433		अजमतअली हसमतअली इरासतअली पुत्रगण मो०इस्माइल नि० सेमरी राजापुर
			246	सरकारी	सडकें	0.0467		उत्तर प्रदेश शासन
			299	सरकारी	चकमार्ग	0.0146		उत्तर प्रदेश शासन
			287	निजी	कृषि	0.2128		रामचंदर पुत्र भगल नि०मुरली, वीरेन्द्रप्रतापसिंह जितेन्द्रप्रताप पुत्रगण हरिनारायन सिंह नि०सेमरीराजापुर, जोरई राम पुत्र रामनाथ नि०परसरामपुर, अनुज सिंह उम्र 5वर्ष स० पिता शिवमान सिंह नि० 1406/3 खैराबाद शास्त्रीनगर सुलतानपुर
			286	सरकारी	सडकें	0.1040		उत्तर प्रदेश शासन
			285	सरकारी	बंजर	0.0150		उत्तर प्रदेश शासन
			284 स	निजी	कृषि	0.3154		सोनादेवी पत्नी मुन्नीलाल नि० सूर्यभान पट्टी
			284 स	निजी	कृषि			हरिनारायन हरीराम हनुमान प्रसाद पुत्रगण राम औतार नि० लम्भुआ
			284 स	निजी	कृषि			सालिकराम पुत्र रामनायक नि०मकसूदन, रामअवध पुत्र रामराज नि०मामपुर
			284 स	निजी	कृषि			बैजनाथ पुत्र रामराज, छोटेलाल पुत्र रामसुंदर, कहई घिसई पुत्रगण नीमर नि०गरवी, रामसुख पारसनाथ बुधिराम श्रीपाल पुत्रगण रामअजोर नि०सूर्यभान पट्टी
			284 स	निजी	कृषि			रामबरन पुत्र बैजनाथ नि०परसरामपुर
			284 स	निजी	कृषि			वाल मुकून्द पुत्र रामजी नि० सूर्यभान पट्टी
			284 स	निजी	कृषि			श्यामलाल पुत्र रामसुमेर नि०गरये
			284 स	निजी	कृषि			शीतकुमार पुत्र ठाकुरदीन, स्वामीनाथ पुत्र गंगाप्रसाद नि०नीगंवा
			278	सरकारी	नाली	0.0048		उत्तर प्रदेश शासन
			276	निजी	कृषि	0.0591		रामफेर रामभुवाल काशीराम हरीराम पुत्रगण लहुरी नि० मुरली
			275	सरकारी	बंजर	0.0660		उत्तर प्रदेश शासन
			274	निजी	कृषि	0.0577		मनीराम सियाराम पुत्रगण रामबरन, सुधनादेवी पत्नी रामबरन नि० मुरली
			273	निजी	कृषि	0.0282		अनिलकुमार राजेन्द्रकुमार पुत्रगण सीताराम, अजीतकुमार पुत्र पन्नालाल, निर्मला पत्नी स्व० सीताराम नि० मुरली, सीतादेवी पत्नी रामदुलार नि० ककराही, श्रीमती शिवपती देवी पत्नी शीतलाप्रसाद नि० ग्राम रायपुर जैसलाल अशोक कुमार पिता रामअवध शोभावती पति रामअवध
			272	निजी	कृषि	0.0279		अनिलकुमार राजेन्द्रकुमार पुत्रगण सीताराम, अजीतकुमार पुत्र पन्नालाल, निर्मला पत्नी स्व० सीताराम नि०मुरली जैसलाल अशोक कुमार पिता रामअवध शोभावती पति रामअवध सतना देवी पति अशोक कुमार
			271	निजी	कृषि	0.0259		रामअजोर पुत्र दसई नि०मुरली, श्रीमती सुदामा देवी

							पत्नी पंडोही, रामदीन पुत्र रामगुलाम नि०ग्राम, सरोजादेवी पत्नी जैसलाल नि० मुरली
			270	निजी	कृषि	0.0315	निर्मलादेवी पत्नी सीताराम, जयसलाल पुत्र रामअवध नि० मुरली
			269	निजी	कृषि	0.0198	रामअमिलाख रामअकवाल पुत्रगण अद्याप्रसाद नि० मुरली
			268	निजी	कृषि	0.0143	रामजनक पुत्र जमुना प्रसाद नि० मुरली
			267	निजी	कृषि	0.0187	राम निहोर पुत्र महावीर, रामअमिलाख रामअकवाल पुत्रगण अद्या प्रसाद, राम जनक पुत्र जमुना प्रसाद नि० मुरली
			266	निजी	कृषि	0.0160	रामअमिलाख रामअकवाल पुत्रगण अद्याप्रसाद, रामनिहोर पुत्र महावीर, रामजनक पुत्र जमुनाप्रसाद नि० ग्राम
			265	सरकारी	चकमार्ग	0.0048	उत्तर प्रदेश शासन
			261	निजी	कृषि	0.0302	नरायण पुत्र औतार नि० मुरली, रामशब्द रामदुलार राममिलन पुत्रगण रामलौट, नन्दलालसिंह पुत्र बब्बनसिंह नि० ग्राम
			260	निजी	कृषि	0.0091	रामप्रताप उदयपताप पुत्रगण कुलदेवसिंह नि० मुरली
			255	निजी	कृषि	0.0020	रामचंद्र पुत्र भगल नि० मुरली, जोरईराम पुत्र रामनाथ नि० परसरामपुर
			248	सरकारी	सड़क	0.0788	उत्तर प्रदेश शासन
			249	निजी	कृषि	0.0080	अमरबहादुर विमलेशबहादुर पुत्रगण रघुराज नि०तेरये पर० मीरानपुर जिला-सुल्तानपुर, पारवती पत्नी त्रिभुवन नि०तेरये, स्वामीदीन सागरदीन शोभनाथ पुत्रगण रामअंजोर नि०ग्राम
			योग			4.0495	
	(17)		5	सरकारी	चकमार्ग	0.0025	उत्तर प्रदेश सरकार
	जगन्नाथपुर		6	सरकारी	नाली	0.0025	उत्तर प्रदेश सरकार
			योग			0.0050	
	(18)		453	सरकारी	नाली	0.0231	उत्तर प्रदेश सरकार
	सेमरी राजापुर		454	निजी	कृषि	0.2262	रणजीत, रणधीर, भीमसेन पुत्रगण कल्पनाथ नि० ग्राम, रामदुलार रामपाल पुत्रगण रामदास, नरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र उदयराजसिंह नि० डकाहीव, चन्द्रभानसिंह पुत्र सत्यनरायनसिंह नि० ग्राम
			455	निजी	कृषि	0.4610	अभयनरायण पुत्र श्रीपति, धर्मेन्द्रप्रताप सिंह आनन्दप्रतापसिंह अखण्डप्रताप सिंह पुत्रगण रामअवध सिंह, श्रीमती समलासिंह पत्नी रामअवध सिंह, रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राजनरायण सिंह, श्रीमती जनकदुलारी पत्नी राजनरायण सिंह, मखनलाल मेंहीलाल राजेन्द्रप्रसाद पुत्रगण नन्हकऊ, श्रीमती अभिलाखी पत्नी नन्हकऊ, शिवनरायण पुत्र श्रीपति, जमुनाप्रसाद बृजलाल पुत्रगण रामदुलार नि० लम्भुआ
			456	निजी	कृषि	0.0122	भूपेन्द्र सिंह पुत्र अशोककुमार, राजेशकुमार पुत्र विनोदकुमार नि० ग्राम
			459	सरकारी	चकमार्ग	0.0203	उत्तर प्रदेश सरकार
			460	निजी	कृषि	0.0084	रामदीन लालजी हरीश चन्द्र प्यारेलाल छोटेला रतनलाल पुत्रगण रामगुलाम नि० ग्राम
			470	सरकारी	चकमार्ग	0.0034	उत्तर प्रदेश सरकार
			471	निजी	कृषि	0.0555	अभयनरायण पुत्र श्रीपति, रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राजनरायण सिंह, श्रीमती जनकदुलारी पत्नी राजनरायण सिंह, धर्मेन्द्रप्रताप सिंह आनन्दप्रतापसिंह अखण्डप्रताप सिंह पुत्रगण रामअवध सिंह, श्रीमती समलासिंह पत्नी रामअवध सिंह, जगतनरायण त्रिवेनी पुत्रगण राजपति, शिवनरायण पुत्र श्रीपति नि० ग्राम
			472	निजी	कृषि	0.7417	नरेन्द्रप्रताप इन्द्रसेन हरिशचन्द्र पुत्रगण उदयराज, संकटाप्रसाद भानुप्रसाद इन्द्रप्रताप पुत्रगण रामनाथ नि० ग्राम
			473	निजी	कृषि	0.2510	झुरहू पुत्र गनपति नि० ग्राम
			475	सरकारी	सड़क	0.0162	उत्तर प्रदेश सरकार
			476	सरकारी	सड़क	0.0218	उत्तर प्रदेश सरकार
			477	निजी	कृषि	0.1523	सुशीलकुमार पुत्र श्याममूर्ति नि० ग्राम
			478	निजी	कृषि	0.0063	वीरेन्द्रप्रतापसिंह जीतेन्द्रप्रताप पुत्रगण हृदयनरायण सिंह नि० ग्राम
			421	सरकारी	नाली	0.0810	उत्तर प्रदेश शासन
			422	निजी	कृषि	0.3682	अभयनरायण पुत्र श्रीपति, रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राजनरायण सिंह, श्रीमती जनकदुलारी पत्नी राजनरायण सिंह, धर्मेन्द्रप्रताप सिंह आनन्दप्रतापसिंह अखण्डप्रताप सिंह पुत्रगण रामअवध सिंह, श्रीमती समलासिंह पत्नी रामअवध सिंह नि० ग्राम

			427	सरकारी	सड़क	0.0030	उत्तर प्रदेश शासन
			444	निजी	कृषि	0.0097	नरेन्द्र प्रताप सुरेन्द्र प्रताप पुत्रगण द्वारिका सिंह नि० ग्राम
			445	सरकारी	सड़क	0.0208	उत्तर प्रदेश शासन
			485	सरकारी	सड़क	0.0286	उत्तर प्रदेश शासन
			403	निजी	कृषि	0.0680	रामजतन सीताराम रामआसरे पुत्रगण रामसुख नि० ग्राम
			407	निजी	कृषि	0.0184	विनोद कुमार पुत्र लालबिहारी सिंह, विजय प्रताप सिंह लल्लन सिंह पुत्रगण सम्पति सिंह, सुशील कुमार राजेश कुमार बृजेश कुमार पुत्रगण छोटेलाल, कृष्ण कुमार सिंह संजय कुमार आलोक कुमार पुत्रगण रामचन्द्र सिंह, महेन्द्र बहादुर राजेन्द्र प्रसाद प्रमोद कुमार धर्मेन्द्र कुमार पुत्रगण चन्द्रेज सिंह, नरेन्द्र प्रताप सुरेन्द्रप्रताप पुत्रगण द्वारिका नि० ग्राम
			408	निजी	कृषि	0.1320	विनोद कुमार पुत्र लालबिहारी सिंह, विजय प्रताप सिंह लल्लन सिंह पुत्रगण सम्पति सिंह, सुशील कुमार राजेश कुमार बृजेश कुमार पुत्रगण छोटेलाल, कृष्ण कुमार सिंह संजय कुमार आलोक कुमार पुत्रगण रामचन्द्र सिंह, महेन्द्र बहादुर राजेन्द्र प्रसाद प्रमोद कुमार धर्मेन्द्र कुमार पुत्रगण चन्द्रेज सिंह, नरेन्द्र प्रताप सुरेन्द्रप्रताप पुत्रगण द्वारिका नि० ग्राम
			411	निजी	कृषि	0.2430	कृष्णकुमारसिंह संजयकुमारसिंह आलोक कुमार सिंह पुत्रगण राम चन्द्र सिंह, लल्लन सिंह विजय प्रताप सिंह पुत्रगण सम्पति सिंह, सुशील कुमार राजेश कुमार बृजेश कुमार पुत्रगण छोटेलाल नि० ग्राम
			412	सरकारी	चकमार्ग	0.0180	उत्तर प्रदेश शासन
			415	निजी	कृषि	0.0530	श्रीमती सरोजकुमारी उर्फ मुन्नी पत्नी इन्द्रजीत सिंह, रामपाल सिंह शिवशंकरसिंह विनयकुमार पुत्रगण भुवर सिंह, अनीलकुमार राजेशकुमार पुत्रगण इन्द्रपाल नि० ग्राम
			417	निजी	कृषि	0.0371	रामपाल सिंह पुत्र भुअर सिंह नि० ग्राम
			418	निजी	कृषि	0.0164	बीरेन्द्रप्रतापसिंह जीतेन्द्रप्रताप पुत्रगण हृदयनरायन सिंह नि० ग्राम
			419	सरकारी	सड़के	0.0530	मुख्यमार्ग, उत्तर प्रदेश शासन
			420	निजी	कृषि	0.0825	संकटा प्रसाद भानुप्रताप इन्द्र प्रताप पुत्रगण रामनाथ नि० ग्राम
			422	निजी	कृषि	0.0137	अभयनारायण शिवनारायण पुत्रगण श्रीपति, रविन्द्रप्रताप सिंह पुत्र राजनारायण सिंह, श्रीमती जनकदुलारी पत्नी राजनारायण सिंह, धर्मेन्द्र प्रताप सिंह आनन्द प्रताप सिंह अखण्डप्रताप सिंह पुत्रगण रामअवध सिंह, श्रीमती समलासिंह पत्नी रामअवध सिंह नि० ग्राम
			581	सरकारी	सड़के	0.0264	उत्तर प्रदेश शासन
			620	निजी	कृषि	0.0972	शिवशंकर सिंह उर्फ शिवपूजन पुत्र भुवर सिंह नि० ग्राम
			621	निजी	कृषि	0.2799	विनय कुमार सिंह पुत्र भुअर सिंह नि० ग्राम
			622	निजी	कृषि	0.1430	रामपाल सिंह पुत्र भुअर सिंह नि० ग्राम
			623	निजी	कृषि	0.2129	प्रभु देई पुत्र माताफर नि० ग्राम
			632	सरकारी	चकमार्ग	0.0236	उत्तर प्रदेश सरकार
			664	निजी	कृषि	0.0445	बैजनाथ रामजीत अभिनन्दन पुत्रगण तुलसीराम, कौशिल्या पुत्र रामकुमार, फूलादेवी पत्नी गया प्रसाद नि० ग्राम
			665	निजी	कृषि	0.2902	हरिशचन्द्र पुत्र उदयराज सिंह नि० ग्राम
			666	निजी	कृषि	0.0103	नरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र उदय राज सिंह नि० ग्राम
			667	सरकारी	नाली	0.0300	उत्तर प्रदेश शासन
			668 मि.	निजी	कृषि	0.6927	जमुनाप्रसाद वृजलाल पुत्रगण रामदुलार नि० लम्बुआ
			668 मि.	निजी	कृषि		रामसिंह हरिशचन्द्र सिंह अखिलेश कुमार सिंह राजेश कुमार सिंह पिता अवधेश सिंह इसरावती पति अवधेश सिंह नि. ग्राम
			669	सरकारी	नाली	0.0139	उत्तर प्रदेश शासन
			670	निजी	कृषि	0.2661	राधाकान्त पत्नी बर्दी नि० लम्बुआ
			671	निजी	कृषि	0.0850	सुशीला पत्नी उपेन्द्रनाथ नि० लम्बुआ
			672	निजी	कृषि	0.0008	हरिनारायण श्रीनारायण तारकेश्वर पुत्रगण पारसनाथ नि०ग्राम
			674	सरकारी	नाली	0.0008	उत्तर प्रदेश शासन
			675	निजी	कृषि	0.0010	जमुनाप्रसाद पुत्र रामदुलार नि० लम्बुआ
			682	सरकारी	नाली	0.0169	उत्तर प्रदेश शासन
			684	निजी	कृषि	0.0044	रामप्रताप रामतीर्थ रामउजागिर पुत्रगण गंगादीन नि० ग्राम
			685	सरकारी	चकमार्ग	0.0176	उत्तर प्रदेश सरकार
			686	निजी	कृषि	0.0933	जगदंबा प्रसाद दुर्गाप्रसाद शीतला प्रसाद पिता भुल्लर
			687	निजी	कृषि	0.0632	लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम नि० ग्राम

			688	निजी	कृषि	0.6695	शिवदेव पुत्र अन्तराम, दिनेशकुमार नरेशकुमार दुर्गेश कुमार पुत्रगण कपिलदेव, सन्ध्या देवी पत्नी कपिलदेव, सुरेश कुमार रमेश कुमार प्रेमकुमार पुत्रगण कृष्णदेव, श्रीमती शैल झा पत्नी कृष्णदेव, श्रीमती खंजना देवी पत्नी शिवदेव झा, श्रीमती सीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश नि० लम्मुआ
			697	सरकारी	नाली	0.0202	उत्तर प्रदेश शासन
			792	सरकारी	नाली	0.0940	उत्तर प्रदेश शासन
			791	निजी	कृषि	0.0156	रामआसरे रामअछेवर पुत्रगण गंगाप्रसाद, अरूणकुमार कैलाशी पुत्रगण विश्वनाथ, बैजनाथ पुत्र बचई नि० ग्राम नीलम सिंह पति ब्रजभान सिंह वंदना गुप्ता पति लालजी गुप्ता
			795	निजी	कृषि	0.1734	कमलेश सिंह पुत्र कृष्ण प्रसाद सिंह, दहनसिंह उर्फ दानबहादुरसिंह पुत्र रामसुन्दर सिंह, शिवेन्द्र विक्रम सिंह पुत्रगण रमेश कुमार सिंह, उमेशकुमारसिंह प्रदीपकुमार पुत्रगण फोजदारसिंह, रमेशकुमार पुत्र दहन सिंह नि० ग्राम, श्रीपाल पुत्र उदयराज नि० नरहरपुर, रामभारत पुत्र रामदास नि० ग्राम, जवाहर लाल पुत्र पन्नालाल नि०लम्मुआ, श्रीपाल सिंह पुत्र उदयराज सिंह नि० नरहरपुर
			796	निजी	कृषि	0.1480	इसराइल पुत्र रहमत अली, जैबुलनिशा पत्नी स्व०जुबराइल नि० ग्राम
			797	सरकारी	चकमार्ग	0.0150	उत्तर प्रदेश सरकार
			798 मि.	निजी	कृषि	0.0822	हीरामणी पुत्रगण सदानन्द, रामयज्ञ बनवारी प्रसाद रामप्रसाद पुत्रगण लालचन्द्र उर्फ रामबालक नि० जफरापुर उमेश चंद्र पिता दीनानाथ श्यामा देवी पति दीनानाथ
			798 मि.	निजी	कृषि		रामफेर पुत्र गयदीन, श्रीमती प्रमिलादेवी पत्नी चतुर भुजी नि० डोमनेपुर
			798 मि.	निजी	कृषि		रामसुन्दर पुत्र जयदेव, श्रीमती कलावती देवी पत्नी महिमा प्रसाद नि० लम्मुआ, श्रीमती आशादेवी पत्नी विश्वनाथ गुप्ता नि० कोइरीपुर मो० गांधीनगर विमला देवी पति मवालाल साहू प्रदीप कुमार पिता कृष्णदेव त्रिपाठी कामना तिवारी पति शांतिभूषण तिवारी मंजूसा पति सुरेश कुमार झा विनय कुमार झा पिता रामसुंदर झा अजय कुमार झा पिता रामसुंदर झा
			798 मि.	निजी	कृषि		श्रीमती कुन्तीदेवी पत्नी जगमोहन नि०जफरापुर
			799	निजी	कृषि	0.0200	हरीलाल पुत्र गयादीन नि० लम्मुआ
			800	निजी	कृषि	0.0210	छेदीलाल पुत्र गयादीन नि० लम्मुआ
			801	निजी	कृषि	0.0378	माता प्रसाद पुत्र लहरी नि० ग्राम
			802	निजी	कृषि	0.0006	अलमू पुत्र शीतलदीन नि० ग्राम
			805	सरकारी	नाली	0.0149	उत्तर प्रदेश शासन
			806	निजी	कृषि	0.3292	रामआसरे रतीपाल पुत्रगण श्रीराम, श्रीमती सीतादेवी पत्नी श्रीराम नि० ग्राम
			807	निजी	कृषि	0.0840	रामसुमेर पुत्र दातादीन नि० लम्मुआ
			808	निजी	कृषि	0.0861	रमाशंकर पुत्र रामदीन नि० लम्मुआ
			809	सरकारी	नाली	0.0314	उत्तर प्रदेश शासन
			810	निजी	कृषि	0.1577	सूरजमुखी पुत्र विधानाथ नि० ग्राम
			811	निजी	कृषि	0.0300	रामशिरोमणि पुत्र बैजनाथ, जगन्नाथ दूधनाथ पुत्रगणन अहिबरन नि० ग्राम
			812	निजी	कृषि	0.0092	रामऔतार पुत्र मोहन नि० ग्राम
			813	सरकारी	चकमार्ग	0.0164	उत्तर प्रदेश सरकार
			827 मि.	निजी	कृषि	0.3106	श्रीमती हीरावती पत्नी जगदीश प्रसाद नि० लम्मुआ
			827 मि.	निजी	कृषि		सुरेशचन्द्र पुत्र श्रीराम नि० ग्राम, विनयशंकर हरिशंकर जयशंकर विजयशंकर पुत्रगण जगदीश प्रसाद नि० लम्मुआ
			830	सरकारी	गैर कृषि	0.0170	सहकारी संघ लम्मुआ
			831	सरकारी	गैर कृषि	0.1019	सहकारी संघ लम्मुआ
			832	निजी	कृषि	0.1148	रामसन्तोष पुत्र लालजी, सुनीलकुमार दिलीपकुमार प्रदीपकुमार पुत्रगण जगदीशप्रसाद, श्रीमती कमलादेवी पत्नी जगदीशप्रसाद नि०लम्मुआ
			833	निजी	कृषि	0.0310	रामसन्तोष पुत्र लालजी, सुनीलकुमार दिलीपकुमार प्रदीपकुमार पुत्रगण जगदीशप्रसाद, श्रीमती कमलादेवी पत्नी जगदीशप्रसाद नि०लम्मुआ
			834	निजी	कृषि	0.0069	सुरेशचन्द्र पुत्र श्रीराम नि० लम्मुआ
			843	सरकारी	चकमार्ग	0.0137	उत्तर प्रदेश सरकार
			859	निजी	कृषि	0.0594	रामदेव श्यामदेव प्रेमचन्द्र जयप्रकाश ओम प्रकाश पुत्रगण रामनरेश नि० लम्मुआ, अशोककुमार विनोदकुमार महेशकुमार शिवशंकर पुत्रगण रामसुन्दर, मु० कमलादेवी पत्नी रामसुन्दर नि० ग्राम

			860	निजी	कृषि	0.0500	जैराम पुत्र गोलई नि० पटखौली
			861	निजी	कृषि	0.0029	श्यामलाल पुत्रगण रामदत्त नि० लम्मुआ संजय कुमार पिता रामलाल विमला देवी पति रामलाल
			862	सरकारी	चकमार्ग	0.0128	उत्तर प्रदेश सरकार
			863	निजी	कृषि	0.1017	उदयराज पुत्र रामदेव नि० लम्मुआ
			864	निजी	कृषि	0.1527	रामसुन्दर पुत्र ठनगनी नि० लम्मुआ
			866	निजी	कृषि	0.0084	माताप्रसाद छेदीलाल शिवप्रसाद राम प्रसाद पुत्रगण नन्द लाल, शीतला प्रसाद राजेश कुमार अरविन्द कुमार नाबा० 16 सूरज कुमार नाबा० 14 मदन नाबा० 12 दीपक नाबा० 10 पुत्रगण जगदम्बा प्रसाद संरक्षिका राधिका देवी, राधिका देवी पत्नी जगदम्बा प्रसाद नि० लम्मुआ महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि. अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित सूर्यमणी सिंह सहायक अभियंता तृतीय सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			867	निजी	कृषि	0.2470	जमुनाप्रसाद वृजलाल पुत्रगण रामदुलार, मकखनलाल मेंहीलाल राजेन्द्रप्रसाद पुत्रगण नन्हकऊ, श्रीमती अभिलाखी पत्नी नन्हकऊ नि० लम्मुआ महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित सूर्यमणी सिंह सहायक अभियंता तृतीय सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			868	निजी	कृषि	0.1512	जमुनाप्रसाद वृजलाल पुत्रगण रामदुलार, मकखनलाल मेंहीलाल राजेन्द्रप्रसाद पुत्रगण नन्हकऊ, श्रीमती अभिलाखी पत्नी नन्हकऊ नि० लम्मुआ महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित सूर्यमणी सिंह सहायक अभियंता तृतीय सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			869	निजी	कृषि	0.0449	जमुनाप्रसाद वृजलाल पुत्रगण रामदुलार, मकखनलाल मेंहीलाल राजेन्द्रप्रसाद पुत्रगण नन्हकऊ, श्रीमती अभिलाखी पत्नी नन्हकऊ नि० लम्मुआ महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित सूर्यमणी सिंह सहायक अभियंता तृतीय सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			870	निजी	कृषि	0.0014	मोहम्मद उमर चुन्नू इरफान इमरान नाबा० 11, 13 पुत्रगण नन्हकऊ नि० लम्मुआ
			871	सरकारी	चकमार्ग	0.0205	उत्तर प्रदेश सरकार
			873	निजी	कृषि	0.0092	कल्लू राम पुत्र रामसमुझ नि० ग्राम
			874	निजी	कृषि	0.0135	राजमनी पुत्र दातादीन नि० लम्मुआ
			875	निजी	कृषि	0.0232	श्यामादेवी पत्नी स्व०भगवती प्रसाद नि० ग्राम प्रेमादेवी पति कल्लूराम
			876	निजी	कृषि	0.0280	रामकेवल राममूरत प्रदीप कुमार अजय कुमार पुत्रगण चंद्रप्रताप
			877	निजी	कृषि	0.0393	रामप्रताप पुत्र रामलौट नि० लम्मुआ
			878	निजी	कृषि	0.0288	ईश्रवरदीन हरिशचन्द्र रमेशचन्द्र पुत्रगण महादेव नि० लम्मुआ
			879	निजी	कृषि	0.0280	रामभरोस पुत्र दुखी नि०लम्मुआ
			880	निजी	कृषि	0.0256	लालसाहब रायसाहब पुत्रगण राजेन्द्रप्रसाद, राजकुमार सन्तोषकुमार पंकजकुमार नाबा. पुत्रगण जवाहरलाल नि० लम्मुआ
			<b>योग</b>			<b>9.3647</b>	
		<b>(19) लम्मुवा</b>	405	सरकारी	चकमार्ग	0.0296	उत्तर प्रदेश सरकार
			388	निजी	कृषि	0.0618	श्रीमती अजोरा पत्नी बाबूलाल नि० ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			387	निजी	कृषि	0.0445	भूपेन्द्र पुत्र सहाई व श्रीमती जयपाली पत्नी स्व०सहाई नि० ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि. अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			386	निजी	कृषि	0.0541	भूपेन्द्र पुत्र सहाई व श्रीमती जयपाली पत्नी स्व०सहाई नि० ग्राम
			385	निजी	कृषि	0.0882	रामपती पत्नी जैसराज पुत्री मेंडई नि० ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			384	निजी	कृषि	0.0155	कुटुया, अजोरा पुत्रीगण अलगू नि० ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			186	निजी	कृषि	0.0027	राजकुमार, कृष्णा, संतोष पुत्रगण रामदीन व श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० रामदीन नि० ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता

							चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			381	सरकारी	गैर कृषि	0.0024	लम्बुआ माईनर नहर
			379	निजी	कृषि	0.0043	रामफेर, माताफेर, रामराज पुत्रगण जोखई व मंगेश, शंकर पुत्रगण शिवनाथ नि0 ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			380	निजी	कृषि	0.1060	महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			390	निजी	कृषि	0.0982	रामबोध पुत्र रामसमुझ नि0 ग्राम
			378	निजी	कृषि	0.0254	चमलादेवी पत्नी शिवप्रसाद नि0 ग्राम
			377	निजी	कृषि	0.0323	श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी कल्लूराम धुरिया नि0ग्राम
			376	निजी	कृषि	0.0375	श्रीमती सूरसती देवी पत्नि रामबोध नि0 ग्राम
			375	निजी	कृषि	0.0460	श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी कल्लूराम धुरिया नि0ग्राम
			374	सरकारी	चकमार्ग	0.0500	उत्तर प्रदेश सरकार
			373	निजी	कृषि	0.0227	रघुवरदयाल, गयाप्रसाद पुत्रगण बालगोविन्द नि0ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			367	निजी	कृषि	0.1845	रघुवर दयाल पुत्र बालगोविन्द नि0 ग्राम
			366	निजी	कृषि	0.4764	कल्लूराम पुत्र रामसमुझ नि0 ग्राम व तुलसीराम पुत्र धनई कोरी नि0 पठखोली
			365	निजी	कृषि	0.1177	श्रीमती अंजोरा पत्नी नन्हकू नि0 ग्राम
			364	निजी	कृषि	0.0013	कालीसहाय पुत्र रामचरन व बलराम, बलराज, बजरगबली, रामबाबू, रामराज पुत्रगण हीसलाप्रसाद नि0 ग्राम
			363	सरकारी	चकमार्ग	0.0220	उत्तर प्रदेश सरकार
			359	निजी	कृषि	0.1036	रघुवरदयाल, गयाप्रसाद पुत्रगण बालगोविन्द नि0ग्राम
			358	निजी	कृषि	0.0616	रामहरख, रामलखन पुत्रगण रामकुंवर व लालबहादुर, बृजलाल, अशोककुमार पुत्रगण रामअछैवर व उर्मिला देवी पत्नी रामअछैवर नि0 ग्राम
			357	निजी	कृषि	0.1253	रामलखन, रामहरख पुत्रगण रामकुंवर व लालबहादुर, अशोककुमार पुत्रगण रामअछैवर व उर्मिला देवी पत्नी रामअछैवर नि0 ग्राम
			356	निजी	कृषि	0.2010	अब्दुलमालिक पुत्र अब्दुल सत्तार नि0 रूपी का पूरा मजरे रामगढ
			355	निजी	कृषि	0.1525	रामलाल, रामपियारे, रामदुलार, रामसागर पुत्रगण अलगू नि0 ग्राम
			354	निजी	कृषि	0.1674	बद्रीनरायन, रामप्यारे, श्यामू पुत्रगण मखोदर नि0 ग्राम
			353	निजी	कृषि	0.0506	रघुवर दयाल, गयाप्रसाद पुत्रगण बालगोविन्द व महावीर, रामराज पुत्रगण शीतलादीन नि0 ग्राम
			468	सरकारी	चकमार्ग	0.0108	उत्तर प्रदेश सरकार
			340	निजी	कृषि	0.0285	श्रीराम, शिवराम पुत्रगण भरोस नि0 ग्राम
			469	सरकारी	चकमार्ग	0.0245	उत्तर प्रदेश सरकार
			452	निजी	कृषि	0.0492	सत्येन्द्र कुमार नाबालिग 7 वर्ष पुत्र मखदूम गुप्ता वली संरक्षक पिता नि0 ग्राम
			453	निजी	कृषि	0.0036	निर्मला देवी पत्नी मखदूम गुप्ता नि0 ग्राम
			467	निजी	कृषि	0.6908	बद्रीनरायन, रामप्यारे, श्यामू पुत्रगण मखोदर नि0 ग्राम
			471	सरकारी	बंजर	0.0250	उत्तर प्रदेश सरकार
			472	निजी	कृषि	0.0208	मु. अहमद खॉं, मु. आलम, मु. नईम, मु. मुनवर, मु. निशार पुत्रगण रफीक खॉं नि0 ग्राम
			473 क	निजी	कृषि	0.1063	रविशंकर, विजयशंकर पुत्रगण सीताराम नि0 ग्राम
			473 ग	निजी	कृषि		रामअजोर पुत्र बोडई व श्रीमती कमलादेवी, श्रीमती निर्मलादेवी पुत्रीगण गनपति व रामअवध पुत्र रामनाथ व गौरीशंकर, शिवशंकर पुत्रगण रामबली व रामपियारे, सीताराम पुत्रगण रामकिशोर व मु0 वसिकली पत्नी बच्चा व बद्री, रामपियारे, श्यामू पुत्रगण मखोदर व रामलखन, रामवचन पुत्रगण रामदास नि0 ग्राम
			473 ख	निजी	कृषि		बद्रीनरायन, रामप्यारे, श्यामू पुत्रगण मखोदर नि0 ग्राम
			487 ख	निजी	कृषि	0.4425	उदयराजयादव पुत्र रामलखन नि0 शाहपुरपूरन
			487 क	निजी	कृषि		रामअजोर पुत्र बोडई व रामअवध पुत्र रामनाथ व गौरीशंकर, शिवशंकर नाबा0 16, 12 साल पुत्र रामबली संरक्षिका शोभावती माता व सीताराम, रामपियारे पुत्रगण रामकिशोर व श्रीमती कमलादेवी, श्रीमती निर्मलादेवी पुत्री गनपति नि0ग्राम
			487 ग	निजी	कृषि		रणवीर पुत्र रामसागर व श्रीमती राजदेई पत्नी उदयराज व उदयराज पुत्र रामदेव व रामसमुझ पुत्र बैजनाथ नि0ग्राम



			489	सरकारी	बंजर	0.0076	उत्तर प्रदेश सरकार
			491	निजी	कृषि	0.1766	रामदेव, रामसमुझ, रामदीन पुत्रगण बैजनाथ नि० शाहपुर पूरन
			492	निजी	कृषि	0.0170	कल्या देवी पत्नी रामनरायन व श्रीमती मंगरा देवी पत्नी रामअवध नि० शाहपुर पूरन
			493	निजी	कृषि	0.0270	रामकृष्ण पुत्र अछेवर नि० ग्राम
			494	निजी	कृषि	0.1467	उदयराज पुत्र रामदेव व रघुराज, शिवराज, लालजी पुत्रगण रामअधार व श्रीमती पथरा पत्नी स्व०रामअधार नि० ग्राम
			495	निजी	कृषि	0.0070	श्रीमती राजदेई पत्नी उदयराज नि० शाहपुरपूरन
			496	निजी	कृषि	0.0333	रामसमुझ पुत्र बैजनाथ यादव नि०शाहपुर
			497	निजी	कृषि	0.0992	रामदेव, रामसमुझ, रामदीन पुत्रगण बैजू नि० शाहपुर पूरन
			498	निजी	कृषि	0.1641	अवधू पुत्र नैपाल नि० शाहपुर पूरन
			499	सरकारी	चकमार्ग	0.0130	उत्तर प्रदेश सरकार
			500	निजी	कृषि	0.1293	जनार्दन कुमार सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह नि० शाहपुरपूरन
			502	सरकारी	चकमार्ग	0.0299	उत्तर प्रदेश सरकार
			510	निजी	कृषि	0.0072	गिरधारी पुत्र सरजू नि० ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			511	निजी	कृषि	0.2268	तुलसी पुत्र झिगुरी नि० ग्राम
			512	निजी	कृषि	0.0306	राजकुमार, बृजेश कुमार नाबा० पुत्रगण विजयबहादुर संरक्षिका विद्यादेवी माता नि० महमूदपुर
			513	निजी	कृषि	0.2315	जनार्दन कुमार सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह नि० शाहपुरपूरन
			514	निजी	कृषि	0.1981	उदयराज यादव पुत्र रामलखन नि०शाहपुरपूरन
			515	निजी	कृषि	0.1564	करुणाशंकर पुत्र जयनरायन नि० शाहपुर पूरन महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			516	निजी	कृषि	0.1506	सावित्रीदेवी पत्नी रामनाथ व छोटेलाल पुत्र रामकिशुन व रामजतन पुत्र रामकृपाल नि० ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			517	निजी	कृषि	0.0429	मो० रसीद, अजीज अहमद, हफीज अहमद पुत्रगण सतई उर्फ सत्तार अली नि० ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित उमेश कुमार सिंह सहायक अभियंता चतुर्थ सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			<b>योग</b>			<b>5.6820</b>	
		(20) शाहपुर पूरन	35	सरकारी	चकमार्ग	0.0160	उत्तर प्रदेश सरकार
			37	निजी	कृषि	0.4259	करुणाशंकर सिंह पुत्र जयनरायन सिंह नि० ग्राम
			38	निजी/सरकारी	कृषि/अकृषि	0.2259	मिठाईलाल पुत्र बदीप्रसाद नि० लम्भुआ व जनार्दन सिंह पुत्र रमाशंकर व मो०जलील पुत्र मो०हासिम नि०ग्राम महामहिम राज्यपाल उ.प्र. सरकार द्वारा अधि.अभि. सिंचाई खण्ड सुलतानपुर नामित सूर्यमणि सिंह सहायक अभियंता तृतीय सिंचाई खण्ड सुलतानपुर
			45 मि.	सरकारी	चकमार्ग	0.0254	उत्तर प्रदेश सरकार
			45 मि.	सरकारी	शारदा सहायक नहर		उत्तर प्रदेश सरकार
			46	निजी	कृषि	0.0883	बदीप्रसाद, उदयराज, लालताप्रसाद पुत्रगण महाबीर व ज्ञानप्रकाश, ओमप्रकाश, सुनील, महेन्द्र पुत्रगण बंजरगबहादुर नि०ग्राम
			<b>योग</b>			<b>0.7815</b>	
		(21) बेदू पारा	5	सरकारी	चकमार्ग	0.0108	उत्तर प्रदेश सरकार
			11	निजी	कृषि	0.3158	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी हर्षकुमार नि० लोदीपुर
			13	निजी	कृषि	0.0643	शुभकरन पुत्र ठाकुरदीन व रामसजीवन रामगुलाम रामजीत पुत्र जेटू नि० ग्राम व सुभाषचन्द्र विश्वकर्मा पुत्र रामसजीवन विश्वकर्मा नि० गजापुर
			14	निजी	कृषि	0.0730	बरसाती पुत्र मथुरा नि० गजापुर
			15	सरकारी	चकमार्ग	0.0129	उत्तर प्रदेश सरकार
			16	निजी	कृषि	0.0303	रामजीत पुत्र रामनरेश नि० ग्राम
			17	निजी	कृषि	0.0350	रामहित रामशिरोमणि रामसेवक पुत्रगण रामनरेश नि० ग्राम
			18	निजी	कृषि	0.0370	कपिलदेव पुत्र रामहरख नि० गजापुर
			19	निजी	कृषि	0.0101	रामहित रामशिरोमणि रामसेवक पुत्रगण रामनरेश नि० ग्राम

				20	निजी	कृषि	0.0365	छट्टू पुत्र हरखाली नि० ग्राम
				21	सरकारी	मुख्यमार्ग	0.0209	उत्तर प्रदेश सरकार
				23	निजी	कृषि	0.0087	महावीर पुत्र पुदान व हरिशंकर महादेव पुत्रगण चन्द्रबली नि० ग्राम
				24	निजी	कृषि	0.0315	राजमणि पुत्र रामनरेश व गोपीचन्द्र व. हरिश्चन्द्र रमेशचन्द्र व सुरेशचन्द्र पुत्रगण रामशिरोमणि व श्रीमती जानकी पत्नी रामशिरोमणि व सत्यनरायन देवनरायन पुत्रगण रामनरेश व उमाशंकर पुत्र रामहरख व दूधनाथ शोभनाथ पुत्रगण रघुवीर नि० ग्राम व अनिलकुमार दूबे पुत्र शम्भूनाथ नि० देवरी व विक्रमाजीत सभाजीत पुत्रगण भगौतीप्रसाद व आद्याप्रसाद ओमप्रकाश पुत्रगण रामअकबाल व दुखहरन देवीप्रसाद लक्ष्मीनरायन पुत्रगण रामकृपाल व रामशंकर पुत्र ठाकुर प्रसाद व सूर्यनरयन राजनरायन अभयनरायन पुत्रगण यदुनाथ व सन्तोषकुमार पुत्र कमलाप्रसाद नि० ग्राम व रामचन्द्र व हर्षकुमार व सुनीलकुमार पुत्रगण अमरनाथ व श्रीमती लालदेई पत्नी स्व० अमरनाथ व ब्रह्मदेव रुद्रदेव पुत्रगण लालताप्रसाद व सीतादेवी पत्नी स्व० लालताप्रसाद नि० ग्राम
				25	निजी	कृषि	0.6331	बेदप्रकाश हरिप्रकाश पुत्र सुखदेव व सत्यनरायनरायन सूर्यनरायन कृष्णनरायन हृदयनरायन श्यामनरायन पुत्रगण रामलखन व हंससिंह पुत्र लालता प्रसादसिंह नि० ग्राम व श्यामलाल पुत्र मखोदर नि० शाहपुर पुरन
				26	निजी	कृषि	0.0380	मूलचन्द्र महेशचन्द्र पुत्र महादेव नि० ग्राम
				27	सरकारी	चकमार्ग	0.0266	उत्तर प्रदेश सरकार
				28	निजी	कृषि	0.0726	देवनरायन बसेनूराम हरिनरायन पुत्रगण रामदयाल व धर्मराज सभाराज पुत्रगण शिवनरायन नि० गजापुर
				29	निजी	कृषि	0.0840	हरिनरायन देवनरायन बसेनूराम पुत्रगण रामदयाल व धर्मराज सभाराज पुत्रगण शिवनरायन व रामसेवक रामफेर पुत्रगण रामपदारथ नि० गजापुर
				30	निजी	कृषि	0.0705	देवनरायन बसेनूराम हरिनरायन पुत्रगण रामदयाल व धर्मराज सभाराज पुत्रगण शिवनरायन नि० गजापुर
				31	निजी	कृषि	0.0010	रामसेवक रामफेर पुत्र रामपदारथ नि० गजापुर
				33	निजी	कृषि	0.0989	सतईराम सत्यनारायण संतपराम श्रीराम पिता भोलानाथ नि. गजापुर
				34	निजी	कृषि	0.0843	श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी मुरली व करिया पुत्र गोपाल नि० ग्राम गजापुर
				35	निजी	कृषि	0.0860	उमिला देवी पत्नी गयाप्रसाद नि० मेला ग्राउन्ड पट्टी वार्ड सं० 6 पर० व तह० पट्टी जिला प्रतापगढ़
				36	सरकारी	चकमार्ग	0.0069	उत्तर प्रदेश सरकार
				37	निजी	कृषि	0.0257	करिया पुत्र गोपाल नि० ग्राम गजापुर
				47	निजी	कृषि	0.0339	रामकरन रामनेवाज रामसरन राजकुमार पुत्रगण जगन्नाथ नि० गजापुर
				48	निजी	कृषि	0.4276	हरिप्रकाश पुत्र सुखदेव व सत्यनरायन सूर्यनरायन कृष्णनरायन हृदयनरायन श्यामनरायन पुत्रगण रामलखन नि० ग्राम व लालताप्रसाद सिंह पुत्र महाबीर सिंह व श्यामलाल पुत्र मखोदर नि० ग्राम शाहपुरपुरन व विवेककुमार पुत्र रामआसरे वर्णवाल नि० ग्राम लम्भुआ
				49	निजी	कृषि	0.1010	हरिशंकर महादेव पुत्रगण चन्द्रबली व हरिप्रकाश बेदप्रकाश पुत्रगण सुखदेव व सत्यनरायन सूर्यनरायन श्यामनरायन कृष्णनरायन पुत्रगण रामलखन व महावीर पुत्र पुदान व हृदयनराय पुत्र रामलखन नि० ग्राम व राजेशकुमार वृजेशकुमार पुत्र भरतनरायन दूबे नि० रामगढ़
				50	सरकारी	चकमार्ग	0.0095	उत्तर प्रदेश सरकार
				51	निजी	कृषि	0.1779	लालताप्रसाद लालसाहब सिंह पुत्रगण केदारनाथ सिंह नि० ग्राम व अरुणकुमार सिंह पुत्र मदनमोहन सिंह नि० गजापुर व अजयपालसिंह पुत्र ददृदनपाल सिंह नि० तेरये
				52	निजी	कृषि	0.0927	राजकुमार पुत्र माताफेर व राधेश्याम पुत्र गंगादीन नि० लम्भुआ व अभयराज पुत्र रामकलप नि० ग्राम
				59	निजी	कृषि	0.1218	महेन्द्र पाल सिंह पुत्र कमलापाल सिंह व रनवीर सिंह पुत्र दहन पाल सिंह नि० तेरये पर० मीरानपुर
				60	सरकारी	चकमार्ग	0.0054	उत्तर प्रदेश सरकार
				61	निजी	कृषि	0.1360	महाबीर पुत्र पुदान नि० ग्राम
				72	सरकारी	बंजर	0.0504	उत्तर प्रदेश सरकार
				73	सरकारी	बंजर	0.0130	उत्तर प्रदेश सरकार
				74	सरकारी	तालाब	0.0250	उत्तर प्रदेश सरकार
				87	सरकारी	आबादी	0.2484	उत्तर प्रदेश सरकार
				88	सरकारी	आबादी	0.0132	उत्तर प्रदेश सरकार

			89	निजी	कृषि	0.0833	अशोककुमार विनोदकुमार पुत्रगण रामनारायन व चिन्तामणि पुत्र हरिप्रकाश व वेदप्रकाश पुत्र सुखदेव व बच्चू पुत्र इन्द्रपाल व यशोदा पत्नी बैजनाथ व प्रमोदकुमार सत्यनारायन पुत्रगण रामनारायन व दिनेशचन्द्र विनोदकुमार पुत्रगण रामशिरोमणि व शारदा देवी पत्नी रामशिरोमणि व विजयकुमार गिरीशचन्द्र पुत्रगण रामशिरोमणि नि० ग्राम
			90	निजी	कृषि	0.0249	अशोककुमार विनोदकुमार पुत्रगण रामनारायन व चिन्तामणि पुत्र हरिप्रकाश व वेदप्रकाश पुत्र सुखदेव व बच्चू पुत्र इन्द्रपाल व यशोदा पत्नी बैजनाथ व प्रमोदकुमार सत्यनारायन पुत्रगण रामनारायन व दिनेशचन्द्र विनोदकुमार पुत्रगण रामशिरोमणि व शारदा देवी पत्नी रामशिरोमणि व विजयकुमार गिरीशचन्द्र पुत्रगण रामशिरोमणि नि० ग्राम
			96	निजी	कृषि	0.0402	महावीर पुत्र पुदान व हरिशंकर महादेव पुत्रगण चन्द्रबली व बेदप्रकाश पुत्र सुखदेव व सत्य नारायन सूर्यनारायन कृष्णनारायन हृदय नारायन श्यामनारायन नि० ग्राम व रामअछेबर पाण्डेय पुत्र काशीप्रसाद नि० गजापुर व जडावती देवी पत्नी विश्रवनाथ नि० ग्राम व श्यामबहादुर सिंह पुत्र रामनरेश सिंह नि० ग्राम रूषीका पुरवा मजर रामगढ़ पर० चांदा
			97	सरकारी	चकमार्ग	0.0052	उत्तर प्रदेश सरकार
			98	निजी	कृषि	0.1869	दिनेश चन्द्र विनोदकुमार पुत्रगण रामशिरोमणि व शारदा देवी पत्नी रामशिरोमणि व विजयकुमार गिरीशचन्द्र पुत्रगण रामशिरोमणि व सरला देवी पत्नी श्रीराम तिवारी व सालिकराम व तुलसीराम पुत्रगण हरिशंकर गुप्ता नि० ग्राम व श्रीमती सुनील कुमार पत्नी देवनाथ नि० ग्राम गजापुर व श्रीमती आशा पाण्डेय पत्नी जयराम पाण्डेय नि० बेदुपारा व श्रीमती प्रज्ञा दूबे पत्नी शिवप्रसाद दूबे नि० दुबौली पर० चांदा
			123	सरकारी	चकमार्ग	0.0079	उत्तर प्रदेश सरकार
			130	निजी	कृषि	0.0909	श्रीनेत्रिप्रसाद पुत्र रामखेलावन व आनन्दकुमार पुत्र रामशिरोमणि व कमलादेवी पत्नी रामशिरोमणि व श्यामसुन्दर पुत्र रामखेलावन व कमलाप्रसाद ओमप्रकाश अमरनाथ पुत्रगण रामसय नि० ग्राम
			131	निजी	कृषि	0.3382	हरिशंकर पुत्र चन्द्रबली नि० ग्राम
			150	सरकारी	चकमार्ग	0.0095	उत्तर प्रदेश शासन
			154	निजी	कृषि	0.0931	रामनयन पुत्र रमेशर नि० ग्राम
			155	निजी	कृषि	0.0799	सुरेशचन्द्र यमुनाप्रसाद पुत्रगण रामकेवल व श्रीमती गुलाबदेई पत्नी रामकेवल नि० ग्राम
			156	निजी	कृषि	0.0543	रामदास पुत्र नरोशर नि० ग्राम
			157	निजी	कृषि	0.0262	प्रेमनारायण अवधेशनारायन अच्छेलाल पुत्रगण रामचरन नि० ग्राम
			158	निजी	कृषि	0.0187	रामविशाल पुत्र स्व०जगदम्बा प्रसाद नि० ग्राम
			159	निजी	कृषि	0.0241	राममिलन रामनयन पुत्रगण रमेशर व यमुनाप्रसाद सुरेशचन्द्र पुत्रगण रामकेवल व मु०गुलाबदेई पत्नी रामकेवल नि० ग्राम
			160	निजी	कृषि	0.0191	राममिलन रामनयन पुत्र रमेशर व यमुनाप्रसाद सुरेशचन्द्र पुत्रगण रामकेवल व श्रीमती गुलाबदेई पत्नी रामकेवल नि० ग्राम
			161	सरकारी	बंजर	0.0890	उत्तर प्रदेश सरकार
			162	सरकारी	बंजर	0.0380	उत्तर प्रदेश सरकार
			163	निजी	कृषि	0.0168	सूर्यनारायण हरिनारायन सन्तराम बजरंग छोटेलाल लालमणि पुत्रगण रामअजोर व मु०सरजूदेवी पत्नी स्व०रामअजोर नि० ग्राम
			164	निजी	कृषि	0.0495	रामनिहोर व शिवशंकर हीरामणि व हरिशंकर पुत्रगण रामकिशोर नि० ग्राम
			165	निजी	कृषि	0.0190	रामऔतार पुत्र रामसमुझ नि० ग्राम
			186	सरकारी	गैर कृषि	0.0643	उत्तर प्रदेश सरकार
			187	निजी	कृषि	0.0251	रामशिरोमणि पुत्र शम्भु गिरी व शिवप्रसाद हरि प्रसाद सुरेश पुत्रगण रामफेर व केवला पत्नी रामफेर व दीपक कुमार व विपिनकुमार पुत्रगण कमलेश व सुमित्रा पत्नी कमलेश व रन्जय पुत्र रामअजोर व रामप्रकाश ना० आयु 9 वर्ष पुत्र संजय सं० माता स्वयं व श्रीमती चमैलादेवी पत्नी संजय नि० ग्राम
			188	निजी	कृषि	0.0829	शिवप्रसाद हरि प्रसाद सुरेश पुत्रगण रामफेर व दीपक कुमार व विपिनकुमार पुत्रगण कमलेश व सुमित्रा पत्नी कमलेश व केवला पत्नी रामफेर नि० ग्राम
			189	निजी	कृषि	0.1802	रन्जय पुत्र रामअजोर व रामप्रकाश नाबा० आयु 9 वर्ष पुत्र संजय सं० माता स्वयं व श्रीमती चमैलादेवी पत्नी संजय नि० ग्राम
			190	निजी	कृषि	0.0380	रामशिरोमणि पुत्र शम्भु गिरी व शिवप्रसाद हरि प्रसाद सुरेश पुत्रगण रामफेर व केवला पत्नी रामफेर व दीपक

							कुमार व विपिनकुमार पुत्रगण कमलेश व सुमित्रा पत्नी कमलेश व रन्जय पुत्र रामअंजोर व रामप्रकाश ना० आयु 9 वर्ष पुत्र संजय सं० माता स्वयं व श्रीमती चमलादेवी पत्नी संजय नि० ग्राम
			191	निजी	कृषि	0.0198	हरीराम सियाराम पुत्रगण वचई नि० गजापुर
			194 ग	निजी	कृषि	0.0630	कमलाप्रसाद अमरनाथ ओमप्रकाश पुत्रगण रामशय नि०ग्राम
			194 ख	निजी	कृषि		रामसुन्दर पुत्र रामलौट व रमाशंकर रामचन्द्र जयराम बलराम राकेश अशोककुमार पुत्रगण रामअवध नि० ग्राम
			207	निजी	कृषि	0.0670	रामभारत पुत्र लौहर नि० नरहरपुर
			208	निजी	कृषि	0.0716	जुगगीलाल पुत्र रामलखन नि० ग्राम नरहरपुर
			209	निजी	कृषि	0.0890	गुलाबचन्द्र पुत्र लौहर नि० नरहरपुर
			210	निजी	कृषि	0.1085	रामकेश कुमार रमेश कुमार पुत्रगण राममूरत नि० नरहरपुर
			212	निजी	कृषि	0.1403	श्रीमती सुनिता पत्नी उमेश कुमार नि० ग्राम नौगवा व श्रीमती पियारी पत्नी सोमई नि० ग्राम शेषनपुर पर० चांदा व श्रीमती शिवकुमारी पत्नी सभाजीत नि० ग्राम सहिनवां पर० चांदा व श्रीमती पार्वती पत्नी रोशनलाल नि० ग्राम सरायजुझार पर० चांदा व चिन्तादेवी पत्नी रामलाल नि० ग्राम मदनपुर पनियार पर० चांदा वर्तमान नि० बेदुपारा
			213	निजी	कृषि	0.0747	रामतीरथ रामनयन पुत्रगण रामदेव व मु.विल्ली पत्नी रामदेव नि० ग्राम
			215	निजी	कृषि	0.0550	धर्मराज पुत्र रामफेर नि० ग्राम
			216	निजी	कृषि	0.0091	श्रीमती शकुन्तला पत्नी हरीप्रसाद नि० ग्राम
			217	निजी	कृषि	0.0679	श्रीनेत्रिप्रसाद पुत्र रामखेलावन व आनन्दकुमार पुत्र रामशिरोमणि व कमलादेवी पत्नी रामशिरोमणि व कमलाप्रसाद अमरनाथ ओमप्रकाश पुत्रगण रामसय व रामशंकर रामचन्द्र जयराम अशोककुमार बलीराम राकेश पुत्रगण रामअवध व श्यामसुन्दर पुत्र रामखेलावन व रामसुन्दर पुत्र रामलौट नि० ग्राम
			218	सरकारी	गैर कृषि	0.0536	उत्तर प्रदेश सरकार
			226	निजी	कृषि	0.0409	किशोर ब्रह्मदीन पुत्रगण शिवटहल व चन्द्रभान रामकल्प पुत्रगण कुटटी व छोटेलाल मोतीलाल टिहूरी पुत्रगण रामदेव व रामकुमार बनवारी भगौतीदीन पुत्रगण रामनाथ नि० ग्राम
			227	निजी	कृषि	0.0302	श्रीनेत्रिप्रसाद पुत्र रामखेलावन व आनन्दकुमार पुत्र रामशिरोमणि व कमलादेवी पत्नी रामशिरोमणि व कमलाप्रसाद अमरनाथ ओमप्रकाश पुत्रगण रामसय व रामशंकर रामचन्द्र जयराम अशोककुमार बलीराम राकेश पुत्रगण रामअवध व श्यामसुन्दर पुत्र रामखेलावन व रामसुन्दर पुत्र रामलौट नि० ग्राम
			228	निजी	कृषि	0.0319	राममिलन रामनयन पुत्र रमेशर व यमुनाप्रसाद सुरेशचन्द्र पुत्रगण रामकेवल व मु.गुलाबदेई पत्नी रामकेवल नि० ग्राम
			230	सरकारी	चकमार्ग	0.0057	उत्तर प्रदेश सरकार
			232	निजी	कृषि	0.0159	चन्द्रप्रकाश चन्द्रमोहन रमेश चन्द्र नन्दकिशोर प्रभाशंकर पुत्रगण देवतादीन नि० बरेहता
			234	निजी	कृषि	0.0230	इन्द्रशाह सिंह महेन्द्रकुमार सिंह पुत्र बबन सिंह नि० ग्राम चौकिया
			235	निजी	कृषि	0.0798	राममिलन पुत्र रमेशर नि० ग्राम
			236	निजी	कृषि	0.0084	बाबूलाल पुत्र मगरू नि० ग्राम
			237	निजी	कृषि	0.0114	मु.गीतादेवी पत्नी भूजेनाथ नि०ग्राम
			238	निजी	कृषि	0.0088	मुन्नू पुत्र चोहेंर व शोभनाथ पुत्र मुनेशर व लालजी पुत्र छोटेलाल नि० ग्राम
			239	निजी	कृषि	0.0135	शोभनाथ पुत्र मुनेशर व लालजी पुत्र छोटेलाल नि० ग्राम
			240	निजी	कृषि	0.0128	मुन्नू पुत्र चोहेंर नि० ग्राम
			241	निजी	कृषि	0.0114	मुन्नू पुत्र चोहेंर व शोभनाथ पुत्र मुनेशर व लालजी पुत्र छोटेलाल नि० ग्राम
			244	निजी	कृषि	0.1403	श्रीमती प्रभावती पत्नी छोटेलाल नि० ग्राम
			245	सरकारी	रास्ता	0.0124	उत्तर प्रदेश सरकार
			246	निजी	कृषि	0.0062	रामलाल पुत्र निर्धिन व रामशिरोमणि पुत्र अन्तू व राधेमोहन पुत्र इलाही व हीरा पुत्र लुलई व रामजीत व रामसेवक पुत्रगण निठुरी नि० ग्राम
			247	निजी	कृषि	0.0040	रामशिरोमणि रामसेवक रामजीत पुत्रगण रामनरेश नि० ग्राम
			249	सरकारी	चकमार्ग	0.0100	उत्तर प्रदेश सरकार
			250	निजी	कृषि	0.0200	नन्हकूराम पुत्र खेदू नि० बधूपुर
			251	निजी	कृषि	0.0127	श्रीराम पुत्र रामप्रसाद व रामशिरोमणि रामसेवक

								रामजीत पुत्र रामनरेश नि० ग्राम
			252	निजी	कृषि	0.0122		रामशिरोमणि रामसेवक रामजीत पुत्रगण रामनरेश नि० ग्राम
			253	निजी	कृषि	0.0010		रमेशचन्द्र पुत्र कमताप्रसाद नि०नौगवाँ
			254	निजी	कृषि	0.0080		रामशिरोमणि रामसेवक रामउदित पुत्र रामनरेश नि० ग्राम
			255	निजी	कृषि	0.0020		सूर्यनारायण पुत्र दूधनाथ नि० नौगवा
			256	निजी	कृषि	0.0020		श्रीमती सीतरदेवी पत्नी लालता प्रसाद नि० ग्राम
			257	निजी	कृषि	0.0037		रामअन्नद पुत्र मथुरा नि० ग्राम
			258	निजी	कृषि	0.0406		रामकुमार पुत्र घेराऊ नि० ग्राम
			259	निजी	कृषि	0.0022		रामप्रसाद पुत्र घेराऊ नि० ग्राम
			261	निजी	कृषि	0.0849		राकेशकुमार राजेशकुमार पुत्रगण रामदेव व शुसीलकुमार शिवकुमार पुत्रगण जवाहरलाल व रामसुमेर उपाध्याय पुत्र रामभरोस व श्रीमती मालती देवी पत्नी श्यामनारायण व भजनलाल पुत्र रामनरेश व शौरभकुमार शम्भूनाथ पुत्रगण जवाहरलाल व तनमय कुमार तनुज कुमार पुत्रगण मखनलाल व अनुज कुमार नाबा० आयु 13 वर्ष पुत्र मखनलाल सं० धर्मशिला माता व मु. धर्मशिला पत्नी मखनलाल व श्रीमती रूपादेवी पत्नी श्यामजी नि०ग्राम.लम्भुआ
			262	सरकारी	चकमार्ग	0.0057		उत्तर प्रदेश सरकार
			263	निजी	कृषि	0.0444		नान्हू पुत्र मोहन नि० ग्राम
			267	निजी	कृषि	0.0680		पूर्णमासी घिसियावन पुत्रगण रामप्रसाद नि० ग्राम
			268	निजी	कृषि	0.0383		हीरा पुत्र लुसई नि० ग्राम
			269	सरकारी	चकमार्ग	0.0062		उत्तर प्रदेश सरकार
			270	निजी	कृषि	0.0544		सुबरन पुत्र रामदीन व विद्यासागर व मनोज कुमार पुत्रगण जेदुराम नि० ग्राम
			271	निजी	कृषि	0.0745		चिन्तामणि पुत्र हरिप्रकाश व श्रीमती राजदेई पुत्र नन्हकू नि० ग्राम व अखिलेश बरनवाल पुत्र फूलचन्द्र बरनवाल नि० ग्राम बसरही बाजार वर्तमान बेदूपारा
			272	सरकारी	चकमार्ग	0.0085		उत्तर प्रदेश सरकार
			273	सरकारी	नाली	0.0065		उत्तर प्रदेश सरकार
			274	निजी	कृषि	0.0357		श्रीमती शारदादेवी पत्नी उमाशंकर व उर्मिला देवी पत्नी कैलाश प्रकाश नि० ग्राम
			275	निजी	कृषि	0.0422		हरिशंकर पुत्र चन्द्रबली नि० ग्राम
			276	निजी	कृषि	0.1562		बच्चू पुत्र इन्द्रजीत व सुदामा देवी पत्नी स्व० अनन्तराम व श्रीमती उर्मिलादेवी पत्नी हर्षकुमार व श्रीमती सुमनलता पत्नी सुभाषचन्द्र व लालदेई पत्नी अमरनाथ व शीला देवी पत्नी स्व०रामतीर्थ नि० ग्राम
			277	सरकारी	नाली	0.0053		उत्तर प्रदेश शासन
			281	सरकारी	बंजर	0.1011		उत्तर प्रदेश सरकार
			282	सरकारी	गैर कृषि	0.0056		कन्या पाठशाला उत्तर प्रदेश सरकार
			283	सरकारी	नवीन परती	0.0711		उत्तर प्रदेश सरकार
			285	निजी	कृषि	0.0766		रामसुन्दर पुत्र ठाकुरप्रसाद नि० ग्राम
			287	निजी	कृषि	0.0241		रामसुन्दर पुत्र ठाकुरप्रसाद नि० ग्राम
			288	निजी	कृषि	0.0781		विश्वनाथ पुत्र रामखेलावन नि० ग्राम
			289	निजी	कृषि	0.0045		कन्सादेवी पत्नी कपिलदेव नि० ग्राम
			320	निजी	कृषि	0.2644		महावीर पुत्र पदान नि० ग्राम
			321	निजी	कृषि	0.0060		हरिप्रकाश पुत्र सुखदेव व सत्यनारायण सूर्यनारायण कृष्णनारायण पुत्रगण रामलखन नि० ग्राम व श्रीमती जडावती देवी पत्नी रमाशंकर नि० गजापुर व रामअवध रामलाल पुत्रगण रामचरन नि० शेरपुर पशरामपुर व लालताप्रसाद पुत्र महावीर व श्यामलाल पुत्र मखोधर नि० शाहपुर पूरन व रमेशचन्द्र पुत्र श्यामाचरन नि० पाल्हीपुर पर० मीरानपुर व सुर्यलाल पुत्र चन्दू नि० लम्भुआ व देवीप्रसाद पुत्र रामनिहोर नि० ग्राम रामगंज व प्रवेश व सर्वेश नाबा० 15 व 12 वर्ष पुत्रगण रामबरन सं० चाचा संगी नि० ग्राम शाहपुर व द्रोपती देवी पत्नी सीताराम नि० लम्भुआ
			<b>योग</b>			<b>7.7278</b>		
		(22) नरहरपुर	364	सरकारी	चकमार्ग	0.0110		उत्तर प्रदेश सरकार
			363	निजी	कृषि	0.1699		क्षितीशचन्द्र पुत्र दीनदयाल व श्रीमती पतिराजी पत्नी स्व० दीनदयाल व हीराराम शेषमणि पुत्रगण रामनिहोर व गंगेशचन्द्र अखिलेशचन्द्र पुत्रगण रामशिरोमणि व मु० धर्मा पत्नी रामशिरोमणि नि० ग्राम
			362	निजी	कृषि	0.0421		बैरागी पुत्र रामसमुझ नि० ग्राम
			347	सरकारी	नाली	0.0068		उत्तर प्रदेश शासन
			334	निजी	कृषि	0.0360		भुल्लुरप्रसाद पुत्र तुलसीराम नि० ग्राम व रामहरख यादव पुत्र जगऊ यादव नि० दशवतपुर

				333	निजी	कृषि	0.0419	रामअजोर पुत्र जुगुनू नि० ग्राम
				332	निजी	कृषि	0.1255	श्रीमती रामदुलारी पत्नी महादेव जायसवाल व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी रामप्रदोष नि० लम्भुआ व जंगबहादुर सिंह पुत्र रामटहल नि० ग्राम व सुरसती पुत्री मधुवन सिंह नि० ग्राम व लीलावती देवी पत्नी तीर्थराज नि० पतुलकी
				331	निजी	कृषि	0.0663	दीनदयाल पुत्र रामनिहोर व गंगेशचन्द्र अखिलेशचन्द्र पुत्रगण रामशिरोमणि व मुधर्मा पत्नी रामशिरोमणि व रामअकबाल लालमणि हीराराम जगदीशप्रसाद पुत्रगण रामनिहोर व वृजेशकुमार उमेशचन्द्र पुत्रगण शेषमणि व शकुन्तला देवा शेषमणि नि० ग्राम
				330	निजी	कृषि	0.0156	दीनदयाल पुत्र रामनिहोर व गंगेशचन्द्र अखिलेशचन्द्र पुत्रगण रामशिरोमणि व मुधर्मा पत्नी रामशिरोमणि व रामअकबाल लालमणि हीराराम जगदीशप्रसाद पुत्रगण रामनिहोर व वृजेशकुमार उमेशचन्द्र पुत्रगण शेषमणि व शकुन्तला देवा शेषमणि नि० ग्राम
				329	निजी	कृषि	0.0250	रामसेवक सिंह पुत्र गयाबक्श सिंह व ओमप्रकाश सिंह पुत्र महादेव सिंह व अहिबरन सिंह पुत्र गंगा प्रसाद सिंह व शुभम सिंह ना० 14 वर्ष पुत्र रामनारायण सिंह सं० विमलेश व रामदयाल व बेदप्रकाश सिंह पुत्रगण लालबहादुर नि० ग्राम
				328	निजी	कृषि	0.1326	श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी अनन्त बहादुर सिंह नि० ग्राम
				327	सरकारी	चकमार्ग	0.0093	उत्तर प्रदेश सरकार
				326 ब	निजी	कृषि	0.3193	रामसरनसिंह पुत्र रामबदलसिंह व इन्द्रजीत यादव रामजीत पुत्रगण रामकरन व राजारामयादव पुत्र श्रीनाथ नि० ग्राम व श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी रामजतन व श्रीमती रामा सिंह पत्नी दहनसिंह व हवलदार सिंह हरीश नारायण पुत्रगण केशवप्रसाद सिंह नि० रामगढ़ श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी अनन्त बहादुर सिंह नि० ग्राम
				320	निजी	कृषि	0.1150	उदरेज सिंह पुत्र हरिशरण सिंह व प्रेमादेवी पुत्रवधू शेरबहादुर सिंह व मान बहादुर सिंह पुत्र वंशराज सिंह व रुद्रपाल सिंह विजयपाल सिंह पुत्र समरबहादुर सिंह नि० ग्राम व मानिकचन्द्र पुत्र रामपलट नि० ग्राम रामगढ़ व रामप्रसाद पुत्र शिवकुमार उपनाम कल्लू शुक्ल व श्रीमती अशोका देवी पत्नी कृष्णाजी द्विवेदी नि० ग्राम दुल्हापुर
				319	निजी	कृषि	0.0250	श्रीमती चमलादेवी पत्नी रामप्रताप नि० कामापुर व अमृत लाल पुत्र सूर्यबली व चन्द्रभुवननाथ पुत्र रामलखन नि० ग्राम व जशवन्त सिंह रामसिरोमणि सिंह नि० किठौली
				318	निजी	कृषि	0.0430	विश्वनारायण पुत्र रामहित व वीरेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र रतनपाल सिंह नि०ग्राम कुवेरशाहपट्टी व प्रमोदकुमार पुत्र लालताप्रसाद नि० रुपचन्दापुर तह० बदलापुर जिला जौनपुर
				317 सि.	निजी	कृषि	0.1486	नीमर त्रिवेनी सुखई पुत्रगण टूलन नि० भगौतीपुर
				317 सि.	निजी	कृषि		माताफेर गयादीन पुत्रगण जैकरन नि०जयपालपुर नरहरपुर
				317 सि.	निजी	कृषि		मोहनलाल मुन्नालाल रामसुन्दर पुत्रगण अगनू लाल नि०घरवासपुर
				317 सि.	निजी	कृषि		रामआसरे पुत्र भगवानप्रसाद व सदीपकुमार नाबा० उम्र 17 वर्ष पुत्र भगवानप्रसाद संरक्षक पिता स्वयं नि०रामगढ़
				317 सि.	निजी	कृषि		रामसरनसिंह पुत्र रामबदलसिंह नि०ग्राम
				307	निजी	कृषि	0.0320	ओमप्रकाश सिंह पुत्र महादेव सिंह व रामविभूति सिंह अजयकुमार सिंह पुत्रगण राममूरत सिंह व रामसूरत पुत्र गंगसिंह व प्रेमनारायण राजनारायण पुत्र रामभारत व रामसेवक सिंह पुत्र गयाबक्श सिंह व रामदयाल सिंह व वेदप्रकाश सिंह पुत्रगण लालबहादुर सिंह नि० ग्राम
				366	निजी	कृषि	0.0380	रामसेवक सिंह पुत्र गयाबक्शसिंह व रामविभूति सिंह प्रमोदकुमार अजयकुमार सिंह पुत्रगण राममूरत सिंह व ओमप्रकाशसिंह पुत्र महादेवसिंह व राजनारायण प्रेमनारायण पुत्रगण भरतसिंह व अहिवरनसिंह रामसूरतसिंह पुत्रगण गंगाप्रसादसिंह व रामदयाल व बेदप्रकाश सिंह पुत्रगण लालबहादुर सिंह नि० ग्राम
				369	निजी	कृषि	0.0624	सतीशकुमार सुरेन्द्रकुमार सुनीलकुमार पुत्रगण सीताराम नि०ग्राम
				370	सरकारी	चकमार्ग	0.0040	उत्तर प्रदेश सरकार
				371	निजी	कृषि	0.0096	सतीशकुमार सुरेन्द्रकुमार सुनीलकुमार पुत्रगण सीताराम नि०ग्राम
				372	निजी	कृषि	0.0458	रामआसरे पुत्र फतेबहादुर सिंह व श्रीमती प्रमिला सिंह पत्नी कैलाश सिंह व मेसर्स अमित मिल्कप्रोडक्स प्रो०सुबेदार सिंह पुत्र रामकुमार सिंह नि० ग्राम लम्भुआ

							व भरतराज गिरि पुत्र माताबदल नि०रामगढ
			373	सरकारी	नाली	0.0054	उत्तर प्रदेश सरकार
			374	निजी	कृषि	0.1167	रामआसरे पुत्र फतेहबहादुर सिंह नि०ग्राम व भरतराज गिरि पुत्र माताबदलगिरि नि०रामगढ
			375	निजी	कृषि	0.0675	शाशांकशेषर सिंह प्रशान्तशेषर सिंह नाबा० उन्न क्रमशः 14, 12 वर्ष पुत्रगण सियाराम सिंह सं० श्रीमती सुधासिंह माता स्वयं व श्रीमती सुधासिंह पत्नी स्व० सियाराम सिंह नि० 1226/2 सिरवारा रोड सदर सुलतानपुर हा०वा० रामगढ
			376	निजी	कृषि	0.0505	रामसूरत पुत्र गंगाप्रसाद व अनीता देवी पत्नी राजेशप्रकाश व श्रीमती सीमा देवी पत्नी राकेशप्रकाश नि०ग्राम व चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र जमुनाप्रसाद गुप्ता नि०कुबेरशाहपट्टी व श्रीमती शीलादेवी पत्नी स्व०रामतीर्थ नि०लम्बुआ
			377	सरकारी	चकमार्ग	0.0019	उत्तर प्रदेश सरकार
			378	सरकारी	बंजर	0.0250	उत्तर प्रदेश सरकार
			379	निजी	कृषि	0.0060	रामआसरे पुत्र फतेहबहादुर व रामसिंह पुत्र तेजबहादुरसिंह व रणजीतसिंह अमरबहादुरसिंह पुत्रगण रामकरनसिंह व बृजेशकुमारसिंह अवधेशकुमार पुत्रगण रणजीतसिंह नि०ग्राम
			381	निजी	कृषि	0.0488	रामसेवक सिंह पुत्र गयाबक्शसिंह व रामविभूति सिंह प्रमोदकुमार अजयकुमार पुत्रगण रामसूरत सिंह व ओमप्रकाशसिंह पुत्र महादेवसिंह व राजनरायनसिंह प्रेमनरायनसिंह पुत्रगण रामभरतसिंह व रामसूरतसिंह पुत्र गंगाप्रसादसिंह व रामदयाल व बेदप्रकाश सिंह पुत्रगण लालबहादुर नि० ग्राम
			382	निजी	कृषि	0.0190	श्रीमती सीतापत्नी पत्नी लक्ष्मीनारायन व सुदामादेवी पत्नी माताफेर व कल्लू पुत्र सरजू व गायत्रीदेवी पुनीतादेवी पत्नी हनुमान व दीपचन्द्र पुत्र मधुवन व शम्भूनाथ पुत्र फूलचन्द्र व मानिकचन्द्र मनीलाल पुत्रगण महादेव व श्यामलाल पुत्र सरजू नि० ग्राम व श्रीमती वीनासिंह पत्नी महेन्द्रबहादुर सिंह नि० कुबेरशाहपट्टी पर० चांदा
			383	निजी	कृषि	0.1110	श्रीमती सीतापत्नी पत्नी लक्ष्मीनारायन व सुदामादेवी पत्नी माताफेर व कल्लू पुत्र सरजू व गायत्रीदेवी पुनीतादेवी पत्नी हनुमान व दीपचन्द्र पुत्र मधुवन व शम्भूनाथ पुत्र फूलचन्द्र व मानिकचन्द्र मनीलाल पुत्रगण महादेव व श्यामलाल पुत्र सरजू नि० ग्राम
			योग			1.9767	
	(23)	कुबेरशाह पट्टी	348	निजी	कृषि	0.0606	भुल्लुर पुत्र तुलसी नि० घरवासपुर व श्रीमती अनन्तकुमारी पत्नी रामसेवक तिवारी नि०ग्राम व मुहम्मद अली पुत्र सरदार खां नि० भतेडा
			349	सरकारी	चकमार्ग	0.0042	उत्तर प्रदेश शासन
			350	निजी	कृषि	0.1240	अमरनाथ पुत्र हरिचरन नि० नरहरपुर
			328	सरकारी	चकमार्ग	0.0062	उत्तर प्रदेश शासन
			313	निजी	कृषि	0.0256	सीताराम पुत्र रामनरेश नि० नरहरपुर
			312	निजी	कृषि	0.0820	श्रीमती केवला देवी पुत्री रामनरेश पत्नी सीताराम नि० नरहरपुर
			311	निजी	कृषि	0.0482	सूर्यनारायण पुत्र भगवानदीन नि० नरहरपुर व कलावती पत्नी गौरी शंकर नि० रामगढ
			308	निजी	कृषि	0.0548	रामचन्द्र फूलचन्द्र शिवनारायण दिनेशकुमार पुत्रगण रामअभिलाख व राजकुमार पुत्र सन्तराम नि० नरहरपुर व बंश बहादुर सिंह पुत्र अमयरज सिंह नि० ग्राम
			307	निजी	कृषि	0.1021	चिमानू पुत्र भगौतीदीन नि० नरहरपुर
			306	निजी	कृषि	0.2646	शम्भूनाथ पुत्र फूलचन्द्र नि० नरहरपुर
			305	सरकारी	चकमार्ग	0.0135	उत्तर प्रदेश शासन
			292	निजी	कृषि	0.0035	गोरखनाथ पुत्र रामशंकर व सूर्यनारायण पुत्र भगौतीदीन नि० नरहरपुर व
			290	निजी	कृषि	0.2555	सीताराम पुत्र मंगरू जायसवाल नि० रामगढ रूपी का पूरा व दिवाकर अरुणकुमार पुत्र रामकृपाल यादव नि० रामगढ वारिद हाल विसुनदासपुर व श्रीमती फूला देवी उपनाम फूलर पत्नी सीताराम जायसवाल नि० रामगढ व झुरहू पुत्र गंगा नि० ग्राम अमरबहादुर पिता जयकरन नि. घरवासपुर
			289	सरकारी	चकमार्ग	0.0162	उत्तर प्रदेश शासन
			286	निजी	कृषि	0.1279	रामसनेही रामलाल हुबलाल पुत्रगण राजाराम नि० ग्राम
			285	निजी	कृषि	0.2251	काशीराम झगरूराम पुत्रगण रामसमुद्र नि० ग्राम
			284	निजी	कृषि	0.0888	जगदीश पुत्र रामनेवाज नि० ग्राम व मानिकचन्द्र पुत्र रामपलट नि० रामगढ व सुभाषचन्द्र पुत्र बचईराम नि० शंकरपुर
			283	निजी	कृषि	0.1397	रामनायक जगतनारायण हरिनारायण पुत्रगण बाबूलाल व मु. केवला पत्नी बाबूलाल व अशोककुमार व रामकुमार

							राजेशकुमार पुत्रगण रामशंकर व श्रीमती लीलावती पत्नी स्व० रामशंकर नि० ग्राम
			282	निजी	कृषि	0.1848	अम्बिकाप्रसाद पुत्र भवानीप्रसाद शुक्ल नि० गोपालपुर मधेया
			281	निजी	कृषि	0.4358	सरोज कुमार व मनोज कुमार पुत्रगण एकलब्य व श्रीमती मनराजी पत्नी स्व० एकलब्य नि० ग्राम
			272	सरकारी	चकमार्ग	0.0291	उत्तर प्रदेश शासन
			261	निजी	कृषि	0.0253	लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र व अरविन्द रवीन्द्र पुत्रगण रामआसरे व सूरसती पत्नी स्व० रामआसरे व रामबचन शोभनाथ पुत्र रामचन्द्र नि० कामापुर
			260	निजी	कृषि	0.0297	श्यामा देवी पत्नी रघुराज सिंह नि० ग्राम
			259	निजी	कृषि	0.0039	साधू घेराऊ पुत्रगण पंचम् व नोखई रामनाथ पुत्रगण मुरली व सुखदेव पुत्र सन्तराम नि० ग्राम व रामसागर पुत्र दुर्बली नि० ग्राम
			258	सरकारी	चकमार्ग	0.0390	उत्तर प्रदेश शासन
			257	निजी	कृषि	0.1783	रामअचल पुत्र रामलोट व नन्हकऊ पुत्र भीखा व सन्तोषी बैजू बिरजू पुत्रगण सतई नि० ग्राम व राधेश्याम व घनश्याम पुत्रगण स्व० बचई नि० ग्राम
			256	निजी	कृषि	0.2649	त्रिभुवननाथ पुत्र रामलखन नि० नरहरपुर व अशोककुमार राधेश्याम लालमणि पुत्र मतोले नि० ग्राम
			255	निजी	कृषि	0.0167	अमरनाथ पुत्र हरिचरन नि० नरहरपुर
			254	निजी	कृषि	0.0170	उमानाथ पुत्र हरिचरन नि० नरहरपुर
			253	निजी	कृषि	0.3048	पटुमनाथ पुत्र हरिचरन नि० नरहरपुर
			252	सरकारी	चकमार्ग	0.0202	उत्तर प्रदेश शासन
			233	सरकारी	नाली	0.0299	उत्तर प्रदेश शासन
			240	निजी	कृषि	0.3492	श्यामा देवी पत्नी रघुराज सिंह नि० ग्राम
			241	सरकारी	चकमार्ग	0.0300	उत्तर प्रदेश शासन
			242	निजी	कृषि	0.1014	सन्तराम पुत्र शिवहरख नि० घरवासपुर
			247	निजी	कृषि	0.0999	बरसाती पुत्र जियावन व श्रीमती केवला देवी पत्नी सीताराम जायसवाल नि० ग्राम
			248	निजी	कृषि	0.0950	सुदामा पुत्र हीरालाल नि० शाहपुर
			249	निजी	कृषि	0.1441	महाराजदीन पुत्र रामनरेश नि० ग्राम
			262	निजी	कृषि	0.1856	रामबहादुर राजबहादुर विमलकुमार पुत्रगण जगतनारायण नि० मझेगाव
			261	निजी	कृषि	0.0066	सुबासचन्द्र व विपिनकुमार पुत्रगण लक्ष्मीनारायण राजकुमारी पत्नी लक्ष्मीनारायण नि० कामापुर व अरविन्द रवीन्द्र पुत्रगण रामआसरे व सूरसती पत्नी स्व० रामआसरे व श्रीमती अनारा देवी पत्नी मोहनलाल जायसवाल नि० घरवासपुर व शोभनाथ पुत्र रामचन्द्र नि० कामापुर
			259	निजी	कृषि	0.0725	रामसागर पुत्र दुर्बली साधू व घेराऊ पुत्रगण पंचम् व नोखई रामनाथ पुत्रगण मुरली व सुखदेव पुत्र सन्तराम नि० ग्राम
			257	निजी	कृषि	0.0073	रामअचल पुत्र रामलोट व राधेश्याम घनश्याम पुत्रगण स्व० बचई च नन्हकऊ पुत्र भीखा व सन्तोषी बैजू बिरजू पुत्रगण सतई नि० ग्राम
			365	निजी	कृषि	0.0185	शिवबरन पुत्र चन्द्रबली नि० कुबेरशाह पट्टी व सीतापती पुत्र ठाकुरदीन नि० नरहरपुर व बलिभदर रामशिरोमणि घनश्याम बैजनाथ पुत्रगण रामनाथक व दानबहादुर देवराज श्रीनारायण पुत्र शिवबरन नि० ग्राम
			366	सरकारी	गैर कृषि	0.0118	उत्तर प्रदेश सरकार
			<b>योग</b>			<b>4.3438</b>	
		(24) घरवासपुर	440	सरकारी	चकमार्ग	0.0862	उत्तर प्रदेश सरकार
			414	निजी	कृषि	0.2401	सन्तराम पुत्र शिवहरख नि० ग्राम
			415 मि.	निजी	कृषि	0.3824	गंगादेई पत्नी रामगुलाब पाल नि० महाराजगंज
			415 मि.	निजी	कृषि		रामजग रामसिद्ध राजेश बृजेश सुभाष जीतलाल पुत्रगण नरपति व धनदेई देवी पत्नी नरपति व होमसागर प्रेमसागर पुत्रगण मनोहर नि० ग्राम
			416	निजी	कृषि	0.6699	रामबहोर पुत्र दिल्ली व रामबहादुर समरबहादुर पुत्रगण रामनिहोर व लालजी राकेश सुरेश अवधेश पुत्र रामकिशोर व लीलावती पत्नी फूलचन्द्र नि० ग्राम
			432	निजी	कृषि	0.4765	सूर्यनारायण उर्फ सरजू प्रसाद पुत्र रामबरन व श्रीमती कृपाली पत्नी रामबरन व श्रीमती पार्वती देवी पत्नी सूर्यनारायण व श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी रामशिरोमणि नि० ग्राम
			433	निजी	कृषि	0.2577	चन्दू पुत्र अनारू नि० शाहपुर पूरन
			438	निजी	कृषि	0.1310	धिराऊ पुत्र रामओतार व अमयराज पुत्र नन्हकऊ व गोविन्द नाबा० 13 वर्ष पुत्र नन्हकऊ सं० खरपत्ती माता स्वयं व खरपत्ती पत्नी नन्हकऊ व रामप्रताप पुत्र



								बेनई व राजू नाबा0 13 वर्ष पुत्र बेनई सं0 शान्ती माता व शान्ती पत्नी बेनई व रामपियारे रामजस पुत्र गंगा नि0 ग्राम
				437	निजी	कृषि	0.1900	रमाशंकर रमेशचन्द्र दिनेशचन्द्र पुत्र बालगोविन्द नि0 ग्राम
				439	निजी	कृषि	0.2734	रामकरन पुत्र केंदार नि0 ग्राम
				449	सरकारी	मुख्यमार्ग	0.0166	उत्तर प्रदेश सरकार
				452	निजी	कृषि	0.0692	रामअकबाल पुत्र सूर्यनारायण नि0 शेरपुर परसरामपुर
				453	निजी	कृषि	0.2550	श्रीमती कृपाली पत्नी रामबरन व अमरबहादुर पुत्र जैकरन नि0 ग्राम व रामसागर पुत्र सीताराम नि0 लामा बनकठा मजरा नीनरा व रमाशंकर रमेश कुमार दिनेशकुमार पुत्रगण बालगोविन्द व रामनेवाज पुत्र रामकुबेर नि0 ग्राम
				454	निजी	कृषि	0.2602	प्रेमवतीदेवी पत्नी श्रीराम नि0 हासापुर पर0 अल्देमउ व शिवचरन पुत्र विन्देश्वरी नि0 शेरपुर परसरामपुर
				455	सरकारी	चकमार्ग	0.0018	उत्तर प्रदेश सरकार
				457	निजी	कृषि	0.0093	श्रीमती पार्वतीदेवी पत्नी शिवचरन नि0 शेरपुर परसरामपुर
				458	निजी	कृषि	0.0235	रामनेवाज पुत्र रामकुबेर व रामहित हरीराम पुत्रगण रामसुन्दर नि0 ग्राम
				459	निजी	कृषि	0.0325	शिवमूरति देवतादीन रामसूरत पुत्रगण बचई नि0 शेरपुर परसरामपुर
				460	निजी	कृषि	0.0220	देवतादीन रामसूरत पुत्रगण बचई नि0 शेरपुर परशुरामपुर
				463	निजी	कृषि	0.0111	शीतलाप्रसाद माताप्रसाद पुत्रगण निरधिन नि0 शेरपुर परसरामपुर व सच्चिदानन्द पाण्डेय पुत्र शत्रुघन प्रसाद पाण्डेय नि0 रामपुर
				465	निजी	कृषि	0.0139	जगराम पुत्र ठोठी नि0 ग्राम
				630	निजी	कृषि	0.0060	दशरथप्रसाद शत्रुघ्नप्रसाद पुत्रगण रामकरन नि0 रामपुर
				631	निजी	कृषि	0.2451	शीतलाप्रसाद माताप्रसाद पुत्र निरधिन व श्रीकान्त पुत्र रामअकबाल नि0 शेरपुर परसरामपुर
				632	सरकारी	चकमार्ग	0.0460	उत्तर प्रदेश सरकार
				633	निजी	कृषि	0.3375	रामअकबाल पुत्र सूर्यनारायण व जयप्रकाश पुत्र रामदत्त व कृष्णकुमार अभयराज कैलाशनाथ अमरनाथ पुत्रगण दुर्गाप्रसाद व विजयराज पुत्र रामतवकल नि0 शेरपुर परसरामपुर व सच्चिदानन्द पाण्डेय पुत्र शत्रुघ्नप्रसाद पाण्डेय नि0 रामपुर
				638	सरकारी	चकमार्ग	0.0205	उत्तर प्रदेश सरकार
				640	निजी	कृषि	0.0765	सरजूदेवी पत्नी रामऔतार नि0 ग्राम
				641	निजी	कृषि	0.1460	रुकमुददीन शाह हकीमुददीन अहमद रियाज अहमद भुइला पुत्रगण मुनीर शाह नि0 ग्राम
				642	निजी	कृषि	0.5382	ओमप्रकाश देवप्रकाश पुत्रगण रामबोध व मु0 छायारानी पत्नी स्व0 रामबोध नि0 ग्राम
				643 मि.	निजी	कृषि	0.1728	श्रीमती सोनादेवी पत्नी अलीशेर नि0 आनापुर नरायनगंज व श्रीमती लल्ली देवी पत्नी चिन्दीलाल नि0 ग्राम
				643 मि.	निजी	कृषि		श्रीमती सोनादेवी पत्नी अलीशेर नि0 आनापुर नरायनगंज व श्रीमती लल्ली देवी पत्नी चिन्दीलाल व श्रीमती फातमाबीबी पत्नी स्व0 अल्लामेज नि0 ग्राम व सच्चिदानन्द पुत्र शत्रुघ्नप्रसाद नि0 रामपुर
				644	निजी	कृषि	0.1056	केंदारनाथ पुत्र रामअछेबर नि0ग्राम
				645	निजी	कृषि	0.2318	मुनीर शाह खलील शाह हैयदीन शाह पुत्रगण बशीर अहमद नि0ग्राम
				652	निजी	कृषि	0.0203	नन्हकू शिम्भू राधेश्याम पुत्रगण रामदास व मु0 भगना पत्नी रामदास नि0 शेरपुर
				656	निजी	कृषि	0.0439	अब्दुलसत्तार व मो0रफीक पुत्रगण तुनई व साहिना पत्नी तुनई नि0 ग्राम
				657	निजी	कृषि	0.5581	अवधेन्द्र कुमार पुत्र शिवप्रसाद नि0 ग्राम
				658	निजी	कृषि	0.1930	हमीद पुत्र दमड़ी नि0 केंडरीपुर व सुरेन्द्रप्रताप पुत्र रामपूजन नि0 ग्राम
				659	निजी	कृषि	0.1988	जमील पुत्र गोहर नि0 ग्राम
				660	निजी	कृषि	0.1110	जमील पुत्र गोहर नि0 ग्राम
				661	सरकारी	चकमार्ग	0.0229	उत्तर प्रदेश सरकार
				योग			<b>6.4964</b>	
		(25) शेरपुर परसरामपुर		1	सरकारी	नाली	0.0075	उत्तर प्रदेश सरकार
				2	निजी	कृषि	0.1016	महादेव पुत्र घुरहू नि0 रहतीपुर
				5	निजी	कृषि	0.0618	रामदयाल पुत्र झिगूरी नि0 नरायनपुर
				7	निजी	कृषि	0.0117	जगराम पुत्र ठौठी नि0 धरवासपुर व अशोक कुमार पुत्र रामबहादुर नि0 धरवासपुर व संतोष कुमार, सत्येन्द्र कुमार, शैलेन्द्र कुमार नाबा0 उम्र क्रमशः 15, 11, 07

							वर्ष पुत्रगण रामबहादुर संरक्षक केवला देवी माता केवला देवी पत्नी रामबहादुर नि० धरवासपुर
			10	निजी	कृषि	0.0055	रामनेवाज, रामसुमेर पुत्रगण रामकुबेर नि० धरवासपुर
			11	सरकारी	चकमार्ग	0.0003	उत्तर प्रदेश सरकार
			12	निजी	कृषि	0.0002	श्रीमती जमुना देवी पत्नी माताप्रसाद नि० ग्राम
			33	निजी	कृषि	0.3649	अमरनाथ लक्ष्मीकान्त देवीप्रसाद हरिप्रसाद माताप्रसाद पुत्रगण अयुगनाथ नि० सिंहौली व श्रीमती बबना देवी पत्नी बिजयपाल सिंह नि० धरवासपुर व श्रीमती शकीनाबाबो पत्नी मुहम्मद सलीम अन्सारी नि० लम्मुआ
			34	निजी	कृषि	0.4123	शीतला प्रसाद, माताप्रसाद, रामप्रसाद पुत्रगण निरधिन नि० ग्राम
			35	सरकारी	चकमार्ग	0.0091	उत्तर प्रदेश सरकार
			36	निजी	कृषि	0.0850	रामअमोल पुत्र निरधिन नि० ग्राम
			37	निजी	कृषि	0.0403	श्रीमती पार्वती पत्नी शिवचरन व शिवचरन पुत्र विन्देश्वरी नि० ग्राम
			42	निजी	कृषि	0.7618	पारसनाथ पुत्र त्रिलोकी नि० ग्राम व राजकुमार विजय कुमार रमेश कुमार बा. राकेशकुमार ना० बा० आयु लगभग 10 वर्ष पुत्र बैजनाथ सं० मु० उषादेवी माता स्वयं व उषादेवी पत्नी स्व० बैजनाथ नि० ग्राम
			43	सरकारी	चकमार्ग	0.0116	उत्तर प्रदेश सरकार
			44	निजी	कृषि	0.3306	सालिगराम, विजयराज पुत्रगण रामतवककल नि०ग्राम व कृष्ण कुमार, श्रीनाथ, अमयराज, कैलाशनाथ, अमरनाथ पुत्रगण दुर्गाप्रसाद नि०ग्राम व श्रीपति पुत्र छंगू नि०आनापुर नरायनगंज व श्रीमती पार्वतीदेवी पत्नी शिवचरनलाल नि० शेरपुरपरसरामपुर पर० चांदा व विद्यादेवी पत्नी शत्रुघनप्रसाद पाण्डेय नि०रजवारेरामपुर पर०चांदा तहसील लम्मुआ जिला सुलतानपुर
			68	निजी	कृषि	0.1206	रामलाल पुत्र रामअनन्द नि० ग्राम व जयप्रकाश चौबे पुत्र रामदत्त चौबे नि० ग्राम व शोभावती पत्नी रामदत्त नि० ग्राम
			69	निजी	कृषि	0.0180	रामअकवाल पुत्र सूर्यनारायण नि० ग्राम
			योग			<b>2.3426</b>	
		(26) आनापुर नरायनगंज	133	निजी	कृषि	0.0144	रामअकवाल पुत्र सूर्यनारायण नि० शेरपुर परसरामपुर
			132	निजी	कृषि	0.0029	रामअकवाल पुत्र सूर्यनारायण नि० शेरपुर परसरामपुर
			124	निजी	कृषि	0.0890	रामकरन पुत्र बिहारी नि० ग्राम
			123	निजी	कृषि	0.1870	सैयद, मो० अफजल हुसेन, सैयद मो० अफसर हुसैन पुत्रगण अल्फराज व हसमुलबेगम पत्नी अल्फराज नि० ग्राम
			122	निजी	कृषि	0.0257	सैयद, मो० अफजल हुसेन, सैयद मो० अफसर हुसैन पुत्रगण अल्फराज व हसमुलबेगम पत्नी अल्फराज नि० ग्राम
			121 मि.	निजी	कृषि	0.4823	वीपत पुत्र शिवदहेल नि० धरवासपुर
			121 मि.	निजी	कृषि		धिसियावन, घपसू पुत्रगण सरदीन नि० ग्राम
			121 मि.	निजी	कृषि		संतोषी पत्नी गुरुदीन नि० ग्राम
			120	सरकारी	रास्ता	0.0069	उत्तर प्रदेश सरकार
			106	निजी	कृषि	0.1140	भगवानदीन उर्फ भूसू, रामरजतन, रामकरन पुत्रगण बिहारी नि० ग्राम व मोतीलाल पुत्र रामआधार नि० ग्राम
			105	सरकारी	चकमार्ग	0.0053	उत्तर प्रदेश सरकार
			90	सरकारी	रास्ता	0.0141	उत्तर प्रदेश सरकार
			89 मि.	निजी	कृषि	0.2915	अवधेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र दुर्गाविजय नि० कोथरा खुर्द व सतीश कुमार, सुधीर कुमार पुत्रगण बलिराजसिंह नि० कोथरा खुर्द व विकास प्रताप सिंह पुत्र मंगल सिंह नि० कोथरा खुर्द व कृष्णदेव, ओमप्रकाश, ईष्टदेव, वेदप्रकाश पुत्रगण शिवप्रसाद नि० रामपुर व राजदेव, रतनदेव पुत्रगण बासदेव व राजकुमारी पुत्री बासदेव नि० रामपुर व रमाकान्त पुत्र शीतला प्रसाद नि० ग्राम व श्रीमती बाला सिंह पत्नी स्व० गजेन्द्रप्रताप सिंह नि० रामपुर व फकीर पुत्र इमामअली नि० धरवासपुर व मो० हदीश पुत्र पीरमोहम्मद नि० धरवासपुर व अब्दुल लतीफ पुत्र बन्धू नि० धरवासपुर व शब्बीर पुत्र दिलदार नि० धरवासपुर व गणेशकुमार पुत्र सीताराम नि० कुबेरशाहपट्टी व मजीद, सजीद, सफीक, रफीक, हकीज पुत्रगण सिकन्दर व इसरातुलनिशां पत्नी सिकन्दर नि० धरवासपुर व रामबरन, रामदयाल, साधू, माताप्रसाद, रामरसन पुत्रगण फेरई व मुटुनादेवी पत्नी फेरई नि० ग्राम
			91	निजी	कृषि	0.0011	बैताली पुत्र जोमी नि०ग्राम
			92	निजी	कृषि	0.0932	जगन्नाथ पुत्र रामअभिलाख नि०ग्राम
			93	निजी	कृषि	0.2932	जोखू, राजेन्द्रप्रसाद पुत्रगण लहुरी व लहुरी पुत्र अलगू

							नि० ग्राम व भागीरथी, लालमणि पुत्रगण जेदू व गंगीदेवी पत्नी जेदू नि०ग्राम
		94	निजी	कृषि	0.3951		अवधेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र दुर्गाविजयसिंह नि०कोथराखुर्द
		95	निजी	कृषि	0.5153		अवधेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र दुर्गाविजयसिंह नि०कोथराखुर्द
		68	सरकारी	रास्ता	0.0157		उत्तर प्रदेश सरकार
		76	निजी	कृषि	0.0029		रामवरन पुत्र नेवाज नि० ग्राम व बृजपाल पुत्र रामकरन व कैलाशीदेवी पत्नी स्व०रामकरन नि० ग्राम
		75	निजी	कृषि	0.0268		रामकुमार पुत्र विश्वनाथ व सहदेई पत्नी विश्वनाथ नि० रामपुर
		74	निजी	कृषि	0.0400		राजदेई पत्नी श्रीपाल व श्रीमती कटोरा देवी पत्नी जेदूराम यादव नि० रामपुर
		73	निजी	कृषि	0.0101		जेदू पुत्र पितम्बर नि० ग्राम
		67	निजी	कृषि	0.0147		जगू पुत्र माताबदल नि० रामपुर
		66	निजी	कृषि	0.2450		हरिशचन्द्र पुत्र नन्हकू व मु० समोला देवी पत्नी स्व० नन्हकू व बरसाती पत्नी नंधा नि० ग्राम
		65	निजी	कृषि	0.4121		रामप्रताप सिंह, गयाप्रसाद सिंह, अरूणकुमारसिंह पुत्रगण राघवेन्द्रप्रताप सिंह नि० कोथराखुर्द
		61	निजी	कृषि	0.0550		अवधेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र दुर्गाविजय नि० कोथरा खुर्द
		51	निजी	कृषि	0.0011		मुहरम पुत्र कासिम नि० ग्राम
		50	निजी	कृषि	0.2683		मुन्शीरजा पुत्र शहवाज नि० ग्राम
		49	निजी	कृषि	0.0227		लक्ष्मिन पुत्र भगेलू नि० ग्राम
		46	निजी/सरकारी	कृषि/अकृषि	0.4474		कतवारू पुत्र मेंदू नि० ग्राम व कालूराम पुत्र रामदास नि० ग्राम व घुरहू पुत्र रमई नि० ग्राम व मग्धू पुत्र बेंचू नि० ग्राम व भागीरथी पुत्र बहादुर नि० ग्राम व रामदयाल पुत्र बहादुर नि० ग्राम व रामवरन पुत्र फेरई नि० ग्राम व रामलखन पुत्र भगेलू नि० ग्राम व रामसरन पुत्र फेरई नि० ग्राम व साधू पुत्र फेरई नि० ग्राम व नवीन परती, उत्तर प्रदेश सरकार
		231	सरकारी	रास्ता	0.0439		उत्तर प्रदेश सरकार
		232	निजी	कृषि	0.1183		रामकेदार पुत्र पुटुन व खुनखुन, भागीरथी पुत्रगण बचई व हरिप्रसाद, श्रीपाल, लालता पुत्रगण जंगली व रामकरन पुत्र बिहारी नि० कोइरीपुर
		233	निजी	कृषि	0.1595		रामकेदार पुत्र पुटुन व खुनखुन, भागीरथी पुत्रगण बचई व हरिप्रसाद, श्रीपाल, लालता पुत्रगण जंगली व रामकरन पुत्र बिहारी नि० कोइरीपुर
		234	निजी	कृषि	0.2786		रामकेदार पुत्र पुटुन व खुनखुन, भागीरथी पुत्रगण बचई व हरिप्रसाद, श्रीपाल, लालता पुत्रगण जंगली व रामकरन पुत्र बिहारी नि० कोइरीपुर
		235	निजी	कृषि	0.1195		जयराजी देवी पत्नी रामकेदार नि० कोथराखुर्द जितेन्द्रप्रताप सुरेन्द्रप्रताप वीरेन्द्रप्रताप भूपेन्द्रप्रताप धर्मेन्द्रप्रताप धीरेन्द्रप्रताप पुत्रगण रमेशचन्द्रसिंह नि० रामपुर बृजेशप्रताप अजयकुमार संजयकुमार पुत्रगण सतीशचन्द्रसिंह नि० रामपुर जयराजी पत्नी रामकेदार हरीराम सियाराम दयाराम रमेश पुत्रगण रामलाल नि० कोथराखुर्द सुधनादेवी पत्नी रघुनाथ नि० गडमा कोइरीपुर हरीशंकर पुत्र रामकेदार नि० कोथराखुर्द दुर्गावती देवी पत्नी रामकृपाल पाण्डेय नि० कोथराखुर्द
		236	निजी	कृषि	0.4674		जयराजी देवी पत्नी रामकेदार नि० कोथराखुर्द जितेन्द्रप्रताप सुरेन्द्रप्रताप वीरेन्द्रप्रताप भूपेन्द्रप्रताप धर्मेन्द्रप्रताप धीरेन्द्रप्रताप पुत्रगण रमेशचन्द्रसिंह नि० रामपुर बृजेशप्रताप अजयकुमार संजयकुमार पुत्रगण सतीशचन्द्रसिंह नि० रामपुर जयराजी पत्नी रामकेदार हरीराम सियाराम दयाराम रमेश पुत्रगण रामलाल नि० कोथराखुर्द सुधनादेवी पत्नी रघुनाथ नि० गडमा कोइरीपुर हरीशंकर पुत्र रामकेदार नि० कोथराखुर्द दुर्गावती देवी पत्नी रामकृपाल पाण्डेय नि० कोथराखुर्द
		310	निजी	कृषि	0.0043		तीर्थराज, उदयरज, धर्मराज पुत्रगण रामलाल नि० रामपुर
		311	निजी	कृषि	0.1737		श्रीमती सुधना देवी पत्नी रघुनाथ नि० गडमाकोइरीपुर विभूतिसिंह वैभवसिंह नाबा० आयु 12 वर्ष पुत्रगण विनोदकुमारसिंह संरक्षक माता हेमलता स्वयं हेमलता पत्नी विनोदकुमारसिंह जयराजी देवी पत्नी रामकेदार नि० कोथराखुर्द राजीवकुमार सिंह संजीवकुमार सिंह पुत्रगण बृजेशचन्द्र सिंह कलावती देवी पत्नी बृजेशचन्द्र नि० रामपुर जीतेन्द्र प्रताप वीरेन्द्र प्रताप भूपेन्द्र प्रताप धीरेन्द्र प्रताप पुत्रगण रमेशचन्द्र सिंह वृजेश प्रताप अजय कुमार संजय कुमार पुत्रगण सतीशचन्द्र सिंह पंकजकुमार नीरजकुमार पुत्रगण सुरेन्द्रप्रताप सिंह विद्यादेवी पत्नी सुरेन्द्रप्रताप सिंह दीपक कुमार सुधीर कुमार पुत्रगण वीरेन्द्रप्रताप सिंह शान्ती देवी पत्नी वीरेन्द्रप्रताप सिंह नि० रामपुर
		316	निजी	कृषि	0.0004		जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रमेश चन्द्र सिंह नि० रामपुर

			317	निजी	कृषि	0.0171	धिरेंद्र प्रताप सिंह पुत्रगण रमेशचन्द्र सिंह नि० रामपुर
			<b>योग</b>			<b>5.4756</b>	
		(27) रामपुर	949	निजी	कृषि	0.0580	रामलौट रामदौर पुत्रगण गजाधर नि० ग्राम
			950	सरकारी	बंजर	0.0151	उत्तर प्रदेश सरकार
			952	सरकारी	चकमार्ग	0.0550	उत्तर प्रदेश सरकार
			953	निजी	कृषि	0.0160	लहुरी पुत्र लूदुर नि० आनापुरनरायनगंज
			954	निजी	कृषि	0.0130	बहादुर पुत्र लूदुर नि० आनापुरनरायनगंज
			955	निजी	कृषि	0.0150	जेदू पुत्र लूदुर नि० ग्राम
			956	निजी	कृषि	0.3454	रामराज रामलाल सन्तराम सूखेलाल पुत्रगण रामअनन्द नि० ग्राम व विनोदकुमार प्रमोद मनोज पुत्रगण राजेश व श्यामपत्नी पत्नी राजेश नि० ग्राम व दयाशंकर, रमाशंकर कृपाशंकर रवीशंकर हरिशंकर पुत्रगण रामलखन व कलावती देवी पत्नी रामलखन नि० ग्राम
			957	निजी	कृषि	0.0189	जोखू राजेन्द्रप्रसाद पुत्रगण लहुरी व लहुरी पुत्र अलगू नि० आनापुर नरायनगंज व भागीरथी लालमणि पुत्रगण जेदू व गंगादेवी पत्नी जेदू नि०ग्राम
			959	निजी	कृषि	0.0395	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी अभयराज नि० पतीपुर
			1042	निजी	कृषि	0.1613	मुरली रामलखन पुत्रगण मुसई नि० ग्राम व रामकुमार रघुनाथ पुत्रगण द्वारिका नि० ग्राम व रामराज पुत्र कल्पू नि० ग्राम
			1043	निजी	कृषि	0.3342	मुरली रामलखन पुत्रगण मुसई नि० ग्राम व रामकुमार रघुनाथ पुत्रगण द्वारिका नि० ग्राम व रामराज पुत्र कल्पू नि० ग्राम
			<b>योग</b>			<b>1.0714</b>	
		(28) गड़मा कोइरीपुर	12	निजी	कृषि	0.0063	राम सुभग, भगवत पुत्रगण रामबली नि० कोथराखुर्द
			13	सरकारी	चकमार्ग	0.0056	उत्तर प्रदेश सरकार
			14	निजी	कृषि	0.1147	रामराज, रामलखन, रामअभिलाख पुत्रगण रामकेवल व प्रेमा देवी पत्नी रामकेवल नि० ग्राम
			15	निजी	कृषि	0.1766	रघुनाथ पुत्र द्वारिका नि० ग्राम
			16	निजी	कृषि	0.0960	रामअछेबर, महेन्द्र प्रकाश, ओम प्रकाश पुत्रगण रामपियारे नि० ग्राम व जय प्रकाश, श्रीप्रकाश पुत्रगण प्रेमशंकर व कमलावती पत्नी स्व० प्रेमशंकर नि० ग्राम
			17	निजी	कृषि	0.2624	तीरेन्द्र प्रताप सिंह, धर्मेन्द्र प्र०, भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्रगण रमेश चन्द्र सिंह नि० रामपुर
			28	सरकारी	चकमार्ग	0.0423	उत्तर प्रदेश सरकार
			27	निजी	कृषि	0.2878	राजेन्द्र प्रसाद, शारदा प्रसाद पुत्रगण रामसमुझ व श्रीपति उमा शंकर पत्नी राम समुझ नि० ग्राम
			26	निजी	कृषि	0.2118	श्रीमती बिमला पत्नी देवी प्रसाद नि० ग्राम
			25	निजी	कृषि	0.1795	लक्ष्मीशंकर, राधेश्याम, गयादीन, सीताराम, गयाप्रसाद पुत्रगण रामबचन व सिरताजी देवी पत्नी स्व०रामबचन नि० ग्राम
			24	निजी	कृषि	0.0092	रामकेदार पुत्र पुटुन नि० रामपुर
			22	निजी	कृषि	0.0137	भगवान दीन पुत्र गिरधारी नि० ग्राम
			20	निजी	कृषि	0.0147	संतराम, रामदयाल पुत्रगण रामफेर व बुधना देवी पत्नी रामफेर नि० ग्राम
			36	निजी	कृषि	0.0603	रामकुमार पुत्र मेडई नि० ग्राम
			37	निजी	कृषि	0.0570	बद्री प्रसाद, श्रीपाल, लालता प्रसाद पुत्रगण जंगली नि० ग्राम व रामकेदार पुत्र पुटुन नि० रामपुर व खनखुन, विस्सू, पुत्रगण बचई व भागीरथी पत्नी बचई नि० ग्राम
			38	निजी	कृषि	0.0230	हरेन्द्रप्रताप, जितेन्द्रप्रताप सिंह पुत्रगण रमेशचन्द्रसिंह नि० रामपुर व पंकजकुमारसिंह, नीरजकुमारसिंह पुत्रगण सुरेन्द्रप्रताप व श्रीमती विद्यासिंह पत्नी सुरेन्द्रप्रताप सिंह नि० रामपुर
			39	निजी	कृषि	0.0390	खुन खुन पुत्र बचई नि० ग्राम
			40	निजी	कृषि	0.0390	भागीरथी पुत्र बचई नि० ग्राम
			41	निजी	कृषि	0.1130	रामलाल पुत्र मेडई नि० ग्राम
			71	सरकारी	चकमार्ग	0.0240	उत्तर प्रदेश सरकार
			72	निजी	कृषि	0.0388	चिउटारी, चौथीराम पुत्र निहोर नि० ग्राम
			73	निजी	कृषि	0.0810	माताफेर, रामफेर, रामसूरत, राममूरत, रामसुख पुत्रगण बरसाती नि० ग्राम
			74	निजी	कृषि	0.4043	वेशराज पुत्र राजपति नि०ग्राम
			75	निजी	कृषि	0.0009	भगवत प्रसाद पुत्र राम बली नि० कोथरा खुर्द
			77	निजी	कृषि	0.1974	रामराज पुत्र अबलू नि०ग्राम
			80	निजी	कृषि	0.5752	सदाबृज, सरवर कुमार पुत्रगण जगदीशप्रसाद नि० ग्राम व रघुनाथ पुत्र द्वारिका नि० ग्राम
			82	निजी	कृषि	0.1081	रामजीवन पुत्र रामआसरे नि० ग्राम
			68	निजी	कृषि	0.0944	भगेलू राम पुत्र कैलाश नि० रामपुर व श्रीमती सोम्भारी

				66	निजी	कृषि	0.4180	पत्नी राम आसरे नि० रामपुर परमहंस उर्फ जगदीश प्रसाद आत्माराम पुत्रगण हौसिलाप्रसाद नि० ग्राम
				63	निजी	कृषि	0.0066	श्रवणकुमार बा० दुर्गाप्रसाद पुत्रगण रामअचल नि० ग्राम व जगन्नाथ पुत्र रतीपाल नि० ग्राम
				243	निजी	कृषि	0.1295	परमहंस उर्फ जगदीश प्रसाद आत्माराम पुत्रगण हौसिलाप्रसाद नि० ग्राम
				244	निजी	कृषि	0.2865	शुद्धराम, मोतीलाल पुत्रगण देशी नि० ग्राम
				245	निजी	कृषि	0.2264	कृपाली पुत्र बरसाती नि० ग्राम व खुन खुन पुत्र बचई नि० ग्राम व भगवानदीन पुत्र गिरधारी नि० ग्राम व रामकुमार पुत्र द्वारिका नि० ग्राम व रामकेदार पुत्र पुटुन नि० ग्राम व बिस्सू पुत्र बचई नि० ग्राम व हरिप्रसाद पुत्र जंगली नि० ग्राम व संतराम, रामदयाल पुत्रगण रामफेर व बुधना देवी पत्नी रामफेर नि० ग्राम
				246	निजी	कृषि	0.2971	बिहारी पुत्र मुनेश्वर नि० ग्राम
				247	सरकारी	चकमार्ग	0.1090	उत्तर प्रदेश सरकार
				248	निजी	कृषि	0.0204	धीरज कुमार नाबा० आयु 10 वर्ष पुत्र गोवर्धन प्रसाद व शैलकुमारी पुत्री गोवर्धनप्रसाद नि० ग्राम व जमुनाप्रसाद, त्रिवेणीप्रसाद, गंगाप्रसाद पुत्रगण परसराम नि० ग्राम व प्रदीपकुमार दत्तक पुत्र रामदत्त गणमाकोईरीपुर गोदनामा
				250	सरकारी	नाली	0.0164	उत्तर प्रदेश सरकार
				254	निजी	कृषि	0.0002	पारसनाथ पुत्र रुद्रपालमिश्रा नि० ग्राम
				255	निजी	कृषि	0.7152	रामअछेबर, महेन्द्र प्रकाश, ओम प्रकाश पुत्रगण रामपियारे नि० ग्राम व जय प्रकाश, श्रीप्रकाश पुत्रगण प्रेमशंकर व कमलावती पत्नी स्व०प्रेमशंकर नि० ग्राम
				256	निजी	कृषि	0.0837	मधुना देवी पत्नी राजपति नि० ग्राम
				257	निजी	कृषि	0.1104	पुटेने पुत्र झरिहग नि० ग्राम व फुरसाती पत्नी गंगू नि० ग्राम व सरजूप्रसाद, रामअवध, अहकू, सहदेव पुत्रगण लहरी नि० ग्राम
				258	सरकारी	चकमार्ग	0.0250	उत्तर प्रदेश सरकार
				259	निजी	कृषि	0.0658	केदार पुत्र टूडी नि०ग्राम
				260	निजी	कृषि	0.0485	पुटाने, सीताराम, नीमर पुत्रगण झरिहग नि०ग्राम
				261	निजी	कृषि	0.1774	जगन्नाथ, कामदनाथ पुत्रगण रामबली नि०ग्राम
				योग			6.0121	
		(29) कोथरा कलाँ		40	निजी	कृषि	0.1338	रामराज पुत्र तेजई नि० गढमा कोईरीपुर
				38	निजी	कृषि	0.0112	महादेव, सहदेव पुत्रगण रामचरन व रमाशंकर पुत्र मंगरू व सूरसती पत्नी रामचरन व सिधना पत्नी मंगरू नि० ग्राम
				37	निजी	कृषि	0.0052	भगवत प्रसाद पुत्र रामबली नि० कोथरा खुर्द
				36	निजी	कृषि	0.0280	रामसुभग पुत्र रामबली नि० ग्राम
				35	निजी	कृषि	0.2160	रामसुभग पुत्र रामबली नि० कोथरा खुर्द
				34	निजी	कृषि	0.3122	सादिक अली, सन्नेअली पुत्रगण अब्बास अली नि० ग्राम
				33	निजी	कृषि	0.1567	जब्बारअली, शुभराती, शरीफ पुत्रगण आशिक व मुन्ना उर्फ अब्दुल अजीज पुत्र गफफार नि० ग्राम
				32	निजी	कृषि	0.0444	रामप्रताप, विनय प्रताप पुत्रगण उमादत्त नि० ग्राम
				42	सरकारी	चकमार्ग	0.0173	उत्तर प्रदेश सरकार
				78	निजी	कृषि	0.0926	महबूब पुत्र अजीमुल्ला नि० गडमा कोईरीपुर
				77	निजी	कृषि	0.2837	महबूब पुत्र अजीमुल्ला नि० गडमा कोईरीपुर
				76	सरकारी	चकमार्ग	0.0263	उत्तर प्रदेश सरकार
				58	निजी	कृषि	0.0778	देवेन्द्रकुमारसिंह, रवीन्द्रप्रताप पुत्रगण उदयपालसिंह व दिनेशकुमारसिंह पुत्र रुद्रपालसिंह व कमलेशकुमारसिंह पुत्र विनोदकुमारसिंह व शारदादेवी पत्नी स्व०रुद्रपालसिंह व बृजेशबहादुरसिंह पुत्र कृष्णपालसिंह व विजयपालसिंह, अमरपालसिंह पुत्रगण जयसिंहनरायनसिंह व शैलेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र बोधपाल नि० ग्राम
				59	निजी	कृषि	0.2332	रामअधार पुत्र सतई व रामशरन, रामकिशुन, दूधनाथ पुत्रगण रामदयाल व मुन्नीदेवी पत्नी रामदयाल नि० ग्राम
				72	निजी	कृषि	0.0003	जगराम, हनुमान प्रसाद, जीतलाल पुत्रगण नन्हकूराम व वृजलाल, शोभनाथ पुत्रगण रामकरन नि० ग्राम
				71	निजी	कृषि	0.0297	जगराम, हनुमान प्रसाद, जीतलाल पुत्रगण नन्हकूराम व वृजलाल, शोभनाथ पुत्रगण रामकरन नि० ग्राम
				70	निजी	कृषि	0.2353	जगराम, हनुमान प्रसाद, जीतलाल पुत्रगण नन्हकूराम व वृजलाल, शोभनाथ पुत्रगण रामकरन नि० ग्राम
				69	निजी	कृषि	0.0336	नन्हकू पुत्र रामनाथ नि० कोथराकलाँ
				68	निजी	कृषि	0.1221	राजाराम पुत्र भगवानदीन नि० ग्राम
				67	निजी	कृषि	0.1076	रमेश कुमार पुत्र रामकरन नि० ग्राम
				66	निजी	कृषि	0.0664	जगराम, हनुमान प्रसाद, जीतलाल पुत्रगण नन्हकूराम व

							वृजलाल, शोभनाथ पुत्रगण रामकरन नि० ग्राम
			65	सरकारी	चकमार्ग	0.0036	उत्तर प्रदेश सरकार
			64	निजी	कृषि	0.0020	शम्भूनाथ पुत्र मिटाई नि० ग्राम
			84	सरकारी	चकमार्ग	0.0189	उत्तर प्रदेश सरकार
			93	निजी	कृषि	0.2193	रामलखन पुत्र रामदयाल व श्रीमती रफातुलनिशा पत्नी नूरअली व नूरअली पुत्र मखदूम व रामनाथ, जगन्नाथ पुत्रगण रामदेव व दयाशंकर पुत्र खुनखुन व कौशिल्यादेवी पत्नी खुनखुन व रामसमुझ पुत्र रामदेव व शेषमणि, मिथिलेशकुमार पुत्रगण चन्द्रपालसिंह व उर्मिलादेवी पत्नी श्रीपति नि० ग्राम
			95	निजी	कृषि	0.0687	लक्ष्मणसिंह पुत्र सुरेन्द्रप्रताप व चन्द्रभानसिंह, विजयभानसिंह, अनेशकुमार सिंह पुत्रगण जगदीशप्रताप सिंह व शान्तीदेवी पत्नी जगदीशप्रतापसिंह व वभिलसिंह पुत्र उदयभान सिंह व श्रीलालजीसिंहशिक्षणसंस्थान पुत्र कोथरा प्रबंधक संतोषकुमार नि० ग्राम
			96	निजी	कृषि	0.0025	रामचन्द्र पुत्र रामअंजोर नि०ग्राम
			203	सरकारी	चकमार्ग	0.0353	उत्तर प्रदेश सरकार
			114	निजी	कृषि	0.0939	नन्हकू पुत्र रामनाथ नि० कोथराकलौ
			115	निजी	कृषि	0.0165	रामकृपाल पुत्र रामराज व सुभाष नाबा० 13 वर्ष पुत्र भगेलू संरक्षक चन्द्रावती माता स्वयं व चन्द्रावती पत्नी भगेलू नि० ग्राम
			118	निजी	कृषि	0.3504	योगेन्द्रप्रताप, धीरेन्द्रप्रताप, राघवेन्द्रप्रताप, जितेन्द्रप्रताप पुत्रगण विश्वनाथ नि० ग्राम
			120	निजी	कृषि	0.1378	राममनोरथ पुत्र बचई नि०ग्राम
			130	निजी	कृषि	0.7545	नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र बजरंग बहादुर सिंह नि० कोथराकलौ
			127	निजी	कृषि	0.1212	अवधेशप्रताप पुत्र रामप्रताप सिंह व चन्द्रभानसिंह, विजयभानसिंह, अनेशकुमार सिंह पुत्रगण जगदीशप्रतापसिंह व शान्तीदेवी पत्नी जगदीशप्रतापसिंह व वभिलसिंह पुत्र उदयभान सिंह व लक्ष्मण सिंह पुत्र सुरेन्द्र प्रताप नि० ग्राम
			128	निजी	कृषि	0.0638	राजेन्द्र बहादुर, नरेन्द्रबहादुर पुत्रगण बजरंग बहादुर नि० ग्राम
			129	सरकारी	नवीन परती	0.0593	उत्तर प्रदेश सरकार
			125	निजी	कृषि	0.0111	टीडी पुत्र लालू नि० कोथराकलौ
			126	निजी	कृषि	0.0736	शिवकुमार पुत्र टीडी शाहू नि० ग्राम
			133	निजी	कृषि	0.1580	रामलाल पुत्र गिरधारी नि० ग्राम
			132	निजी	कृषि	0.0924	राजेन्द्र बहादुर, नरेन्द्रबहादुर पुत्रगण बजरंग बहादुर नि० ग्राम
			136	सरकारी	चकमार्ग	0.0183	उत्तर प्रदेश सरकार
			158	निजी	कृषि	0.5459	रामअजोर पुत्र पुल्ली नि० ग्राम
			159	निजी	कृषि	0.1278	अमरदेव नाबा० 14 साल पुत्र विदेशी संरक्षक बसन्ती देवी माता व श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी विदेशी नि० ग्राम
			160	निजी	कृषि	0.0193	रामकेदार पुत्र भुलई व जानकी पत्नी भोला नि० ग्राम
			211	सरकारी	चकमार्ग	0.0379	उत्तर प्रदेश सरकार
			213	निजी	कृषि	0.0238	गोकुल प्रसाद पुत्र दातादीन नि० ग्राम
			214	निजी	कृषि	0.5112	दिनेशकुमार सिंह पुत्र रुद्रपालसिंह व कमलेशकुमारसिंह पुत्र विनोदकुमारसिंह व शारदादेवी पत्नी स्व० रुद्रपालसिंह नि० ग्राम
			216	सरकारी	रास्ता	0.0185	उत्तर प्रदेश सरकार
			217	निजी	कृषि	0.0067	म०चोहरादेवी पत्नी स्व० रामभहोर व नन्दलाल पुत्र रामनिहोर व फूलादेवी पत्नी रामनिहोर नि०ग्राम
			<b>योग</b>			<b>5.8253</b>	
		(30) मानापुर	28	निजी	कृषि	0.0001	रामकिशुन, रामलाल पुत्रगण भोरई व संजय पुत्र रामनिहोर व शीनादेवी पत्नी स्व० रामनिहोर नि० ग्राम
			35	निजी	कृषि	0.0022	श्रीमती कुमारी देवी पत्नी राजाराम नि० कोथराकला
			37	निजी	कृषि	0.0314	रुद्रपालसिंह पुत्र नरसिंहनरायनसिंह नि० कोथरा कला
			38	निजी	कृषि	0.0103	लालतासिंह पत्नी हनुमत सिंह नि० ग्राम व सत्यनरायन सिंह पुत्र माता प्रसाद सिंह नि० ग्राम व प्रेमसिंह, रामयज्ञ सिंह, रामउजागिर सिंह पुत्रगण भगवत नि० ग्राम व कपाशंकर, सुभद्रा पुत्रगण बुधई नि० ग्राम व उमाशंकर, रमाशंकर पुत्रगण अम्बिकाप्रसाद नि० ग्राम व सुभाष ना०17 वर्ष, विकाश ना०10वर्ष पुत्रगण दयाशंकर स०बसन्तादेवी नि० ग्राम व बसन्तादेवी पत्नी दयाशंकर नि० ग्राम व अशोककुमार, अनिलकुमार पुत्रगण राजबहादुर नि० ग्राम व सुभद्रासिंह पुत्र भगेलू नि० ग्राम व बजरंगबहादुर, विक्रमबहादुर पुत्रगण विजयबहादुर नि० ग्राम व महेन्द्रकुमार, अरविन्दकुमार,

							रबीन्द्रकुमार पुत्रगण फतेहबहादुर नि० ग्राम व श्रीमती रुकमीना पत्नी झगरुसिंह नि०ग्राम व रामबहादुर, श्यामबहादुर पुत्रगण रामकेवल नि० ग्राम व रामकिशुन पुत्र सूर्यपाल नि० ग्राम व जमुनाप्रसाद पुत्र महावीर नि० ग्राम व भरतराज, रामस्वारथ, रामआरत, रामतीर्थ पुत्रगण सन्तबक्शसिंह नि० ग्राम व इन्द्रबहादुर, जीतबहादुर, समरबहादुर पुत्रगण अवधविहारी नि० ग्राम व श्रीमती उषादेवी पत्नी जीतबहादुर नि० ग्राम व परमीला पत्नी समरबहादुर नि० ग्राम व राजकुमार, नवीनकुमार ना० आयु क्रमशः 15 व 11 वर्ष पुत्रगण सुकन्दर प्रसाद व वदामादेवी पत्नी सुकन्दर प्रसाद नि० ग्राम
			39	निजी	कृषि	0.0315	लालतासिंह पत्नी हनुमत सिंह नि० ग्राम व सत्यनरायन सिंह पुत्र माता प्रसाद सिंह नि० ग्राम व प्रेमसिंह, रामयज्ञ सिंह, रामउजागिर सिंह पुत्रगण भगवत नि० ग्राम व कपाशंकर, सुभद्रा पुत्रगण बुधई नि० ग्राम व उमाशंकर, रमाशंकर पुत्रगण अम्बिकाप्रसाद नि० ग्राम व सुभाष ना०17 वर्ष, विकाश ना०10वर्ष पुत्रगण दयाशंकर स०बसन्तादेवी नि० ग्राम व बसन्तादेवी पत्नी दयाशंकर नि० ग्राम व अशोककुमार, अनिलकुमार पुत्रगण राजबहादुर नि० ग्राम व सुभद्रासिंह पुत्र भगेलू नि० ग्राम व बजरंगबहादुर, विक्रमबहादुर पुत्रगण विजयबहादुर नि० ग्राम व महेन्द्रकुमार, अरविन्दकुमार, रबीन्द्रकुमार पुत्रगण फतेहबहादुर नि० ग्राम व श्रीमती रुकमीना पत्नी झगरुसिंह नि०ग्राम व रामबहादुर, श्यामबहादुर पुत्रगण रामकेवल नि० ग्राम व रामकिशुन पुत्र सूर्यपाल नि० ग्राम व जमुनाप्रसाद पुत्र महावीर नि० ग्राम व भरतराज, रामस्वारथ, रामआरत, रामतीर्थ पुत्रगण सन्तबक्शसिंह नि० ग्राम व इन्द्रबहादुर, जीतबहादुर, समरबहादुर पुत्रगण अवधविहारी नि० ग्राम व श्रीमती उषादेवी पत्नी जीतबहादुर नि० ग्राम व परमीला पत्नी समरबहादुर नि० ग्राम व राजकुमार, नवीनकुमार ना० आयु क्रमशः 15 व 11 वर्ष पुत्रगण सुकन्दर प्रसाद व वदामादेवी पत्नी सुकन्दर प्रसाद नि० ग्राम
			40	निजी	कृषि	0.2495	श्रीमती सुशीला पत्नी स्व० धर्मू नि० कोथरा कलां
			42	निजी	कृषि	0.1160	झगडूराम अशोककुमार मोतीलाल हरीलाल पुत्रगण चुलबुल नि० ग्राम
			44	निजी	कृषि	0.1020	नूरअली पुत्र मखदूम नि०कोथराकलां
			45 अ	निजी	कृषि	0.2202	मुन्नुलाल, जीतलाल, राजेन्द्र, मखनलाल पुत्रगण काशीप्रसाद व केवलापती पत्नी स्व० काशीप्रसाद नि०कोथराकलां
			45 ब	निजी	कृषि		मुन्नुलाल, जीतलाल, राजेन्द्र, मखनलाल पुत्रगण काशीप्रसाद व केवलापती पत्नी स्व० काशीप्रसाद नि०कोथराकलां
			47	सरकारी	तालाब	0.0196	उत्तर प्रदेश शासन
			48	निजी	कृषि	0.0157	रामहित, रामलोट पुत्रगण सरजू नि०ग्राम
			49	निजी	कृषि	0.2484	राजकुमारी पति रामदास व शिवप्रसाद पुत्र गिल्लू नि० ग्राम
			51 अ	निजी	कृषि	0.0158	रामकरण पुत्र रामशरण नि०ग्राम
			51 ब	निजी	कृषि		रामकरण पुत्र रामशरण नि०ग्राम
			52	सरकारी	गैर कृषि	0.0435	रामकरण पुत्र रामशरण नि०ग्राम
			53	सरकारी	तालाब	0.0226	उत्तर प्रदेश शासन
			72	निजी	कृषि	0.1982	रामकिशुन, रामलाल पुत्रगण भोरई व संजय पुत्र रामनिहोर व शीनादेवी पत्नी स्व० रामनिहोर नि० ग्राम
			73	निजी	कृषि	0.0470	राम किशुन पुत्र भोरई नि० ग्राम
			85	निजी	कृषि	0.2396	भोल्लन अच्छेलाल पुत्रगण रामअचर्य नि० ग्राम
			84	निजी	कृषि	0.0824	रम्मू सन्तू पुत्रगण मोहन नि० ग्राम व गिरधारी लाल पुत्र दत्तू नि० ग्राम व सुमिरन पत्नी बचई नि० ग्राम
			83	निजी	कृषि	0.4158	अवधराज पुत्र द्वारिका नि० ग्राम
			82	निजी	कृषि	0.0186	अवधराज पुत्र द्वारिका नि० ग्राम व राममूर्ति पुत्र धर्मराज नि० ग्राम व श्रीपति साधूराम माधवराम राधेश्याम पुत्रगण विशुनराज व गंगादेई पत्नी विशुनराज नि० ग्राम व रामचरण पुत्र किशुनराज नि० ग्राम व रामपाल बा०, श्यामपाल, सत्यपाल ना०बा० उम्र 16 व 14 वर्ष पुत्रगण अखण्ड प्रताप सं०माता शीला व श्रीमती शीला पत्नी स्व० अखण्डप्रताप नि० ग्राम
			117	निजी	कृषि	0.0009	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बट्टीलाल नि० प्रतापपुर कमैचा
			115	निजी	कृषि	0.0113	श्रीमती पियारी देवी पत्नी रामचरण नि० ग्राम
			114	निजी	कृषि	0.0159	रामपाल बा०, श्यामपाल, सत्यपाल ना०बा० उम्र 16 व 14 वर्ष पुत्रगण अखण्ड प्रताप सं०माता शीला व श्रीमती शीला पत्नी स्व० अखण्डप्रताप नि० ग्राम व

							श्रीपति साधूराम माधवराम राधेश्याम पुत्रगण विशुनराज व गंगादेई पत्नी विशुनराज नि० ग्राम व अवधराज पुत्र द्वारिका नि० ग्राम व रामचरन पुत्र किशुनराज नि० ग्राम व रामकुमार पुत्र केदार नि० ग्राम व राममूर्ति पुत्र धर्मराज नि० ग्राम
			113	निजी	कृषि	0.0199	श्याम नरायण पुत्र बद्रीलाल नि० प्रतापपुर कमैचा
			112	निजी	कृषि	0.0185	श्रीमती पियारी देवी पत्नी रामचरन नि० ग्राम मानापुर
			111	निजी	कृषि	0.2192	ओमप्रकाश, लाल बहादुर पुत्रगण दूधनाथ नि० ग्राम
			109 अ	निजी	कृषि	0.2322	रामबहादूर, बाबूराम पुत्रगण रामदुलार नि०ग्राम
			109 ब	निजी	कृषि		रामबहादूर, बाबूराम पुत्रगण रामदुलार नि०ग्राम
			108	निजी	कृषि	0.1828	पप्पू, रामप्रवेश, सूर्यमान पुत्रगण रामसनेही व श्रीमती शान्ती पत्नी स्व० रामसनेही नि० ग्राम व कलावती पत्नी रामसहाय नि० ग्राम व पारसनाथ पुत्र रामआसरे व सिंगारी पत्नी रामआसरे व चन्द्रमान अवयस्क आयु 14 वर्ष पुत्र रामआसरे संरक्षक सिंगारी माता स्वयं नि० ग्राम
			127	निजी	कृषि	0.3052	जगराम, विश्राम, देवकरण पुत्रगण गयादीन व प्रदीप, रमाशंकर पुत्रगण जयराम व मु० बच्ची पत्नी स्व० गयादीन नि०प्रतापपुर कमैचा
			126	निजी	कृषि	0.2448	राकेशकुमार पुत्र राजाराम नि० ग्राम
			121	निजी	कृषि	0.0138	रामचरन पुत्र रामकिशुन उर्फ कृष्ण राय नि० ग्राम
			130	निजी	कृषि	0.0187	रामसरजू पुत्र शिवबरन नि०प्रतापपुर कमैचा
			131	निजी	कृषि	0.0399	वंशी धर पुत्र राम आसरे नि० प्रताप पुर कमैचा
			132	निजी	कृषि	0.0820	रामसुख, रमाशंकर पुत्रगण रामसेवक नि० प्रतापपुर कमैचा व सुरेश यादव पुत्र अद्याशंकर नि० मानापुर
			133	निजी	कृषि	0.4429	तिलकधारी पुत्र राम आधार नि० प्रताप कमैचा
			134	निजी	कृषि	0.5353	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र राम शिरोमणि नि० प्रतापपुर कमैचा
			140	निजी	कृषि	0.0848	बलराम, परसुराम, दयाराम पुत्रगण रामअजौर नि० ग्राम
			<b>योग</b>			<b>4.5985</b>	
		(31) प्रताप पुर कमैचा	145	सरकारी	गैर कृषि	0.0130	उत्तर प्रदेश सरकार
			146	निजी	कृषि	0.0345	राजकुमारी पत्नी तिलकधारी नि० ग्राम
			157	निजी	कृषि	0.4243	राजेंद्रप्रसाद पुत्र रामशिरोमणि नि० ग्राम
			158	निजी	कृषि	0.0214	अभयनरायण पुत्र भगौतीदीन नि० ग्राम
			374	सरकारी	चकमार्ग	0.0014	उत्तर प्रदेश सरकार
			375	निजी	कृषि	0.4642	रामजतन पुत्र रामदेव नि० ग्राम
			376	सरकारी	बंजर	0.0353	उत्तर प्रदेश सरकार
			377	सरकारी	चकमार्ग	0.0158	उत्तर प्रदेश शासन
			378	सरकारी	बंजर	0.0361	उत्तर प्रदेश सरकार
			379	निजी	कृषि	0.1811	चमेली देवी पत्नी अभयनरायण नि० ग्राम
			364	सरकारी	नाली	0.0011	उत्तर प्रदेश सरकार
			362	सरकारी	नाली	0.0240	उत्तर प्रदेश सरकार
			361	निजी	कृषि	0.3445	रामतीर्थ जयमूर्ति पुत्र सूर्यप्रसाद नि० ग्राम
			358	सरकारी	चकमार्ग	0.0173	उत्तर प्रदेश सरकार
			349	निजी	कृषि	0.2909	शिवप्रसाद रामशिरोमणि पुत्रगण रघुनाथ व रामफेर पुत्र मंहगू व शिवमूर्ति पुत्र रघुनाथ नि० ग्राम
			348	निजी	कृषि	0.3262	राकेश कुमार राजेश कुमार पुत्रगण शम्भूनाथ व केवला पत्नी शम्भूनाथ नि० ग्राम
			347	निजी	कृषि	0.2123	रामतीर्थ जयमूर्ति पुत्र सूर्यप्रसाद नि० ग्राम
			344	निजी	कृषि	0.0811	समाजीत इन्द्रजीत पुत्रगण भगवानलला नि० ग्राम
			343	निजी	कृषि	0.0266	राकेशकुमार कृष्णदेव पुत्रगण मानदत्त नि० ग्राम
			340	सरकारी	चकमार्ग	0.0204	उत्तर प्रदेश सरकार
			328	निजी	कृषि	0.1098	दिनेश बृजेश हरिकेश रवीन्द्र पुत्रगण लक्ष्मीकान्त नि० ग्राम
			327	निजी	कृषि	0.3609	विजयकुमार पुत्र शम्भूनाथ व सुभाष कुमार ना० 14 वर्ष पुत्र शम्भूनाथ सं० मुन्नी देवी माता व सुशीला पत्नी लल्लन नि० ग्राम व अजय कुमार संजय कुमार अरविन्द कुमार चन्दन कुमार पुत्रगण लालजी व श्रीमती मंगला पत्नी स्व० लालजी नि० ग्राम
			326	निजी	कृषि	0.1150	सतीशकुमार व हरीश कुमार पुत्रगण छोटेलाल नि० ग्राम
			325	निजी	कृषि	0.3756	शिवप्रसाद रामशिरोमणि शिवमूर्ति पुत्रगण रघुनाथ नि० गढवल फौजाबाद व फूलमती देवी पत्नी रमाकान्त व शीलादेवी पत्नी कृष्णकान्त व श्रीमती नन्हका पत्नी स्व० भगवानलला मिश्र नि० ग्राम व सी०बी०एम० पब्लिक स्कूल चांदा विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा तह० लम्पुआ जिला सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक इन्द्रकेश मिश्र पुत्र अभयराज मिश्र नि० ईशीपुर व जटाशंकर करुणाशंकर पुत्रगण देवनरायण नि० ग्राम



			324	सरकारी	चकमार्ग	0.0157	उत्तर प्रदेश सरकार
			323	निजी	कृषि	0.0809	द्रौपदी पत्नी शीतलाप्रसाद नि० ग्राम
			319	निजी	कृषि	0.0020	शिवकुमार पुत्र राममूरत नि० ग्राम
			317	सरकारी	सडकें	0.0536	उत्तर प्रदेश सरकार
			493	सरकारी	नाली	0.0340	उत्तर प्रदेश सरकार
			316	निजी	कृषि	0.0316	शिवप्रसाद रामशिरोमणि शिवमूरति पुत्रगण रघुनाथ नि० गढवल फैजाबाद व नन्हका देवी पत्नी स्व० भगवानलाल मिश्र नि० ग्राम
			511	निजी	कृषि	0.1911	पन्नादेवी पत्नी भैरौ प्रसाद नि० ग्रामवासी
			510	निजी	कृषि	0.2838	भोलाप्रसाद पुत्र रामअर्चय व रमापति कृष्ण माधव पुत्रगण रामकीर्ति व क्षमापति ज्ञानपति राजपति पुत्रीगण भोलाप्रसाद नि० ग्राम
			509	निजी	कृषि	0.3379	अरविन्द गोविंद केशव पुत्रगण रामकृष्ण नि० ग्राम
			508	सरकारी	चकमार्ग	0.0232	उत्तर प्रदेश शासन
			507	निजी	कृषि	0.2634	चंद्रशेखर पुत्र रामखेलावन नि० ग्राम
			506	निजी	कृषि	0.1163	शान्ती प्रकाश रामप्रकाश सूर्यप्रकाश पुत्रगण भवानी प्रसाद नि० ग्राम
			505	निजी	कृषि	0.0222	नरेंद्र कुमार देवेन्द्र कुमार राघवेन्द्र कुमार पुत्रगण दुर्गाप्रसाद व धीरेन्द्रकुमार ना० 11 वर्ष पुत्र दुर्गाप्रसाद सं० प्रभावती देवी नि० ग्राम
			500	सरकारी	चकमार्ग	0.0440	उत्तर प्रदेश शासन
			494	सरकारी	बंजर	0.0100	उत्तर प्रदेश शासन
			496	निजी	कृषि	0.1362	जियालाल व महेश राजेश पुत्रगण छंगू व राकेश व रमेश ना० उम्र 15 व 11 पुत्रगण छंगू संरक्षक जिलाधिकारी सुलतानपुर नि० ग्राम
			497	निजी	कृषि	0.3170	आद्याप्रसाद पुत्र रामवली नि० ग्राम
			498	निजी	कृषि	0.1714	रामतीर्थ जयमूरति पुत्र सूर्यप्रसाद नि० ग्राम
			755	निजी	कृषि	0.3070	अनारा पत्नी श्रीनाथ नि० ग्राम
			712	निजी	कृषि	0.2664	टोंइया पुत्र सूर्यवली व राजेंद्रप्रसाद पुत्र अनन्तू नि० ग्राम
			711	सरकारी	चकमार्ग	0.0226	उत्तर प्रदेश शासन
			710	सरकारी	चकमार्ग	0.0363	उत्तर प्रदेश शासन
			708	निजी	कृषि	0.2521	दानबहादुर साधू रामपियारे मनोज कुमार उर्फ मुन्शी पुत्रगण रामकिशोर नि० ग्राम
			707	निजी	कृषि	0.1869	राजकरन पुत्र मानदत्त नि० ग्राम
			706	निजी	कृषि	0.1257	कल्लू बकई राजनरायन पुत्र जल्ले नि० ग्राम
			705	निजी	कृषि	0.0573	श्रीमती कमला देवी पत्नी स्वामीनाथ दूबे नि० ग्राम
			763	सरकारी	चकमार्ग	0.0028	उत्तर प्रदेश शासन
			702	निजी	कृषि	0.0103	भगन्ता पुत्र जयकरन नि० ग्राम
			703	निजी	कृषि	0.1211	रामलाल पुत्र रूपधारी नि० ग्राम
			704	निजी	कृषि	0.1251	मुनिराज पुत्र रूपधारी नि० ग्राम
			699	सरकारी	चकमार्ग	0.0108	उत्तर प्रदेश शासन
			691	निजी	कृषि	0.0155	कमलेश अरुण संजीव राजीव पुत्रगण सुदामाप्रसाद व राममूरत पुत्र रामदेव व शेषनरायन सूर्यनरायन पुत्रगण रामसूरत व श्रीमती रघुनाथी पत्नी रामसूरत नि०ग्राम
			690 क.मि.	निजी	कृषि	0.4169	मन्सूर पुत्र इमामदीन व मो० मुस्तकीम मो० मुस्तफा इम्तियाज अहमद उर्फ इसराइल मुमताज अहमद पुत्रगण अब्दुल रशीद उर्फ बचई व किताबुलनिशां पत्नी अब्दुल रशीद उर्फ बचई व सिराज अहमद सरफराज अहमद पुत्रगण लियाकत अली व अमरुलनिशां पत्नी लियाकत अली व रियासत अनवर मुनवर पुत्रगण शमीउल्ला व मो० इद्रीस पुत्र इसमाइल नि० ग्राम
			690 घ	निजी	कृषि		रामपाल पुत्र सत्यदेव व हौसिला प्रसाद रमाशंकर पुत्रगण पारसनाथ व भगवानदेई पत्नी पारसनाथ व जयशंकर शिवशंकर दयाशंकर पुत्रगण पारसनाथ व इन्द्रपाल सूर्यपाल अमरपाल पुत्रगण रामलखन व अरविन्द कुमार पुत्र यशपाल व गोविन्द कुमार ना०बा० उम्र 16 पुत्र यशपाल सं० माता सुशीला व शुभम् ना०बा० उम्र 10 वर्ष पुत्र यशपाल सं० माता सुशीला व सुशीला पत्नी यशपाल व बजरंगवली राजदेव पुत्रगण सालिगराम व दशरथ पुत्र रामनरेश व जमुनाप्रसाद रघुनाथ पुत्रगण महादेव व श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व० महादेव व जगदीश प्रसाद उमेश कुमार पुत्रगण महादेव व रामकिशोर पुत्र रामअचार्य व चन्द्रशेखर राजमनि पुत्रगण रामखेलावन व दूधनाथ राजकरन पुत्रगण मानदत्त व राममूरत गंगाप्रसाद पुत्रगण राममनोरथ व शान्तिप्रकाश रामप्रकाश सूर्यप्रकाश पुत्रगण भवानीप्रसाद व कृष्णलाल प्रेमनरायन रामनरायन जगनरायन विनोदकुमार पुत्रगण लक्ष्मीकान्त व कमलेश पुत्र लक्ष्मीकान्त व सुशीला देवी पत्नी लक्ष्मीकान्त व रामचन्द्र साधू सरन पुत्रगण रामप्रताप

							व अरुण कुमार अजय कुमार व अखिलेश पुत्रगण दिलीप कुमार व श्रीमती सन्तरा पत्नी स्व० दिलीप कुमार नि० ग्राम
			690 ख	निजी	कृषि		हीरालाल अच्छेलाल पुत्रगण कलहू व सिराजअहमद सरफराज अहमद पुत्रगण लियाकतअली व अमरुलनिशां पत्नी लियाकत अली व मो० मुस्तकीम मो० मुस्तफा इम्तियाज अहमद उर्फ इसराइल मुमताज अहमद पुत्रगण अब्दुल रशीद उर्फ बचई व किताबुलनिशां पत्नी अब्दुल रशीद उर्फ बचई व रियासत अनवर मुनवर पुत्रगण समीउल्ला व मो० इद्रीश पुत्र मो० इसमाइल नि० ग्राम
			690 ग	निजी	कृषि		देवीप्रसाद शीतलाप्रसाद पुत्रगण जयलाल व छोटेला अछेलाल पुत्रगण रामअभिलाख व श्रीमती नन्हका पत्नी स्व० रामअभिलाख नि० ग्राम
			690 क	निजी	कृषि		मो० इद्रीश पुत्र इसमाइल व मो० मुस्तकीम मो० मुस्तफा इम्तियाज अहमद पुत्रगण अब्दुल रशीद उर्फ बचई व किताबुलनिशा पत्नी अब्दुल रशीद उर्फ बचई व रियासत अली अनवर अली मुनावर अली पुत्रगण समी उल्ला व सरफराज सिराज पुत्रगण लियाकत व अमरुलनिशा पत्नी लियाकत व मो० फरहान ना० 8 वर्ष पुत्र रियासत अली सं०अकबरी माता नि० ग्राम
			689 ख	निजी	कृषि	0.0172	स्वामीनाथ पुत्र सभापति व सोनावती पत्नी राममूरत व लालजी राधेश्याम राकेश कुमार पुत्रगण माताप्रसाद व हौसिला प्रसाद रमाशंकर जयशंकर शिवशंकर दयाशंकर पुत्रगण पारसनाथ व भगवानदेई पत्नी पारसनाथ व जमुनाप्रसाद रघुनाथ जगदीश प्रसाद उमेश कुमार पुत्रगण महादेव व सुमित्रा पत्नी महादेव व इन्द्रपाल सूर्यपाल अमरपाल पुत्रगण रामलखन व अरविन्द कुमार पुत्र यशपाल व गोविन्द कुमार ना०बा० उम्र 16 पुत्र यशपाल सं० माता सुशीला व शुभम ना०बा० उम्र 10 वर्ष पुत्र यशपाल सं० माता सुशीला व सुशीला पत्नी यशपाल व रामचन्द्र साधू सरन पुत्रगण रामप्रताप व रामकिशोर पुत्र रामअचर्य व राजदेव वजरंगी पुत्रगण सालिकराम व दशरथ पुत्र रामनरेश व रामपाल पुत्र सत्यदेव चंद्रशेखर राजमणि पुत्रगण रामखेलावन व दूधनाथ राजकरन पुत्रगण मानदत्त नि० ग्राम व गंगाप्रसाद पुत्र रामनोरथ नि० खतीबपुर व उदयराज अभयराज मनोराज धर्मराज देवराज श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि० ईशीपुर व शान्तिप्रकाश रामप्रकाश सूर्यप्रकाश पुत्रगण भवानीप्रसाद व प्रेमनरायन रामनरायन जयनरायन विनोद कमलेश पुत्रगण लक्ष्मीप्रसाद व सुशीला पत्नी लक्ष्मीप्रसाद व अनिल कुमार अशोक कुमार अनूप कुमार अखिलेश कुमार पुत्रगण अवधेश कुमार व श्रीमती वितानी पत्नी स्व० अवधेश कुमार व आनन्द कुमार प्रमिल कुमार पुत्रगण बृजेन्द्र कुमार व अरुण कुमार अजय कुमार अखिलेश पुत्रगण दिलीप कुमार व श्रीमती सन्तरा पत्नी स्व० दिलीप कुमार नि० ग्राम
			689 क	निजी	कृषि		कृष्णलाल प्रेमनरायन रामनरायन जयनरायन विनोद कुमार कमलेशकुमार पुत्रगण लक्ष्मीप्रसाद व सुशीला पत्नी लक्ष्मीप्रसाद व राजेश कुमार रवीन्द्र कुमार अरविन्द कुमार पुत्रगण विद्याधर व नरेन्द्र कुमार देवेन्द्र कुमार राघवेन्द्र कुमार पुत्रगण दुर्गाप्रसाद व सोनावती पत्नी राममूरत व लालजी राधेश्याम राकेश कुमार पुत्रगण माताप्रसाद व हौसिला प्रसाद रमाशंकर पुत्रगण पारसनाथ व भगवानदेई पत्नी पारसनाथ व जयशंकर शिवशंकर दयाशंकर पुत्रगण पारसनाथ व जमुनाप्रसाद रघुनाथ पुत्रगण महादेव व सुमित्रा पत्नी महादेव व जगदीश प्रसाद उमेश कुमार पुत्रगण महादेव व इन्द्रपाल सूर्यपाल अमरपाल पुत्रगण रामलखन व रामकिशुन पुत्र त्रिवेनी व राजेन्द्रप्रसाद सुरेन्द्र पुत्रगण शोभनाथ व राजदेव बजरंगी पुत्रगण सालिकराम व दशरथ पुत्र रामनरेश व अरविन्द कुमार पुत्र यशपाल व गोविन्द कुमार ना०बा० उम्र 16 वर्ष पुत्र यशपाल सं० माता सुशीला व शुभम ना०बा० उम्र 10 वर्ष पुत्र यशपाल सं० सुशीला व सुशीला पत्नी यशपाल व रामपाल पुत्र सत्यदेव व दूधनाथ पुत्र मानदत्त व चन्द्रशेखर राजमनि पुत्रगण रामखेलावन व रामकिशोर पुत्र रामअचर्य नि० ग्राम व
							गंगाप्रसाद पुत्र रामनोरथ नि० खतीबपुर व उदयराज अभयराज मनोराज धर्मराज देवराज श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि० ईशीपुर व राजकरन पुत्र मानदत्त व

							शान्तिप्रकाश रामप्रकाश सूर्यप्रकाश पुत्रगण भवानीप्रसाद व स्वामीनाथ पुत्र सभापति व रामचन्द्र साधू सरन पुत्रगण रामप्रताप व अरुण कुमार अजय कुमार अखिलेश पुत्रगण दिलीप कुमार व श्रीमती सन्तरा पत्नी स्व० दिलीप कुमार नि० ग्राम
			675	निजी	कृषि	0.3483	हरिकान्त शशीकान्त पुत्रगण राजेन्द्रप्रताप व कृष्णादेवी पत्नी राजेन्द्रप्रताप व स्वामीनाथ दूबे पुत्र सभापति दूबे व चिरन्जीलाल बरनवाल पुत्र गोकुलप्रसाद बरनवाल व स्वामीनाथ पुत्र सभापति व श्रीमती कमला देवी पत्नी स्वामीनाथ नि० ग्राम व श्रीमती देवकी पत्नी रामसूरत नि० ईशीपुर व सन्तोष कुमार पुत्र सूर्यलाल नि० ग्राम
			676	निजी	कृषि	0.1058	छोटेलाल पुत्र मशोधर व श्रीमती मैनादेवी पत्नी छोटेलाल नि० ग्राम
			677	निजी	कृषि	0.1990	पवनकुमार पुत्र श्रीनाथ व अनारा पत्नी श्रीनाथ व सुमित कुमार नावा० आयु 10 वर्ष श्यामकुमार नावा० आयु 8 वर्ष सत्यम् कुमार नावा० आयु 6 वर्ष पुत्रगण नरेन्द्र कुमार सं० सुषमा माता व सुषमा पत्नी नरेन्द्र कुमार नि० ग्राम
			678	निजी	कृषि	0.2711	सरोज देवी पत्नी बद्रीनाथ व अरविन्द कुमार पुत्र लालमणि पाठक नि० ग्राम गौरा पर० चांदा
			1111	सरकारी	सड़कें	0.1475	सड़क पक्की, उत्तर प्रदेश सरकार
			1116	निजी	कृषि	0.0523	अभयराज उदयराज देवराज धर्मराज मनोराज श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि० ईशीपुर
			1117	निजी	कृषि	0.1070	उदयराज अभयराज मनोराज पुत्र चंद्रभान नि० ईशीपुर व इन्द्रमणि पुत्र रामअवध नि० ग्राम व धरमराज देवराज श्यामराज पुत्र चन्द्रभान नि० ईशीपुर व रामबहादुर पुत्र रामदुलान नि० ग्राम ईशीपुर
			1118	निजी	कृषि	0.0100	उदयराज अभयराज मनोराज पुत्र चंद्रभान नि० ईशीपुर व इन्द्रमणि पुत्र रामअवध नि० ग्राम व धरमराज देवराज श्यामराज पुत्र चन्द्रभान नि० ईशीपुर व रामबहादुर पुत्र रामदुलान नि० ग्राम ईशीपुर
			1119	सरकारी	गौर कृषि	0.1416	उत्तर प्रदेश शासन
			1120	निजी	कृषि	0.0730	कमलादेवी पत्नी सूरजलाल नि० ग्राम
			1121	निजी	कृषि	0.0257	रामदुलार पुत्र बचई नि० ग्राम
			1123	निजी	कृषि	0.0161	माताफेर पुत्र रमई नि० ग्राम
			योग			9.1383	
		(32) ईसीपुर	100	निजी	कृषि	0.5017	श्रीमती इन्द्रावती पत्नी मनोकानिका पुत्री रतीपाल नि० ग्राम कटसारी व श्रीमती हीरावती पत्नी दीनानाथ पुत्री रतीपाल व श्रीमती पुष्पा पत्नी जगन्नाथ पुत्री रतीपाल नि० ग्राम पोखरदहा तह० कादीपुर जिला सुलतानपुर
			108	निजी	कृषि	0.0040	देवनारायण रामनारायण जयनारायण सत्यम् पुत्रगण दुखी व श्रीमती लखपती पत्नी स्व० दुखी नि०प्रतापपुर कमैचा
			109	निजी	कृषि	0.0040	मगन पुत्र भगोतीदीन नि०प्रतापपुर कमैचा
			110	निजी	कृषि	0.0159	माताफेर पुत्र रसई नि० प्रतापपुर कमैचा
			111	सरकारी	नवीन परती	0.0152	उत्तर प्रदेश शासन
			112 मि.	निजी	कृषि	0.0630	राधेश्याम पुत्र बाबूलाल नि० ग्राम
			113	निजी	कृषि	0.1430	कल्पुराम सालिकराम मालिकराम पुत्रगण रामदीन नि० प्रतापपुर
			114	निजी	कृषि	0.0334	बजरंग बली राजदेव पुत्रगण सालिकराम नि० प्रतापपुर कमैचा
			115	निजी	कृषि	0.0396	बजरंग बली राजदेव पुत्रगण सालिकराम नि० प्रतापपुर कमैचा
			116	निजी	कृषि	0.0408	मुहम्मद मुनीर पुत्र हकीमुदीन नि० प्रतापपुर कमैचा
			117	निजी	कृषि	0.0442	अभयराज पुत्र वोडई नि० प्रतापपुर
			118	निजी	कृषि	0.0675	अभयराज पुत्र वोडई नि० प्रतापपुर
			119	निजी	कृषि	0.2709	सदाशिव पुत्र नकछेद नि० ग्राम
			120	निजी	कृषि	0.0157	पुष्पांजली पत्नी अशोक कुमार नि० प्रतापपुर कमैचा
			121	निजी	कृषि	0.1180	हौसिलाप्रसाद पुत्र रामकुमार नि० ग्राम
			122	निजी	कृषि	0.0421	गुरुप्रसाद हृदयराम दयाराम बाबूराम पुत्रगण पारसनाथ नि० ग्राम
			123	निजी	कृषि	0.1044	गुरुप्रसाद हृदयराम दयाराम बाबूराम पुत्रगण पारसनाथ नि० ग्राम
			194	सरकारी	चकमार्ग	0.0171	उत्तर प्रदेश शासन
			189	निजी	कृषि	0.2027	गुरुप्रसाद हृदयराम दयाराम बाबूराम पुत्रगण पारसनाथ व राजकरन पुत्र रामपलट नि० ग्राम
			188	निजी	कृषि	0.3010	गुरुप्रसाद हृदयराम दयाराम बाबूराम पुत्रगण पारसनाथ नि० ग्राम
			187	सरकारी	चकमार्ग	0.0144	उत्तर प्रदेश शासन
			185	निजी	कृषि	0.2655	गुरुप्रसाद हृदयराम दयाराम बाबूराम पुत्रगण पारसनाथ नि० ग्राम

			184	निजी	कृषि	0.5114	सोनादेवी पत्नी गुरुप्रसाद नि० ग्राम
			183	निजी	कृषि	0.1347	गुरुप्रसाद हृदयराम दयाराम बाबूराम पुत्रगण पारसनाथ नि० ग्राम
			182	निजी	कृषि	0.1420	गुरुप्रसाद हृदयराम दयाराम बाबूराम पुत्रगण पारसनाथ नि० ग्राम
			181	सरकारी	चकमार्ग	0.0292	उत्तर प्रदेश शासन
			180	निजी	कृषि	0.0121	रामलखन उर्फ मुल्लन पुत्र गुदरी नि० प्रतापपुरकमैचा
			179	सरकारी	चकमार्ग	0.0166	उत्तर प्रदेश शासन
			178	निजी	कृषि	0.1634	श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी शारदाप्रसाद नि०ग्राम
			173 मि.	निजी	कृषि	0.0698	कृपाशंकर पुत्र रामसुख नि० ग्राम
			173 मि.	सरकारी	तालाब		उत्तर प्रदेश शासन
			173 ग	निजी	कृषि		हौसिलाप्रसाद पुत्र रामकुमार व गायत्री पत्नी गंगाप्रसाद नि० ग्राम
			173 ख	निजी	कृषि		गौरीशंकर पुत्र माताबदल व शीला पत्नी स्व० अविनाश चन्द्र व कपिलदेव पुत्र अमरनाथ व शान्ति देवी पत्नी अमरनाथ व अखिलेश ज्ञानचन्द्र पुत्रगण पृथ्वीपाल व जनार्दन पुत्र सुमिरन व महन्धराज पुत्र भरतराज व गुरुप्रसाद हृदयराम दयाराम बाबूराम पुत्रगण पारसनाथ नि०ग्राम
			169	निजी	कृषि	0.1809	संतोष कुमार बृजेश कुमार पुत्रगण शारदा प्रसाद नि० ग्राम
			168	निजी	कृषि	0.1454	रामआसरे रामअभिलाख रामकृपाल पारसनाथ पुत्रगण चन्द्रशेखर नि० ग्राम
			165	निजी	कृषि	0.1225	मुद्दू पुत्र शील नि० प्रतापपुर कमैचा
			337	सरकारी	चकमार्ग	0.0218	उत्तर प्रदेश शासन
			341	निजी	कृषि	0.1032	विद्याधर पुत्र रामप्रसाद नि० ग्राम
			342	निजी	कृषि	0.1868	रामआसरे रामअभिलाख रामकृपाल पारसनाथ पुत्रगण चन्द्रशेखर नि० ग्राम
			343	निजी	कृषि	0.1691	बद्रीप्रसाद जयप्रकाश हरिप्रकाश विजय प्रकाश पुत्रगण रामसुन्दर व सुशील कुमार वरुण कुमार पुत्रगण ओमप्रकाश नि० ग्राम
			344	निजी	कृषि	0.2577	अभयराज उदयराम देवराज धर्मराज मनोराज श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि०ग्राम
			348	सरकारी	चकमार्ग	0.0170	उत्तर प्रदेश शासन
			358	निजी	कृषि	0.2205	अशोक कुमार पुत्र हीराराम व मनोज कुमार व रमेश कुमार पुत्रगण राजेन्द्रप्रसाद नि० पूनी भीम पट्टी
			359	निजी	कृषि	0.2172	अभयराज उदयराम देवराज धर्मराज मनोराज श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि०ग्राम
			361	निजी	कृषि	0.0016	अभयराज उदयराम देवराज धर्मराज मनोराज श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि०ग्राम
			362	निजी	कृषि	0.0110	अभयराज उदयराम देवराज धर्मराज मनोराज श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि०ग्राम
			363	निजी	कृषि	0.0138	शफीक अहमद उर्फ राजेश कुमार पुत्र अहमदी नि० ग्राम प्रतापपुर कमैचा
			364	निजी	कृषि	0.0226	मीराबेगम पत्नी असगरी व असलम पुत्र असगरी नि० प्रतापपुर कमैचा व अखिलेश कुमार सिंह पुत्र रामसूरत सिंह नि० रामनगर
			350	सरकारी	नाली	0.0250	उत्तर प्रदेश सरकार
			योग			5.1192	
		(33) पूनीभीम पट्टी	437	सरकारी	नाली	0.0188	उत्तर प्रदेश शासन
			388	निजी	कृषि	0.1738	उदयराम, अभयराज, मनोराज, धर्मराज, देवराज, श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि० ईशीपुर
			389	निजी	कृषि	0.0081	उदयराम, अभयराज, मनोराज, धर्मराज, देवराज, श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि० ईशीपुर
			390	निजी	कृषि	0.0892	वाहिद अली पुत्र चिथरू नि० प्रतापपुर कमैचा
			391	निजी	कृषि	0.0971	उदयराम, अभयराज, मनोराज, धर्मराज, देवराज, श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि० ईशीपुर
			392	निजी	कृषि	0.0692	शफीक अहमद उर्फ राजेश कुमार पुत्र अहमदी नि० प्रतापपुरकमैचा
			393	सरकारी	चकमार्ग	0.0150	उत्तर प्रदेश शासन
			395	निजी	कृषि	0.0262	उदयराम, अभयराज, मनोराज, धर्मराज, देवराज, श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि० ईशीपुर
			396	निजी	कृषि	0.0274	उदयराम, अभयराज, मनोराज, धर्मराज, देवराज, श्यामराज पुत्रगण चन्द्रभान नि० ईशीपुर
			397	निजी	कृषि	0.2217	शमाबानो पत्नी लालजी नि० प्रतापपुर कमैचा
			398	निजी	कृषि	0.0104	शमाबानो पत्नी लालजी नि० प्रतापपुर कमैचा
			399	निजी	कृषि	0.1341	शमाबानो पत्नी लालजी नि० प्रतापपुर कमैचा
			400	निजी	कृषि	0.1839	भरथू पुत्र शिवजोर नि० ग्राम

			402	सरकारी	वन	0.0022	उत्तर प्रदेश शासन
			436	सरकारी	चकमार्ग	0.0479	उत्तर प्रदेश शासन
			448	निजी	कृषि	0.0019	मीराबेगम पुत्री असगरीबेगम व हफीज अहमद पुत्र अलीबहादुर नि0 प्रतापपुर कमैचा पर. चांदा व सुषमा पुत्री शिवनारायण तिवारी नि0 गौरा
			448/522	निजी	कृषि	0.0207	हफीज अहमद उर्फ नाटे पुत्र अलीबहादुर नि0 प्र0कर्मचा व अशफाक, अशाहाब पुत्रगण विट्टन नि0 प्र. कमैचा
			453	निजी	कृषि	0.0256	कपिलमुनि पुत्र गोविन्द नि0 ग्राम
			454	निजी	कृषि	0.1175	त्रिभुवन पुत्र गोविन्द नि0 ग्राम
			455	निजी	कृषि	0.1465	लालमुनि पुत्र गोविन्द नि0 ग्राम
			456	निजी	कृषि	0.1596	वशिष्ठमुनि पुत्र गोविन्द नि0 ग्राम
			457	निजी	कृषि	0.2172	शेषमणि पुत्र गोविन्द नि0 ग्राम
			460	सरकारी	चकमार्ग	0.0130	उत्तर प्रदेश शासन
			461	निजी	कृषि	0.0285	जयपकाश उपाध्याय पुत्र मुरलीधर उपाध्याय नि0 पूनीभीमपट्टी
			462	निजी	कृषि	0.7165	मुरली पुत्र कालू नि0 ग्राम
			467	निजी	कृषि	0.0651	उर्मिला देवी पत्नी अखिलेश व प्रभा देवी पत्नी सुमाष चन्द्र व हरिकेश कुमार पुत्र रामअचल नि0 ग्राम
			468	सरकारी	आबादी	0.0222	उत्तर प्रदेश शासन
			469	सरकारी	वन	0.0130	अन्य झाड़ियों के वन, उत्तर प्रदेश शासन
			470	निजी	कृषि	0.6292	शेषमणि, संजयकुमार पुत्रगण बलदेव नि0 ग्राम
			471	निजी	कृषि	0.0510	रामअचर्य पुत्र सम्पत्ति नि0 ग्राम
			472	सरकारी	गौर कृषि	0.0401	लकड़ी के वन, उत्तर प्रदेश शासन
			473	निजी	कृषि	0.0009	रामभोर पुत्र रामनरेश नि0 ग्राम व रामअचर्य पुत्र सम्पत्ति नि0 ग्राम
			482	सरकारी	चकमार्ग	0.0179	उत्तर प्रदेश शासन
			492	निजी	कृषि	0.6224	छोटेलाल पुत्र रामअवध नि0 ग्राम
			योग			4.0335	
		(34) ढाकापुर	4	निजी	कृषि	0.0070	सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायण नि0ग्राम
			5	निजी	कृषि	0.0056	सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायण नि0ग्राम
			9 अ	निजी	कृषि	0.1090	हरिओमसिंह पुत्र सूर्यनारायणसिंह व श्रीमती सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह नि0ग्राम
			9 ब	निजी	कृषि		हरिओमसिंह पुत्र सूर्यनारायणसिंह व श्रीमती सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह नि0ग्राम
			10 अ	निजी	कृषि	0.1008	हरिओमसिंह पुत्र सूर्यनारायणसिंह व श्रीमती सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह नि0ग्राम
			10 ब	निजी	कृषि		हरिओमसिंह पुत्र सूर्यनारायणसिंह व श्रीमती सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह नि0ग्राम
			11	निजी	कृषि	0.0420	हरिओमसिंह पुत्र सूर्यनारायणसिंह व श्रीमती सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह नि0ग्राम
			12 अ	निजी	कृषि	0.0145	लालता प्रसाद, दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, उमेश कुमार पुत्रगण रामभोर व श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 रामभोर नि0 पूनीभीम पट्टी
			12 ब	निजी	कृषि		लालता प्रसाद, दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, उमेश कुमार पुत्रगण रामभोर व श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 रामभोर नि0 पूनीभीम पट्टी
			13	सरकारी	चकरोड	0.0360	उत्तर प्रदेश शासन
			14	निजी	कृषि	0.1810	रामलक्ष्मिनसिंह, हवलदारसिंह, तलुकदारसिंह पुत्रगण केशवसिंह नि0 ग्राम व विजयकुमार, अजयकुमार, विकासकुमार पुत्रगण सुबेदारसिंह व प्रभादेवी पत्नी सुबेदारसिंह नि0 ग्राम व रामउजागिर, सुरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्रगण श्रीरामसिंह नि0ग्राम
			16 अ	निजी	कृषि	0.1619	योगेन्द्रकुमार पुत्र शिवमूर्ति प्रसाद नि0 कोईरीपुर व जगन्नाथ पुत्र रामदुलार नि0 कोईरीपुर व श्रीमती केवलादेवी पत्नी रामदेव अग्रहरि नि0 ग्राम कोईरीपुर
			16 ब	निजी	कृषि		योगेन्द्रकुमार पुत्र शिवमूर्ति प्रसाद नि0 कोईरीपुर व जगन्नाथ पुत्र रामदुलार नि0 कोईरीपुर व श्रीमती केवलादेवी पत्नी रामदेव अग्रहरि नि0 ग्राम कोईरीपुर
			17	निजी	कृषि	0.0620	जगदीशप्रसाद, जोगेन्द्रप्रसाद पुत्रगण लक्ष्मीप्रसाद व श्रीमती मुन्नन देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मीप्रसाद नि0 ग्राम व राजीवकुमार सुनीलकुमार पुत्रगण रामचरन नि0 पूनीभीमपट्टी व मनोज कुमार पुत्र राम अवध व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 राम अवध नि0 पूनीभीमपट्टी
			18 अ	निजी	कृषि	0.1039	रामदेव, राजदेव पुत्र रामलखन नि0 पूनीभीमपट्टी
			18 ब	निजी	कृषि		रामदेव, राजदेव पुत्र रामलखन नि0 पूनीभीमपट्टी
			23	निजी	कृषि	0.0206	मातासरन, दुखीराम पुत्रगण सीताराम नि0 पूनीभीमपट्टी
			24	निजी	कृषि	0.0172	श्रीमती सोना देवी पत्नी शुद्धराम नि0 पूनीभीमपट्टी
			25	निजी	कृषि	0.0220	श्रीमती सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह व हरिओमसिंह पुत्र सूर्यनारायणसिंह नि0 ग्राम व सोनादेवी पत्नी

							सुदूराम चमार नि० पूनीभीमपटटी
			26	निजी	कृषि	0.1320	सरफराज हलीम ओ पुत्र अली बहादुर नि० प्रतापपुर कमेचा व हरिओम सिंह पुत्र सूर्यनारायण सिंह व श्रीमती सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायण सिंह नि० ग्राम
			27	निजी	कृषि	0.1168	शेषमणि, संजय कुमार पुत्रगण बलदेव नि० पूनीभीमपटटी
			28	निजी	कृषि	0.1012	रामअर्चय पुत्र सम्पत्ति नि० पूनीभीमपटटी
			29	निजी	कृषि	0.1000	अखिलेश कुमार, सुभाषचन्द्र, हरिकेश कुमार पुत्रगण रामअचल नि० ग्राम
			30	निजी	कृषि	0.0481	अनन्तबहादुरसिंह, विजयबहादुरसिंह, उदयराजसिंह पुत्रगण रामफेरसिंह नि० ग्राम
			51	निजी	कृषि	0.0697	श्रीमती मीरासिंह पत्नी हरिओमसिंह व अशीषकुमारसिंह नाबा० 17 वर्ष शक्तिसिंह नाबा० 12 वर्ष पुत्रगण मैनबहादुर संरक्षक लालजीसिंह चाचा नि० ग्राम व रामलक्ष्मण, सुबेदार, हवलदार, तालुकदार पुत्रगण केशवसिंह नि० ग्राम व प्रभावती पत्नी रामसुन्दर नि० ग्राम व लालजीसिंह पुत्र कंदारसिंह नि० ग्राम व सुभद्रा पत्नी शेरबहादुर नि० ग्राम व दानबहादुर, ओमप्रकाश पुत्रगण रामदुलारसिंह नि० ग्राम व रामबदनसिंह, रामकरणसिंह, रामवरणसिंह पुत्रगण बजरंगीसिंह नि० ग्राम व सत्यनारायण, राजमुरत, पंचबहादुर पुत्रगण लहुरीसिंह नि० ग्राम व हरिओमसिंह पुत्र सूर्यनारायणसिंह व श्रीमती सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह नि० ग्राम व विशालसिंह नाबा० 10 वर्ष पुत्र ओमप्रकाशसिंह संरक्षक रामदुलारसिंह नि०ग्राम व शेरबहादुर, दानबहादुर पुत्रगण स्व० रामदुलार व श्रीमती बन्शराजी पत्नी स्व० रामदुलारसिंह व विशाल नाबा० 9 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश संरक्षिका श्रीमती बन्शराजी दादी नि० ग्राम रामउजागिर, सुरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्रगण श्रीरामसिंह नि०ग्राम
			52	निजी	कृषि	0.0005	सीताराम पुत्र जुडावन नि० ग्राम
			65	निजी	कृषि	0.0053	अनन्तबहादुर, विजयबहादुर, उदयराज पुत्रगण रामफेर सिंह नि०ग्राम
			67	निजी	कृषि	0.0126	अनन्तबहादुरसिंह, विजयबहादुर उदयराजसिंह पुत्रगण रामफेरसिंह नि० ग्राम व श्रीमती राजेश्रवरीदेवी पत्नी अमरनाथ पाण्डेय नि०गानापुर परगना अलदेमऊ तह०कादीपुर वर्तमान निवासी पुनीभीमपटटी परगना चान्दा
			68 अ	निजी	कृषि	0.0190	अनन्तबहादुर विजयबहादुर उदयराज पुत्रगण रामफेरसिंह नि०ग्राम व किशोरीलाल पुत्र मानिक नि० राजेपुर व मेवालाल पुत्र माली नि०राजेपुर
			68 ब	निजी	कृषि		अनन्तबहादुर, विजयबहादुर, उदयराज पुत्रगण रामफेर सिंह नि०ग्राम व अरविन्द्रप्रसाद पुत्र भवानीप्रसाद नि०बरनी व श्रीमती रजनादेवी पत्नी रामतीर्थ नि०बरनी व कमलेशचन्द्र पुत्र मुरलीधर नि०शेखपुरा व श्रीमती सुशमा देवी पत्नी रमेशकुमार नि०प्रतापपुर कमेचा व जवाहरलाल पुत्र प्रीतमदास नि०राजेपुर व गीतादेवी पत्नी मकखनलाल नि० पुनीभीमपटटी व शोभावती पत्नी मिश्रीलाल नि० राजेपुर व सीतादेवी पत्नी रामयश नि०ढाखापुर व संगीतादेवी पत्नी राजेन्द्रकुमारमिश्र नि०ईसीपुर व श्रीमती अर्चनादुबे पत्नी कुजदेवदुबे नि०पठानीपुर
			59 अ	निजी	कृषि	0.0053	हरिओमसिंह पुत्र सूर्यनारायणसिंह व श्रीमती सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह नि०ग्राम
			59 ब	निजी	कृषि		हरिओमसिंह पुत्र सूर्यनारायणसिंह व श्रीमती सरजूदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह नि०ग्राम
			57 अ	निजी	कृषि	0.0882	रामलक्ष्मणसिंह, हवलदारसिंह, तालुकदारसिंह पुत्रगण केशवसिंह नि० ग्राम व प्रभावती देवी पत्नी रामसुन्दर नि० ग्राम व विजयकुमार, अजयकुमार, विकासकुमार पुत्रगण सुबेदारसिंह व प्रभादेवी पत्नी सुबेदारसिंह नि० ग्राम व रामउजागिर, सुरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्रगण श्रीरामसिंह नि०ग्राम
			57 ब	निजी	कृषि		रामलक्ष्मणसिंह, हवलदारसिंह, तालुकदारसिंह पुत्रगण केशवसिंह नि० ग्राम व प्रभावती देवी पत्नी रामसुन्दर नि० ग्राम व विजयकुमार, अजयकुमार, विकासकुमार पुत्रगण सुबेदारसिंह व प्रभादेवी पत्नी सुबेदारसिंह नि० ग्राम व रामउजागिर, सुरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्रगण श्रीरामसिंह नि०ग्राम
			56	निजी	कृषि	0.0821	रामबदनसिंह, रामकरणसिंह, रामवरनसिंह पुत्रगण बजरंगीसिंह नि०ग्राम
			55	सरकारी	चकरोड	0.0066	उत्तर प्रदेश शासन
			54	निजी	कृषि	0.0818	अभिलाख, बलीगुरुदीन, पुदई पुत्रगण अहिबरन नि०

								ग्राम
			योग				<b>1.7527</b>	
	(35) दौदापुर	37	निजी	कृषि			0.0727	बद्रीप्रसाद, तुलसीराम, रामसूरत पुत्रगण लल्लू नि० ग्राम व मिटठू पुत्र हरखनी नि० ग्राम
		38	निजी	कृषि			0.0094	अहकू पुत्र महगू नि० ग्राम व सोमई पुत्र बचई नि० ग्राम व रंगई पुत्र बहादुर नि० ग्राम व देवराजी पत्नी बीपति नि० ढाखापुर
		39	निजी	कृषि			0.0694	गंगादीन पुत्र रामखेलावन नि० दौदापुर व छटठू पुत्र लोदी नि० पकडीखुर्द व रामजी पुत्र रामकुबेर नि० सेमरीखुर्द व अहकू पुत्र रामधन व सोमरी पत्नी बंशी नि० ग्राम
		40	निजी	कृषि			0.0596	रामराज पुत्र जगोसर नि० ग्राम व केदारनाथ पुत्र रामनारायण नि० ढाखापुर व रंगई पुत्र बहादुर चमार नि० ग्राम
		41	निजी	कृषि			0.0549	रामराज पुत्र जगोसर नि० ग्राम व केदारनाथ पुत्र रामनारायण नि० ढाखापुर
		42	निजी	कृषि			0.0463	रामराज पुत्र जगोसर नि० ग्राम व इन्द्रजीत, रंगबहादुर पुत्रगण जयनाथ व सुदामादेवी पत्नी स्व० जयनाथ नि० ग्राम व रामसुन्दर पुत्र मुनेश्वर नि० ग्राम व गौरीशंकर, शिवशंकर पुत्र गंगादीन नि० ग्राम
		43	सरकारी	नवीन परती			0.0060	उत्तर प्रदेश सरकार
		44	निजी	कृषि			0.0793	बद्रीप्रसाद, तुलसीराम, रामसूरत पुत्रगण लल्लू नि० ग्राम
		45	सरकारी	चकमार्ग			0.0079	उत्तर प्रदेश शासन
		47	निजी	कृषि			0.1151	विजयबहादुर सिंह पुत्र रामफेरसिंह नि० ढाखापुर व कैलाश नाथ पुत्र रामअधार नि० ढाखापुर
		48	निजी	कृषि			0.1739	श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी गणेश प्रसाद नि० ग्राम व साधू, हरीलाल, छोटेलाल पुत्रगण जगदेव नि० ग्राम
		49	निजी	कृषि			0.1183	गौरीशंकर, शिवशंकर पुत्रगण गंगादीन नि०ग्राम
		50	निजी	कृषि			0.1070	इन्द्रजीत, रंगबहादुर पुत्रगण जयनाथ व सुदामादेवी पत्नी जयनाथ नि०ग्राम
		51	सरकारी	आबादी			0.0130	उत्तर प्रदेश शासन
		52	निजी	कृषि			0.6824	रामराज पुत्र जगोसर नि० ग्राम
		54	निजी	कृषि			0.0302	रंगई पुत्र बहादुर नि० ग्राम
		55	निजी	कृषि			0.0310	बद्रीप्रसाद, तुलसीराम, रामसूरत पुत्रगण लल्लू नि० ग्राम
		56	निजी	कृषि			0.0223	मिटठू पुत्र हरखनी नि० ग्राम
		57	निजी	कृषि			0.0166	बलई, सोमई पुत्रगण खेलावन नि० ग्राम
		58	सरकारी	चकमार्ग			0.0009	उत्तर प्रदेश शासन
		59	निजी	कृषि			0.0113	गंगादीन पुत्र रामखेलावन नि० ग्राम व छटठू पुत्र लोदी नि० पकडीखुर्द व रामजी पुत्र रामकुबेर नि० सेमरीखुर्द
		66	निजी	कृषि			0.1773	महावीर पुत्र रामखेलावन व श्रीमती द्रोपदी पत्नी रामखेलावन नि०ग्राम
		78	निजी	कृषि			0.1686	विजयबहादुर, उदयरजसिंह, अनन्तबहादुरसिंह पुत्रगण रामफेरसिंह व रामफेरसिंह शिक्षा समिती ढाखापुर तमरसेपुर महारानी पश्चिम सुल्तानपुर
		79	सरकारी	गैर कृषि			0.0244	तालाब, उत्तर प्रदेश शासन
		80	सरकारी	गैर कृषि			0.0305	जंगली झाड़ी, उत्तर प्रदेश शासन
		81	सरकारी	गैर कृषि			0.0160	खाद गड्डे, उत्तर प्रदेश शासन
		82	सरकारी	बंजर			0.0164	उत्तर प्रदेश शासन
		92	निजी	कृषि			0.0660	साधू पुत्र जगदेव नि० ग्राम
		93	निजी	कृषि			0.0009	रामनाथ पुत्र रमेसर नि० ग्राम
		96	सरकारी	चकमार्ग			0.0069	उत्तर प्रदेश शासन
		97	निजी	कृषि			0.0663	रामअनन्द, रामजीत नाबा० पुत्रगण सालिकराम नि० ग्राम व रामदौर पुत्र मुनेसर नि० ग्राम
		98	निजी	कृषि			0.0630	रामकलावल पुत्र रामखेलावन नि० ग्राम
		99	निजी	कृषि			0.0223	राजबहादुर, राजपति, दानबहादुर पुत्रगण लक्ष्मिन नि० ग्राम
		111	सरकारी	आबादी			0.0221	उत्तर प्रदेश शासन
		112	सरकारी	बंजर			0.0170	उत्तर प्रदेश शासन
		117	निजी	कृषि			0.0009	रामकुमार, रामनाथ पुत्रगण रमेसर नि० ग्राम
		योग					<b>2.4259</b>	
	(36) बैती खुर्द	317	निजी	कृषि			0.3458	कमला प्रसाद पुत्र रामचरित्र नि० ग्राम
		318	निजी	कृषि			0.1966	तीर्थराज पुत्र सरजू नि० ग्राम
		312	सरकारी	रास्ता			0.0150	उत्तर प्रदेश सरकार
		311	निजी	कृषि			0.1451	सीताराम, राजाराम, राधेश्याम पुत्रगण अंगनू नि० ग्राम व श्रीमती कृष्णादेवी पत्नी राधेश्याम बारी नि० बैतीखुर्द व सुषमादेवी पत्नी मोतीलाल बारी नि० बैतीखुर्द व संगीता देवी पत्नी संतोष कुमार बारी नि० बैतीखुर्द

				310	निजी	कृषि	0.1324	रामसागर पुत्र राजनारायण नि०ग्राम
				309	निजी	कृषि	0.1663	देवनारायण पुत्र पुल्लू नि० ग्राम
				308	सरकारी	चकमार्ग	0.0270	उत्तर प्रदेश सरकार
				307	निजी	कृषि	0.4291	कमलाप्रसाद पुत्र रामचरित्र नि० ग्राम
				322	निजी	कृषि	0.1210	छोटेला, बडेला, रमापति, रमाकान्त, रमाशंकर, सभापति पुत्रगण शेषनारायण नि० ग्राम व रामअधार पुत्र गंगादीन नि० ग्राम व देवनारायण पुत्र पुल्लू नि० ग्राम व रामसागर पुत्र राजनारायण नि० ग्राम व कमला प्रसाद पुत्र रामचरित्र नि० ग्राम व चन्द्रकान्त, कष्णकान्त, रविकान्त पुत्रगण प्रतापनारायण नि० ग्राम
				323	निजी	कृषि	0.0791	छोटेला, बडेला, रमापति, रमाकान्त, रमाशंकर, सभापति पुत्रगण शेषनारायण नि० ग्राम व रामअधार पुत्र गंगादीन नि० ग्राम व देवनारायण पुत्र पुल्लू नि० ग्राम व रामसागर पुत्र राजनारायण नि० ग्राम व कमला प्रसाद पुत्र रामचरित्र नि० ग्राम व चन्द्रकान्त, कष्णकान्त, रविकान्त पुत्रगण प्रतापनारायण नि० ग्राम
				324	सरकारी	गैर कृषि	0.3700	उत्तर प्रदेश सरकार (ज्ञानोदय लघु माध्यमिक विद्यालय सूर्यनगर बैती के तत्वाधान)
				325	निजी	कृषि	0.0621	प्रेमकुमार पुत्र बचई नि० विदुआ कलां व जोखुराम पुत्र रामअजोर पाठक व प्रदीप कुमार पाठक, प्रदेश कुमार पाठक पुत्रगण स्व० शशिभूषण पाठक नि० शफीपुर व रमापति, सभापति, छोटेला, रमाकांत, रमाशंकर, बडेला पुत्रगण शेषनारायण नि० ग्राम व छोटेला पुत्र रामराज नि० विदुआ कलां
				326	सरकारी	नाली	0.0128	उत्तर प्रदेश सरकार
				27	निजी	कृषि	0.1200	महावीर, जगदीश पुत्रगण दुधनाथ नि० सुल्तानपुर काका
				28	निजी	कृषि	0.0382	राजदेव पुत्र विदेशी नि० ग्राम व राजबहादुर, श्यामबहादुर, लालबहादुर नाबा० उम्र 14,12 वर्ष पुत्रगण टिहरी संरक्षक घिमनी नि० ग्राम
				29	सरकारी	चकमार्ग	0.0029	उत्तर प्रदेश शासन
				30	निजी	कृषि	0.0040	सोमन पुत्र पुदन नि० राजेपुर व हरिलाल, हीरालाल पुत्रगण सुखदेव नि०राजेपुर
				31	सरकारी	बंजर	0.0280	उत्तर प्रदेश शासन
				32	निजी	कृषि	0.0535	कमलाप्रसाद पुत्र रामचरित्र नि० ग्राम व टिहरी पुत्र मंहगू नि० ग्राम
				योग			2.3488	
		(37) बैती कलां		224	निजी	कृषि	0.1842	सच्चिदानन्द पुत्र कमलाप्रसाद नि० बैतीखुर्द व कृष्णकान्त पुत्र भगौतीप्रसाद व श्रीमती इन्दू पत्नी तीरथराज व रामऔतार त्रिपाठी पुत्र कमलाप्रसाद व गौरव कुमार नाबा० पुत्र राममूरत सं० बाबा सगा वासदेव व अमितकुमार नाबा० पुत्र रवीन्द्रकुमार सं० बाबा वासदेव नि० तमरसेपुर
				225	निजी	कृषि	0.1054	श्रीमती पथरादेवी पत्नी शिवमूर्ति व सन्तोष कुमार नाबा० पुत्र शान्तीदेवी पु०भिल्लर उर्फ पारसनाथ नि० बैतीखुर्द
				226	सरकारी	चकमार्ग	0.0057	उत्तर प्रदेश शासन
				227	निजी	कृषि	0.2220	सत्यनारायण पुत्र रामअभिलाख नि० बैती खुर्द
				228	निजी	कृषि	0.0570	सत्यनारायण पुत्र रामअभिलाख नि० बैती खुर्द
				230	निजी	कृषि	0.2014	रामकरन पुत्र रामसमुझ व संजय कुमार अजय कुमार पुत्रगण बलिकरन नि० ग्राम
				235	सरकारी	चकमार्ग	0.0091	उत्तर प्रदेश शासन
				236	निजी	कृषि	0.0720	उदयराज अवधेशकुमार पुत्र रामलौट नि० ग्राम बैतीखुर्द
				237	निजी	कृषि	0.2477	रामफेर रामलौट दूधनाथ पुत्र रामदयाल नि० तमरसेपुर
				238	निजी	कृषि	0.0696	रामफेर रामलौट दूधनाथ पुत्र रामदयाल नि० तमरसेपुर
				240	सरकारी	चकमार्ग	0.0032	उत्तर प्रदेश शासन
				241	निजी	कृषि	0.1665	गौहर अली लियाकत अली पुत्रगण मो० यूसुफ व सबरुन पत्नी मो० यूसुफ व मो० जमील पुत्र भुलई नि० ग्राम व एहसान अली पुत्र मलीहुदीन व मुख्तार अहमद पुत्रगण अब्दुल अजीज नि० सराय गोपालपुर
				246	निजी	कृषि	0.0400	किस्मत अली उर्फ कल्लूशाह व हियातअली उर्फ मल्लूशाह व मुहरमअली व शाकिरअली व इस्लामशाह पुत्रगण इब्राहिमशाह व इसरातुलनिशा पत्नी स्व० इब्राहिमशाह नि० ग्राम
				251	निजी	कृषि	0.0067	मो० जमील पुत्र भुलई व शोहराब अली शोहराज अली पुत्रगण मो० इद्रीश नि० ग्राम व गौहरअली व लियाकत अली पुत्रगण मो० यूसुफ व सबरुन पत्नी मो० यूसुफ नि० ग्राम
				258	निजी	कृषि	0.0630	रामकुबेर रामकुमार पुत्र खियाली नि० ग्राम
				259	निजी	कृषि	0.0054	रामकुबेर रामकुमार पुत्र खियाली नि० बाभनपुर



				261	निजी	कृषि	0.0061	मो0 जमील पुत्र भुलई व शोहराब अली शेहराज अली पुत्रगण मो0 इद्रीश नि0 ग्राम व गौहरअली व लियाकत अली पुत्रगण मो0 यूसुफ व सबरुन पत्नी मो0 यूसुफ नि0 ग्राम
				262	निजी	कृषि	0.0320	मुंशीरजा व अली रजा पुत्रगण बदलू व राबिया पत्नी बदलू व मुमताज व मुर्तजा पुत्रीयान बदलू नि0 ग्राम
				263	निजी	कृषि	0.0160	मुंशीरजा व अली रजा पुत्रगण बदलू व राबिया पत्नी बदलू व मुमताज व मुर्तजा पुत्रीयान बदलू नि0 ग्राम
				264	निजी	कृषि	0.0160	मुंशीरजा व अली रजा पुत्रगण बदलू व राबिया पत्नी बदलू व मुमताज व मुर्तजा पुत्रीयान बदलू नि0 ग्राम
				265	निजी	कृषि	0.1089	रामसेवक पुत्र रामअजोर व अनिल कुमार पुत्र रामकेवल व बसन्त कुमार व राकेश कुमार पुत्रगण रामकृपाल व शोभावती पत्नी रामकृपाल नि0 ग्राम तमरसेपुर व प्रीतीश कुमार विश्वास पुत्र स्व0 प्रफुल्ल कुमार नि0 ग्राम पूर्व शिमूलिया पो0 गंगसारा (मजरे ग्राम) व श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी राममूर्ति मोर्य नि0 ग्राम व श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी इन्द्रजीत यादव नि0 ग्राम बाभनपुर व राममूर्ति मोर्य पुत्र रामफेर मोर्य नि0 ग्राम बैतीकलां व श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी अरुण कुमार तिवारी नि0 ग्राम बवशा जिला जौनपुर हाल वारिद बैतीकलां
				272	सरकारी	चकमार्ग	0.0008	उत्तर प्रदेश शासन
				285	सरकारी	गैर कृषि	0.0037	सेक्टर रोड, उत्तर प्रदेश शासन
				290	निजी	कृषि	0.0391	रामकुबेर रामकुमार पुत्रगण रामखियाल नि0 ग्राम
				291	निजी	कृषि	0.0334	रामकरन पुत्र रामसमुझ व संजय कुमार अजय कुमार पुत्रगण बलिकरन नि0 ग्राम
				292	निजी	कृषि	0.0552	रामकरन पुत्र रामसमुझ व संजय कुमार अजय कुमार पुत्रगण बलिकरन नि0 ग्राम
				294	सरकारी	आबादी	0.0200	उत्तर प्रदेश शासन
				295	निजी	कृषि	0.0187	सूरज नाबा0 आयु 17 वर्ष पुत्र रामकेवल व शान्तादेवी माता व शान्तादेवी पत्नी रामकेवल नि0 बाभनपुर
				296	सरकारी	नाली	0.0012	उत्तर प्रदेश शासन
				297	निजी	कृषि	0.0192	कमलाप्रसाद पुत्र रामअवध नि0 बाभनपुर
				303	सरकारी	सडकें	0.0018	सेक्टर रोड, उत्तर प्रदेश शासन
				304	निजी	कृषि	0.0192	कमलाप्रसाद पुत्र रामअवध नि0 बाभनपुर
				305	निजी	कृषि	0.0099	सुभाष चंद्र हरिश्चंद्र पुत्र कमलाप्रसाद नि0 बाभनपुर
				306	निजी	कृषि	0.0031	सुभाष चंद्र हरिश्चंद्र पुत्र कमलाप्रसाद नि0 बाभनपुर
				462	सरकारी	रास्ता	0.0067	उत्तर प्रदेश शासन
				463	सरकारी	नवीन परती	0.0301	उत्तर प्रदेश शासन
				464	सरकारी	नवीन परती	0.0481	उत्तर प्रदेश शासन
				467	निजी	कृषि	0.2201	सरजू प्रसाद पुत्र रामधन नि0 ग्राम
				468	निजी	कृषि	0.1216	सभापति रामगरीब पुत्रगण राम अकबाल नि0 ग्राम
				494	सरकारी	सडकें	0.0063	सेक्टर रोड, उत्तर प्रदेश शासन
				495	सरकारी	खाद के गड्डे	0.0240	उत्तर प्रदेश शासन
				496	सरकारी	आबादी	0.0496	उत्तर प्रदेश शासन
				497	सरकारी	नवीन परती	0.0105	उत्तर प्रदेश शासन
				498	निजी	कृषि	0.2024	रामआसरे व रामप्रवेश रामजी रामशंकर रामकिशोर पुत्रगण प्रहलाद व केवला देवी पत्नी प्रहलाद नि0 ग्राम
				500	सरकारी	चकमार्ग	0.0066	उत्तर प्रदेश शासन
				502	निजी	कृषि	0.0905	श्रीपाल पुत्र पांचू नि0 ग्राम
				502/1521	निजी	कृषि	0.0320	राममूरत रामसूरत शिवमूरत हरिनाथ पुत्रगण रामबरन नि0 मरछा व रामधारी रमाशंकर रामप्रसाद पुत्र महादेव नि0 ग्राम
				503	सरकारी	गैर कृषि	0.0550	भीटा, उत्तर प्रदेश शासन
				1106 मि.	निजी	कृषि	0.0877	अमरावती देवी पत्नी सालिकराम नि0 ग्राम व शिवनाथ विश्वनाथ बुधिराम पुत्रगण अयोध्या नि0 मल्हीपुर व हरीलाल पुत्र रामअजोर व सुमित्रा देवी पत्नी हरीलाल व रामचरन पुत्र अलगू नि0 कोइरीपुर व रामअधार पुत्र महाबीर नि0 ग्राम व उदयराज देवराज अभयराज पुत्रगण रामअभिलाख नि0 बनहरा
				1106 मि.	निजी	कृषि		छोटेलाल पुत्र रामनिहोर नि0 बाभनपुर व शिवनाथ विश्वनाथ बुधिराम पुत्रगण अयोध्या नि0 मल्हीपुर व हरीलाल पुत्र रामअजोर व सुमित्रा देवी पत्नी हरीलाल व होशिलाप्रसाद रामचरन पुत्रगण अलगू नि0 कोइरीपुर व रामअधार पुत्रगण महाबीर नि0 ग्राम
				1107 मि.	निजी	कृषि	0.0272	बजरंग बली यादव पुत्र नन्हकऊ यादव नि0 ग्रा शफीपुर
				1107 मि.	निजी	कृषि		रामजीत पुत्र इन्द्रजीत नि0 छतौना कलां व रमापति व सभापति राजपति पुत्रगण मुरलीधर व गंगादेई पत्नी मुरलीधर व रामसमुझ पुत्र खेदू नि0 ग्राम व त्रिभुवन

							सिंह व जगदीश सिंह जयप्रकाश व रविप्रकाश राकेश कुमार पुत्रगण राजपति व इसराजी पत्नी राजपति नि० ग्राम छतौना कलां
			1110 मि.	निजी	कृषि	0.0329	दूधनाथ रामलौट रामफेर पुत्रगण रामदयाल यादव नि० तमरसेपुर
			1110 मि.	निजी	कृषि		दयाशंकर गिरजाशंकर पुत्रगण रामसुमेर नि० ग्राम
			1111	निजी	कृषि	0.0079	रामकृपाल पुत्र रामजस नि० ग्राम
			1113	सरकारी	चकमार्ग	0.0012	उत्तर प्रदेश शासन
			1116	निजी	कृषि	0.0024	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी दुर्गाप्रसाद नि० छतौना कलां
			1196	सरकारी	चकमार्ग	0.0080	उत्तर प्रदेश शासन
			1197	निजी	कृषि	0.0240	शेषमणि शेषधर धमेन्द्र कुमार पुत्रगण रामहित व श्रीमती धनराजी पत्नी रामहित नि० बरनी
			1205	निजी	कृषि	0.0053	महाजन राजितराम पुत्रगण जयकरन नि० तमरसेपुर
			1209	निजी	कृषि	0.0451	रामदेव पुत्र मतई नि० तमरसेपुर
			1210	निजी	कृषि	0.0375	अनिल कुमार पुत्र शिवराज नि० तमरसेपुर व श्रीमती फूलपत्ती देवी पत्नी बलिकरन व श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी अच्छेलाल नि० ग्राम बैतीखुर्द व श्रीमती प्रेमा पत्नी जगराम नि० ग्राम तमरसेपुर
			1212	निजी	कृषि	0.0632	रामकरन पुत्र रामसुख नि० बाभनपुर व रमेश कुमार व राजबहादुर पुत्रगण पारसनाथ व दूधनाथ केदारनाथ बैजनाथ पुत्रगण रामदेव व दिलराजी पत्नी रामदेव नि० ग्राम व दयाशंकर पुत्र रामानंद नि० तमरसेपुर व संजय कुमार अजय कुमार पुत्र बलिकरन नि० बाभनपुर
			1213	सरकारी	चकमार्ग	0.0031	उत्तर प्रदेश शासन
			1216	निजी	कृषि	0.0344	राजनाथ शौभनाथ पुत्रगण अहिबरन व बुटना पुत्र झगरू व मुदूना पुत्र अहिबरन नि० तमरसेपुर
			1217 ख	निजी	कृषि	0.1315	कृपाशंकर पुत्र बाबूनन्दन व सुभाषचन्द्र पुत्र जमुनाप्रसाद व सतई पुत्र रामनाथ निषाद नि० तमरसेपुर व सुरेशचन्द्र पुत्र जमुनाप्रसाद नि० ग्राम तमरसेपुर पर० चांदा तह० लम्भुआ जिला सुलतानपुर व जानकीप्रसाद पुत्र रामदेव व श्रीमती जडावती देवी पत्नी सालिकराम नि० ग्राम बरनी
			1217 क	निजी	कृषि		छोटेलाल रमापति सभापति पुत्रगण शेषनरायन व चन्द्रकान्त कृष्णकान्त रविकान्त पुत्रगण प्रतापनरायन व बडेलाल रमाकान्त रमाशंकर पुत्रगण शेषनरायन व यदुनाथ पुत्र गयादीन व देवनरायन पुत्र पुल्लू नि० बैतीखुर्द व हरिश्चन्द्र ओझा पुत्र जमुना प्रसाद ओझा नि० तमरसेपुर व अफसाना खातून पत्नी इरशाद अहमद नि० सराय गोपाल
			1219	निजी	कृषि	0.2020	देवराज पुत्र झरिहग व गिरजाशंकर पुत्र छबीराज व माताप्रसाद अभयराज पुत्रगण अभिलाष नि० बाभनपुर
			1220	निजी	कृषि	0.0007	अभयराज पुत्र रामअभिलाष व अच्छेलाल व श्यामकेश व चन्द्रजीत पुत्रगण माताप्रसाद व कल्ली पत्नी स्व० माताप्रसाद नि० बाभनपुर
			1221	सरकारी	गैर कृषि	0.0007	खाद के गड्डे, उत्तर प्रदेश शासन
			1222	सरकारी	गैर कृषि	0.0006	खाल निकालने का स्थान, उत्तर प्रदेश शासन
			1223	निजी	कृषि	0.0096	राजबहादुर पुत्र रामदेव व रामअधार पुत्र रामप्रसाद नि० ग्राम बाभनपुर व राजदेव यादव पुत्र रामदुलार नि० ग्राम बाभनपुर वर्तमान नि० बैतीकला
			1254	सरकारी	गैर कृषि	0.0680	उत्तर प्रदेश शासन
			1255	सरकारी	नवीन परती	0.0872	उत्तर प्रदेश शासन
			1256	सरकारी	नवीन परती	0.0587	उत्तर प्रदेश शासन
			1257	निजी	कृषि	0.1274	उद्रेज सिंह पुत्र बासदेव सिंह व विनयशंकर सिंह शिवशंकर सिंह पुत्रगण अग्नेज व रामफेर पुत्र रामहरख व रामकेवल पुत्र रामराज व राजाराम पुत्र भुलई नि० ग्राम व रामअछेवर पुत्र मुनेसर नि० पठानीपुर व नजीर अहमद पुत्र असगर अली नि० सरायगोपाल व अशोक कुमार शिवकुमार विजय कुमार जगदीश कुमार दिलीप कुमार पुत्रगण राजाराम व रामपियारे पुत्र मुन्नू नि० ग्राम व हदीसुलनिशां पत्नी किस्मतअली उपनाम कल्लू नि० ग्राम व गिरजाशंकर यादव पुत्र स्व० छविराज यादव नि० बाभनपुर व राजदेव यादव पुत्र रामदुलार यादव नि० बैतीकला व उषा देवी पत्नी रमाशंकर गुप्ता नि० बैतीकला व कृपाशंकर सिंह उर्फ उद्रेज सिंह नि० बैतीकला
			1258	निजी	कृषि	0.0991	सदलू पुत्र विहारी व रमेश कुमार व राजबहादुर पुत्रगण पारसनाथ व दूधनाथ केदारनाथ बैजनाथ पुत्रगण रामदेव व दिलराजी पत्नी रामदेव व विचेती पुत्र गयादीन नि० ग्राम व गंगादीन राजनरायन सत्यनरायन केशव रज्जे पुत्रगण रामधन व बट्टी व अनन्तु पुत्रगण

								बृजलाल व रामकुबेर रामकुमार पुत्र खियालीपाल व राजाराम पुत्र भरोस व रामअजोर पुत्र रामरतन व सुन्दर पुत्र खुशहाल नि० बभनपुर व हरीलाल रामलाल पुत्रगण सम्पति व हुबराजी पत्नी सम्पति व धनपत्नी पत्नी खियालीपाल नि० ग्राम व रामकरन पुत्र रामसमुझ व संजय कुमार अजय कुमार पुत्रगण बलिकरन नि० ग्राम बाभनपुर
			1259	निजी	कृषि	0.1533		सदलू पुत्र विहारी व रमेश कुमार व राजबहादुर पुत्रगण पारसनाथ व दूधनाथ केदारनाथ बैजनाथ पुत्रगण रामदेव व दिलराजी पत्नी रामदेव व विचेती पुत्र गयादीन नि० ग्राम व गंगादीन राजनरायन सत्यनरायन केशव रज्जे पुत्रगण रामधन व बंदी व अनन्तु पुत्रगण बृजलाल व रामकुबेर रामकुमार पुत्र खियालीपाल व राजाराम पुत्र भरोस व रामअजोर पुत्र रामरतन व सुन्दर पुत्र खुशहाल नि० बभनपुर व हरीलाल रामलाल पुत्रगण सम्पति व हुबराजी पत्नी सम्पति व धनपत्नी पत्नी खियालीपाल नि० ग्राम व रामकरन पुत्र रामसमुझ व संजय कुमार अजय कुमार पुत्रगण बलिकरन नि० ग्राम बाभनपुर
			1260	सरकारी	गैर कृषि	0.0134		उत्तर प्रदेश शासन
			1261	सरकारी	गैर कृषि	0.0212		उत्तर प्रदेश शासन
			1262	निजी	कृषि	0.1298		गंगादीन राजनारायण सत्यनारायण केशव रज्जे पुत्रगण रामधन नि०ग्राम
			1263	निजी	कृषि	0.0121		धनपत्नी पत्नी चौथी नि० बाभनपुर
			1269	सरकारी	चकमार्ग	0.0089		उत्तर प्रदेश शासन
			1270	निजी	कृषि	0.0815		राजाराम पुत्र भरोस नि० बाभनपुर
			1276	सरकारी	चकमार्ग	0.0089		उत्तर प्रदेश शासन
			1277	निजी	कृषि	0.1592		अनन्तु पुत्रगण मोहन व बृजलाल पुत्र संन्तु नि० बाभनपुर व शिवकुमार राजेन्द्रप्रसाद पुत्रगण बंदी व श्रीमती बडका पत्नी स्व० बंदी नि० ग्राम
			1278	सरकारी	नाली	0.0040		उत्तर प्रदेश शासन
			1279	निजी	कृषि	0.3360		कमलाप्रसाद पुत्र रामअवध नि० बाभनपुर
			1280	सरकारी	नाली	0.0150		उत्तर प्रदेश शासन
			1281	निजी	कृषि	0.1058		उदयचन्द्र व अभिषेकचन्द्र पुत्रगण राजदेव नि० ग्राम बाभनपुर
			1282	निजी	कृषि	0.0377		रामबरन पुत्र रामदुलार नि० बाभनपुर
			1285	सरकारी	रास्ता	0.0105		उत्तर प्रदेश शासन
			1286	सरकारी	बंजर	0.0185		उत्तर प्रदेश शासन
			1287	निजी	कृषि	0.2097		रामवली पुत्र रामदुलार व रामराज उदयराज छोटेला पुत्रगण रामनिहोर व रामअवध पुत्र माताबदल व इन्द्रजीत राम अकबाल पुत्रगण रामअधार व रामआसरे सभापति रमापति पुत्रगण रामअभिलाख व सीताराम विजय कुमार पुत्रगण रामप्रताप नि० ग्राम व देवराज झरिहग सुरेन्द्र प्रताप राजेन्द्र प्रताप पुत्रगण रामजीत व सालिकराम पुत्र रामप्रताप नि० ग्राम व अभयराज पुत्र रामअभिलाख नि० बाभनपुर व रामशिरोमणि व रामचन्द्र पुत्रगण सतई व श्रीमती इशराजी पत्नी स्व० सतई नि० ग्राम बाभनपुर व रामजीत व रामअकबाल पुत्रगण रामदौर व धर्मादेवी पत्नी स्व० रामदौर नि० ग्राम बाभनपुर व अच्छेलाल व श्यामकेश व चन्द्रजीत पुत्रगण माताप्रसाद व कल्ली पत्नी स्व० माताप्रसाद नि० ग्राम
			1288 क	निजी	कृषि	0.0626		उदयराज लालजी पुत्रगण रामसमुझ नि० बाभनपुर
			1288 ख	निजी	कृषि			कमलाप्रसाद पुत्र रामअवध नि० बाभनपुर
			1288 क	निजी	कृषि			रामसमुझ पुत्र भगौतीदीन नि० बाभनपुर
			1289	सरकारी	चकमार्ग	0.0200		उत्तर प्रदेश शासन
			1290	सरकारी	गैर कृषि	0.1189		उत्तर प्रदेश शासन
			1317	निजी	कृषि	0.1924		कृष्णकान्त पुत्र रामकिशोर नि० ग्राम
			1318/1506	निजी	कृषि	0.0742		कृष्णकान्त पुत्र रामकिशोर नि० ग्राम
			1318 मि.	निजी	कृषि			सोना पुत्र लालताप्रसाद नि० ग्राम
			1318 मि.	सरकारी	नवीन परती			उत्तर प्रदेश शासन
			1319 क	निजी	कृषि	0.1449		रामपाल पुत्र भरोस नि० मल्हीपुर व भगौतीदीन हरीशंकर रमाशंकर पुत्रगण रामअछैबर नि० ग्राम व महादेव पुत्र रामदत्त व पारसनाथ पुत्र सुमेर व यमुनाप्रसाद पुत्र रामसुंदर व नान्हू पुत्र रामनरेश व जयश्री इन्दर पुत्रगण बचई नि० बाभनपुर
			1319 ख	सरकारी	नवीन परती			उत्तर प्रदेश शासन
			1361	निजी	कृषि	0.4268		पारसनाथ पुत्र सुमेर व जयश्री इन्दर पुत्र बचई नि० ग्राम व महादेव पुत्र रामदत्त नि० बाभनपुर व रामलाल पुत्र भरोस नि० ननन व नान्हू पुत्र नरेश व महादेव पुत्र रामदेव नि० ग्राम व अछैबर रामलाल पुत्र भरोस नि०

								मल्हीपुर व सालिकराम हरिकेश बहादुर उमेशचन्द्र बीरेन्द्र कुमार पुत्रगण जमुना व गोविन्दी पत्नी जमुना नि० ग्राम बाभनपुर
			1362 क	निजी	कृषि	0.0729		रामपाल पुत्र भरोस नि० मल्हीपुर व भगोतीदीन हरीशंकर रमाशंकर पुत्रगण रामअछैबर नि० ग्राम व महादेव पुत्र रामदत्त व पारसनाथ पुत्र सुमेर व यमुनाप्रसाद पुत्र रामसुंदर व नान्हु पुत्र रामनरेश व जयश्री इन्दर पुत्रगण बचई नि० बाभनपुर
			1362 ख	निजी	कृषि			रामलखन रामनरायण पुत्रगण सीताराम व रामआसरे पुत्र रामदुलार नि० ग्राम
			1388	निजी	कृषि	0.0362		कृष्णकुमार पुत्र रामलखन व पराना देवी पत्नी स्व० रामलखन नि० ग्राम
			1426	सरकारी	चकमार्ग	0.0031		उत्तर प्रदेश शासन
			1427	निजी	कृषि	0.0290		रामजस शंकर कलपू रामवली पुत्रगण रामदुलार नि० ग्राम
			1428	निजी	कृषि	0.0205		रामजस शंकर कलपू रामवली पुत्रगण रामदुलार नि० ग्राम
			1429 मि.	निजी	कृषि	0.0344		मुन्नालाल व उदयराज पुत्र रामफेर व केवला देवी पत्नी स्व० रामफेर नि० ग्राम
			1429 मि.	निजी	कृषि			रामजस शंकर कलपू रामवली पुत्रगण रामदुलार नि० ग्राम
			1432	सरकारी	गैर कृषि	0.0032		सेक्टर रोड, उत्तर प्रदेश शासन
			1433	निजी	कृषि	0.0440		हीरालाल वीरेन्द्र कुमार लालमनि पुत्रगण बासदेव नि० ग्राम व जितेन्द्र कुमार पुत्र वीरेन्द्रनाथ नि० ग्राम शिवपुर
			1434	निजी	कृषि	0.0640		रामपाल रामआधार पुत्रगण महावीर नि० ग्राम
			1435	सरकारी	चकमार्ग	0.0146		उत्तर प्रदेश शासन
			1437	सरकारी	आबादी	0.0799		उत्तर प्रदेश शासन
			1439	सरकारी	आबादी	0.0269		उत्तर प्रदेश शासन
			1442	निजी	कृषि	0.0926		शिवप्रसाद शोभनाथ जगनरायण पुत्रगण संतू व आदर्श कुमार नाबा० 11 साल पुत्र सभाजीत सं० ललिता देवी माता व ललिता देवी पत्नी सभाजीत व मु० रजवन्ती पत्नी संतू नि० ग्राम
			1443	निजी	कृषि	0.0488		करियरू पुत्र जेटू नि० ग्राम
			1444	निजी	कृषि	0.0409		रमापति व सभापति राजपति पुत्रगण मुरलीधर व गंगादेई पत्नी मुरलीधर नि० ग्राम
			1445	निजी	कृषि	0.0288		रतीपाल भगवानदीन पुत्रगण रामजस नि० ग्राम
			1488	सरकारी	सडकें	0.0165		पक्की सडक, उत्तर प्रदेश सरकार
			<b>योग</b>			<b>6.9541</b>		
		(38) तमरसेपुर	101	सरकारी	चकमार्ग	0.0029		उत्तर प्रदेश सरकार
			102	सरकारी	आबादी	0.0240		उत्तर प्रदेश सरकार
			103	निजी	कृषि	0.0371		दयाशंकर पुत्र पृथ्वीपाल नि० ग्राम
			109	निजी	कृषि	0.1499		उदयराज छोटेलाल पुत्रगण रामनिहोर नि० बाभनपुर व संजीव कुमार अशोक कुमार पुत्रगण रामराज नि० बाभनपुर
			110	सरकारी	चकमार्ग	0.0046		उत्तर प्रदेश सरकार
			111	निजी	कृषि	0.1865		श्रीमती इन्द्रपतीदेवी पत्नी विश्वम्भरनाथ नि० ग्राम व श्रीमती शोभावतीदेवी पत्नी दयाशंकर मौर्य नि० ग्राम बैतीकला व श्रीमती सीतादेवी पत्नी राममिलन नि० बैतीकला व गंगाप्रसाद पुत्र मोतीलाल नि० शेषपुरा परगना चान्दा व रामवरण पुत्र केदारनाथ नि० घाटमपुर
			112 मि.	निजी	कृषि	0.0433		केदारनाथ राम सूरत पुत्रगण राजकिशोर नि० ग्राम
			112	निजी	कृषि			श्रीमती इन्द्रपती देवी पत्नी विश्वम्भर नाथ श्रीमती शोभावत देवी पत्नी दयाशंकर मौर्य नि० बैतीकला
			113	सरकारी	नाली	0.0357		उत्तर प्रदेश सरकार
			<b>योग</b>			<b>0.4840</b>		
		(39) बामनपुर	26	निजी	कृषि	0.0167		जयश्री पुत्र वचई नि० ग्राम
			27	निजी	कृषि	0.0069		जयश्री पुत्र वचई नि० ग्राम
			28	निजी	कृषि	0.0360		महादेव पुत्र राम दत्त नि० ग्राम व भूमि के०सी०सी हेतु बैंक बंधक
			29	सरकारी	चकमार्ग	0.0059		उत्तर प्रदेश सरकार
			30	निजी	कृषि	0.0694		लालबहादूर पुत्र सहदेव नि० ग्राम
			<b>योग</b>			<b>0.1348</b>		
		(40) खंडहर पट्टी	1	सरकारी	गैर कृषि	0.0233		ग्राम सडक, उत्तर प्रदेश शासन
			2	सरकारी	आबादी	0.0200		उत्तर प्रदेश शासन
			3	निजी	कृषि	0.0080		खूँट पुत्र रामखेलावन नि० बैतीकला व रामचन्द्र, फूलचन्द्र पुत्रगण बिरजू नि० बैतीकला

			4	सरकारी	नवीन परती	0.0200	उत्तर प्रदेश शासन
			5 मि	निजी	कृषि	0.0668	रामसमुझ, महादेव पुत्रगण जिवधन नि० सोनावा
			5 मि	निजी	कृषि		रामचन्द्र, फूलचन्द्र पुत्रगण बिरजू नि० बैतीकला
			10	सरकारी	नाली	0.0069	उत्तर प्रदेश शासन
			11	निजी	कृषि	0.0742	बाबूलाल पुत्र मखदूम नि० बैतीकला
			12	निजी	कृषि	0.0980	श्रीमती अमरावती देवी पत्नी रामचन्द्र मिश्र नि० सोनावा व शान्ती देवी पत्नी श्रीप्रकाश पान्डेय नि०साढापुर व श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी संकटाप्रसादमिश्र नि० छतौनाकला
			13	निजी	कृषि	0.0886	बचई उपनाम शंकर पुत्र बुद्धू नि० बैतीकला
			38	सरकारी	चकमार्ग	0.0113	उत्तर प्रदेश शासन
			40	निजी	कृषि	0.0530	श्यामशंकर दयाशंकर पुत्रगण श्रीराम नि० सोनावा
			41	निजी	कृषि	0.3235	खुददू पुत्र रामखेलावन नि० बैतीकला
			42 मि.	निजी	कृषि	0.1354	दयाराम,रामसजीवन पुत्रगण टीडीराम नि० लालू का पूरा मजरे सोनावा
			42 मि.	निजी	कृषि		मुन्नालाल, उदयराज पुत्रगण रामफेर व केवला देवी पत्नी स्व० रामफेर नि० बैतीकला
			42 मि.	निजी	कृषि		किशोरी देवी पत्नी भुसई सिंह नि० मल्हीपुर
			42 मि.	निजी	कृषि		सदानन्द पुत्र रामनारायण नि० कोइरीपुर
			43	निजी	कृषि	0.0067	रामचन्द्र, फूलचन्द्र पुत्रगण बिरजू नि० बैतीकला
			89	निजी	कृषि	0.0005	मिट्टू पुत्र महावीर नि० ग्राम
			91	सरकारी	चकमार्ग	0.0120	उत्तर प्रदेश शासन
			92 मि.	निजी	कृषि	0.1150	श्रीमती सूरसतीदेवी पत्नी शिवप्रसाद नि० कोइरीपुर
			92 मि.	निजी	कृषि		सत्यनारायण, शिवकुमार, संतोष कुमार पुत्रगण गुलाबचन्द नि० कोइरीपुर
			92 मि.	निजी	कृषि		अर्जुन पुत्र रामसुन्दर नि० महुली पूरेधनी
			92 मि.	निजी	कृषि		भगौतीप्रसाद पुत्र रामसमुझ नि० ग्राम
			92 मि.	निजी	कृषि		रमाशंकर पुत्र रामकिशोर नि० साढापुर व श्रीराम पुत्र छूनी नि० साढापुर व राम,नियम पुत्रगण रामचन्द्र नि० नेवाजगढ़
			92 मि.	निजी	कृषि		रामफेर पुत्र झूरीपाल नि० ग्राम
			92 मि.	निजी	कृषि		रामबली पुत्र लखई नि० सोनावा
			92 मि.	निजी	कृषि		शिवप्रसाद पुत्र महावीर नि० कोइरीपुर
			92 मि.	निजी	कृषि		मुन्नालाल, उदयराज पुत्रगण रामफेर व केवला देवी पत्नी स्व० रामफेर नि० बैतीकला
			93	निजी	कृषि	0.1757	रामदयाल पुत्र भगौतीदीन नि० ग्राम व पियारीदेवी पत्नी रामजतन विश्वकर्मा नि० बनहरा
			94	सरकारी	चकमार्ग	0.0056	उत्तर प्रदेश शासन
			95 मि.	निजी	कृषि	0.1874	जुगीलाल पुत्र भगौतीदीन नि० कोइरीपुर
			95 मि.	निजी	कृषि		दूधनाथ, पारसनाथ, रामधनी पुत्रगण रामनारायण नि० सरैया ५० सरैमू जौनपुर
			95 मि.	निजी	कृषि		दानबहादुर पुत्र रामसमुझ नि० ग्राम
			95 मि.	निजी	कृषि		रामचन्द्र पुत्र रमाशंकर नि० ग्राम
			95 मि.	निजी	कृषि		जीजादेवी पत्नी स्व० लालबहादुर नि० ग्राम व सनाउदेवी पत्नी अच्छेलाल साहू नि० ग्राम शाहगढ़
			95 मि.	निजी	कृषि		श्रीमती शुभावती पत्नी कैलाशचन्द्र नि० कोइरीपुर व राधेश्याम पुत्र बाबूलाल नि० कोइरीपुर व श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी राधेश्याम नि० ग्राम व मोतीलाल, कपूरचन्द पुत्रगण ठाकुरदीन व जानकीदेवी पत्नी ठाकुरदीन नि० ग्राम
			129	सरकारी	चकमार्ग	0.0035	उत्तर प्रदेश शासन
			130	सरकारी	गैर कृषि	0.0630	जलाशय, उत्तर प्रदेश शासन
			131	निजी	कृषि	0.0460	रामपियारे पुत्र रामसुमेर नि० सोनावा
			140 क	निजी	कृषि	0.0601	रामपियारे पुत्र रामसुमेर नि० सोनावा
			140 ख	निजी	कृषि		मिट्टू पुत्र महावीर नि० ग्राम
			139	निजी	कृषि	0.0181	रामदयाल पुत्र भगौतीदीन नि० ग्राम व रामकृपाल, रामराज, रामपाल पुत्रगण जैराज नि० ग्राम व रामसमुझ पुत्र जगतार नि० सोनावा व राजाराम, सीताराम पुत्रगण रामसमुझ नि० सोनावा व शीतला प्रसाद देवीप्रसाद शिवप्रसाद राजेन्द्रप्रसाद कृष्ण कुमार पुत्रगण रामअंजोर नि० ग्राम
			138	निजी	कृषि	0.0450	रामदयाल पुत्र भगौतीदीन नि० ग्राम व दानबहादुर पुत्र रामसमुझ नि० ग्राम व रामकृपाल, रामराज, रामपाल पुत्रगण जैराज नि० ग्राम व रामनारायण पुत्र अलगू नि० कोयरीपुर व मिट्टू पुत्र महावीर नि० ग्राम व शीतला प्रसाद, देवीप्रसाद, शिवप्रसाद, राजेन्द्रप्रसाद, कृष्ण कुमार पुत्रगण रामअंजोर नि० ग्राम
			137	निजी	कृषि	0.1560	गंगादेई पुत्र रामदीन नि० ग्राम व मिट्टू पुत्र महावीर नि० ग्राम व रामदयाल पुत्र भगौतीदीन नि० ग्राम व

							विजयकुमार पुत्र बसन्तकुमार नि० ग्राम व शीतलाप्रसाद, देवीप्रसाद, शिवप्रसाद, राजेन्द्रप्रसाद, कृष्णकुमार पुत्रगण रामअंजोर नि० ग्राम
			142	निजी	कृषि	0.0002	बृजलाल पुत्र महावीर नि० साढापुर व सावित्रीदेवी पत्नी शिवनाथ नि० मल्हीपुर
			143 क	निजी	कृषि	0.0167	बैशराज पुत्र मुनेश्वर यादव नि० साढापुर
			143 ख	निजी	कृषि		धिरकुटी उपनाम भगवानदीन पुत्र सोमई नि० ग्राम व पन्नेलाल, बांकलाल पुत्रगण गंगाप्रसाद नि० सफीपुर
			144	निजी	कृषि	0.0451	रामकृपाल, रामराज, रामपाल पुत्रगण जैराज नि० ग्राम व मिटदू पुत्र महावीर नि० ग्राम व रामजीबरनवाल, सुभाशचन्द्र पुत्रगण रामनयन नि० कोइरीपुर व कालूराम पुत्र मखूराम नि० कोइरीपुर व राधेश्याम पुत्र बाबूलाल नि० कोइरीपुर व रमाशंकर, रमाकान्त, उमाचन्द्र पुत्र श्रीराम नि० कोइरीपुर व संजयकुमार पुत्र रवीन्द्रनाथ नि० शफीपुर व राजेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र उदयपाल सिंह नि० शफीपुर
			147	निजी	कृषि	0.0120	रामकृपाल, रामराज, रामपाल पुत्रगण जैराज नि० कोइरीपुर व मिटदू पुत्र महावीर नि० कोइरीपुर व अवधेशकुमार पुत्र मिठाईलाल नि० कोइरीपुर व सहदेव पुत्र रामफल नि० राजपुर व श्रीमती धर्मा पत्नी रामअंजोर नि० राजपुर व रामरतन पुत्र गंगाराम नि० मरछा
			148	निजी	कृषि	0.0650	रामरतन पुत्र गंगाराम नि० मरछा
			149	निजी	कृषि	0.0080	रामरतन पुत्र गंगाराम नि० मरछा
							(149 क) रामअवध, रामनाथ पुत्रगण गोल्हई नि० सोनावा व रमाशंकर, उमाशंकर, दयाशंकर, गुलाबी, श्यामशंकर पुत्रगण जयकरन नि० ग्राम सोनावा
			150	निजी	कृषि	0.0562	रामकृपाल पुत्र जैराज नि० ग्राम व छविराज पुत्र रामसरन यादव नि० मरछा व रामकुमार, रामनरायन, रामनयन पुत्रगण रामसमेर नि० मरछा व रामफेर पुत्र रामशेर नि० बरहपुर व किशोरीलाल पुत्र फेरू नि० कोइरीपुर व ध्रुवजी पुत्र रामदीन नि० कोइरीपुर व रामरक्षा पुत्र लालताप्रसाद नि० शफीपुर व शीतलाप्रसाद, लल्लन, लालजी पुत्रगण रामचन्द्र व राजकुमारी पत्नी स्व० रामचन्द्र नि० ग्राम कोइरीपुर
			151	निजी	कृषि	0.0238	रामकिशोर पुत्र जगेश्वर नि० साढापुर व रामकुमार पुत्र मगरू नि० साढापुर व रामचन्द्र, मुन्नर पुत्रगण कुन्जू नि० सोनावा व विजयकुमार, प्रवीणकुमार पुत्रगण बसन्तकुमार नि० कोइरीपुर व राजबहादुर विजयबहादुर ओमप्रकाश पुत्रगण रामलवट नि० ग्राम छविराज पुत्र रामसरन नि० मरछा रामरक्षा पुत्र लालता प्रसाद रामकुमार रामनरायन पुत्र रामसुमेर नि० सा. सफीपुर
			152	सरकारी	आबादी	0.0120	उत्तर प्रदेश शासन
			153	निजी	कृषि	0.0400	रामपियारे पुत्र रामसुमेर नि० सोनावा
			154	सरकारी	बंजर	0.0080	उत्तर प्रदेश शासन
			177 क	निजी	कृषि	0.0015	विजयकुमार, प्रवीणकुमार, रविकुमार, मनीष कुमार पुत्रगण बसन्तकुमार नि० कोइरीपुर
			177 ख	निजी	कृषि		राजाराम, सीताराम, श्रीराम पुत्रगण रामसमुझ नि० सोनवा
			<b>योग</b>			<b>2.1121</b>	
		(41) सोनावी	215	निजी	कृषि	0.0198	श्रीमती मरजादी पत्नी राजाराम नि० ग्राम
			216	निजी	कृषि	0.1675	करुणाशंकर पुत्र बंशराज नि०ग्राम
			217	सरकारी	नाली	0.0098	उत्तर प्रदेश शासन
			383	निजी	कृषि	0.0046	उदयराज विजयशंकर उग्रसेन सत्यदेव पंचदेव ब्रह्मदेव चंद्रदेव व सूर्यकांत पुत्रगण राजिराम प्रभावती पति राजितराम
			235	सरकारी	नाली	0.0048	उत्तर प्रदेश शासन
			218	निजी	कृषि	0.3490	करुणाशंकर पुत्र बंशराज नि०ग्राम
			219	निजी	कृषि	0.1964	रामसूरति, चन्द्रमान नारायण पुत्रगण राममूरति मिश्र नि० ग्राम
			233	निजी	कृषि	0.0584	शोभनारायण पिता राजमनि नि० ग्राम
			234	सरकारी	चकरोड	0.0111	उत्तर प्रदेश शासन
			251	निजी	कृषि	0.1809	श्रीधर पुत्र शीतलादीन व रामशिरोमणि, मोतीलाल, हरिशंकर पुत्र श्रीपति व अशोक प्रसाद, केशवप्रसाद पुत्रगण फूलचन्द्र व सरोजादेवी पत्नी स्व० बेदप्रकाश व श्यामशंकर, दयाशंकर पुत्रगण श्रीराम व श्रीनाथ, विद्याधर पुत्रगण सीताराम व ईश्रवरदीन, कार्तिक श्याम पुत्रगण शिवबरन व जगदीश पुत्र अभयनारायण व राम अधार, श्यामधर, सभाकान्त पुत्रगण शिवमूर्ति व गोपीचन्द्र पुत्र राम अकबाल नि० ग्राम
			252	सरकारी	खाद गड्डे	0.0475	उत्तर प्रदेश शासन

			253	सरकारी	चकरोड	0.0095	उत्तर प्रदेश शासन
			256	निजी	कृषि	0.1361	हरिश्चन्द्र पुत्र राजनारायण नि० बिकैपुर
			257	निजी	कृषि	0.1162	रामनारायण लक्ष्मीनारायण महेशनारायण जगतनारायण सूर्यनारायण पुत्रगण रामचन्द्र नि० ग्राम
			258	निजी	कृषि	0.0714	पंचनाथ मिश्र पुत्र सूर्यपाल नि० ग्राम
			259	निजी	कृषि	0.1266	श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी महेन्द्र प्रताप नि० गणमाकोइरीपुर
			260	निजी	कृषि	0.0680	रामनारायण, लक्ष्मीनारायण, महेशनारायण, जगतनारायण, सूर्यनारायण पुत्रगण रामचन्द्र व सरजू प्रसाद, नानकचन्द्र, कामता प्रसाद, विश्वनाथ पुत्रगण राममनोरथ नि० ग्राम
			266	सरकारी	चकरोड	0.0115	उत्तर प्रदेश शासन
			312	निजी	कृषि	0.2283	रामसूरति, चन्द्रभान नारायण पुत्रगण राममूरति मिश्र नि० ग्राम
			313 मि.	सरकारी	नवीन परती	0.0153	उत्तर प्रदेश शासन
			314	सरकारी	आबादी	0.0055	उत्तर प्रदेश शासन
			316	सरकारी	चकरोड	0.0010	उत्तर प्रदेश शासन
			1161	निजी	कृषि	0.0069	उमाराज, उमाशंकर, राधारमण पुत्रगण गयादीन व संतोष, अखिलेश पुत्रगण त्रिभुवननाथ नि० ग्राम
			1160	निजी	कृषि	0.0061	देवतादीन, मातादीन पुत्रगण भगेलू नि० ग्राम
			1166	निजी	कृषि	0.0111	देवतादीन पुत्र जयकरन व लौहारी पुत्र इन्द्रजीत व राममूरति, राजाराम, रामराज पुत्रगण पयाग व गंगाराम पुत्र रामसुन्दर व शिवआसरे, सभापति, प्यारेलाल पुत्रगण रामनायक व मातादीन उर्फ नफईत पुत्र श्रीरंग व राममिलन, सुनीलकुमार पुत्रगण स्व० रामसमुझ व श्रीमती हंसराजी पत्नी स्व० रामसमुझ व अरुणकुमार, अनिलकुमार, अनूपकुमार, अजयकुमार पुत्रगण वृजभूषण व श्रीमती मालती पत्नी वृजभूषण व फूलचन्द्र लालचन्द्र हरिश्चन्द्र सुभाषचन्द्र केवलचन्द्र प्रेमचन्द्र पुत्रगण रामलौट श्रीमती मनराजीदेवी पत्नी रामलौट नि० ग्राम
			1167	निजी	कृषि	0.0214	लौहारी पुत्र इन्द्रजीत व राममूरति, राजाराम, रामराज पुत्रगण पयाग व गंगाराम पुत्र रामसुन्दर व शिवआसरे, सभापति, प्यारेलाल पुत्रगण रामनायक व मातादीन उर्फ नफईत पुत्र श्रीरंग व राममिलन, सुनीलकुमार पुत्रगण स्व० रामसमुझ व श्रीमती हंसराजी पत्नी स्व० रामसमुझ व अरुणकुमार, अनिलकुमार, अनूपकुमार, अजयकुमार पुत्रगण वृजभूषण व श्रीमती मालती पत्नी वृजभूषण व फूलचन्द्र, लालचन्द्र, हरिश्चन्द्र, सुभाषचन्द्र, केवलचन्द्र, प्रेमचन्द्र पुत्रगण रामलौट व श्रीमती मनराजीदेवी पत्नी रामलौट व सरजूप्रसाद मिश्र पुत्र राममनोरथ नि० ग्राम
			1168	निजी	कृषि	0.0120	लौहारी पुत्र इन्द्रजीत व राममूरति, राजाराम, रामराज पुत्रगण पयाग व गंगाराम पुत्र रामसुन्दर व शिवआसरे, सभापति, प्यारेलाल पुत्रगण रामनायक व मातादीन उर्फ नफईत पुत्र श्रीरंग व राममिलन, सुनीलकुमार पुत्रगण स्व० रामसमुझ व श्रीमती हंसराजी पत्नी स्व० रामसमुझ व अरुणकुमार, अनिलकुमार, अनूपकुमार, अजयकुमार पुत्रगण वृजभूषण व श्रीमती मालती पत्नी वृजभूषण व फूलचन्द्र, लालचन्द्र, हरिश्चन्द्र, सुभाषचन्द्र, केवलचन्द्र, प्रेमचन्द्र पुत्रगण रामलौट व श्रीमती मनराजीदेवी पत्नी रामलौट व सरजूप्रसाद मिश्र पुत्र राममनोरथ नि० ग्राम
			1169	निजी	कृषि	0.0080	लौहारी पुत्र इन्द्रजीत व राममूरति, राजाराम, रामराज पुत्रगण पयाग व गंगाराम पुत्र रामसुन्दर व शिवआसरे, सभापति, प्यारेलाल पुत्रगण रामनायक व मातादीन उर्फ नफईत पुत्र श्रीरंग व राममिलन, सुनीलकुमार पुत्रगण स्व० रामसमुझ व श्रीमती हंसराजी पत्नी स्व० रामसमुझ व अरुणकुमार, अनिलकुमार, अनूपकुमार, अजयकुमार पुत्रगण वृजभूषण व श्रीमती मालती पत्नी वृजभूषण व फूलचन्द्र, लालचन्द्र, हरिश्चन्द्र, सुभाषचन्द्र, केवलचन्द्र, प्रेमचन्द्र पुत्रगण रामलौट व श्रीमती मनराजीदेवी पत्नी रामलौट व सरजूप्रसाद मिश्र पुत्र राममनोरथ नि० ग्राम
			1170	निजी	कृषि	0.0120	लौहारी पुत्र इन्द्रजीत व राममूरति, राजाराम, रामराज पुत्रगण पयाग व गंगाराम पुत्र रामसुन्दर व शिवआसरे, सभापति, प्यारेलाल पुत्रगण रामनायक व मातादीन उर्फ नफईत पुत्र श्रीरंग व राममिलन, सुनीलकुमार पुत्रगण स्व० रामसमुझ व श्रीमती हंसराजी पत्नी स्व० रामसमुझ व अरुणकुमार, अनिलकुमार, अनूपकुमार, अजयकुमार पुत्रगण वृजभूषण व श्रीमती मालती पत्नी वृजभूषण व फूलचन्द्र, लालचन्द्र, हरिश्चन्द्र, सुभाषचन्द्र, केवलचन्द्र, प्रेमचन्द्र पुत्रगण रामलौट व श्रीमती मनराजीदेवी पत्नी रामलौट व सरजूप्रसाद मिश्र पुत्र राममनोरथ नि० ग्राम
			1175	निजी	कृषि	0.0947	सुरेन्द्रनाथ, स्वामीनाथ, प्रेमनारायण, अशोक कुमार, अनिल कुमार पुत्रगण रामचन्द्र व शोभावती पत्नी

							रामदास नि० ग्राम सुरसती पति रामकेवल
			1177	निजी	कृषि	0.0733	अरुण कुमार पुत्र राम आसरे नि० ग्राम
			1178	निजी	कृषि	0.0349	विजयशंकर, उग्रसेन, पंचदेव, ब्रह्मदेव, चन्द्रदेव, सूर्यकान्त पुत्रगण राजितराम व रीता देवी पत्नी भोलाप्रसाद नि० ग्राम
			1179	निजी	कृषि	0.0515	सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण अमरबहादुर नि० ग्राम
			1230	सरकारी	चकरोड	0.0044	उत्तर प्रदेश शासन
			1235	निजी	कृषि	0.0703	हीरालाल, पन्नालाल, मोतीलाल, जवाहिरलाल पुत्रगण सूर्यनारायण व चन्द्रभान पुत्र दानबहादुर व श्रीमती विद्यादेवी पत्नी चर्तुभान व श्रीमती माधुषी पत्नी अशोक कुमार नि० ग्राम
			1236	निजी	कृषि	0.0440	सत्यनारायण पुत्र रामयज्ञ व सुनील कुमार, अंजनी कुमार पुत्रगण राजनारायण व गीतादेवी पत्नि स्व० राजनारायण व अमरावती देवी पत्नी अमरनाथ नि० ग्राम
			1237	सरकारी	चकमार्ग	0.0032	उत्तर प्रदेश शासन
			1265	निजी	कृषि	0.0457	रामकेवल रामकलप पुत्र सीताराम नि० ग्राम
			1267	निजी	कृषि	0.0585	काशीप्रसाद पुत्र राममनोहर नि० मानापुर
			1268	निजी	कृषि	0.0440	जगरूप, रामकलप, फूलचन्द्र पुत्रगण रामलाल व लालमणि, जिलेदार, हवलदार तहसीलदार तालुकदार मुख्तार पुत्रगण मल्लू व राहुल पुत्र जमादार व विशम्भरनाथ पुत्र भगवन्ता व रामफेर पुत्र सालिकराम दूबे व श्यामलाल पुत्र छोटेलाल नि० ग्राम सोनपुरा
			1269	निजी	कृषि	0.0280	लालजी पुत्र रामनरेश व सूर्यनारायण पुत्र शिवशंकर व बलभद्र पुत्र लक्ष्मीनारायण व सूरज सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह व मन्जू देवी पत्नी अशोक कुमार सिंह नि० मल्हीपुर
			221	सरकारी	गैर कृषि	0.1295	उत्तर प्रदेश शासन
			222	निजी	कृषि	0.0040	सरजूप्रसाद, नानकचन्द्र पुत्र रामनोरथ व रामनारायण, लक्ष्मी नारायण, महेशनारायण, जगतनारायण, सूर्यनारायण पुत्रगण रामचन्द्र व कामताप्रसाद, विश्वनाथ पुत्रगण रामनोरथ व बशिष्ठनारायण पुत्र रामसुन्दर व श्रीभगवान, रामकृष्ण पुत्रगण अम्बिका प्रसाद व हरिनाथ, पंचनाथ, सिद्धनाथ पुत्रगण सूर्यपाल व गिरदावल, विजयप्रकाश, चन्द्रप्रकाश पुत्रगण हरिनारायण व बबलू, ओमप्रकाश पुत्रगण हीराराम व पंचनाथ मिश्र पुत्र सूर्यपाल नि० ग्राम
			223 क	निजी	कृषि	0.0530	चन्द्रभान नारायण पुत्र राममूर्ति व नीरज कुमार पुत्र रामसूरति नि० ग्राम
			223 ख	निजी	कृषि		सुरेन्द्रनाथ, स्वामीनाथ, प्रेमनारायण, अशोक कुमार, अनिल कुमार पुत्रगण रामचन्द्र नि० ग्राम
			224 क	निजी	कृषि	0.6420	उमाराज, उमाशंकर, राधारमण पुत्रगण गयादीन व अशोक प्रसाद, केशवप्रसाद पुत्रगण फूलचन्द्र व सरोजादेवी पत्नी स्व०बेदप्रकाश करुणाशंकर पुत्र बंशराज संतोष अखिलेश पुत्रगण त्रिभुवननाथ रामसमुझ पुत्र रामऔतार राम अधार सभाकान्त श्यामधर श्रीकान्त पुत्रगण शिवमूर्त जगदीशप्रसाद पुत्र अभयनारायण श्रीधर पुत्र शीतलादीन रामशिरोमणि मोतीलाल हरिशंकर पुत्रगण श्रीपति श्यामशंकर दयाशंकर पुत्रगण श्रीराम विद्याधर श्रीनाथ पुत्रगण सीताराम इन्द्रजीत पुत्र जयनारायण श्रीभगवान पुत्र जगतनारायण राजाराम राधेश्याम पुत्रगण रामलखन गिरजाकान्त पुत्र रामबरन रमाकान्त पुत्र काशी बाबूराम पुत्र नगेशर ईश्वरदीन कार्तिक श्याम पुत्रगण शिवबरन शेषनारायण पुत्र राजमणि उदयराज विजयशंकर उग्रसेन सत्यदेव पंचदेव ब्रह्मदेव चन्द्रदेव सूर्यकान्त पुत्रगण राजितराम प्रभावती देवी पत्नी स्व०राजितराम राजाराम राधेश्याम पुत्रगण रामलखन श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी महेन्द्रप्रताप नि०ग्राम
			224 ग	निजी	कृषि		रामअकबाल पुत्र लौहर व सम्पति पुत्र बच्चा व सालिकराम, तुलसीराम पुत्रगण दुखी नि० ग्राम
			224 ख	निजी	कृषि		सुरेन्द्रनाथ, स्वामीनाथ, प्रेमनारायण, अशोक कुमार, अनिल कुमार पुत्रगण रामचन्द्र व जयप्रकाश, रामप्रकाश, श्रीप्रकाश पुत्रगण भगौतीप्रसाद व ओमप्रकाश पुत्र आद्याप्रसाद व हृदयनारायण पुत्र गिरजाशंकर व रामसजीवन पुत्र हृदयनारायण व रामसूरति, चन्द्रभान, नारायण पुत्रगण राममूर्ति मिश्र नि० ग्राम व राजाराम श्रीराम सीताराम पुत्रगण रामसमुझ जंगबहादुर पुत्र रामअधर रामपियारे पुत्र रामसुमेर रामजस फूलचन्द्र पुत्र शेरई राजबहादुर ओमप्रकाश विजयबहादुर पुत्रगण रामलौट मतल पुत्र सरूप मुन्नु पुत्र कालिका श्यामदत्त ज्ञानदत्त पुत्रगण



							शिवमूर्ति इन्द्रावती पत्नी स्व०शिवमूर्ति जयकरन रामजगगी तुलसी पुत्रगण भगोतीदीन राजपति श्रीपति रमापति रघुपति समशेर बहादुर पुत्रगण हंसराज दिलराजी पत्नी हंसराज रामअवध रामनाथ पुत्रगण गोलाई श्रीमती हुब्बी पत्नी स्व०नरेश श्रीमती यशोदा पत्नी सालिकराम मनराजी देवी पत्नी रामअकबाल नि०ग्राम व सम्पति पुत्र बच्चा व सालिकराम, तुलसीराम पुत्रगण दुखी व रामअकबाल पुत्र लोहर नि० ग्राम व सुरेन्द्रनाथ, स्वामीनाथ पुत्रगण रामचन्द्र व रामसूरति, चन्द्रभान, नारायण पुत्रगण राममूर्ति मिश्र व प्रेमनारायण, अशोक कुमार, अनिल कुमार पुत्रगण रामचन्द्र नि० ग्राम व नवीन परती, उत्तर प्रदेश शासन व बीहड़, उत्तर प्रदेश शासन व आबादी, उत्तर प्रदेश शासन
			225	निजी	कृषि	0.0321	श्रीधर पुत्र शीतलादीन व रामशिरोमणि, मोतीलाल, हरिशंकर पुत्रगण श्रीपति व अशोक प्रसाद, केशवप्रसाद पुत्रगण फूलचन्द्र व सरोजादेवी पत्नी स्व० बेदप्रकाश व श्यामशंकर, दयाशंकर पुत्रगण श्रीराम व श्रीनाथ, विद्याधर पुत्रगण सीताराम व ईश्वरदीन, कार्तिक श्याम पुत्रगण शिवबरन व जगदीश पुत्र अभयनारायण व राम अशार, श्यामधर, सभाकान्त पुत्रगण शिवमूर्ति व गोपीचन्द्र पुत्र राम अकबाल नि० ग्राम
			226	निजी	कृषि	0.0570	जयकरन, रामजी, तुलसी पुत्रगण भगोतीदीन व श्यामदत्त, ज्ञानदत्त, इन्द्रावती पुत्रगण स्व० शिवमूर्ति व रामसिंगर, दलसिंगर, रामआसरे, दिल्ली पुत्रगण शुभकरन व धर्मराज, पुत्र सरजू व राजपति, श्रीपति, रमापति, रघुपति, शमशेरबहादुर पुत्रगण हंसराज नि० ग्राम
			227	निजी	कृषि	0.0280	उमाराज, उमाशंकर, राधारमण पुत्रगण गयादीन व शशीकान्त, कृष्णकुमार पुत्रगण कृपाशंकर व श्रीमती सुषमा पत्नी स्व०दिनेश व सुभाषचन्द्र, शैलेशकुमार, वृजेशकुमार पुत्रगण कृपाशंकर व श्रीमती राजकुमारी पत्नी कृपाशंकर व करुणाशंकर पुत्र बंशराज व सन्तोष, अखिलेश पुत्रगण त्रिभुवननाथ व राजमनि पुत्र रामऔतार व राजितराम पुत्र रामसुमेर नि० ग्राम
			228	निजी	कृषि	0.0450	उमाराज, उमाशंकर, राधारमण पुत्रगण गयादीन व शशीकान्त, कृष्णकुमार पुत्रगण कृपाशंकर व श्रीमती सुषमा पत्नी स्व०दिनेश व सुभाषचन्द्र, शैलेशकुमार, वृजेशकुमार पुत्रगण कृपाशंकर व श्रीमती राजकुमारी पत्नी कृपाशंकर व सन्तोष, अखिलेश पुत्रगण त्रिभुवननाथ व राजमनि पुत्र रामऔतार व राजितराम पुत्र रामसुमेर व श्रीमती पतिराजी पत्नी तिलकधारी व करुणाशंकर पुत्र बंशराज नि० ग्राम
			229	निजी	कृषि	0.2172	छोटेला, हरिप्रसाद, सुभाषचन्द्र पुत्रगण हरिनारायण व अतुल कुमार पुत्र शिवप्रसाद व नीलम पत्नी स्व०शिवप्रसाद व काशीदीन पुत्र खुनखुन व पन्नालाल पुत्र सूर्यनारायण व श्रीमती बुधना पत्नी काशीदीन नि० ग्राम रोहित कुमार पिता शारदा प्रसाद शारदा देवी पति राजसजीवन
			230	निजी	कृषि	0.1777	शशीकान्त, कृष्णकुमार पुत्रगण कृपाशंकर व श्रीमती सुषमा पत्नी स्व०दिनेश व सुभाषचन्द्र, शैलेशकुमार, वृजेशकुमार पुत्रगण कृपाशंकर व श्रीमती राजकुमारी पत्नी कृपाशंकर नि० ग्राम
			1276	निजी	कृषि	0.0332	पंचनाथ पुत्र सूर्यपाल व राजेशकुमार पुत्र पंचनाथ व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी चन्द्र प्रकाश व विद्यादेवी पुत्री हरिनाथ नि० ग्राम
			1275	निजी	कृषि	0.0581	वाबूराम पुत्र नगेशर नि० ग्राम
			1273	निजी	कृषि	0.0706	लल्लन लालमणि पुत्रगण श्रीपाल नि० ग्राम
			1831	सरकारी	मुख्यमार्ग	0.0024	उत्तर प्रदेश शासन
			1840	निजी	कृषि	0.0593	ओमप्रकाश पुत्र आद्याप्रसाद नि० ग्राम
			1841	निजी	कृषि	0.0353	रामसजीवन पुत्र हृदयनारायण नि० ग्राम
			1842	निजी	कृषि	0.0340	शेषनारायण पुत्र राजमणि व अखिलेश कुमार पुत्र श्रीराम नि० ग्राम
			1843	सरकारी	गैर कृषि	0.0022	उत्तर प्रदेश शासन
			1849	निजी	कृषि	0.0916	सिद्धनाथ पुत्र सूर्यपाल व श्रीमती निर्मला पत्नी विजेन्द्र नि० ग्राम
			1851	सरकारी	गैर कृषि	0.0030	उत्तर प्रदेश शासन
			1853	निजी	कृषि	0.0978	शिव आसरे, समापति, प्यारेलाल पुत्रगण रामनायक व अरुण कुमार उर्फ साहेब लाल पुत्र रामआसरे नि० ग्राम
			1855	निजी	कृषि	0.0179	अरुण कुमार पुत्र राम आसरे नि० ग्राम
			1978	निजी	कृषि	0.2293	रमाकान्त पुत्र सूर्यबली व अयोध्याप्रसाद पुत्र चौथी व पन्नालाल पुत्र रामदुलार व श्रीधर, श्रीपति पुत्रगण शीतलदीन व श्रीनाथ, विद्याधर पुत्रगण सीताराम व

								रामअकवाल पुत्र माताप्रसाद व जगदीशनरायन पुत्र अमयनरायन व रामअधर, श्यामधर, सभाकान्त, श्रीकान्त पुत्रगण शिवमूरत व रामउजागिर, लालचन्द्र पुत्रगण सूर्यनरायन व श्रीमती सुगना पत्नी सूर्यनरायन व दिवाकर नाथ पुत्र रामसरन व रामकेवल, रामआसरे पुत्रगण मोलई प्रसाद रजक व ठाकुरप्रसाद पुत्र बोडई व श्रीमती चमेला रानी पत्नी जगदेव नि० ग्राम श्यामशंकर दयाशंकर पिता श्रीराम
			1979	निजी	कृषि	0.0216	रामजियावन, राममिलन पुत्रगण गंगादीन व भगवन्ती पत्नी गंगादीन नि० ग्राम	
			1980	निजी	कृषि	0.0402	कृष्ण कुमार, अर्जुन, रामसुभग पुत्रगण शमसेर बहादुर नि० ग्राम	
			1981	सरकारी	गैर कृषि	0.0052	उत्तर प्रदेश शासन	
			1982	निजी	कृषि	0.0601	सुरेन्द्र कुमार नरेन्द्र कुमार राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण अमरबहादुर नि० ग्राम	
			1983	निजी	कृषि	0.1477	कृष्ण कुमार, अर्जुन, रामसुभग पुत्रगण शमसेर बहादुर नि० ग्राम	
			1994	सरकारी	मुख्यमार्ग	0.0065	उत्तर प्रदेश शासन	
			1996	निजी	कृषि	0.1332	रामविलास, रामनयन पुत्रगण छोटेलाल व रामउजागिर, लालचन्द्र पुत्रगण सूर्य नरायन व श्रीमती सुगना पत्नी सूर्य नरायन व राममूरति, ओमप्रकाश पुत्रगण विश्वनाथ व श्रीमती विरजा देवी पत्नी विश्वनाथ व रामकुमार पुत्र छोटेलाल व श्रीमती मनीदेवी पत्नी छोटेलाल व देवीलाल पुत्र अहकू नि० ग्राम	
			1997	निजी	कृषि	0.0250	अशोककुमार, राजेश कुमार, दिनेश कुमार पुत्रगण सत्यनरायन व चमेला देवी पत्नी सत्यनरायन नि० ग्राम	
			1998	निजी	कृषि	0.0712	गंगाप्रसाद पुत्र जोखू नि० ग्राम	
			1999	निजी	कृषि	0.0335	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी पारसनाथ व पारसनाथ, कामता प्रसाद पुत्र रामनिहोर नि० ग्राम	
			2000	सरकारी	गैर कृषि	0.0061	उत्तर प्रदेश शासन	
			2001	निजी	कृषि	0.0221	श्रीमती जडावती पत्नी हरिप्रसाद व लालतीदेवी पत्नी विजयबहादुर व दुर्गावती देवी पत्नी नरेन्द्रबहादुर व श्रीमती बिन्दू पत्नी सुरेन्द्र कुमार नि० भैरोपुर	
			2002	निजी	कृषि	0.1498	मगरू पुत्र जगेशर नि० ग्राम	
			<b>योग</b>			<b>5.3117</b>		

[फा. सं. भाराराप्रा/11013/01/2013-एलए 56-नोटिफ/बीओटी/पकाई-वाराणसी ]  
माया प्रकाश, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2013

**S.O. 3219(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2550 (E), dated the 23rd October, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 56 on the stretch of land from Km. 134.700 to Km. 178.300 (Sultanpur-Varanasi Section) in District Sultanpur in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Amar Ujala" and "Hindustan", both dated the 12<sup>th</sup> December, 2012; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 134.700 to Km. 178.300 (Sultanpur – Varanasi Section) of District Sultanpur, NH-56 in the State of Uttar Pradesh								
Sl. No.	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Khasra number	Type of Land	Nature of land	Acq. Area (in Ha.)	Name of land owner/Person Interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sultanpur	(1) Sadar	(1) Amhat	299	Private	Agriculture	0.0285	Vasiabbas Ajjibbas S/o Gulamabbas & Munurul abbas S/o Aagahusain & Aftab Husain Mahtab Simab Husain Hasan Jahin Sabab Husain S/o Sagirul Hasan & Sadrulnishan W/o Sagirul Hasan R/o Gorabarik
				301	Private	Agriculture	0.0488	Vasiabbas Ajjibbas S/o Gulamabbas & Munurul abbas S/o Aagahusain & Aftab Husain Mahtab Simab Husain Hasan Jahin Sabab Husain S/o Sagirul Hasan & Sadrulnishan W/o Sagirul Hasan R/o Gorabarik
				306	Private	Agriculture	0.0048	Firoj Abbas S/o Munirul Hasan Mahtab Husain S/o Sagirul Hasan Rehan Aaga S/o Ajaharul Hasan R/o Goravarik
				307	Private	Agriculture	0.0084	Ajharul Hasan S/o Aaga Hasan R/o Gorabarik
				312	Govt.	Nala	0.0025	Govt. of Uttar Pradesh
				313	Private	Agriculture	0.0025	Hamid Ali Jahid Ali S/o Nasir Ali & Ajam Ali Kasim Ali Najim Ali S/o Jahid Ali R/o Gorabarik
				314	Private	Agriculture	0.0025	Kausharali and Sarwarali S/o Hamid R/o Village
				315	Private	Agriculture	0.0025	Ajadar Husain Aladar Husain Vakar Husain S/o Ikram Husain R/o Gorabarik
				317	Private	Agriculture	0.0055	Aale Mohamad Raja abbas S/o Riyasat Husain R/o Village
				319	Private	Agriculture	0.0034	Ansar Husain Mohd. Israr Mohd. Sajjad Mohd. Abrar S/o Manjur & Mufidulhasan Masudulhasan Aliulhasan Masihulhasan Madihulhasan S/o Riyasat husain & Riyajul Hasan S/o Fajal & Mohd. Husain Khan S/o Riyajul Husain Khan & Julfikar Ali S/o Murtja Husain & Aashik Husain Aaftab Husain S/o Akhlakh Husain R/o Goravarik & Dilshad Husain S/o Hidayat Husain R/o Shahganj Chhawani Sadar
				366	Govt.	Khad ka Gadda	0.0138	Govt. of Uttar Pradesh
				<b>Total</b>			<b>0.1233</b>	
			(2) Gorabarik	833	Govt.	Agriculture	0.0042	Bhudan Samiti
				837	Private	Agriculture	0.0217	Mohd. Raja, Hasan Raja S/o Niyaj Ali R/o Amhat & Riyaj Hasan, Mohd. Haidar S/o Gulam Husain R/o Amhat & Imdad Hasan S/o Mehadi R/o Amhat & Mohd. Amin S/o Fida Husain & Smt. Kanij Jahra W/o Fida Husain R/o Amhat & Mohd. Najim, Mohd. Yamman, Mohd. Ahasan, Mohd. Nakkan, Mohd. Rais Jafar, Mohd. Hasan Jafar S/o Riyasat Husain & Khusnudi Begum, Khalikulnisha W/o Riyasat Husain R/o Amhat & Mohd. Yusuf Hasan Khan S/o Sabbir Husain urf Sabbirhasan R/o Amhat & Mohd. Rais Khan, Mohd. Kasimabbas Khan, Mahtab Husain Khan, Afjal Husain, Jafar Abbas Khan, Vakarul Abdul Khan, Naki Abbas Khan S/o Mohd. Tahir Khan R/o Amhat & Mohd. Hanif Khan, Mahamudul Hasan Khan, Shiftehasan Khan, Sher Ali Khan S/o Shaukatali & Smt. Ummatibi W/o Shaukatali R/o Aligarh Majre Amhet & Hasan Mohammad, Mohd. Hasnain, Mohd. Sayid S/o Nevajisali R/o Village &

							Mansurhusain, Masihaidar S/o Masubhasan & Ummelaila W/o Masub Hasan R/o Amhet & Nayaab Husain S/o Laiyak Husain & Smt. Johri Begum W/o Lt Laiyk Husain R/o Amhet
			849/1	Private	Agriculture	0.0547	Dr. Ravindarpratap Singh S/o Ramyash Singh R/o Sirwara Road Majre Chawni Sadar
			849/2	Private	Agriculture		Najim Ali S/o Kasid Husen R/o Village
			867	Govt.	Gaddha	0.0284	Govt. of Uttar Pradesh
			868	Private	Agriculture	0.0399	Hasan Mehandi S/o Gulam Ali Khan Mujaffar Abbas Mohd. Hamid Abbas Jamin Abbas Sagir Abbas Jahir Abbas S/o Ehatesham husen Afajal Husain S/o Jamin Husain Dildar Husain Tajdar Husain Vafadar Husain S/o Mujavar Husain Hasan Mehandi Mehandi Hasan S/o Gulam Ali & Gulam Ali Khan S/o Rasul Khan & Smt. Najirabagum W/o Ausaf Ali R/o Village & Banzar, Govt. of Uttar Pradesh & Gadda, Govt. of Uttar Pradesh
			1033	Private	Agriculture	0.0164	Rajbahadur, Ramchandra S/o Ramasre R/o Village
			1071	Private	Agriculture	0.0084	Rajmani Mishra, Suryamani Mishra S/o Krishankant Mishra & Smt. Kailash Devi W/o Lt Krishankant Mishr R/o Pyagipur & Smt. Ujarakhatun W/o Asagar Husain Khan R/o Bhai
			1072	Private	Agriculture	0.0140	Smt. Dropati Devi W/o Adhyaprasad Tiwari R/o Devriya Prg. Barosa
			1073	Private	Agriculture	0.0088	Smt. Dropati Devi W/o Adhyaprasad Tiwari R/o Devriya Prg. Barosa
			1074	Private	Agriculture	0.0126	Smt. Dropati Devi W/o Adhyaprasad Tiwari R/o Devriya Prg. Barosa
			1075	Private	Agriculture	0.0129	Rajmani Mishra, Suryamani Mishra S/o Krishankant Mishra & Smt. Kailash Devi W/o Lt Krishankant Mishr R/o Pyagipur & Meet Associate Pvt. Ltd. Regi. No. 20-25600 Company Registrar UP Kanpur Director Devendra Singh S/o Baldev Singh R/o Civil Line Sultanpur
			1076	Private	Agriculture	0.0087	Deepak Jain, Vineet Jain S/o Jogiram Jain R/o Kudwar Naaka Sultanpur & Girish Chandra S/o Harishchandra R/o Village
			1077	Private	Agriculture	0.0305	Smt. Safiya Khatun W/o Sagir Ahmed R/o Rasulpur Majre Lohardakshin & Sagir Ahmed S/o Abdul Latif R/o Village
			1079	Private	Agriculture	0.0302	Asutosh Pandey, Santosh Pandey S/o Arvind Kumar & Smt.Lalitadevi W/o Arvind Kumar R/o Gabhadiya & Anil Kumar, Arun Kumar, Atul Kumar S/o Mahaveer Prasad R/o Gabhadiya & Deviprasad S/o Ramyash R/o Udharanpur Teh. Kadipur
			1080	Private	Agriculture	0.0314	Rajkumar Agrawal S/o Ramsewak Agrawal R/o Chhawani Sadar
			1495	Private	Agriculture	0.0199	Girishchandra S/o Harishchandra R/o Village
			1497	Private	Agriculture	0.0388	Asutosh Pandey, Santosh Pandey S/o Arvind Kumar & Smt.Lalitadevi W/o Arvind Kumar R/o Gabhadiya & Anil Kumar, Arun Kumar, Atul Kumar S/o Mahaveer Prasad R/o Gabhadiya
			1498	Private	Agriculture	0.0378	Asutosh Pandey, Santosh Pandey S/o Arvind Kumar & Smt.Lalitadevi W/o Arvind Kumar R/o Gabhadiya & Anil Kumar, Arun Kumar, Atul Kumar S/o Mahaveer Prasad R/o Gabhadiya
			1499/2	Private	Agriculture	0.0380	Asutosh Pandey, Santosh Pandey S/o Arvind Kumar & Smt.Lalitadevi W/o Arvind Kumar R/o Gabhadiya & Anil Kumar, Arun Kumar, Atul Kumar S/o Mahaveer Prasad R/o Gabhadiya

				1303	Private	Agriculture	0.0222	Girishchandra S/o Harishchandra R/o Amhat & Smt. Akbari Bibi W/o Aabid Khan R/o Amhat
				1304	Private	Agriculture	0.0250	Kandhai Lal S/o Sukh Mangal R/o Village Ramdev S/o Shriram Surendra Kumar Ravindra Kumar Rajkumar S/o Ramsewak R/o Village
				1781	Private	Agriculture	0.1271	Ramendra Vikram Singh, Shivendra Vikram Singh S/o Avdhesh Narayan Singh & Smt. Ashok Kumari W/o Avdhesh Narayan Singh R/o Laxmanpur & Smt. Krishnawati W/o BasantLal Morya R/o Village & ShrivaniKumar Bhargava S/o Ferai Bhargava R/o Shahganj & Smt. Manju Jayaswal W/o Hemraj & Hemraj S/o Umacharan R/o Chawnisadar & Harishankar Krishnashankar Ravishankar Mukundshankar S/o Ramashankar R/o Civilline Sultanpur & Smt. Sitapati W/o Raghuvveer Prasad R/o Karodiya & Anil Kumar Chouhan S/o Jhagairam Chouhan R/o Dariyapur & Smt. Sursati W/o Vasantlal Yadav R/o Raniganj Govabarik & Dinesh Kumar Prajapati S/o Mohanlal Prajapati R/o Dariyapur & Ashokkumarmishra S/o Rampratapmishra R/o Karodiya & Mohd. Ali khan S/o Miyadeen khan R/o Bankeypur & Smt. Athariyasameen W/o Mohd. Nasim Khan R/o Purepahalwanmajre Hazipatti
				835	Private	Agriculture	0.0047	Aabid Ali S/o Vahid Ali R/o Village & Teyyvandi W/o Mohd. Muslim R/o Village & AbdulRajakkhan, Abdul Hamid Khan S/o Musahib khan R/o Tajkhanpur & Dwarika S/o Shivprasad & Smt. Chamela W/o Kishorilal R/o Aligarh Fakhruul Hasan S/o Moulana Aaga Najafali Masrul Hasan S/o Mahmudul Hasan Vikram Minor 16 years S/o Suraj Gardian Smt. Kmaladevi Smt. Vilkinsavano W/o Aalehasan Ashish Satish S/o Suraj R/o Village
				836	Private	Agriculture	0.0078	Alehasan S/o Narulhasan R/o Village
				849	Private	Agriculture	0.0181	Dr. Ravindarpratap Singh S/o Ramyash Singh R/o Sirwara Road Majre Chawni Sadar & Najim Ali S/o Kasid Husen R/o Village
				1804	Govt.	Non-Agriculture	0.0409	Govt. of Uttar Pradesh
				1810	Private	Agriculture	0.0071	Shamimul Hasanain, Safdar Aagakhan, Nafisulhasan Khan, Ajharulhasan khan S/o Najmulhasn & Vanragis Jahan W/o Late Najmulhasan R/o Village
				1811	Private	Agriculture	0.0134	Gurusaran S/o Raghuvveer R/o Village & Shamimul Hasanain, Safdar Aagakhan, Nafisulhasan Khan, Ajharulhasan khan S/o Najmulhasn & Vanragis Jahan W/o Late Najmulhasan R/o Village & Smt. Sahfikabano W/o Ajharul Hasan R/o Gorabarik Pranay gupta S/o Chandraprakash R/o Parkingsanj
				1833	Private	Agriculture	0.0147	Dharamnarayan S/o Parmeshwardeen R/o Purebaghray Prg. Miranpur & Mangla Prasad Dewedi S/o Anantprasad Dewedi R/o Civilline Sultanpur & Ramajore Verma S/o Lutai Verma R/o Sirara Tehsil Jalalpur & Shriram Yadav S/o Ramsumajh Yadav R/o Sonavan Prg.Chanda & Mayank S/o Ashok & Kislay S/o Premnarayan & Ranjit S/o Shrinath & Raghuvir S/o Gangaram R/o Village & Vijay kuamr Rajkumar Vinod kumar Dharmendra kumar Vinay kumar Vivek kumar S/o Santlal Jaysawal & Yasoda devi Smt. Ratna devi W/o Santlal Jaysawal R/o 210 Parkingsanj Chhawani Sadar
				1836	Govt.	Way	0.0167	Govt. of Uttar Pradesh

			2011	Govt.	Gaddha	0.2033	Govt. of Uttar Pradesh
			<b>Total</b>			<b>0.9585</b>	
		<b>(3) Pyagipur</b>	5	Private	Agriculture	0.0419	Kandhai Lal S/o Sukhmangal & Ramdev S/o Shriram & Surendra Kumar, Ravindra Kumar S/o Ramsewak & Rajkumar S/o Surendra Kumar R/o Govarik
			9	Govt.	Way	0.0460	Govt. of Uttar Pradesh
			6	Govt.	Road	0.0069	Govt. of Uttar Pradesh
			8	Private	Agriculture	0.0687	Omprakash S/o Ramvilash R/o Agnakol & M/s Comercial Autosales Pvt. Ltd. Kanpur Road City Ilahabad by Director Sanskar Gupta S/o B. M. Gupta R/o Balrampur House & Abhishek Mishra S/o Brajraj Mishra R/o Village & Nayar Samim D/o Samim Ahmed R/o 1/13/39 D Near Tender Heart Public School Civil Line Fajjabad & Smt. Tehsim Bano W/o Israr Ahmed R/o Sultanpur
			10	Govt.	Nala	0.0174	Govt. of Uttar Pradesh
			13 E	Govt.	Road	0.1225	Govt. of Uttar Pradesh
			13 E	Govt.	Aabadi		Council of Municipality, Sultanpur
			12	Private	Agriculture	0.1304	Ashish Shrivastav S/o Shailendra R/o Rudranagar Mejarganj & Smt. Gohar jiya W/o Shafdir rajakhan & Suryapratap Singh S/o Narayan Pratap Singh R/o Khajurhat Dist. Fajjabad & Vaikunth Prasad S/o Nandlal Ramvishal krishankant S/o Brajlal Ramshabda Ramdatt S/o Ganpati R/o Village & Vaikunth Prasad S/o Nandlal & Ramvishal S/o Brajlal R/o Village & Hridayprasad S/o Ramjas R/o Village
			12 B	Private	Agriculture		Krishakant, Ramshabd, Ramdutt S/o Ganpati R/o Village
			15	Private	Agriculture	0.0066	Council of Municipality, Sultanpur
			18 A	Govt.	Abadi	0.0104	Council of Municipality, Sultanpur
			28	Govt.	New Land	0.2145	Govt. of Uttar Pradesh
			29	Private	Agriculture	0.1555	Amarnath Tiwari S/o Jamunaprasad Tiwari & Ramswarath, Thakurprasad S/o Rammanorath R/o Village & Ramswarath, Thakurprasad S/o Rammanorath & Ramswarath, Deviprasad S/o Ramadhar & Chintamani, Ramrudra Pathak S/o Hariprasad & Gayaprasad Pathak S/o Ramshringar & Smt. Asharfi Devi W/o Ramshringar R/o Village
			30	Govt.	Road	0.0371	Govt. of Uttar Pradesh
			104	Private	Agriculture	0.0010	Krishakant, Ramshabd, Ramdutt S/o Ganpati R/o Village
			106	Private	Agriculture	0.0599	Ramshabd S/o Ganpati R/o Village
			107	Private	Agriculture	0.0111	Krishakant, Ramshabd, Ramdutt S/o Ganpati R/o Village
			109	Private	Agriculture	0.0380	Jaikumar S/o Rajbahadur R/o Vilalge
			97	Private	Agriculture	0.1259	Dr. Dharendra S/o Maheshchand R/o Sadar Sultanpur & Gyanmati W/o Chintamani D/o Bholanath R/o Payagipur and Smt. Savitri Devi D/o Amarnath R/o Vokherpur & Mhanthprasad S/o Jagannath & Sushiladevi W/o Mahanthprasad R/o Chhavani Sadar & Ramnivas S/o Vindeshwari R/o Khunshekhpur Tehsil Kadipur & Shashi Singh S/o Muneshwar Singh R/o Tiriya Parg. Mijhonda & Shushila W/o Rambaran R/o Narayanpur & Vidyavati Shukla W/o Kamaldev Shukla R/o Chhapra & Shivkumar Mishr S/o Bhawanifer R/o Pitamvarpur & Smt. Nohra Devi W/o Lalmani Chourasiya R/o Barua Kadipur
			96	Private	Agriculture	0.1076	Devidas S/o Ramadhar & Smt.Mamta W/o Sachendra Kumar R/o Narayanpur & Rajesh Kumar S/o Sitaram R/o Ventikalan & Smt. Gyanadevi W/o Radheysyam R/o Laxmanpur & Smt. Anjali Singh W/o Vinay

								Kumar Singh R/o Bahrauli & Smt. Poonam W/o Ramtirath R/o Mahmudpur Jangal & Smt. Vimla Devi W/o Gayaprasad R/o Village
			88	Private	Agriculture	0.1110		Anilkumar Shukl S/o Keshav Shukl & Dinesh kumar, Ratnesh Kumar, Gyaneshkumar, Karuneshkumar, Deveshkumar S/o Parasnath R/o Khairabad
			86	Private	Agriculture	0.0403		Shri Bhagwan S/o Dwarika Prasad & Kusumdevi urf Kusumlata W/o Suresh Chandra & Rajkaran Singh S/o Ramnareah Singh R/o Village
			85	Govt.	Khalihan	0.0374		Govt. of Uttar Pradesh
			79	Private	Agriculture	0.0760		Vindmati W/o Vidyabhushan & Jagdish, Rameshwar, Gayaprasad S/o Vikramaditya & Premshankar, Devshankar, Vijay Shankar S/o Gangaprasad & Amarnath, Chhotelal, Shri Bhagwan S/o Dwarika Prasad R/o Village
			78	Private	Agriculture	0.0250		Vindmati W/o Vidyabhushan & Jagdish, Rameshwar, Gayaprasad S/o Vikramaditya & Premshankar, Devshankar, Vijay Shankar S/o Gangaprasad & Amarnath, Chhotelal, Shri Bhagwan S/o Dwarika Prasad R/o Village
			77	Private	Agriculture	0.0250		Sabhjit S/o Anantprasad R/o Civil Lines Sultanpur
			76	Govt.	Samiti	0.0188		Bhumidan Samiti, Sultanpur
			72	Private	Agriculture	0.0204		Ramnayak S/o Radheyshyam R/o Village
			71	Private	Agriculture	0.1140		Gangaram, Gangasahay, Ramkewal, Ashok Kumar S/o Raghunath & Ramprakash Singh S/o Sabhajit Singh & Deviprasad Singh S/o Raghuraj Singh R/o Village
			69	Govt.	Way	0.0029		Govt. of Uttar Pradesh
			70	Private	Agriculture	0.0880		Anil Kumar S/o Ramshabd & Rudrapratap Mishra S/o Jainarayan Mishra & Smt. Premadevi W/o Virendra R/o Shashtri nagar
			113	Govt.	Nala	0.0280		Govt. of Uttar Pradesh
			114	Private	Agriculture	0.0457		Alirshid Dilshad Mohd. Kaajim & Moh. Aslam S/o Momin Husain R/o Amhat & Smt. Lata Gupta W/o Vinod Kumar R/o Chawnisadar
			111	Govt.	Road	0.0820		Govt. of Uttar Pradesh
			112	Govt.	Way	0.0030		Govt. of Uttar Pradesh
			119	Govt.	Nala	0.0440		Govt. of Uttar Pradesh
			122	Private	Agriculture	0.0167		Smt. Jagpatti W/o Jokhu R/o Sonara
			123	Private	Agriculture	0.0306		Afjal Husain S/o Jamin Husian R/o Ahmat & Smt. Lata Gupta W/o Vinod kumar R/o Chhavanisadar & Alirashid, Dilshad, Mohd. Kajim, Mohd. Aslam S/o Momin Husian R/o Ahmat
			128	Govt.	Nala	0.0330		Govt. of Uttar Pradesh
			146	Govt.	Road	0.1480		Govt. of Uttar Pradesh
			145	Private	Agriculture	0.1686		Harishankar Verma, Rammurti Verma S/o Nanhaku R/o Narayanpur & Suresh Chand Pathak S/o Jainarayan Pathak & Umeshchandra S/o Narsinghnarayan & Gulamarbbaki, Taukir Ahmed S/o Mohd. Hasan & Smt. Khatijabibi W/o Mohd. Hasan & Harishchandra Pathak, Krishanchandra Pathak S/o Rajnarayan R/o Village
			147	Private	Agriculture	0.0727		Smt. Sashi Singh W/o Ramkaran Singh & Harish Chand Pathak, Krishan Chandra Pathak S/o Rajnarayan & Umesh Chandra S/o Narsingh Narayan & Suresh Chandra Pathak S/o Jainarayan R/o Village
			148	Private	Agriculture	0.0068		Munnalal, Kishorilal S/o Medai R/o Civilline & Ramswaroop Deviprasad S/o Ramadhar R/o Village
			281	Private	Agriculture	0.1097		Munnalal S/o Medai & Rajesh Kumar Malothiya, Punit Kumar Malothiya, Ritesh Kumar Malothiya S/o Bhagwati Prasad Agrawal R/o Namakmandi Chawnisadar
			289	Private	Agriculture	0.1415		Awadhnarayan S/o Bindeshwari & Koshalya

							Rani W/o Ramsahay & Manoj Kumar Agrawal S/o Ramsahay Agrawal & Suresh Chand S/o Jai Narayan & Harish Chandra Pathak, Krishan Chandra Pathak S/o Rajnarayan & Umesh Chandra S/o Narsingh Narayan Pathak R/o Village
			284	Govt.	Bhita	0.0104	Govt. of Uttar Pradesh
			291	Govt.	Banzer	0.0463	Govt. of Uttar Pradesh
			292	Govt.	Railway	0.1452	Railway Department
			293	Private	Agriculture	0.0725	Bharatbhushan, Vidyabhushan S/o Umashankar & Krishnabhagwan, Awadhraj S/o Shivkumar & Rajiv Mishr, Rahul kumar S/o Suresh Chandra & Smt. Sheela W/o Suresh Chandra & Shashikant S/o Umashankar & Gauri Mishra W/o Rishikesh & Kamladevi W/o Umashankar & Smt. Aarti Mishr W/o Rishikesh Mishr & Deepak Mishr, Sunil Mishr S/o Awadh Narayan Mishr & Awadh Narayan Mishr S/o Shivkumar Mishr R/o Village
			294	Private	Agriculture	0.0532	Ramashankar, Vijay Shankar, Ravishankar S/o Nandkishor & Shivshankar S/o Durgaprasad R/o Village
			295	Private	Agriculture	0.1089	Ravindra kumar Jayaswal S/o Ramsundar Jayaswal R/o Thoura & Pravin Singh S/o Tirthraj Singh R/o Narayanpur & Narendra Bahadur Singh S/o Bambahadur Singh & Ramswaroop Devidas S/o Ramadhar & Ramrudra Pathak, Gayaprasad Pathak S/o Ramshringar & Smt. Asharfi Devi W/o Ramshringar & Ramswarath S/o Rammanorath R/o Village & Premkishore S/o Ramadhar & Madhuri Mishr W/o Premkishore R/o Narayanpur & Shivkumar Gupta S/o Hiralal Gupta & Smt. Anaradevi W/o Hiralal Gupta & Hiralal S/o Prameshwari R/o Village
			297	Private	Agriculture	0.0478	M/s. Rahul Fues P Ltd. Dr. Managing Director Vijay Prakash Singh S/o Rudrapratap Singh R/o Lalbagh & Fajjabad Ramswaroop Deviprasad S/o Ramadhar & Ramswarath S/o Thakur Prasad S/o Rammanorath R/o Village & Ramswarath, Thakurprasad S/o Rammanorath & Devidas S/o Ramadhar & Ramrudra, Gayaprasad S/o Ramshringar & Smt. Asharfi Devi W/o Ramshringar R/o Village
			373	Govt.	Non Agriculture	0.0368	P.W.D. Govt of Uttar Pradesh
			382	Private	Agriculture	0.0806	Manmohan S/o Shivsaran & Krishanmohan, Ojha, Madanmohan S/o Ramsaran & Pradeepkumar S/o Shivkumar & Shivkumar S/o Bhawanifer & Kripashankar S/o Suryapal Mishra & Alok Tiwari S/o Ramasre & Smt. Anita Singh W/o Pradeepkumar Singh & Kanahiyalal, Rajaram Yadav S/o Khaderu Yadav & Premkishore Mishr S/o Ramadhar Mishra Vikasyadav Adult Vishal Yadav minor 16 years S/o Vasbes Gardian Rampati Mother Arvindkumar Atulkumar Shukla Akhilkumar Shukla S/o Achyutanand Shukla R/o Village & Vindmati W/o Vidyabhushan & Kamladevi W/o Umashankar R/o Village
			383	Private	Agriculture	0.0052	Harishankar, Krishnashankar, Ravishankar S/o Ramashankar R/o Civil Lines Sultanpur
			374	Private	Agriculture	0.0250	Krishan Mohan Ojha, Madanmohan Ojha, Rakesh Dutt Ojha S/o Ramsharan & Vivek Kumar, Abhishek Kumar Ojha Minor Age 15&13 Years Gardian Renu Renu W/o Manmohan R/o Village



				381	Private	Agriculture	0.0212	Kamladevi W/o Umashankar & Vindmati Devi W/o Vidyabhushan R/o Village
				376	Private	Agriculture	0.0380	Bharatbhushan, Vidyabhushan S/o Umashankar & Krishan Bhagwan, Awadhranj S/o Shivkumar & Anil kumar S/o Jagnarayan & Pradeep, Dilip S/o Mohan & Shashikant S/o Umashankar & Gaurimishra S/o Rishikesh & Smt. Kamladevi W/o Umashankar & Rajiv Mishra, Rahul Kumar S/o Suresh Chandra & Smt. Sheela W/o Suresh Chandra R/o Village
				375	Private	Agriculture	0.0137	Bharatbhushan, Vidyabhushan S/o Umashankar & Krishan Bhagwan, Awadhranj S/o Shivkumar & Anil kumar S/o Jagnarayan & Pradeep, Dilip S/o Mohan & Shashikant S/o Umashankar & Gaurimishra S/o Rishikesh & Smt. Kamladevi W/o Umashankar & Rajiv Mishra, Rahul Kumar S/o Suresh Chandra & Smt. Sheela W/o Suresh Chandra R/o Village
				377	Private	Agriculture	0.0077	Bharatbhushan, Vidyabhushan, Shashikant S/o Umashankar & Gaurav Mishra S/o Rishikesh & Smt. Kamladevi W/o Umashankar & Vindumati Devi W/o Vidyabhushan R/o Village
				411	Private	Agriculture	0.0250	Suresh Chand Pathak S/o Jaynarayan & Rajesh Kumar, Dinesh Kumar S/o Ramdhani & Shribhagwan, Chhotelal S/o Dwarika prasad & Premshankar, Vijayshankar, Devshankar S/o Gangaprasad R/o Village
				410	Private	Agriculture	0.0723	Suresh Chand Pathak S/o Jaynarayan & Rajesh Kumar, Dinesh Kumar S/o Ramdhani & Shribhagwan, Chhotelal S/o Dwarika prasad & Premshankar, Vijayshankar, Devshankar S/o Gangaprasad R/o Village
				409	Private	Agriculture	0.0370	Shrisewak S/o Krishanpal & Shanti W/o Shivsevak & Ramu S/o Algu R/o Village
				404	Private	Agriculture	0.0094	Harday Prasad S/o Ramjas R/o Village
				415	Govt.	Road	0.0012	Govt. of Uttar Pradesh
				414	Private	Agriculture	0.0890	Bharatbhushan, Vidya Bhushan, Shashikant S/o Umashankar & Awadhranj S/o Shivkumar & Anil kumar S/o Jaynarayan & Pradeep, Dileep S/o Mohan & Veena Singh W/o Nand Kumar Singh & Gaurav Mishra S/o Rishikesh & Smt. Aarti W/o Rishikesh & Kamladevi W/o Umashankar & Harday Prasad Pathak S/o Ramjas Pathak & Suresh S/o Hardutt & Smt. Savita W/o Gunjan R/o Village
				413 A	Private	Agriculture	0.1003	Bharatbhushan, Vidyabhushan S/o Umashankar & Krishan Bhagwan, Awadhranj S/o Shivkumar & Anil kumar S/o Jagnarayan & Pradeep, Dilip S/o Mohan & Shashikant S/o Umashankar & Gaurimishra S/o Rishikesh & Smt. Kamladevi W/o Umashankar & Rajiv Mishra, Rahul Kumar S/o Suresh Chandra & Smt. Sheela W/o Suresh Chandra R/o Village
				416	Private	Agriculture	0.0155	Bechai S/o Makhodhar & Ramkishor, Kunvarprasad, Deviprasad, Dinesh Kumar, Sarju S/o Ramu & Kripali W/o Ramu & Savitri Devi W/o Bharatbhushan Mishr & Vindumati W/o Vidyabhushan R/o Village & Shiladevi W/o Sukhlal R/o Puraina Achal Guruni Vihar
				419	Private	Agriculture	0.0111	Rammurat S/o Rajpati & Smt. Yashoda Devi Bewa W/o Rajpati R/o Village
				420	Private	Agriculture	0.0447	Kailasi W/o Lallanprasad R/o Village & Lallanprasad S/o Ramdulare R/o Village
				435	Private	Agriculture	0.0130	Ramswarath, Thakurprasad S/o Rammanorath & Ramswaroop, Devidas S/o Ramadhar & Krishan Kamal Tiwari S/o Bhagoti Prasad R/o Village
				434	Private	Agriculture	0.0380	Ramswarath, Thakurprasad S/o Rammanorath & Ramswaroop, Devidas S/o Ramadhar &

							Krishan Kamal Tiwari S/o Bhagoti Prasad R/o Village
			436	Govt.	Road	0.0130	Govt. of Uttar Pradesh
			437	Govt.	Khalihan	0.0367	Govt. of Uttar Pradesh
			439	Govt.	Road	0.0130	Govt. of Uttar Pradesh
			438	Govt.	Aabadi	0.0250	Govt. of Uttar Pradesh
			440	Private	Agriculture	0.0567	Kripashankar S/o Dharamraj & Jagdish Prasad, Rameshwar Prasad, Gayaprasad S/o Vikramaditya & Premshankar, Devshankar, Vijay Shankar S/o Gangaprasad & Amarnath, Shribhagwan, Chotelal S/o Dwarika Prasad & Kusumdevi W/o Suresh Chandra R/o Village & Shivam S/o Harikumar Garg & Amarnath S/o Dwarika R/o Khairabad
			<b>Total</b>			<b>4.0040</b>	
		<b>(4)Nrayanpur</b>	472	Govt.	Road	0.0056	Govt. of Uttar Pradesh
			473	Private	Agriculture	0.0196	Ramswaroop Deviprasad S/o Ramadhar Gayaprasad Ramrudra S/o Ramshringar Smt. Asharfi Devi W/o Ramshringar Smt. Hema Singh W/o Vrajendra kumar Singh Smt. Saroj Singh W/o Anil Kumar Singh Advocate Smt. Madhu Singh W/o Pankaj Kumar Singh Smt. Asha Pandey W/o Vasudev Pandey Smt. Shyama devi W/o Dayashankar Mishra Premkumar Pandey S/o Ramjag Pandey Smt. Sarla W/o Sachhidanand Upadhyay R/o Village
			474	Private	Agriculture	0.0090	Ramswarath Thakur Prasad S/o Rammanorath R/o Payagipur
			470	Private	Agriculture	0.0177	Satish kumar Agrawal S/o Chunnulal Agrawal Smt. Priyamvada W/o Subhashchandra R/o Sultanpur & Smt. Chandravati Soni W/o Chhotelal Smt. Sunita Soni W/o Motilal S/o Priyamvada W/o Subhashchandra R/o Lucknow
			492	Private	Agriculture	0.0016	Shivprasad S/o Raghunandan R/o Payagipur Smt. Snehlata Pandey W/o Dr. Ravindra Pandey R/o Saraiya Parg. Barousa
			493	Private	Agriculture	0.0046	Jaibaksh S/o Sukai R/o Patna
			494	Private	Agriculture	0.0064	Ramnayak S/o Radheyshyam R/o Payagipur
			495	Private	Agriculture	0.0033	Smt. Deepshikha W/o Shashinath Mishr R/o Village
			496	Private	Agriculture	0.0048	Premkishore S/o Ramadhar R/o Village
			497	Private	Agriculture	0.0042	Shivkumar S/o Ramabhilakh R/o Lohramau
			498	Private	Agriculture	0.0083	Ramujagir S/o Radheyshyam R/o Payagipur & Smt. Gangajali W/o Hiralal R/o Benipur Parg. Chanda
			499	Private	Agriculture	0.0073	Ramnayak S/o Radheyshyam R/o Payagipur
			500	Private	Agriculture	0.0198	Kapilmuni S/o Triloki Nath R/o Village
			501	Private	Agriculture	0.0277	Ramprakash Madam S/o Tidi Sita W/o Late Tidi Santoshkumar Vishwkarma Vinodkumar Vishwkarma S/o Rajaram Vishwkarma R/o Village & Smt. Shivmati W/o Kalpnath Tiwari R/o Narayanpur
			505	Private	Agriculture	0.0241	Deepnarayan S/o Achhevar Harday Shankar Tiwari S/o Kalpnath Sanjiv Kumar Singh Rajiv Kumar Singh Harishankar Singh S/o Rupnarayan Singh Sanjay Kumar Singh Rajeshwar Singh S/o Surendra Pratap Singh Kamla Singh W/o Rupnarayan Singh Smt. Bina Singh W/o Vijay Kumar Singh R/o Village & Harday Shankar Tiwari Dayashankar Tiwari S/o Kalpnath Sanjay Kumar Singh Rajeshwar Singh S/o Surendra Pratap Singh Smt. Bindu Singh W/o Vikram Narayan Singh Smt. Shobharani Chaturvedi W/o Amar Bahadur Chaturvedi R/o Village
			507	Private	Agriculture	0.0591	Neeraj Kumar, Anilkumar, Rashmikumar S/o Jagdish Lal & Smt. Shanti devi W/o Lt. Jagdish Lal R/o Village

				509	Private	Agriculture	0.0250	Jagdish Narayan Singh, Girish Narayan Singh S/o Avadh Narayan Singh & Upendra, Vikram Singh, Surendra Narayan Singh S/o Shyam Narayan Singh & Radhikadevi W/o Late Shyam Narayan Singh & Brajesh Narayan Singh, Kamlesh Narayan, Dinesh Narayan S/o Mahesh Narayan Singh & Satish Narayan Singh, Ajit Narayan Singh, Vijay Narayan Singh S/o Prakash Narayan Singh & Smt. Urmiladevi W/o Late Prakash Narayan Singh & Swarna Bahadur Singh, Swarnkumar Singh, Swarna Pratap Singh S/o Suresh Narayan Singh & Vimladevi W/o Late Suresh Narayan Singh & Chandan Singh minor age 12 years S/o Uday Narayan Singh Gardian Sushiladevi W/o Late Uday Narayan Singh R/o Village
				510	Govt.	Road	0.0107	Govt. of Uttar Pradesh
				534	Govt.	Non Agriculture	0.0353	Tubewell Department - Govt. of Uttar Pradesh
				432	Private	Agriculture	0.0159	Jitendra Bahadur Singh Harivansh Narayan Singh S/o Prasad Narayan Singh Pawankumar Singh Minor Age 15 years S/o Harish Narayan Singh Gardian Pramila Singh Smt. Pramila Singh W/o Late Harish Narayan Singh Shesh Narayan Singh Triyogi Narayan Singh S/o Virendra Narayan Singh Lalli Singh W/o Virendra Narayan Singh R/o Village & Vinodkumar Singh S/o Kanahiyabaksh Singh Smt. Rekha Singh W/o Pawankumar Singh R/o Chhapar Parg. Chanda
				535	Govt.	Road	0.0037	Govt. of Uttar Pradesh
				539	Private	Agriculture	0.0211	Pritam Singh Sardar Labhsingh R/o Khairbar Sultanpur
				540	Govt.	Tube Well	0.0198	Govt. of Uttar Pradesh
				541	Private	Agriculture	0.0231	Aadyashankar S/o Ramanuj R/o Bhatota Tulsipatti Pargana Aldemau Teh. Kadipur
				543	Govt.	Tube Well	0.0159	Govt. of Uttar Pradesh
				542	Govt.	Tube Well	0.3089	Govt. of Uttar Pradesh
				544	Govt.	Tube Well	0.2076	Govt. of Uttar Pradesh
				545	Govt.	Tube Well	0.0440	Govt. of Uttar Pradesh
				546	Govt.	Tube Well	0.0090	Govt. of Uttar Pradesh
				552	Govt.	Banzer	0.0203	Govt. of Uttar Pradesh
				561	Private	Agriculture	0.2068	Balram S/o Ramsukh R/o Village & Sandipkumar Singh Pradipkumar Singh S/o Premchandra Singh Smt. Kamlesh W/o Bajrang bahadur Singh Ranjit Singh Ajay Singh Adult Vijay Singh minor age 17 years Vikrant Singh minor age 16 years S/o Bajrang bahadur Gardian Kamlesh Smt. Madhu Singh W/o Premchandra Singh Subhashchandra Singh Balchandra Vishwaschandra Ramchandra S/o Shmsher Bahadur Singh R/o Village & Surendar Bahadur Indrabahadur Singh Rajendra Bahadur Singh S/o Mahipanrai Singh Vishnu Narayan Singh S/o Vijaybahadur Singh R/o Village .
				567	Private	Agriculture	0.0539	Radheshyam Yadav S/o Badriprasad R/o Kunvarshahpur patti Prg. Miranpur Teh. Lambhua
				568	Private	Agriculture	0.0497	Rajaram S/o Ramadhar & Ramdhani, Ramdayal S/o Maharajdin & Vrajgopal S/o Jagroop & Ramgopal S/o Ballu & Smt. Darshandevi W/o Ramdayal & Amarbahadur S/o Ramgopal & Shivmurti S/o Ramdhani & Smt. Rajpati D/o Abhilasi urf Abhilakhi W/o Ramkripal & Samarjit Singh S/o Ramcharan Singh Vijaypal Mishr S/o Hoslaprasad Mishr R/o Village
				569	Private	Agriculture	0.0424	Naresh Kumar Shrivastav S/o Brahm Kumar Shrivastav R/o Khairabad & Smt.

							Rakeshkumari Pandey W/o Chandramani Pandey R/o Manikpur
			570	Private	Agriculture	0.0793	Naresh Kumar Shrivastav S/o Brahm Kumar Shrivastav R/o Khairabad Shivshankar S/o Hanuman Prasad R/o Hadorabajar Parg. Varosa & Raghuvir Yadav S/o Gangaram Yadav R/o Karodiya & Smt. Sudhadevi W/o Shivmurati R/o Village
			571	Govt.	Khad ka Gadda	0.0202	Govt. of Uttar Pradesh
			572	Private	Agriculture	0.0507	Satyavir Yadav S/o Jaigopal Yadav & Jaigopal S/o Jagroop Remaning Part R/o Village
			<b>Total</b>			<b>1.4864</b>	
		(5) Sawarmau	601	Private	Agriculture	0.0160	Rudranarayan S/o Jaynarayan R/o Village
			602	Govt.	Way	0.0130	Govt. of Uttar Pradesh
			600	Private	Agriculture	0.0024	Gangaram Gangadhar Shyamsundar S/o Ramdev R/o Village
			598	Private	Agriculture	0.0116	Krishan Mohan, Nandmohan, Shyammohan S/o Brijvasilal R/o Narayanpur
			604	Govt.	Way	0.0427	Govt. of Uttar Pradesh
			606	Private	Agriculture	0.0123	Ramdhani S/o Ramsahay R/o Village
			605	Private	Agriculture	0.0130	Ramdhani S/o Ramsahay R/o Village
			607	Private	Agriculture	0.0333	Ramdhani S/o Ramsahay R/o Village
			608	Govt.	Way	0.0310	Govt. of Uttar Pradesh
			609	Private	Agriculture	0.0195	Smt. Israji W/o Ramkalap Singh R/o Narayanpur
			610	Govt.	Road	0.0037	Govt. of Uttar Pradesh
			644	Private	Agriculture	0.0492	Smt. Israji W/o Ramkalap Singh R/o Narayanpur
			649 E	Private	Agriculture	0.1026	Dr. Sudhakar Singh S/o Late Laldhari R/o 1709 Punjabi Colony Khairabad Sultanpur
			649 E	Private	Agriculture		Dr. Sudhakar Singh S/o Late Laldhari R/o 1709 Punjabi Colony Khairabad Sultanpur
			649 E	Private	Agriculture		Salikram Gupta S/o Jagannath Gupta & Smt. Gujrati W/o Shripal Yadav & Smt. Kamladevi W/o Achhelal & Achhelal, Jeetlal S/o Bachhulal & Vijaynarayan S/o Shyamnarayan & Devnarayan, Vijaybahadur, Rambahadur S/o Rambali R/o Village
			651/737	Govt.	Nali	0.0040	Govt. of Uttar Pradesh
			647/741	Govt.	Agriculture	0.1270	Government Property Govt. of Uttar Pradesh
			651	Govt.	Road	0.0420	Govt. of Uttar Pradesh
			652	Govt.	Way	0.1465	Govt. of Uttar Pradesh
			654	Private	Agriculture	0.0510	Smt. Rajmani Devi W/o Ramadhar Singh & Laxminarayan S/o Ramgopal & Shivpratap Singh, Chandrapratap Singh, Indrapratap Singh S/o Ramadhar Singh R/o Nabipur
			655	Private	Agriculture	0.1178	Rajendra Prasad S/o Ambika Prasad & Shyamal S/o Jagdamba Prasad & Kanahiya S/o Triyugi & Bhawani Baks S/o Shivraj & Smt. Singari W/o Rabindra Pratap Tripathi R/o Niralanagar & Ramkumar Sukla S/o Ramakbal Sukla R/o Borha & Vimal Kumar Pal S/o Shivprasad Pal R/o Gankehati
			662	Private	Agriculture	0.0167	Meeradevi Jayaswal W/o Munnalal Jayaswal & Smt. Pratibha Jayaswal W/o Kishorilal Jayaswal R/o Civil line Muttalaka Chhavani Sadar
			656	Private	Agriculture	0.0510	Rajendra Prasad S/o Ambika Prasad & Shyamal S/o Jagdamba Prasad & Kanahiya S/o Triyugi & Bhawani Baks S/o Shivraj & Smt. Singari W/o Rabindra Pratap Tripathi R/o Niralanagar & Ramkumar Sukla S/o Ramakbal Sukla R/o Borha & Vimal Kumar Pal S/o Shivprasad Pal R/o Gankehati
			657	Private	Agriculture	0.0510	Meeradevi Jayaswal W/o Munnalal Jayaswal & Smt. Pratibha Jayaswal W/o Kishorilal

								Jayaswal R/o Civil line Muttalaka Chhavani Sadar Premshankar Devshankar Vijayshankar s/o Gayaprasad Shri Bhagwan Chhotelal s/o Dwarika Prasad Kusum Devi d/o Amarnath R/o Pyagipur
			658	Private	Agriculture	0.0964		Virendra Kumar s/o Ramlal urf Lalta Prasad R/o Ghasipur, Bharat Prasad Dwivedi s/o Bhawanibaksha R/o Ghasipur, Shivprasad Dwivedi s/o Bhawanibaksha R/o Ghasipur, Kamla Devi w/o Ramlal urf Lalta Prasad R/o Ghasipur, Mahendra Kumar Dharendra Kumar s/o Kanhaiya R/o village Surendra Kumar s/o Kanhaiya lal R/o village Sandhya Devi w/o Kanhaiya lal R/o village Umashankar s/o Ambika Prasad R/o Ekdala Par. Chanda. Teh. Badalapur Distt. Jaunpur, Archana Singh w/o Suresh Singh R/o Sonari Par. Aasal Teh. Amethi
			659	Private	Agriculture	0.1010		Smt. Pratibha Jayaswal W/o Kishorilal Jayaswal R/o Civil line Muttalaka Chhavani Sadar Arun Kumar Singh s/o Vijay Bahadur Singh R/o village Premshankar Devshankar Vijayshankar s/o Gayaprasad Shri Bhagwan Chhotelal s/o Dwarika Prasad Kusum Devi d/o Amarnath R/o Pyagipur
			<b>Total</b>			<b>1.1547</b>		
			<b>(6) Ghasipur</b>	1	Govt.	Road	0.0253	Govt. of Uttar Pradesh
				2	Private	Agriculture	0.0051	Smt. Chandraprabha Singh W/o Ajay Kumar Singh R/o Garyen & Satyendrapratap Singh S/o Awdhesh Narayan Singh R/o Sarayakalyan Darapur & Rajmanidevi Bewa W/o Ramadhar Singh R/o Sakva P.Miranpur
				7	Private	Agriculture	0.0010	Laxminarayan, Vidhinarayan, Vijaynarayan S/o Rambharose & Sudhir Kumar S/o Satyadev & Savitri Devi W/o Satyadev R/o Village
			<b>Total</b>			<b>0.0313</b>		
			<b>(7) Alhdadpur</b>	224	Private	Agriculture	0.0607	Vijaylaxmi W/o Shrivnyak & Gayatridevi W/o Ramsukh R/o Khairabad
				222	Govt.	Nala	0.0054	Uttar Pradesh Constructon Deptt.
				221	Private	Agriculture	0.0496	Basantkumar, Umashankar S/o Ramabhilakh & Santprasad, Jantriprasad S/o Ramniranjan & Sumere, shribhagwan S/o Suryapal & Smt. Jaikali W/o Ramnyak Dubey & Smt. Gayatri W/o Kripashankar Dubey & Smt. Gita W/o Lalmani Dubey & Gaurishankar, Indrakumar, Akhilesh kumar S/o Yadram R/o Village & Rohitkumar S/o Vijaynarayan & Savitri devi W/o Satyadev & Latadevi W/o Vidhinarayan & Sagunadevi W/o Vijanarayan R/o Ghasipur & Latadevi W/o Vidhinarayan & Satish kumar S/o Durga Prasad & Smt. Sugana Devi W/o Vijaynarayan & Laxminarayan, Vidhinarayan, Vijay Narayan S/o Rambharose & Smt. Saroj Singh W/o Satish Chandra Singh & Sudhir Kumar S/o Satyadev Savitri Devi W/o Satyadev R/o Ghasipur & Smt. Latadevi W/o Vidhinarayan & Savitri devi W/o Satyadev & Satish kumar S/o Durga Prasad & Sudhir Kumar S/o Satyadev prasad & Smt. Sugana Devi W/o Vijaynarayan & Smt. Saroj Singh W/o Satish Chandra Singh & Smt. Poonam Chaturvedi W/o Dhirendrakumar Chaturvedi R/o Village
				219	Private	Agriculture	0.1362	Ramsumiran, Rajnarayan S/o Gopinath & Prasad Narayan S/o Rambalesar R/o Ghasipur
				218	Private	Agriculture	0.0586	Surendar Bahadur Singh, Raisahab Singh, Hirasahab Singh S/o Daanbahadur Singh R/o Shivgarh & Smt. Premadevi W/o Virendrasen Singh R/o Bharkhare

				217	Private	Agriculture	0.0847	Smt. Premdevi W/o Virendrasen Singh R/o Bharkhare & Hirasahab Singh S/o Danbahadur Singh R/o Shivgarh
				193	Private	Agriculture	0.0583	Ramesh Chandra, Umesh Chandra, Satish Chandra S/o Mahesh Narayan & Dinesh Chandra Mishr S/o Jaiprakash Narayan Mishr & Jaiprakash, Ratannarayan S/o Shivnarayan & Krishanchandra S/o Premnarayan & Smt. Sumitra Devi W/o Premnarayan R/o Narayanpur
				192	Private	Agriculture	0.0792	Rajkishore S/o Devnarayan Dube R/o Golaghat & Smt. Vidhya Tripathi W/o Dr. Omprakash Tripathi R/o Civil Lines Sitakund Mutalka Chhavni Sadar Sultanpur
				191	Private	Agriculture	0.0651	Dr Shailendra Tripathi, Shivendra Tripathi S/o Omprakash Tripathi & Smt. Vidhya Tripathi W/o Dr Omprakash Tripathi R/o Rajivgandhi Marg Civil Line-1 Sitakund Mutalka Chhavni Sadar
				190	Private	Agriculture	0.0054	Ramkishun, Rammurat S/o Ramdas R/o Bhagwanpur
				188	Private	Agriculture	0.0800	Smt. Jyoti W/o Vivek Pandey R/o Katkakhapur & Renu Pandey Santosh Kumar R/o Bharthi Pur
				187	Private	Agriculture	0.0888	Kutraji S/o Ramadhar R/o Uttardasha & Alok Jayaswal S/o Ghanshyam Krishan R/o Dariyapur
				186	Private	Agriculture	0.1061	Ramkuber S/o Kalu R/o Balipur
				185	Private	Agriculture	0.0037	Ramanjor, Ramkuber, Ramdev S/o Kalu Punam Devi d/o Jagdamba Prasad Tiwari R/o Faizabad & Ramotar, Ramnayan S/o Swaminath & Rajaram, Dashrath S/o Ramsumer & Chandrabali S/o Ramdev & Bhaiyaram, Jairam S/o Ram Lal & Sursati W/o Ramlal R/o Balipur
				184	Private	Agriculture	0.0190	Ramanjor, Ramkuber, Ramdev S/o Kalu Punam Devi d/o Jagdamba Prasad Tiwari R/o Faizabad & Ramotar, Ramnayan S/o Swaminath & Rajaram, Dashrath S/o Ramsumer & Chandrabali S/o Ramdev & Bhaiyaram, Jairam S/o Ram Lal & Sursati W/o Ramlal R/o Balipur
				182	Private	Agriculture	0.0185	Ramanjor, Ramkuber, Ramdev S/o Kalu Punam Devi d/o Jagdamba Prasad Tiwari R/o Faizabad & Ramotar, Ramnayan S/o Swaminath & Rajaram, Dashrath S/o Ramsumer & Chandrabali S/o Ramdev & Bhaiyaram, Jairam S/o Ram Lal & Sursati W/o Ramlal R/o Balipur
				251	Private	Agriculture	0.0137	Shailendra S/o Bechu Singh & Chandramohan Singh, Rajendra Singh S/o Rudrapratap Singh & Dwarika Prasad, Mataprasad, Gayaprasad S/o Bhagwanbaks & Ramanjor, Ramkuber, Ramdev S/o Kalu & Bhaiyaram, Jairam S/o Ramlal & Smt. Sursati W/o Ramlal & Ramotar, Ramchandra S/o Swaminath & Ramnarayan S/o Swaminath Minor Anjani Mother Self Rajaram Dashrath S/o Ramsumer Chandrabali S/o Ramdev R/o Loharmanu
				252	Private	Agriculture	0.0130	Ramanjor, Ramkuber, Ramdev S/o Kalu & Ramotar, Ramnayan S/o Swaminath & Rajaram, Dashrath S/o Ramsumer & Chandrabali S/o Ramdev & Bhaiyaram, Jairam S/o Ram Lal & Sursati W/o Ramlal R/o Balipur Smt Ramawati Nishad w/o Rajendra Kumar Nishad R/o Sultanpur
				226	Private	Agriculture	0.0835	Shri Ram Arya S/o Bahrechi & Smt. Subhadra W/o Shriram Arya R/o Ghasipur
				227	Private	Agriculture	0.0557	Yogendra Pratap, Ravindra Pratap S/o Surendra Pratap & Smt. Geeta Devi W/o

							Sanjay Pratap & Smt. Savitri Devi W/o Surendra Pratap Singh R/o Lohramau
			228	Private	Agriculture	0.0413	Gajanand S/o Chandrika & Satyanarayan S/o Ramprasad R/o Village & Gajanand S/o Chandrika & Shantidevi W/o Late Ramkhushi & Shriram, Ramacharya S/o Bahrechi Arya & Subhadra Arya W/o Shriram Arya & Alok kumar Arya, Ashishkumar Arya, Anandkumar Arya S/o Shriram Arya R/o Golaghat & Gangasagar S/o Ramsahodar R/o Ghasipur
			229	Govt.	Banzer	0.2350	Govt. of Uttar Pradesh
			230	Private	Agriculture	0.2938	Gayaprasad, Rajmani S/o Ramadhar R/o Ghasipur & Bhanuprakash S/o Laltaprasad & Girijashankar S/o Jagannath & Sureshkumar, Dineshkumar, Rameshkumar, Ganeshkumar S/o Girijashankar & Gorishankar, Kripashankar, Jatashankar, Moolshankar, Jaishankar S/o Rammurat R/o Dharamdaspur & Smt. Asha Singh W/o Basantkumar Singh R/o Vivekanandnagar & Smt. Pranpati W/o Ramnath Morya & Harsu Baran S/o Radheyshyam R/o Ghasipur & Smt. Gyana Upadhyay W/o Radheshyam Upadhyay R/o Laxmanpur & Rajmani W/o Ramadhar R/o Ghasipur & Smt. Pranpati W/o Ramnath R/o Khairabad & Suresh kumar, Dinesh kumar, Rameshkumar, Ganeshkumar S/o Girijashankar R/o Dharamdaspur & Smt. Asha Singh W/o Basantkumar Singh R/o Vivekanand Nagar & Suresh kumar, Dinesh kumar, Rameshkumar S/o Girijashankar R/o Dharamdaspur & Smt. Asha Singh W/o Basantkumar Singh R/o Vivekanand Nagar & Gaurishankar, Kripashankar, Jatashankar, Moolshankar, Jaishankar S/o Rammurat & Bhanuprakash S/o Kripashankar & Vedprakash, Satyaprakash S/o Ramkumar R/o Dharamdaspur
			232	Govt.	New Land	0.0159	Govt. of Uttar Pradesh
			233	Private	Agriculture	0.0610	Ramdayal Sukl S/o Tribhuvan Datt Udaipratap Singh Ranapratap Singh Dhirendrapratap Singh Negendrapratap S/o Parasnath Vaibhav Singh Adult Vishal Singh Minor 15 years S/o Bhanupratap Gardian Smt. Asha Singh Smt. Asha Singh W/o Bhanupratap R/o Sakva Pragana Miranpur Teh. Lambua
			237	Govt.	Road	0.0068	Govt. of Uttar Pradesh
			241	Private	Agriculture	0.1106	Surajmal S/o Badriprasad R/o Chok
			243	Private	Agriculture	0.0131	Bhaiyaram, Jairam S/o Ramlal & Sursati W/o Ramlal R/o Balipur
			<b>Total</b>			<b>1.8627</b>	
		<b>(8) Balipur</b>	30	Govt.	Banzer	0.0008	Govt. of Uttar Pradesh
			32	Govt.	Way	0.0016	Govt. of Uttar Pradesh
			<b>Total</b>			<b>0.0024</b>	
		<b>(9) Sudapur</b>	167	Govt.	Banzer	0.0206	Govt. of Uttar Pradesh
			166	Govt.	Banzer	0.0110	Govt. of Uttar Pradesh
			159	Govt.	Road	0.0016	Govt. of Uttar Pradesh
			142	Govt.	Way	0.0020	Govt. of Uttar Pradesh
			140	Private	Agriculture	0.0008	Gayabaksh Singh S/o Rampal Singh R/o Lohramau
			139	Govt.	Banzer	0.0055	Govt. of Uttar Pradesh
			136	Govt.	Banzer	0.0054	Govt. of Uttar Pradesh
			135	Private	Agriculture	0.0049	Smt. Kanti Devi W/o Shankarji Soni R/o Khairabad & Smt. Shanti Devi W/o Govind Prasad R/o Sukhi Ajransarin W/o Mohd. Umar R/o Gharhakala
			112 B	Private	Agriculture	0.0377	Ilaahi, Sadique, Sharif, Ashraf, Nasiruddin S/o Makku R/o Dharamdaspur
			111	Govt.	Pond	0.0368	Govt. of Uttar Pradesh
			110 A	Govt.	Banzer	0.0238	Jamunaprasad, Rakeshlal S/o Triyuginarayan

								& Omprakash, Vishnuprakash, ketkiprakash S/o Rudraprasad R/o Lohramau & Smt. Rajpati W/o Tribeni R/o Heerapur Banwa & Smt. Shivpati W/o Ramakant R/o Dharamdaspur & Rammurti, Ramtirath S/o Bharatnath R/o Pitambarpurkala & SarbottamKumar, Atiuttamkumar S/o Uttam prakash & Smt. Sarladevi W/o Uttamprakash & Ramchandra, Premchandra, Harishchandra S/o Banvari Lal R/o Pakhroli & Udhaybhan S/o Balram & Udairaj S/o Harkhu Baran & Shivkumar S/o Bhawanifer R/o Pitambarpur & Radheyshyam S/o Maharajdin & Smt. Gita Tiwari W/o Alok Tiwari & Smt. Kiran W/o Anilkumar Gupta & Smt. Radha Rani W/o Ashokkumar R/o Dharamdaspur & Shivkumar S/o Ramsumiran Lal & Smt. Manju Shrivastv W/o Rakeshlal Shrivastav R/o Village
			110 B	Private	Agriculture			Smt. Kiran Devi W/o Umashankar Baranwal R/o Rudranagar & Shivkumar S/o Bhawanipher & Radheshyam S/o Mahrajdeen R/o Pitambarpur & Smt. Kamladevi W/o Bharatkumar & Shivsagar S/o Ramasre R/o Lohramau
			105	Govt.	Pond	0.0238		Govt. of Uttar Pradesh
			103 E	Private	Agriculture	0.0113		Shree Krishanlal, Mangali Prasad S/o Bhawani Sahaylal & Vijaparakash S/o Harimohan & Omprakash, Satyaparakash, Gyanprakash S/o Harishankar Lal R/o Loharamau
			103 E	Private	Agriculture			Shree Krishanlal, Mangali Prasad S/o Bhawani Sahaylal & Vijaparakash S/o Harimohan & Omprakash, Satyaparakash, Gyanprakash S/o Harishankar Lal R/o Loharamau & Hariram S/o Rambahor R/o Bhagwanpur
			96	Govt.	Forest	0.0072		Govt. of Uttar Pradesh
			95	Private	Agriculture	0.0141		Bhanpratap, Nagendra Pratap S/o Abhayraj Singh & Lallan Singh S/o Devi Prasad Singh & Tejpratap Singh, Lalpratap Singh, Rampratap Singh S/o Udayraj Singh & Jagpratap Singh, Jagdishpratap Singh S/o Abhayraj Singh R/o Loharamau
			91	Private	Agriculture	0.0006		Rajesh Kumar S/o Rampadarath Singh & Ramnath S/o Santoshi R/o Village
			90	Private	Agriculture	0.0012		Khelanav, Kariya, Rajai, Lalai S/o Kalhu R/o Loharamau
			88	Govt.	Road	0.0001		Govt. of Uttar Pradesh
			87	Private	Agriculture	0.0007		Ramkumar S/o Tulsiram R/o Bhagwanpur & Shivprasad, Rajendra Prasad, Jagannath, Narendra kumar S/o Ramfer R/o Mahanpur
			86	Private	Agriculture	0.0007		Shivkumar S/o Ramabhilakh R/o Lohramau
			169	Private	Agriculture	0.0058		Raghubeer Saran, Swamisaran, Shyambihari, Basant Kumar S/o Gayaprasad & Laxmikant, Umakant, Shivakant, Kamlakant S/o Rmakant & Abhishek Minor 9 years S/o Shrikant Gardian Geeta Mother & Vijay Kumar S/o Narayan Dutt & Rajdevi W/o Narayan Dutt R/o Dharamdaspur
			177	Govt.	Banzer	0.0049		Govt. of Uttar Pradesh
			182	Govt.	New Land	0.0014		Govt. of Uttar Pradesh
			184	Govt.	Banzer	0.0070		Govt. of Uttar Pradesh
			185	Private	Agriculture	0.0060		Sarvottam Kumar Srivastav S/o Uttampekash Srivastav R/o Lohramau & Raghuvir Sharan S/o Gayaprasad & Madhuri Tiwari W/o Raghuvir Sharan & Omprakash, Vishnuprakash S/o Rudraprasad R/o Dharmdaspur & Sarla Devi Bewa W/o Uttamprakash Srivastav & Atiuttam Kumar Srivastav S/o Uttamprakash Srivastav R/o



								Lohramau & Omprakash, Jaiprakash S/o Shobhlal & Ramkalap, Ramshiromani S/o Rambaran R/o Alhadadpur & Suresh Chandra, Satyadev S/o Barsati & Jamunaprasad S/o Shambhunath & Shobha Devi W/o Brijmohan Singh R/o Lohramau & Udaibhan S/o Ramkumar & Smt. Lakhpati W/o Ramkumar R/o Alhadadpur & Ketkiprasad S/o Rudraprasad & Smt. Gita Tiwari W/o Alok Kumar Tiwari Ramachhevar & Manokanika S/o Mataprasad Suresh Chandra Satyadev Arjunkumar S/o Barsati R/o Village
				186	Govt.	Aabadi	0.0359	Govt. of Uttar Pradesh
				220	Govt.	Way	0.0440	Govt. of Uttar Pradesh
				236	Private	Agriculture	0.0009	Shree Krishanlal, Mangali Prasad S/o Bhawani Sahaylal & Vijaprasad S/o Harimohan & Omprakash, Satyaprasad, Gyanprakash S/o Harishankar Lal R/o Lohramau
				237	Govt.	Road	0.0003	Govt. of Uttar Pradesh
				238	Govt.	Forest	0.0037	Forest Dept. Govt. of Uttar Pradesh
				239	Govt.	Forest	0.0029	Forest Dept. Govt. of Uttar Pradesh
				<b>Total</b>			<b>0.3227</b>	
		<b>(10)</b>	<b>Lohramau</b>	404	Govt.	Banzer	0.0275	Govt. of Uttar Pradesh
				405	Govt.	Nali	0.0121	Govt. of Uttar Pradesh
				402	Govt.	Nali	0.0133	Govt. of Uttar Pradesh
				427	Govt.	Banzer	0.0063	Govt. of Uttar Pradesh
				428	Govt.	New Land	0.0019	Govt. of Uttar Pradesh
				429	Govt.	Road	0.0004	Govt. of Uttar Pradesh
				484	Private	Agriculture	0.0026	Sunilkumar Shrivastav S/o Late Ramashankar Shrivastav R/o Omnagar & Smt. Kevladevi W/o Vindhadin R/o Mujesh Prg. Varousa & Smt. Jasevati W/o Babulal R/o Dariyapur & Smt. Laltidevi W/o Ramswaroop R/o Mishrapur Purena
				485	Private	Agriculture	0.0052	Udaibhan S/o Ramkumar & Ramkalap, Ramshiromani S/o Rambaran R/o Sajaiya Majre Alhadpur
				486	Private	Agriculture	0.0075	Rakesh kumar, Rajesh kumar, Ramsagar, Shiv Sagar, Prem Sagar S/o Ramasare & Sukhlal S/o Ramsumajh & Smt. Sakilabano W/o Mohd. Saddik & Ankit S/o Omprakash & Ramabhilakh S/o Tejbahadur & Avinash Minor 17 years S/o Omprakash Gardian Jashodadevi (Grandmother) R/o Village
				487	Private	Agriculture	0.0077	Mahendra Singh, Devendra Singh S/o Amarbahadur Singh & Ajay Singh, Vijay Singh, Sanjay Singh S/o Jaswant Bahadur & Smt. Leelawati W/o Jaswant Bahadur Singh & Smt. Shanti Devi W/o Amarbahadur Singh & Samarbahadur Singh S/o Rammurat Singh & Ramachhevar Singh Manokanika S/o Mataprasad R/o Village
				488	Private	Agriculture	0.0037	Brahmanand, Ramendra kumar, Shivkumar S/o Ramabhilakh & Bajrangbali, Rajdev, Vishnudev S/o Suryanarayan & Smt. Angna Devi W/o Suryanarayan & Krishan kumar, Ramesh kumar S/o Ramdutt & Harish chand, Harikesh, Shrikesh S/o Hridaynarayan & Premnarayan S/o Ramdular & Anantnarayan, Mahesh Kumar, Kapildev S/o Awadhinarayan & Smt. Sawitri devi W/o Awadhinarayan R/o Village
				489	Private	Agriculture	0.0041	Bhulairam Gupta S/o Ramlal Gupta & Dinesh kumar Sahu, Awnish Sahu S/o Bhulairam Gupta & Smt. Beena Gupta W/o Harishankar Gupta & Smt. Phulwasi W/o Rameshchandra Singh R/o Narayanpur
				492	Private	Agriculture	0.0070	Chanchladevi W/o Sharda Prasad Singh & Ajay kumar Singh, Sanjay kumar Singh,

							Chandan Singh S/o Shardaprasad Singh & Vasdev S/o Rajai R/o Village
			493	Private	Agriculture	0.0021	Ramasre, Gangaprasad S/o Kalu & Mishrilal S/o Dukhi & Ashish kumar S/o Kanti kumar & Pankaj kumar S/o Hariprasad R/o Chhawani Sadar & Smt. Hemwati W/o Prabhakar Lal Srivastav R/o Dariyapur
			586	Private	Agriculture	0.0004	Omprakash Singh S/o Ganagaprasad Singh & Rajendra kumar, Shiv kumar S/o Ramabhilakh R/o Village & Chanchladevi W/o Sharda Prasad Singh & Ajay kumar Singh, Sanjay kumar Singh, Chandan Singh S/o Shardaprasad Singh R/o Village & Samarbahadur Singh S/o Rammurat Singh & Ajay Singh, Vijay Singh, Sanjay Singh S/o Jaswant Bahadur & Smt. Leelawati W/o Jaswant Bahadur Singh & Mahendra Singh S/o Amarbahadur Singh & Shanti Devi W/o Amarbahadur Singh & Umesh Singh S/o Rambahadur Singh & Puranmasi, Fagulal, Bhaiyaram, Harishchandra S/o Ramsumer & Shivkumar S/o Ramabhilakh R/o Village & Praveshkumar Pandey S/o Shyam Sunder Pandey R/o Ambar Nath & Sunilkumar Singh, Sushilkumar Singh, Rajkumar Singh S/o Talukedar Singh R/o Village & Vinodkumar Singh S/o Laltaprasad Singh R/o Sonbarsa Talukedar Memorial Higher Sec. School Village Lohramau by Manager Sunilkumar Singh S/o Talukedar Singh R/o Lohramau & Santoshiram S/o Kandhai & Udairaj S/o Amarjeet Singh & Bhanpratapsingh, Jagdishpratap, Nagendrapratap Singh S/o Abhayrajsingh & Lalpratap Singh, Rampratap Singh, Tejpratap Singh, Udairaj Singh, Vrajkumar Singh S/o Shivpratap Singh R/o Village & Shrinath, Parasnath S/o Rambharosh & Vinodkumar, Harishkumar S/o Shivprasad & Smt. Bhanmati W/o Shivprasad R/o Village
			586 A	Govt.	Banzer		Govt. of Uttar Pradesh
			584	Govt.	Banzer	0.0035	Govt. of Uttar Pradesh
			583	Private	Agriculture	0.0052	Shivram, Shivgulam, Kashinath, Rajendrakumar urf Munish S/o Raghuraj R/o Village
			582	Private	Agriculture	0.0118	Bhawanifer, Ramasre S/o Shivdeen & Smt. Kalavati devi W/o Ramlal & Ramkant, Tejbahadur, Shyamlal, Umalal S/o Ramanand R/o Village
			625	Private	Agriculture	0.0347	Ramashray S/o Maharajdin & Smt. Keshkumari W/o Shyambaran & Pradeepkumar S/o Ramprasad R/o Village
			627	Govt.	Way	0.0022	Govt. of Uttar Pradesh
			628 E	Govt.	Banzer	0.0056	Govt. of Uttar Pradesh
			629 A	Private	Agriculture	0.0058	Sarju, Banke S/o Narayan & Govind S/o Ramlaut & Smt. Shanti Devi W/o Ramlaut & Rambali S/o Nohar & Hariram, Shriram S/o Matafer R/o Village
			629 B	Private	Agriculture		Jagram, Jagdish, Girdhari, Bihari S/o Haibat & Chhotelal S/o Prasad R/o Village
			646	Private	Agriculture	0.0032	Krishan Kumar, Ramesh Kumar S/o Ramdutt & Brahamanand, Ramendra kumar, Shivkumar S/o Ramabhilakh R/o Village
			647	Govt.	Khalian	0.0045	Govt. of Uttar Pradesh
			648	Private	Agriculture	0.0863	Amritlal, Shivlal S/o Ramdin R/o Village & Shri Prakash Gupta S/o Hosilaprasad Gupta & Pradeepkumar S/o Deviprasad R/o Dharamdasapur & Rajan Singh S/o Premkumar & Smt. Amarawati W/o Salikram R/o Marui Vishundapur & Ravindra Pratapsingh S/o

								Sherbahadur Singh & Ramdei W/o Sherbahadur Singh R/o Village & Vrajmohan Singh S/o Shivnevaj Singh R/o Village & Haji Jamiruddin S/o Hajinasiruddin R/o Bhulaki & Vishvmohan Agrawal S/o Shri Krishanmohan Agrawal R/o Shahganj & Sajjan Singh, Rajan Singh, Ramesh Kumar S/o Premkumar R/o Marui Kishundaspur & Sitaram, Ramlal S/o Chhotai & Shailendra Kumar S/o Krishankumar & Smt. Devi W/o Indrapal Yadav R/o Village
				714	Private	Agriculture	0.0267	Sajjan Singh, Rajan Singh, Ramesh Kumar S/o Premkumar R/o Marui Kishundaspur
				715	Private	Agriculture	0.0626	Putuni S/o Bechu Amarnath Lalitkumar Mani Kumar Adult Paramjit Kumar Minor 12 Years S/o Mehilal Gardian Smt. Mewati Devi Smt. Mewati Devi W/o Mehilal R/o Village
				720	Private	Agriculture	0.0279	Shivlal S/o Ramdin R/o Village
				721	Private	Agriculture	0.0554	Amritlal S/o Ramdin R/o Village
				722	Private	Agriculture	0.0350	Durgaprasad Mishr S/o Ramkuber Mishr & Smt. Rajkumari W/o Durgaprasad Mishr R/o Aarsiya Bazar Teh. Shahganj
				723	Private	Agriculture	0.0085	Sitaram S/o Dhanraj R/o Aarsiya
				1211	Private	Agriculture	0.0014	Liyakat ulla S/o Inayat & Mohd. Indrish S/o Amanat R/o Mishrapur & Smt. Amirul Nishan W/o Aabadulla R/o Mahanpur
				1212	Govt.	New Land	0.1018	Govt. of Uttar Pradesh
				1218	Private	Agriculture	0.3010	Abdul Haikhan S/o Gulam Haidar khan R/o Mahanpur
				1219	Private	Agriculture	0.1578	Tulaifahmed, Moh Khalik S/o Najrahmed & Sarifannisha W/o Mohd. Najir R/o Mahanpur
				1220	Govt.	Nali	0.0295	Govt. of Uttar Pradesh
				1230	Private	Agriculture	0.0139	Akhtarulnisha W/o Mohd. Sabbir khan R/o Mahanpur
				1246	Private	Agriculture	0.1201	Ramabhilakh S/o Ramnaresh R/o Mishrapur
				1247	Private	Agriculture	0.1270	Ramsukh S/o Ramnaresh R/o Mishrapur
				1248	Govt.	Road	0.0350	Govt. of Uttar Pradesh
				1252	Private	Agriculture	0.0284	Jagdishprasad, Hridayram S/o Udayanand & Shyamsunder S/o Gayadin & Mangti devi W/o Gopalkrishan & Dayashankar, Umashankar S/o Maheshwari & Abhiraji W/o Mathuraprasad & Vijayshankar S/o Maheshwari & Rakesh Mishr, Vivek Mishr S/o Harishankar Mishr & Smt. Savitridevi W/o Harishankar Mishr & Avdhesh Mishra S/o Jaishankar Mishra & Smt. Premadevi W/o Jaishankar Mishra & Smt. Sarika Mishra W/o Raghvendra Mishra R/o Pakhroli
				1287	Govt.	Road	0.0031	Govt. of Uttar Pradesh
				1288 A	Private	Agriculture	0.0766	Ramlutavan, Shardaprasad, Sureshchandra S/o Barsati & Smt. Sunradevi W/o Barsati R/o Mahanpur
				1288 B	Private	Agriculture		Vahidkhan S/o Yasinkhan & Rajbahadur khan Moh. Arifkhan S/o Toufik Khan R/o Mahanpur
				1289	Private	Agriculture	0.0169	Ramkishore S/o Ganpati R/o Mahanpur
				1290	Private	Agriculture	0.0337	Rammanorath S/o Bajinath & Onkarnath, Surendra kumar, Dharmandra kumar, Panchnarayan S/o Mahabeer & Smt. Chandrakalan W/o Mahabeer R/o Pakhroli
				1291	Private	Agriculture	0.0368	Insanullakhan S/o Amanullakhan R/o Mahanpur
				1292	Private	Agriculture	0.0693	Insanullakhan S/o Amanullakhan R/o Mahanpur
				1293	Govt.	Nali	0.0140	Govt. of Uttar Pradesh
				1294	Private	Agriculture	0.0740	Ramujagir, Ramashankar, Rajendraprasad, Ramchandra S/o Tidi R/o Mahanpur
				1295	Private	Agriculture	0.0590	Ramujagir, Ramashankar, Rajendraprasad, Ramchandra S/o Tidi R/o Mahanpur
				1296	Govt.	Nali	0.0270	Govt. of Uttar Pradesh

				1297	Private	Agriculture	0.0459	Ramkumar Dube S/o Ramnevaj Dube & Rambaran S/o Ramdayal R/o Mahanpur
				1298	Private	Agriculture	0.0279	Ramujagir, Ramashankar, Rajendraprasad, Ramchandra S/o Tidi R/o Mahanpur
				1299	Private	Agriculture	0.0480	Abdul Kayum khan, Abdul Vahadd khan S/o Abdul Latif khan & Hasnain, Ahmed, Imran, Ahmed S/o Abdul Bahav Khan & Imtiyaj Khan, Intkhab khan S/o Abdul Hak khan & Smt. Kesharibegum W/o Abdul Hak khan R/o Mahanpur
				<b>Total</b>			<b>1.9285</b>	
			<b>(11)</b>	13	Private	Agriculture	0.0222	Moin khan, Matin Khan, Mobin khan, Navin khan S/o Lukman & Smt. Hafijulnisha Widow Lukman khan R/o Village
				11	Govt.	Nali	0.0017	Govt. of Uttar Pradesh
				14	Govt.	Road	0.0380	Govt. of Uttar Pradesh
				10	Private	Agriculture	0.0065	Abdulhai S/o Gulamhaidar R/o Village
				9	Private	Agriculture	0.0093	Tufail Ahmed, Mohd. Khalik S/o Mohd. Najir khan
				8 E	Private	Agriculture	0.0201	Mohd. Ikbal, Mohd. Jamal, Mohd. Mubin, Mohd. Mabud, Mohd. Nasim S/o Mohd. Mustkim & Mohd. Mustafa W/o Mohd. Iliyas Khan & Abdul Barik, Abdul Varis, Abdul Vasil S/o Rauf & Noorjahan W/o Rauf R/o Village
				8 E	Private	Agriculture		Mohd. Ikbal khan, Mohd. Jamal Khan, Mohd. Mubin Khan S/o Mohd. Mustkim khan R/o Village
				7	Govt.	Banzer	0.0060	Govt. of Uttar Pradesh
				30	Private	Agriculture	0.0101	Amina W/o Budhu & Shaukatali, Sakhawatali S/o Habib khan & Mohd. Muktar khan S/o Mohd. Habib & Ahsan, Atikkhan S/o Mohd. Raufkhan & Shakil, Ahmed Khan S/o Naimkhan & Istiyak Khan, Asfakkhan S/o Abidkhan R/o Village
				31	Private	Agriculture	0.0068	Salamatulla, Kalimulla S/o Nasir Khan & Liyakatulla, Isratulla, Sarafatulla S/o Riyasat ulla & Habibul nisha W/o Riyasat ulla R/o Village Abadullah s/o Ahmadullah
				32	Private	Agriculture	0.0060	Mu. Ikbal, Mu. Jamal, Mu. Mubin, Mu. Mabud, Mu. Nasim S/o Mu. Mustkim & Mu. Mahmood Khan, Mu. Mahboob Khan, Mu. Mustafa, Mu. Ayub, Mu. Halim S/o Mu. Iliyas Khan & Sadrool Begum W/o Mu. Iliyas Khan & Abdul Barik, Abdul Varis, Abdul Vasil S/o Rauf & Noorjahan W/o Rauf R/o Village
				33	Private	Agriculture	0.0021	Mu. Ikbal, Mu. Jamal, Mu. Mubin, Mu. Mabud, Mu. Nasim S/o Mu. Mustkim & Mu. Mahmood Khan, Mu. Mahboob Khan, Mu. Mustafa, Mu. Ayub, Mu. Halim S/o Mu. Iliyas Khan & Sadrool Begum W/o Mu. Iliyas Khan & Abdul Barik, Abdul Varis, Abdul Vasil S/o Rauf & Noorjahan W/o Rauf R/o Village
				34	Govt.	Pond	0.0161	Govt. of Uttar Pradesh
				35	Private	Agriculture	0.0255	Mu. Harunkhan, Mu. Farukkhan, Mu. Saharunkhan, Mu. Aslamkhan, Mu. Akhtarkhan, Aklakhan, Ahmed khan S/o Jalil Ahmed khan & Abdul Hamid S/o Miyandin & Mu. Jakirkhan, Mu. Sakirkhan S/o Inayatullakhan & Mu. Amin, Mu. Farid S/o Pargulam & Mu. Jahir S/o Samiulla & Mu. Taiyabkhan S/o Tahirkhan & Rais Ahmed, Anis Ahmed, Nafis Ahmed, Ashish Ahmed S/o Khalil Ahmed & Najirkhan S/o Umrvakhan & Abdulhai S/o Gulamhaidarkhan & Raiskhan S/o Yakubkhan & Musirkhan, Samirkhan S/o Nisarkhan & Amirkhan Minor 15 years S/o Nisarkhan & Mansukhan, Manjurakha, Maksoodkhan S/o Kallukhan & Abdulraufkhan S/o Ajijkhan & Mu. Ikbalkhan,

								Mu.Jamalkhan, Mu. Mubinkhan Mu. Mabud, Mu. Nasimkhan S/o Mustkimkhan & Mu.Mahmudkhan Mu.Mahboob, Mu.Mustafakhan, Mu.Ayubkhan, Mu.Halimkhan S/o Mu.Iliyaskhan & Sadrulbegum W/o Mu. Iiyaskhan & Salamatulla Khan S/o Nasirkhan & Abadulla khan S/o Ahmedullakhan & Kalimullakhan S/o Nasirkhan
			38	Private	Agriculture	0.0709		Mu.Harunkhan, MuFarukkhan, Mu.Saharunkhan, Mu.Asalmkhan, Mu.Akhtarkhan, Aklakhan, Ahmed khan S/o Jalil Ahmed khan & Abdul Hamid S/o Miyandin & Mu. Jakirkhan, Mu.Sakirkhan S/o Inayatullakhan & Mu. Amin, Mu.Farid S/o Pargulam & Mu. Jahir S/o Samiulla & Mu.Taiyabkhan S/o Tahirkhan & Rais Ahmed, Anis Ahmed, Nafis Ahmed, Ashish Ahmed S/o Khalil Ahmed & Najirkhan S/o Umravkhan & Abdulhai S/o Gulamhaidarkhan & Raiskhan S/o Yakubkhan & Musirkhan, Samirkhan S/o Nisarkhan & Amirkhan Minor 15 years S/o Nisarkhan & Mansukhan, Manjurakha, Maksoodkhan S/o Kallukhan & Abdulraufkhan S/o Ajijkhan & Mu.Ikbalkhan, Mu.Jamalkhan, Mu. Mubinkhan Mu. Mabud, Mu. Nasimkhan S/o Mustkimkhan & Mu.Mahmudkhan Mu.Mahboob, Mu.Mustafakhan, Mu.Ayubkhan, Mu.Halimkhan S/o Mu.Iliyaskhan & Sadrulbegum W/o Mu. Iiyaskhan & Salamatulla Khan S/o Nasirkhan & Abadulla khan S/o Ahmedullakhan & Kalimullakhan S/o Nasirkhan & Liyakatulla, Isratulla, Sarafatulla S/o Riyasatulla & Habibulnishan W/o Riyasatulla & Shaukatuli Khan, Shakawatali Khan, Mu. Muktarkhan S/o Habibkhan & Ahatsamkhan, Atik Khan S/o Rauf Khan & Shakil Khan S/o Naimkhan & Smt.Amina D/o Budhukhan Istiyakkhan Asfakkhan Abidkhan Shakilkhan S/o Mohd. Yunuskhan Kamrulnisha W/o Mohd. Yunuskhan Amanatulla Khan S/o Rahmatullakhan Ismailkhan S/o Mohd. Shafikhan R/o Village
			40	Private	Agriculture	0.0838		Smt. Premadevi W/o Virendrasen Singh R/o Bharkhare Prg. Chanda Tehsil Lambua
			41	Private	Agriculture	0.0604		Mu. Ikbal, Mu. Jamal, Mu. Mubin, Mu. Mabud, Mu. Nasim S/o Mu. Mustkim & Mu. Mahmood Khan, Mu. Mahboob Khan, Mu. Mustafa, Mu. Ayub, Mu. Halim S/o Mu. Ilyas Khan & Sadrool Begum W/o Mu. Ilyas Khan & Abdul Barik, Abdul Varis, Abdul Vasil S/o Rauf & Noorjahan W/o Rauf R/o Village
			42	Private	Agriculture	0.0132		Mohd. Harunkhan Mohd. Farukkhan Mohd. Saharunkhan Mohd. Aslamkhan Mohd. Akhtarkhan Aklakhan Ahmed khan S/o Jalil Ahmed khan Abdul Hamid S/o Miyandin Mohd. Jahirkhan S/o Samiulla khan Mohd. Taiyabkhan S/o Tahirkhan Rais Ahmed Anis Ahmed Nafis Ahmed Ashish Ahmed S/o Khalil Ahmed khan Mohd. Najirkhan S/o Umravkhan Abdulhai S/o Gulamhaidar khan Mohd. Ikbal khan Mohd.Jamal khan Mohd. Mubin khan Mohd. Mabud khan Mohd. Nasim khan S/o Mustkim khan Mohd.Mahmud khan Mohd.Mahboob khan Mohd.Mustafa khan Mohd.Ayub khan Mohd.Halim khan S/o Mohd. Iliyash khan Sadrool Begam W/o Iliyash khan Mohd.Najir khan S/o Umrav khan Mohd. Shakil khan S/o Mohd. Yunus khan Kamrulnisha W/o Mohd.

								Yunus khan Amanulla Khan S/o Rahmatulla khan Muhibulla Ismailulla S/o Sharif khan Raish khan S/o Yakub khan Musir khan S/o Yakub khan Amirkhan Minor 15 years Gardian Nasirulnisha W/o Nisar khan Manjur khan maksood khan S/o Kallu khan Shakilahmed S/o Abid khan Smt. Amita W/o Buddhu khan Shaुकatali khan Shakawatali khan Mohd. Mukhtar khan S/o Habib khan Salamatulla khan Kalimulla khan S/o Nasir khan & Liyakatulla Isratulla Sarafatulla S/o Riyasatulla Habibulnisha W/o Riyasatulla Abdulhai S/o Gulamhaidar khan Babban khan S/o Faridahmed Mohd. Arman S/o Makbool khan Mohd. Salman Khan Minor 14 years S/o Makbul Khan Gardian Sarvari Begum Mother Bittanbegum W/o Faridahmed Abdul Varik Abdul Varis Abdul Vasil S/o Rauf Noorjaha W/o Rauf Samir khan S/o Nisar khan R/o Village
			44	Private	Agriculture	0.0269	Jamirahmed, Sagirahmed, Jahirahmed Samirahmed Amirahmed S/o Mohd. Bashir Khan Shafikahmed S/o Shabbir Khan Marufkhan Shamsad khan S/o Rafik Khan Kuddaskhan Minor 11 Years Rafikahmed Gardian Najmabegum Mother Akhtarulnisha W/o Shabbir khan Noorjahan S/o Basirkhan R/o Village	
			49	Govt.	Nali	0.0003	Govt. of Uttar Pradesh	
			50	Private	Agriculture	0.0026	Smt. Rakibul Nisha W/o Riyaj Ahmed R/o Village	
			51	Private	Agriculture	0.0064	Jamirahmed, Sagirahmed, Jahirahmed, Samirahmed, Amirahmed S/o Mohd. Bashir Khan & Sahfikahmed S/o Shabbir Khan & Maruf khan, Shamsad khan S/o Rafik Ahmed & Kuddas khan Minor 11 Years Rafikahmed Gardian Najmabegum Mother Noorjahan W/o Vasir & Vahid khan S/o Yaasin khan & Rajbahadur khan, Mohd. Arif khan S/o Toufik Khan & Akhtarulnisha W/o Shabbir khan R/o Village	
			52	Private	Agriculture	0.0068	Vahidkhan S/o Yaasinkhan & Rajbahadur, Mohd. Arifkhan S/o Toufik Khan R/o Village	
			53	Govt.	Way	0.0006	Govt. of Uttar Pradesh	
			54	Private	Agriculture	0.0082	Vahidkhan S/o Yaasinkhan & Rajbahadur, Mohd. Arifkhan S/o Toufik Khan R/o Village	
			147	Private	Agriculture	0.0017	Raeid, Anish, Nafish, Ashish ahmed S/o Khalil Ahmed & Mohd. Taiyab Khan S/o Tahirkhan & Mohd. Jahirkhan S/o Samiulla & Mohd. Jakirkhan, Mohd. Sakirkhan S/o Inayatulla & Babbankhan S/o Faridahmed & Mohd. Arman S/o Makbulkhan & Salmankhan Minor 15 years S/o Makbul Khan Gardian Sarvari Begum Mother Bittan begum W/o Faridahmed R/o Village	
			148	Private	Agriculture	0.0028	Raeid, Anish, Nafish, Ashish ahmed S/o Khalil Ahmed & Mohd. Taiyab Khan S/o Tahirkhan & Mohd. Jahirkhan S/o Samiulla & Mohd. Jakirkhan, Mohd. Sakirkhan S/o Inayatulla & Babbankhan S/o Faridahmed & Mohd. Arman S/o Makbulkhan & Salmankhan Minor 15 years S/o Makbul Khan Gardian Sarvari Begum Mother Bittan begum W/o Faridahmed R/o Village	
			149	Private	Agriculture	0.0029	Abdul Hai S/o Gulamhaidar & Tufail Ahmed, Abdulkhalil S/o Mohd. Najir R/o Village	
			150	Govt.	Banzer	0.0007	Govt. of Uttar Pradesh	
			180	Private	Agriculture	0.1150	Basantvaranwal S/o Krishnamohan & Chhotelal S/o Triveni Prasad R/o Dariyapur & Navinkumar Agrawal, Pravinkumar Agrawal	

								S/o Ramnivas Agrawal R/o Mohd. Shahganj Chhavni Sadar
				202	Private	Agriculture	0.0048	Abdul Kayum, Abdul Vadud Khan S/o Abdul Latik Khan & Intiyaz Khan, Intejaar Khan S/o Abdul Haq & Keshari Begum W/o Lt. A.haq & Yahiyar Khan S/o Ibrahimkhan & Hasnain Ahmed, Imran Ahmed S/o Abdul Vahav Khan R/o Village
				203	Govt.	Khad ka Gadda	0.0057	Govt. of Uttar Pradesh
				204	Private	Agriculture	0.0130	Ramvaran, Rammurat S/o Ramdayal R/o Village & Surendra Kumar, Arun kumar, Arvind kumar S/o Johhram & Amravati Devi W/o Johhram R/o Village
				208	Private	Agriculture	0.0202	Ramjas S/o Shriram & Ram kumar S/o Ram Nevaj & Badri Prasad S/o Ramajor R/o Village
				210	Private	Agriculture	0.2076	Mohd. Harunkhan Mohd. Farukkhan Mohd. Saharunkhan Mohd. Aslamkhan Mohd. Akhtarkhan Aklakhan Ahmed Khan S/o Jalil Ahmed Khan Abdul Hamid S/o Miyandin Mohd. Jakirkhan Mohd. Sakirkhan S/o Inayatullakhan Mohd. Amin Mohd. Farid S/o Pirgulam Mohd. Jahir S/o Samiulla Mohd. Taiyabkhan S/o Tahirkhan Rais Ahmed Anis Ahmed Nafis Ahmed Ahish Ahmed S/o Khalil Ahmed Najirkhan S/o Umravkhan Abdulhai S/o Gulamhaidarkhan Raiskhan S/o Yakubkhan Musir Samirkhan S/o Nisarkhan Amirkhan Minor 15 years S/o Nisarkhan Gardian Nasirulnihan W/o Nisarkhan Mansukhan Maksoodkhan S/o Kallukhan Abdulraufkhan S/o Ajijkhan Mohd. Ikbalkhan Mohd. Jamalkhan Mohd. Mubinkhan Mohd. Mabal Mohd. Nasimkhan S/o Mustkimkhan Mohd. Mahmudkhan Mohd. Mahboobkhan Mohd. Mustafakhan Mohd. Ayubkhan Mohd. Halimkhan S/o Mohd. Iliyaskhan Sadrulbegum W/o Mohd. Iliyaskhan Salamatulla Khan S/o Nasirkhan Abadulla Khan S/o Ahmedullakhan Kalimullakhan S/o Nasirkhan Liyakatulla Isratulla Sarafatulla S/o Riyasatulla Habibulnihan W/o Riyasatulla Shaukatali Khan Shakhawatali Khan Mohd. Muktar Khan S/o Habibkhan Ahatsamkhan Atik Khan S/o Rauf Khan Shakil Khan S/o Naimkhan Amina D/o Budhukhan Istiyakkhan Asfakkhan Abidkhan Shakilkhan S/o Mohd. Yunuskhan Kamrulnisha W/o Mohd. Yunuskhan Amanatulla Khan S/o Rahmatullakhan Ismailkhan S/o Mohd. Shafikhan R/o Village
				211	Private	Agriculture	0.1200	Mataprasad S/o Chandrapal & Maharajdin S/o Durgaprasad & Rajdei W/o Avadh Bihari & Parasnath S/o Ramkumar & Ramkishore S/o Ganpati & Kamalakar S/o Devtadin & Smt. Kamlavati W/o Devtadin R/o Pakhraoli
				<b>Total</b>			<b>0.9449</b>	
			<b>(12)</b>	133 A	Private	Agriculture	0.0167	Ramjag, Ramsumiran S/o Sadhu & Jagmohan, Amarnath S/o Gayadeen & Sadhuram, chhotelal, Ramkumar S/o Ramadhar R/o Pakhraoli
				133 B	Govt.	Road		Govt. of Uttar Pradesh
				134	Private	Agriculture	0.0069	Abdulla haq, Abdul samad S/o Mohd. Haasim & Niyamulhak, Sirajulhak S/o Rahmatulla & Mohd. Shamim, Mohd. Vasim, Mohd. Kalim S/o Mohd. Shafi & Abdul Khalik Jiharulhak S/o Rahmatulla R/o Pakhraoli
				161	Govt.	Nali	0.0518	Govt. of Uttar Pradesh
				176	Private	Agriculture	0.1700	Bhaggu S/o Shital R/o Mahanpur

			175	Private	Agriculture	0.1650	Roghairam S/o Lt. Algu R/o Village Mahanpur
			174	Private	Agriculture	0.0400	Smt. Karma devi W/o Late Firtu R/o Mahanpur
			173	Private	Agriculture	0.0415	Bahau S/o Jiyavan & Babulal, Ramgarib S/o Dwarika R/o Mahanpur
			172	Private	Agriculture	0.0016	Patairam, Satairam, Ramdutt, Arjunkumar S/o Gurdin R/o Mishroli
			171	Private	Agriculture	0.2641	Omprakash, Shri Bhagwan S/o Late Mataprasad & Smt. Chandarwati W/o Late Mataprasad R/o Village Pakhroli
			170	Govt.	Road	0.0105	Govt. of Uttar Pradesh
			177	Private	Agriculture	0.1566	Punnwasi S/o Ramprasad & Pattilal S/o Vindhyadin & Manjauka W/o Late Vindhyadin R/o Mahanpur
			178	Govt.	Road	0.0346	Govt. of Uttar Pradesh
			181	Private	Agriculture	0.0118	Smt. Varisulnishan W/o Mansur Khan R/o Mahanpur
			182	Private	Agriculture	0.0670	Rammilan S/o Ramdin R/o Mahanpur & Hardayram, Sitaram S/o Ramsunder R/o Pakhroli
			183	Govt.	Road	0.0129	Govt. of Uttar Pradesh
			184	Private	Agriculture	0.0218	Kashiram, Rammilan S/o Ramdin R/o Mahanpur
			173	Private	Agriculture	0.0542	Bahau S/o Jiyavan & Babulal, Ramgarib S/o Dwarika R/o Mahanpur
			190	Private	Agriculture	0.3090	Budhiram S/o Indal R/o Mahanpur
			191	Private	Agriculture	0.0509	Smt. Kuresha W/o Ashik Ali & Smt. Phatmakhatun W/o Moh. Salim R/o Rampurhnmanganj & Arvind Kumar Singh S/o Shivbahadur Singh R/o Saurai
			192	Private	Agriculture	0.0008	Smt. Kulsum W/o Jalaludin R/o Pakhroli
			193	Private	Agriculture	0.3394	Smt. Mahrulnishan W/o Sirajudin R/o Mahanpur
			194	Private	Agriculture	0.0744	Rammanohar S/o Baijnath & Onkarnath, Surendar kumar, Dharmendra kumar, Panchnarayan S/o Mahavir & Smt. Chandrakala W/o Late Mahavir R/o Pakhroli
			195	Govt.	Road	0.0105	Govt. of Uttar Pradesh
			201	Private	Agriculture	0.0387	Ramjas S/o Shriram & Ram kumar S/o Ramnevaj & Badrilal S/o Ramanjor & Ramsingari W/o Ramanjor R/o Village
			<b>Total</b>			<b>1.9506</b>	
		<b>(2)Lamb-huwa</b>	<b>(1) Shahupur</b>				
			55	Private	Agriculture	0.0005	Keshram, Shambhunath S/o Ramasre, Sureshchandra, Rajeshkumar, Dineshkumar S/o Thakurprasad, Smt. Premadevi W/o Late Thakurprasad R/o Pakhroli
			<b>Total</b>			<b>0.0005</b>	
			<b>(2) Puraina</b>				
			82 A	Private	Agriculture	0.0096	Bhagwandin S/o Ramkhelawan R/o Mishrapur
			82 B	Private	Agriculture		Ramnayak S/o Rajnarayan & Bhagwandin S/o Ramkhelawan R/o Mishrapur
			84	Private	Agriculture	0.0108	Ramnayak S/o Rajnarayan & Bhagwandin S/o Ramkhelawan R/o Mishrapur
			85	Private	Agriculture	0.2910	Dayaram, Ramjas, Rambali S/o Bhagautideen R/o Village
			86	Private	Agriculture	0.0953	Mithulal, Motilal S/o Ramkhelawan R/o Village
			90	Private	Agriculture	0.0117	Jagdish Prasad, Gyanprakash, Ramkrishan, Satyaprakash S/o Shivnandan R/o Village
			91	Private	Agriculture	0.1040	Salikram S/o Ram Anjor & Smt. Sursati W/o Ram Anjor R/o Village
			361	Govt.	Way	0.0194	Govt. of Uttar Pradesh
			362	Govt.	Banzer	0.1454	Govt. of Uttar Pradesh
			363 A	Private	Agriculture	0.0059	Ramdaur S/o Bhuminareesh & Sheetlaprasad S/o Ramnath & Ramlakhan S/o Manbodh & Girja Shankar, Rahul Roshan, Rajesh Kumar S/o Ramdaur R/o Village
			363	Private	Agriculture		Ramlakhan S/o Manbodh R/o Village
			365	Govt.	Banzer	0.0017	Govt. of Uttar Pradesh



				366	Private	Agriculture	0.0007	Suresh Kumar, Ramhit, Durgesh Kumar S/o Bahau & Santmila Devi W/o Phagu R/o Village
				367	Private	Agriculture	0.0161	Suresh, Ramhit, Dugesh S/o Bahauram R/o Village
				368	Private	Agriculture	0.0278	Haasimali Chand, Ali Varis ali S/o Lt. Imtaaj R/o Village
				369	Private	Agriculture	0.0398	Panchu S/o Karamat R/o Village
				370	Private	Agriculture	0.0530	Panchu S/o Karamat R/o Village
				371	Private	Agriculture	0.0700	Irshad, Ahmed, Alaudin S/o Shabbir Ali R/o Village Shamshad Ali Shahabudding s/o Ali Husain Jainabbani w/o Ali Husain
				372	Govt.	Road	0.0170	Govt. of Uttar Pradesh
				373	Private	Agriculture	0.1517	Patti S/o Ramlakhan R/o Village
				374	Private	Agriculture	0.3034	Rakesh Kumar, Rajesh Kumar minor 15 & 8 yrs s/o Rajkumar urf Mangaru Gurdian mother Prema Devi w/o Rajkumar
				376	Govt.	Nali	0.0457	Govt. of Uttar Pradesh
				377	Private	Agriculture	0.1694	Ramashankar Sureshchandra Raviprakash S/o Ramroop Rajaram Ramkaran Ramshabd S/o Rampiyare Smt. W/o Rampiyare R/o Village
				378	Private	Agriculture	0.1543	Ramnayak S/o Rajnarayan R/o Mishrapur
				379	Private	Agriculture	0.0539	Ramdaur S/o Bhuminaresh R/o Village
				436	Govt.	Pond	0.5586	Govt. of Uttar Pradesh
				437	Private	Agriculture	0.0692	Ramsabad S/o Rampiyare R/o Village
				438	Private	Agriculture	0.0284	Ramsabad S/o Rampiyare & Girijashankar, Rahul, Roshan, Rajeshkumar S/o Ramdaur R/o Village
				439	Govt.	Holi Ka Sthan	0.0033	Govt. of Uttar Pradesh
				456	Govt.	Pond	0.0010	Govt. of Uttar Pradesh
				464	Private	Agriculture	0.0079	Irshad, Ahmed, Alaudin S/o Shabbir Ali R/o Village Shamshad Ali Shahabudding s/o Ali Husain Jainabbani w/o Ali Husain
				463	Private	Agriculture	0.3336	Ramachhevar, Rampiyare, Gayaprasad S/o Rampher R/o Village
				462	Govt.	Charagah	0.0675	Govt. of Uttar Pradesh
				461	Private	Agriculture	0.1436	Shantibhushan, Lalji S/o Ramnaresh R/o Village
				460	Private	Agriculture	0.0674	Jaiprakash S/o Motilal R/o Village
				458	Private	Agriculture	0.0060	Jagdish Prasad S/o Radheyshyam R/o Mankapur Parasin
				457	Private	Agriculture	0.0060	Kedarnath S/o Shriram R/o Village
				455	Private	Agriculture	0.0046	Jagpatti S/o Ramnewaj R/o Village
				470	Govt.	Pond	0.1147	Govt. of Uttar Pradesh
				474	Private	Agriculture	0.0201	Mathura S/o Matadin R/o Village
				475	Govt.	Nala	0.0060	Govt. of Uttar Pradesh
				476	Private	Agriculture	0.0332	Jagdish Prasad S/o Radheyshyam R/o Mankapur Parasin
				477	Private	Agriculture	0.0690	Radheyshyam S/o Matabhikh R/o Manikapur Prasin
				478	Private	Agriculture	0.0007	Jagdish Prasad S/o Radheyshyam R/o Parasin
				480	Private	Agriculture	0.1111	Lalbahadur, Amarbahadur, Fatehahadur S/o Ramsamujh R/o Manikapur Prasin
				489	Private	Agriculture	0.0193	Radheyshyam S/o Ramgopal & Shankar Lal, Sheetalprasad S/o Ramsahay & Mathuraprasad S/o Matadeen & Kalluram S/o Kashiram & Ramnewaj S/o Ramniranjan & Setram, Shivmurat S/o Ramajor & Jehra W/o Ramajor R/o Manikapur Prasin
				490	Govt.	Road	0.0330	Govt. of Uttar Pradesh
				491	Private	Agriculture	0.1067	Chhotelal S/o Bihari R/o Village
				492	Private	Agriculture	0.1185	Nanhuram, Dukhiram S/o Pargas R/o Village
				493	Private	Agriculture	0.0018	Ramkripal S/o Ramadhar R/o Village
				494	Private	Agriculture	0.0040	Ramgulam S/o Rambahore R/o Village
				495	Private	Agriculture	0.0040	Rampal S/o Rambahore R/o Village
				496	Private	Agriculture	0.0040	Ramkripal S/o Ramadhar R/o Village

			497	Private	Agriculture	0.0670	Gayaprasad, Devtadin S/o Moti R/o Manikapur Prasin
			498	Private	Agriculture	0.1547	Gitadevi W/o Shyamkrishan R/o Vikvajitpur, Budhu S/o Ganga R/o Manika Parasin
			499	Private	Agriculture	0.2296	Govindprasad S/o Paikramanath & Jaibharat Minor 14 years, Ajadbharat Minor 9 years S/o Jaihind Guardian Guddan Devi Mother & Rajkali S/o Late Paikrama Nath R/o Village
			500	Private	Agriculture	0.0459	Shri Ram Hari ram s/o Dukhai
			501	Private	Agriculture	0.0038	Jitendra kumar, Satyendra kumar S/o Kamla prasad R/o Manikapur Parasin
			512	Govt.	Road	0.0170	Govt. of Uttar Pradesh
			519	Private	Agriculture	0.0482	Gayatriprasad S/o Ramdular & Amrej Kumar, Sunilkumar Minor 14 years, Sanjay Kumar S/o Shivprasad Guardian Sharda Mother R/o Manikapur Parasin
			520	Private	Agriculture	0.1220	Hariprasad, Krishankumar, Surendra Pratap, Mahendrapratap S/o Devtadeen & Awdeshkumar Minor 15 years S/o Devtadeen Guardian Sumeradevi & Sumeradevi W/o Devtadeen R/o Village
			521	Private	Agriculture	0.1260	Parmadevi W/o Suryalal R/o Village
			522	Private	Agriculture	0.1630	Bhawani Prasad S/o Ramdular R/o Anapur Narayananj
			523	Govt.	Road	0.0201	Govt. of Uttar Pradesh
			524	Private	Agriculture	0.0294	Dashrathdei W/o Lt. Kamlaprasad & Rajkali W/o Paikarmanath R/o Manikapur Parasin Ramkuber s/o Mahaveer
			<b>Total</b>			<b>5.0809</b>	
		<b>(3) Mankapur Parasin</b>	50	Private	Agriculture	0.0218	Jitendra kumar Satyendra kumar S/o Kamla prasad, Shriram Hariram S/o Dukhai R/o Village
			49	Private	Agriculture	0.0127	Amrej kumar S/o Shivprasad, Gayatri Prasad S/o Ramdular, Hariprasad Krishan kumar Mahendrapratap Awdhesh kumar S/o Devtadeen, Premadevi S/o Suryapal, Vijay shankar Ajay shankar S/o Bhawani prasad, Sanjay kumar Sunil kumar S/o Shivprasad, Surendra pratap S/o Devtadin R/o Village
			48	Govt.	Banzer	0.0206	Govt. of Uttar Pradesh
			47	Private	Agriculture	0.0250	Ramkhelavan Ramkumar Ramsanehi Amarnath S/o Ramroop R/o Village
			46	Govt.	Banzer	0.0077	Govt. of Uttar Pradesh
			45	Private	Agriculture	0.7013	Ramshiromani Rajmani Sheshmani S/o Ramputap, Smt. Bhanmati W/o Rampratap R/o Village
			38	Private	Agriculture	0.4482	Govindprasad S/o Paikramanath, Jaibharat S/o Jaihind, Ajad Bharat Minor 13 years S/o Jaihind Gardian Guddan Devi Mother, Smt. Rajkalidevi W/o Late Paikrama Nath R/o Village
			39	Private	Agriculture	0.0048	Ramkailash S/o Ramdev, Rampher S/o Narayan R/o Village
			111	Govt.	New Land	0.0270	Govt. of Uttar Pradesh
			110	Private	Agriculture	0.1079	Chandramohan Chandrashekhar S/o Ramji, Smt. Shyamkali W/o Lt. Ramji R/o Village
			111 /295	Private	Agriculture	0.0472	Sukhdev Duttak S/o Sadhu R/o Village
			112	Govt.	Way	0.0351	Govt. of Uttar Pradesh
			214	Private	Agriculture	0.0803	Nokhelal Babulal Siyaram S/o Gayadin R/o Village
			213	Private	Agriculture	0.0250	Jangbahadur Singh S/o Rajpal Singh R/o Utturi
			212	Private	Agriculture	0.1830	Chandramohan Chandrashekhar S/o Ramji, Smt. Shyamkali W/o Lt. Ramji R/o Village
			211	Private	Agriculture	0.0125	Ramsukh Ramsufal S/o Indrapal R/o Village
			210	Private	Agriculture	0.0120	Ramshiromani Rajmani Sheshmani S/o Rampratap, Smt. Bhanmati W/o Lt. Rampratap, Brajlal Sajanlal Barsati S/o Jagnarayan R/o Village

			209	Private	Agriculture	0.0075	Barsati S/o Jagnarayan R/o Village
			208	Private	Agriculture	0.0122	Ramdular S/o Brahmdin R/o Village
			207	Govt.	Banzer	0.0947	Govt. of Uttar Pradesh
			206	Private	Agriculture	0.2306	Udayraj S/o Ramlavat R/o Village
			205	Govt.	Road	0.0191	Govt. of Uttar Pradesh
			204	Govt.	Road	0.0235	Govt. of Uttar Pradesh
			203 E	Private	Agriculture	0.1253	Smt. Pranpati W/o Chhotai R/o Village
			203 E	Private	Agriculture		Lalmati S/o Ramraj R/o Village
			203 E	Private	Agriculture		Mu. Jahra S/o Nanhaku Dayadhikarini, Maniram Nanhelal S/o Bharthu, Shani Minor 7 years S/o Bhukhali Guardian Smt. Kusumadevi, Smt. Kusumadevi W/o Lt. Bhukhali, Anil S/o Munnu, Sunil and Golu Minor 13 and 8 years S/o Munnu Guardian Smt. Chamela Devi, Smt. Chamela Devi W/o Lt. Munnu R/o Village
			202	Govt.	Nali	0.0007	Govt. of Uttar Pradesh
			201	Private	Agriculture	0.0560	Jaiprakash Rampratap Nanhelal Vikram Prasad S/o Rajaram R/o Village
			200	Private	Agriculture	0.0300	Suryabhan S/o Jhagaru R/o Village
			199	Private	Agriculture	0.2238	Suryabhan Vijayprakash S/o Jhagaru R/o Village
			198	Private	Agriculture	0.1229	Rajbahadur Amarbahadur S/o Jokhu, Mohanlal Minor 12 years S/o Jokhu Guardian Amrawati Devi Mother, Amrawati W/o Lt. Jokhu R/o Village
			197	Private	Agriculture	0.0270	Jagannath S/o Ayodhya R/o Village
			196	Private	Agriculture	0.0280	Gangaprasad Ramchandrar Krishandeve Krishanchandar S/o Devnarayan R/o Vikvajitpur
			195	Private	Agriculture	0.0213	Ratipal Jhagaru S/o Datta R/o Vikvajitpur
			194	Private	Agriculture	0.0736	Hridayram S/o Jaikaran Ramtirth and Ram kumar Ramdhiraj and Ajay kumar S/o Swaminath Smt. Nourangi devi S/o Lt. Swaminath R/o Vikvajitpur
			193	Govt.	Road	0.0300	Govt. of Uttar Pradesh
			192	Private	Agriculture	0.0427	Suryabhan Vijayprakash S/o Jhagaru R/o Village
			191	Private	Agriculture	0.0354	Ramkumar S/o Khelari, Sukai Munnalal Radheyshyam S/o Dudhnath, Santosh Minor 8 years S/o Rajendra prasad Guardian Urmila Mother, Smt. Rajpati W/o Late Ramnaresh R/o Vikvajitpur
			190	Private	Agriculture	0.0143	Ramnewaj S/o Chamru R/o Vikvajitpur
			189	Private	Agriculture	0.0100	Jagdev Ramdev S/o Badri R/o Vikvajitpur
			188	Govt.	Road	0.0374	Govt. of Uttar Pradesh
			187	Private	Agriculture	0.2394	Jaiprakash Rampratap Nanhelal Vikram Prasad S/o Rajaram R/o Village
			186	Private	Agriculture	0.0285	Ramprasad S/o Ramsamujh R/o Village
			<b>Total</b>			<b>3.3060</b>	
		<b>(4)</b>	115	Private	Agriculture	0.0113	Chhotai S/o Somai, Ramkumar Vijay Kumar S/o Kandhai, Smt. Pannadevi W/o Lt. Kandhai R/o Village
		<b>Bikwajeetpur</b>	114	Private	Agriculture	0.0116	Tulsiram Ramdular Makhdum Arjun S/o Suddu R/o Village
			113	Private	Agriculture	0.0396	Keshram Shyamlal S/o Motilal R/o Village
			112	Private	Agriculture	0.0147	Jaiprakash Rampratap Nanhelal Vikrama Prasad S/o Rajaram R/o Village
			111	Private	Agriculture	0.0061	Ratipal Jhagaru S/o Datta R/o Village
			110	Govt.	Nala	0.0473	Govt. of Uttar Pradesh
			109	Govt.	Road	0.0190	Govt. of Uttar Pradesh
			108	Private	Agriculture	0.2479	Shyamkumar Nandkumar S/o Baijnath, Anil kumar S/o Kaushal Kumar, Smt. Rannodevi W/o Kaushal kumar, Rajendra kumar Virendra kumar Rajesh kumar S/o Keshari Kumar, Smt. Malti Devi W/o Keshari Kumar R/o Village

				107	Private	Agriculture	0.3618	Haridayram S/o Jaikaran, Ramtirath Ramkumar Ramdhiraj Ajay kumar S/o Swaminath, Smt. Nourangidevi W/o Swaminath R/o Village
				106	Private	Agriculture	0.0175	Ghanshyam S/o Ramkuber R/o Village
				105	Private	Agriculture	0.0208	Surajmal S/o Bhawanibhikh R/o Village
				104	Private	Agriculture	0.0189	Ramprasad S/o Ramdas R/o Village
				103	Private	Agriculture	0.0569	Shyam kumar Lal S/o Baijnath Lal R/o Village
				102	Private	Agriculture	0.1390	Akhilesh kumar Pradeep kumar Dilip kumar Kuldeep kumar Dinesh kumar S/o Raghunandanlal, Suryanarayanlal S/o Ramadharlal, Gurdevbahadur S/o Rajbahadur, Hardayal S/o Hariprasad, Devendra kumar Rajendra kumar S/o Durgadayal R/o Parauapur, Hridaynarayan S/o Jaikaran R/o Village, Gurudayal S/o Brijbahadur R/o Parauapur
				101	Govt.	Aabadi	0.0250	Govt. of Uttar Pradesh
				100	Govt.	Banzer	0.0250	Govt. of Uttar Pradesh
				99 A	Private	Agriculture	0.3526	Hardainarayan S/o Jaikaran, Ramtirath Ramkumar Ramdhiraj Ajaykumar S/o Swaminath R/o Village
				99 B	Private	Agriculture		Ramachhewar Radheshyam Ghanshyam S/o Ramkuber R/o Village
				98	Govt.	Road	0.0203	Govt. of Uttar Pradesh
				91	Private	Agriculture	0.0922	Anilkumar S/o Kaushal kumar, Smt. Ranno devi W/o Kaushal kumar R/o Village
				89	Govt.	New Land	0.0227	Govt. of Uttar Pradesh
				88	Govt.	Pond	0.0157	Govt. of Uttar Pradesh
				87	Govt.	Banzer	0.0048	Govt. of Uttar Pradesh
				86	Private	Agriculture	0.0130	Shyambihari lal Kunjbihari lal Chailbihari lal Rajbihari lal S/o Ramnath, Amit Anup Ashish S/o Krishnabihari lal R/o Village
				85	Govt.	Banzer	0.0190	Govt. of Uttar Pradesh
				84	Private	Agriculture	0.6512	Shyambihari lal Kunjbihari lal Chailbihari lal Rajbihari lal S/o Ramnath, Amit Anup Ashish S/o Krishnabihari lal R/o Village
				82	Private	Agriculture	0.1780	Dharmanarayan Awadhnanarayan Rajnarayan Ashok Kumar S/o Shyamkishore R/o Village
				81	Private	Agriculture	0.1033	Tribhuvan S/o Sitaram R/o Village
				305	Private	Agriculture	0.1954	Smt. Chandrakali urf Chandrawati W/o Shivbahadur R/o Village
				306	Private	Agriculture	0.2011	Smt. Chandrakali urf Chandrawati W/o Shivbahadur R/o Village
				309	Private	Agriculture	0.0906	Smt. Chandrakali urf Chandrawati W/o Shivbahadur R/o Village
				312	Govt.	Khalihan	0.0069	Govt. of Uttar Pradesh
				314	Govt.	Khalihan	0.0010	Govt. of Uttar Pradesh
				316	Private	Agriculture	0.0446	Smt. Chandrakali urf Chandrawati W/o Shivbahadur R/o Village
				319	Private	Agriculture	1.2839	Shyambihari lal Kunjbihari lal Chailbihari lal Rajbihari lal S/o Ramnath, Amit Anup Ashish S/o Krishnabihari lal R/o Village
				320	Private	Agriculture	0.1691	Radheeshyam Ghanshyam Ramachhevar S/o Ramkubair, Pradeepkumar Dharmendra Kumar S/o Ramdev, Ravikumar S/o Jagdevprasad, Smt. Manorama W/o Rajnarayan, Smt. Meera W/o Ashokkumar R/o Bikwajitpur
				339	Private	Agriculture	0.0171	Dharmanarayan Awadhnanarayan Rajnarayan Ashok Kumar S/o Shyamkishore R/o Village
				344	Govt.	Road	0.0292	Govt. of Uttar Pradesh
				355 B	Private	Agriculture	0.2617	Jagdevprasad S/o Badriprasad R/o Village
				355 B	Private	Agriculture		Jagdambaprasad Aatmaprasad S/o Banshi, pradeepkumar S/o Vikramjeet R/o Village
				355 B	Private	Agriculture		Jagdev S/o Shivcharan, Mithulal, Nidhilal S/o Ramdeen R/o Gopalpur, Jumman Rafiq S/o Mohd. Ali R/o Village

			354	Govt.	Non Agrculture	0.0005	Baba Bhagwandas Adarsh School
			353	Govt.	Non Agrculture	0.1049	Baba Bhagwandas Adarsh School
			352	Private	Agriculture	0.5469	Vinodkumar S/o Bhagouti prasad R/o Village
			351	Private	Agriculture	0.0130	Phulmani S/o Ramaasre R/o Village
			350	Govt.	Non Agriculture	0.0538	Baba Bhagwandas Adarsh School
			349	Private	Agriculture	0.1583	Shobhnath S/o Kalikaprasad, Devnath Dineshnath S/o Baijnath, Dharma W/o Baijnath, Rajaram Satyaram S/o Ramnarayan, Ramraj Kauleshwarnath Vimalleshwarnath Siddhnath S/o Parasnath, Krishandev Brajesh kumar Vinay kumar S/o Shriram, Smt. Jadavatidevi W/o Shriram, Jitendra Kumar S/o Kamtanath, Amit Kumar Adult Shubham Minor 14 years S/o Dharmendra Kumar Guardian Smt. Mithilesh Mother Smt. Mithilesh W/o Lt. Dharmendra Kumar Smt. Vimladevi W/o Lt. Kamtanath R/o Murarpur
			348	Private	Agriculture	0.0376	Baba Bhagwandas Adarsh School
			333	Govt.	Road	0.0142	Govt. of Uttar Pradesh
			<b>Total</b>			<b>5.7647</b>	
		<b>(5) Gopalpur</b>	82	Private	Agriculture	0.0575	Kanhai Ferai S/o Jhunai R/o Village
			83	Private	Agriculture	0.0155	Janjali S/o Lurkhar R/o Village
			87	Private	Agriculture	0.1626	Ramjit Motilal Hiralal Bholanath Bankelal S/o Gajadhar R/o Village
			88	Private	Agriculture	0.1079	Omprakash Rajesh S/o Adyaprasad R/o Village
			90	Private	Agriculture	0.0011	Ramprasad Ramsahay S/o Payag R/o Village
			91	Govt.	Road	0.0480	Govt. of Uttar Pradesh
			92	Private	Agriculture	0.0730	Shrikrishan S/o Nakku R/o Village
			93	Govt.	Pond	0.0929	Govt. of Uttar Pradesh
			94	Private	Agriculture	0.0798	Ferai S/o Jhurai R/o Cillage
			96	Govt.	Road	0.0870	Govt. of Uttar Pradesh
			108	Govt.	Pond	0.4817	Govt. of Uttar Pradesh
			109 E	Govt.	Pond	1.3174	Govt. of Uttar Pradesh
			113	Private	Agriculture	0.0267	Kamlaprasad S/o Mataprasad R/o Ishipur
			114	Govt.	Road	0.0360	Govt. of Uttar Pradesh
			115	Govt.	Banzer	0.0433	Govt. of Uttar Pradesh
			116	Govt.	Pond	0.1362	Govt. of Uttar Pradesh
			117	Govt.	Pond	0.0894	Govt. of Uttar Pradesh
			118	Govt.	Banzer	0.1217	Govt. of Uttar Pradesh
			119	Govt.	Banzer	0.0023	Govt. of Uttar Pradesh
			128	Govt.	Road	0.0190	Govt. of Uttar Pradesh
			129	Private	Agriculture	0.0006	Shrikrishan S/o Nakku R/o Village
			130	Govt.	Banzer	0.0242	Govt. of Uttar Pradesh
			144	Private	Agriculture	0.1586	Inderpal S/o Ramsundar R/o Village
			145	Govt.	Road	0.0042	Govt. of Uttar Pradesh
			146	Govt.	New Land	0.0031	Govt. of Uttar Pradesh
			<b>Total</b>			<b>3.1898</b>	
		<b>(6) Abhiyakhurd</b>	191	Private	Agriculture	0.1928	Kaidarnath Baijnath S/o Thakurdin R/o Gopalpur
			192	Govt.	Pond	0.0936	Govt. of Uttar Pradesh
			195	Govt.	Road	0.1520	Govt. of Uttar Pradesh
			232	Private	Agriculture	0.0347	Rammurat Jodhasingh Bhanupratap Bharat Singh S/o Rampratap Singh R/o Barui
			233	Private	Agriculture	0.1061	Harishankar Singh S/o Bhagwan Prasad R/o Village, Ganpati Sahay S/o Bhumpal Singh R/o Barui
			235	Private	Agriculture	0.3147	Shambhunath S/o Ramawadh R/o Gopalpur, Ramroop Tulsi R/o Village, Ramchandar S/o Ramlakhan R/o Gopalpur, Ramanjor Suryanarayan S/o Achhebar, Rajendra and Rajbahadur S/o Rambodh, Smt. Rajpatti W/o Rambodh R/o Village
			236	Private	Agriculture	0.1112	Ramjag S/o Chamaru R/o Gopalpur
			237	Govt.	New Land	0.0064	Govt. of Uttar Pradesh
			238	Govt.	Banzer	0.0225	Govt. of Uttar Pradesh
			239	Private	Agriculture	0.0130	Ramsanehi S/o Panchu R/o Gopalpur

			240	Govt.	Nala	0.0062	Govt. of Uttar Pradesh
			241	Private	Agriculture	0.2753	Ramsanehi S/o Panchu R/o Gopalpur
			242	Private	Agriculture	0.1519	Sitaram S/o Ddukhi R/o Village
			96	Govt.	Road	0.0279	Govt. of Uttar Pradesh
			97	Private	Agriculture	0.0038	Ramraj Maharajdin S/o Govardhan R/o Gopalpur, Ibraar Ahmad S/o Mustaq Ahmad R/o Village Angnakol K.N.I. Prg. Miranpur Teh. Sadar Distt. Sultanpur
			98	Private	Agriculture	0.0145	Sureshchand Sanjaykumar Sujit S/o Vishvanath, Smt. Saroja W/o Vishvanath R/o Gopalpur
			287	Private	Agriculture	0.0886	Jayram S/o Pulli R/o Gopalpur
			288	Private	Agriculture	0.2918	Dharamraj S/o Aganuprasad R/o Gopalpur
			289	Govt.	Road	0.0193	Govt. of Uttar Pradesh
			290	Private	Agriculture	0.1254	Panchu S/o Roghai R/o Gopalpur
			291	Private	Agriculture	0.1564	Ramsumer S/o Ramnath R/o Village
			292	Private	Agriculture	0.1379	Sitaram S/o Dukhi R/o Village
			293	Private	Agriculture	0.1842	Sitaram S/o Dukhi R/o Village
			294	Private	Agriculture	0.0002	Narsinghnarayan Badri Prasad S/o Benimadhav, Vivek kumar S/o Devnarayan, Mangaru S/o Vinda R/o Village
			295	Private	Agriculture	0.2045	Janardan Sathish Ashok kumar Anil pratap S/o Ramagya Singh R/o Rampur Hanumanganj
			296 E	Private	Agriculture	0.1633	Rajendra S/o Dhani, Smt. Rampati W/o Dhani R/o Village
			296 E	Govt.	Banzer		Govt. of Uttar Pradesh
			297 B	Private	Agriculture	0.0191	Yashoda Devi W/o Ramkripal R/o Village
			297 A	Private	Agriculture		Ramsumer s/o Ramnath R/o village
			298	Private	Agriculture	0.0456	Suryabali S/o Matabadal R/o Village
			299	Private	Agriculture	0.1697	Rinku Singh S/o Rambharath R/o Rampur Hanumanganj, Shyamnarayan Suresh kumar S/o Bhagvat R/o Village
			300	Private	Agriculture	0.0246	Krishnanand S/o Rambahal R/o Village
			301	Private	Agriculture	0.0300	Paramanand S/o Rambahal R/o Village
			302	Private	Agriculture	0.0300	Krishnanand Paramanand S/o Rambahal R/o Village
			303	Private	Agriculture	0.0365	Kamladevi W/o Panchu R/o Village
			304	Govt.	Road	0.0160	Govt. of Uttar Pradesh
			274	Govt.	Road	0.0080	Govt. of Uttar Pradesh
			275	Private	Agriculture	0.0032	Ramchandrar Ramhit S/o Jamunaprasad R/o Village
			307	Govt.	Road	0.0291	Govt. of Uttar Pradesh
			450	Private	Agriculture	0.0194	Ashok kumar Rinku Singh Janardan Satish Anilpratap S/o Ramagya R/o Rampur Hanumanganj
			454	Private	Agriculture	0.0008	Ramlal S/o Gherau, Mohanlal Ramdhiraj Bharat Suresh Bajrangbali R/o Village
			455 A	Private	Agriculture	0.0145	Suraj kumar S/o Ramkripal, Smt. Yashodadevi W/o Ramkripal, Shwamidin Suresh kumar Shyamnarayan S/o Bhagwat R/o Village
			456	Govt.	New Land	0.0228	Govt. of Uttar Pradesh
			457	Private	Agriculture	0.0030	Vimladevi W/o Vijay kumar Pandey, Sapna devi W/o Brajesh kumar Pandey, Akhilesh kumar Pandey S/o Radheyshyam Pandey, Rita Pandey W/o Rakesh kumar urf Hanuman prasad R/o Village
			461	Private	Agriculture	0.0449	Vimladevi W/o Vijay kumar Pandey, Sapna devi W/o Brajesh kumar Pandey, Akhilesh kumar Pandey S/o Radheyshyam Pandey, Rita Pandey W/o Rakesh kumar urf Hanuman prasad R/o Village
			462	Govt.	Banzer	0.0250	Govt. of Uttar Pradesh
			463	Govt.	Banzer	0.0159	Govt. of Uttar Pradesh
			464	Private	Agriculture	0.0250	Ramakanat Umakant S/o Kedarnath, Radheyshyam Shyamkaran S/o Ramdin, Rakesh urf Hanuman prasad Akhilesh S/o Radheyshyam R/o Village

			465	Private	Agriculture	0.3745	Radheyshyam S/o Ramdin R/o Village
			466	Govt.	Road	0.0243	Govt. of Uttar Pradesh
			467	Private	Agriculture	0.1729	Nirmala Devi urf Babbana W/o Vachaspati R/o Utrola
			468	Private	Agriculture	0.2270	Kusuma W/o Bhallar D/o Tarsu R/o Village
			469	Private	Agriculture	0.0859	Sitaram S/o Dukhi R/o Village
			470	Private	Agriculture	0.0385	Chandrawali S/o Devtadeen R/o Village
			475	Govt.	New Land	0.0072	Govt. of Uttar Pradesh
			476	Govt.	New Land	0.0035	Govt. of Uttar Pradesh
			477	Private	Agriculture	0.4969	Shyamkaran S/o Ramdin R/o Village
			478	Private	Agriculture	0.0039	Salikram S/o Ramsukul, Bholanath S/o Matapasad, Ashok Kumar Pramod Kumar Vinod Kumar S/o Parmeshwardin & Smt. Ramdulari W/o Lt. Parmeshwardin R/o Village
			481	Govt.	Aabadi	0.0691	Govt. of Uttar Pradesh
			483	Private	Agriculture	0.0065	Mangaru S/o Bahiru, Smt. Nanhka W/o Mangaru R/o Village
			484	Private	Agriculture	0.5568	Devnarayan S/o Khushiyaal, Ramshiromani S/o Devtadin R/o Village
			485	Private	Agriculture	0.0672	Gayaprasad S/o Ramabhilakh R/o Village
			486	Private	Agriculture	0.0168	Gayaprasad S/o Ramabhilakh R/o Village
			490	Govt.	Road	0.0158	Govt. of Uttar Pradesh
			493	Private	Agriculture	0.0021	Dharamraj S/o Aganuprasad R/o Gopalpur
			495 E	Private	Agriculture	0.0877	Prahlad Loutu S/o Ambar R/o Village
			495 E	Private	Agriculture		Bhanmati W/o Ashok Kumar R/o Village
			496	Private	Agriculture	0.0552	Vijayprakash S/o Ramashankar R/o Lakhipur
			497	Private	Agriculture	0.0886	Kashiram S/o Ramaasre, Chandrashekhar Kripashankar S/o Ramkumar, Surajdei W/o Late Ramkumar R/o Village
			498	Private	Agriculture	0.1541	Radheyshyam Shyamkaran S/o Ramdin, Ramakant Umakant S/o Kedarnath, Salikram S/o Sukal, Dilipkumar Dineshkumar S/o Jagdish Prasad, Matafer S/o Parasnath, Rakeshkumar urf Hanuman Prasad Akhilesh kumar S/o Radheyshyam, Sharadkumar and Vipinkumar Alok kumar S/o Bholanath R/o Village, Ashok kumar Pramod kumar Vinod kumar S/o Parmeshwardin, Smt. Ramdulari W/o Lt. Parmeshwardin R/o Village
			499	Private	Agriculture	0.2032	Suraj kumar S/o Ramkripal, Yashoda devi W/o Ramkripal, Krishandeve S/o Khushiyaal, Arvind kumar Ravindra kumar S/o Ramsumer, Smt. Phoolkumari W/o Late Ramsumer, Shyamnarayan Suresh kumar S/o Bhagwat, Ramchandra Ramhit S/o Jamunaprasad, Ramkuber Satyram Ramyagya S/o Awadhnarayan, Chandrabali W/o Devtadin R/o Village, Smt. Sona Hariram Inter College Abhiyakhurd Manager Anilkumar S/o Hariram Shukla R/o Gopalpur
			500	Private	Agriculture	0.1368	Suraj kumar S/o Kripal, Yashoda devi W/o Ramkripal, Arvind kumar Pandey Ravindra kumar Pandey S/o Ramsumer, Smt. Phoolkumari W/o Late Ramsumer, Shyamnarayan Suresh kumar S/o Bhagwat, Ramchandra Ramhit S/o Jamunaprasad, Ramkuber Ramyagya Satyram S/o Avadh Narayan, Ramshiromani Chandrabali S/o Devtadin, Swamidin S/o Bhagwat prasad R/o Village
			<b>Total</b>			<b>6.3757</b>	
		(7) Abhiyakalan	240	Private	Agriculture	0.0030	Ramkishor S/o Gajadhar R/o Village
			251	Govt.	Road	0.0017	Govt. of Uttar Pradesh
			252	Private	Agriculture	0.0546	Ramanuj S/o Dwarika R/o Village
			253	Private	Agriculture	0.0758	Vijayprakash S/o Ramashankar R/o Lakhipur
			254	Private	Agriculture	0.0060	Gayaprasad Ramjas S/o Ramlakhan, Ramkaran S/o Shambhunath R/o Village
			255	Private	Agriculture	0.0105	Ramnihore S/o Ramdular, Dukhna Devi W/o

								Ramanand, Ramkalap S/o Thunku, Baijnath S/o Bhagirathi, Kishun S/o Nimar, Dukhi S/o Ramdutt, Anaradevi W/o Lt. Bamb Bahadur R/o Village
			256	Private	Agriculture	0.0139		Ramprasad S/o Badal, Lalji S/o Roghai, Saira W/o Roghai R/o Abhiyankala
			257	Govt.	Road	0.0059		Govt. of Uttar Pradesh
			258	Private	Agriculture	0.0464		Rmashankar Ramakant Umakant S/o Ramsumer, Shyamadevi W/o Ramsumer R/o Village
			259	Private	Agriculture	0.0479		Ramkalap S/o Ramlal R/o Abhiyankala
			260	Private	Agriculture	0.0477		Rampati S/o Ramnarsh R/o Abhiyankala Sadhna W/o Ramji
			262	Private	Agriculture	0.0130		Gayaprasad Ramjas S/o Ramlakhan, Ramkaran S/o Shambhunath R/o Village
			263	Private	Non Agriculture	0.0162		Amarnath S/o Algu R/o Village
			264 E	Private	Agriculture	0.0154		Jhagaru Dhani Ganpati S/o Kirachi urf Munesar R/o Village, Rambhul S/o Jagrop R/o Jhauvara
			264 E	Private	Agriculture			Dukhi S/o Khedu R/o Village, Dayaram S/o Kalidin R/o Puraina
			264 E	Private	Agriculture			Dukhi S/o Khedu R/o Village, Dayaram S/o Kalidin R/o Puraina
			374	Govt.	Road	0.0039		Govt. of Uttar Pradesh
			414	Private	Agriculture	0.0263		Ramkumar S/o Banwarilal R/o Village
			415	Private	Agriculture	0.0569		Matadeen Ramkewal S/o Bacha, Smt. Gujrati Devi W/o Rammepal Verma R/o Abhiyakalan, Rajendra Prasad Chaurasiya S/o Ramlal Chaurasiya R/o Bhapta
			416	Private	Agriculture	0.0230		Harishchandra Ravishankar Ajitkumar S/o Triveni, Panchdev Minor 16 yrs. S/o Triveni Gaurdian Smt. Parwati, Smt. Parwati W/o Triveni R/o Village
			417	Private	Agriculture	0.0072		Santram S/o Vanshi R/o Abhiyankala, Harishchandar Ravishankar Ajitkumar S/o Triveni, Panchdev Minor 16 years S/o Triveni Guardian Smt. Parwati, Smt. Parwati W/o Triveni, Ramkumar Shyamu S/o Banwari, Ramkumar Shyamu S/o Bairagi, Ramlal Shyamlal S/o Rampher R/o Village
			419 E	Private	Agriculture	0.0065		Dukhi S/o Khedu R/o Village
			419 E	Private	Agriculture			Harishchandra Ravishankar Ajitkumar S/o Triveni, Panchdev Minor 16 yrs S/o Triveni Gaurdian Smt. Parwati, Smt. Parwati W/o Triveni R/o Village
			423	Private	Agriculture	0.0198		Sitaram S/o Pherai R/o Village
			424	Private	Agriculture	0.0316		Khajanchi S/o Ramdular, Sitaram Ramlaut S/o Pherai R/o Abhiyankala, Mohd. Ali S/o Abdul Samad R/o Kuchmuch, Babban Kumar S/o Vishwanath R/o Siptapur
			425	Private	Agriculture	0.0227		Sheetlaprasad Sureshchandra Lalji S/o Jawalaprased Achewar Mataprasad S/o Ramnaresh R/o Babhangawan, Mu. Parwati W/o Rampratap R/o Village
			426	Private	Agriculture	0.0291		Jagdishprasad S/o Triyuginarayan R/o Village, Rudranarayan Yogeshnarayan S/o Jaynarayan R/o Babhangavan, Smt. Jaykali W/o Rambhul R/o Village Jhouvara
			427	Private	Agriculture	0.0250		Ramdayal Bhagautideen S/o Matapher, Civilsarjan urf Poki S/o Matapher, Khajanchi Bajragi S/o Ramdular, Sitaram Ramlaut S/o Pherai, Kashiram Ramsingh Amarsingh S/o Ramprasad R/o Abhiyankala
			482	Govt.	Road	0.0025		Govt. of Uttar Pradesh
			451	Private	Agriculture	0.0801		Rampata S/o Ramnarsh Ramsumer Ramanuj S/o Dwarika Gokran Shivkaran S/o Ramdin R/o Abhiyankala Bijayprakash S/o Ramashankar R/o Lakhipur Ramashankar Ramakant Umakant S/o Ramsumer



								Shyamadvi W/o Ramsumer R/o Village
			452	Private	Agriculture	0.0310		Radheshyam Shyamkaran S/o Ramdin, Ramakant Umakant S/o Kedarnath, Rakesh kumar urf Hanuman prasad Akhileshu Kumar S/o Radheshyam R/o Abhiyan Khurd
			453	Govt.	Canal	0.0890		Govt. of Uttar Pradesh
			454	Govt.	Canal	0.0288		Govt. of Uttar Pradesh
			455	Govt.	Canal	0.0004		Govt. of Uttar Pradesh
			479	Private	Agriculture	0.1548		Devpati W/o Jagdishprasad R/o Village
			480	Private	Agriculture	0.2333		Narsingh Narayan S/o Benimadhav R/o Village, Rajendra Kumar Shivkumar S/o Jagprasad, Smt. Rajkali W/o Jagprasad R/o Abhiyan Khurd, Vivek Kumar S/o Devnarayan, Mangad S/o Vindha Prasad R/o Village
			481	Private	Agriculture	0.0036		Chandrika Devi W/o Devnarayan R/o Village
			487	Private	Agriculture	0.0878		Jajannath S/o Ramsundar R/o Abhiyankhurd
			488	Govt.	Road	0.0237		Govt. of Uttar Pradesh
			489 E	Private	Agriculture	0.0572		Tidi S/o Ramasre R/o Village
			489 E	Govt.	Banzer			Govt. of Uttar Pradesh
			493	Private	Agriculture	0.0837		Omprakash S/o Shyamkaran R/o Village
			494	Private	Agriculture	0.0493		Smt. Vidyadevi W/o Hausila Prasad R/o Village
			496	Private	Agriculture	0.0040		Smt. Ghutura W/o Gayadin R/o Village
			471	Govt.	Way	0.0303		Govt. of Uttar Pradesh
			473	Private	Agriculture	0.2377		Rambahal S/o Ramphal R/o Abhiyakala
			474	Private	Agriculture	0.4355		Aonkarnath S/o Rajaram R/o Abhiyankala
			475	Private	Agriculture	0.0654		Smt. Sumera W/o Rampadarath, Avdhes S/o Rampadarath R/o Village
			476	Private	Agriculture	0.2242		Rampati S/o Ramnarsh R/o Abhiyankala, Bijay prakash S/o Ramashankar R/o Lakhipur, Ramanuj S/o Dwarika, Gokaran S/o Ramdin, Ramashankar Ramakant Umakant S/o Ramsumer, Shyamadevi W/o Lt. Ramsumer R/o Abhiyankala
			500	Private	Agriculture	0.1081		Devtadin S/o Ramabhilakh R/o Abhiyankala
			501	Private	Agriculture	0.2023		Ramlakhan S/o Ramanjor R/o Abhiyankala
			502	Private	Agriculture	0.1550		Sursati W/o Ramyagya Dubey R/o Village
			503	Private	Agriculture	0.1081		Patiram S/o Nohari, Jiyalal Rammagan S/o Budhiram R/o Village
			504 E	Private	Agriculture	0.0792		Ramkhelawan S/o Jethu, Kamla Devi W/o Ramkhelawan R/o Budhpur
			504	Private	Agriculture			Ramcharan Ramgarib S/o Bhagauti, Babulal Kallu S/o Ramdas, Ramsanehi Nihut Motilal S/o Chaitu R/o Village
			505	Private	Agriculture	0.2456		Shivkaran S/o Ramdin R/o Village
			506	Private	Agriculture	0.2073		Omprakash S/o Krishankumar R/o Village
			728/111 7	Private	Agriculture	0.0137		Devdatt Devendranath S/o Ramprasad, Kapildev S/o Devchandra, Ushadevi W/o Lt. Devchandra R/o Abhiyankala
			506/111 8	Private	Agriculture	0.0127		Ramvishal Omprakash S/o Shyamkaran, Smt. Rajpati Devi W/o Prabhat Kumar Shukl, Kamlesh Chandra Akhilesh Chandra S/o Shyamkaran, Gokaran S/o Ramdin, Shyamkaran S/o Krishnanand, Shivkaran S/o Ramdin, Mithlesh Chandra S/o Shyamkaran, Ramujagir S/o Krishnanand, Rammurat S/o Ramkumar, Phoolan Devi W/o Ramnath R/o Village
			731	Private	Agriculture	0.0692		Civil Sarjan urf Omprakash S/o Matafer R/o Village, Smt. Neelam Singh W/o Chandrakumar Singh R/o Village Varui, Smt. Vidha Mishra W/o Shriram Mishr R/o Lodipur
			732	Private	Agriculture	0.0513		Omprakash Jaiprakash S/o Jokhai, Phoolmati W/o Lt. Jokhai R/o Village
			733	Private	Agriculture	0.2302		Mataprasad S/o Ramrajmurkh, Sannrakshak Anantram S/o Mataprasad R/o Village
			736	Private	Agriculture	0.0514		Jhagaru Dhani Ganpati S/o Kirachi urf

								Munesar R/o Village
			737	Govt.	Banzer	0.1230		Govt. of Uttar Pradesh
			738	Private	Agriculture	0.0310		Surendranath S/o Rambahor, Himanshudhar Shitashudhar S/o Shitashudhar, Mayankdhar S/o Shashinath, Mallika Devi W/o Shashinath R/o Jhavvara, Radhakrishan S/o Jagmohan, Harinath Kedarnath S/o Ramnaresh R/o Abhiyankala, Gaurishankar Bholanath S/o Vishambhar nath, Brajendra Kumar Ramavadh Karunesh S/o Bhagwat Prasad, Keshavram Duddan Magan Sanad Kumar Rajkumar S/o Shivmurat R/o Jhavvara, Shailendra Jitendra Bhupendra S/o Rajendra nath and Smt. Janki W/o Lt. Rajendra Nath R/o Jhavvara, Sarvesh Tripathi S/o Umanath and Smt. Kamla devi W/o Lt. Umanath R/o Jhavvara
			739 E	Private	Agriculture	0.3501		Rambharos S/o Ramkhelawan R/o Village
			739 E	Govt.	New Land			Govt. of Uttar Pradesh
			739 E	Private	Agriculture			Dukhi S/o Khedu R/o Village
								Kesh kumar Kalsa S/o Ramkhelawan, Pawan kumar Mangal prasad S/o Lt. Ramadhar, Smt. Dailasha Devi W/o Lt. Ramadhar R/o Vaini Prg. Chanda and Munnalal S/o Ramharakh R/o Village Devri Puranpur Prg. Chanda Teh. Lambhua
			743	Govt.	Road	0.0107		Govt. of Uttar Pradesh
			744	Private	Agriculture	0.1361		Gayaprasad S/o Ramlakhan R/o Village
			745	Private	Agriculture	0.2230		Matadin Ramkewal S/o Bachcha, Sukairam S/o Matadin R/o Village
			753	Private/ Govt.	Agriculture/ Non Agriculture	0.0880		Rambharose S/o Ramkhelawan R/o Village & Banzar, Govt. of Uttar Pradesh & Gair Mumkin, Govt. of Uttar Pradesh
			754	Govt.	Non Agriculture	0.1436		Govt. of Uttar Pradesh
			756/ 1131	Private	Agriculture	0.0401		Mayankdhar S/o Shashinath, Mallikadevi W/o Shashinath R/o Jhavvara
			<b>Total</b>			<b>5.2121</b>		
		<b>(8) Tikri Parna</b>	61	Private	Agriculture	0.0151		Smt. Abhiraji W/o Mataprasad R/o Village
			62	Private	Agriculture	0.0741		Awnishkumar Greeskumar S/o Mahaveer R/o Village
			73 E	Private	Agriculture	0.0237		Smt. Jaggi W/o Prithwipal R/o Village
			73 E	Govt.	New Land			Govt. of Uttar Pradesh
			74	Govt.	Way	0.0021		Govt. of Uttar Pradesh
			81	Private	Agriculture	0.0902		Kedarnath S/o Ambikaprasad Ramcharitra Ramshiromani Manojkumar Pradipkumar S/o Karamraj Ramasre S/o Ramadhar Vijaykumar S/o Karamraj Ramlakhan Pandey S/o Jokharam Pandey R/o Salahpur Triveniprasad Singh S/o Rambodh Singh Ashokkumar Singh S/o Matafer Singh R/o Babhangavan Rajendraprasad Mishra S/o Shivkumar mishra R/o Lodipur Laljibaranwal R/o Village Triveniprasad Singh S/o Rambodh Singh R/o Babhangavan Vimladevi W/o Ramashankar Tiwari R/o Saraiyaambar Singh Krishnadev Vijaybahadur S/o Ramabhilakh Jankidevi W/o Late Ramabhilakh R/o Village Rambodh Chhotelal s/o Badarinarayan Parasnath Bharatram Ramshabd S/o Ramdev Maniklal S/o Ramprasad Umashankar Shivshankar Premshankar Jaishankar s/o Salikram Ramkalap Ramdular Ramawadh Ramkripal S/o Ramjas Ramchandar S/o Ramraj Taradevi W/o Harishankar Pandey R/o village
			82	Private	Agriculture	0.0448		Hiralal Achelal Motilal Ramsagar Jairam S/o Dargahi R/o Umapur
			581	Govt.	Nali	0.0041		Govt. of Uttar Pradesh
			583	Private	Agriculture	0.0295		Smt. Rajdei W/o Shivram, Bhardwaj S/o

								Ramkhelawan, Ramhit S/o Jagesar R/o Village
			584	Private	Agriculture	0.0284		Sandeep Kumar Kapil Kumar Ashish Kumar S/o Rmashankar, Gujratidevi W/o Lt. Rmashankar R/o Village
			585	Private	Agriculture	0.1875		Ramkaran Ramvahal S/o Ramadhar, Krishnadev Vijaybahadur S/o Ramabhilakh, Jaankidevi W/o Lt. Ramabhilakh R/o Village
			586	Private	Agriculture	0.0157		Shrinath S/o Rambaran, Pradeepkumar Minor 14 years S/o Hariram Guardian Amrawati Mata, Smt. Amrawatidevi W/o Lt. Hariram, Rambahore S/o Ramcharan R/o Village
			587	Private	Agriculture	0.0410		Ramashankar S/o Raghuraj, Rajkishore S/o Kamlaprasad, Smt. Vidyadevi W/o Lt. Kamlaprasad R/o Village
			588	Private	Agriculture	0.0310		Sandeepkumar Kapilkumar Ashishkumar S/o Ramashankar, Gujratidevi W/o Ramashankar R/o Village Radheshyam Ghanshyam S/o Pragdin
			589	Govt.	Way	0.0032		Govt. of Uttar Pradesh
			590	Govt.	Road	0.0023		Govt. of Uttar Pradesh
			592	Private	Agriculture	0.0450		Ramaasre S/o Sobhanath R/o Village
			593	Govt.	Road	0.0219		Govt. of Uttar Pradesh
			594	Private	Agriculture	0.0250		Ramkripal S/o Jaikaran, Ramsaran S/o Balikaran, Ramsajan Rammilan S/o Vijay, Smt. Sursati W/o Lt. Vijay R/o Village
			595	Govt.	Road	0.0130		Govt. of Uttar Pradesh
			596 B	Private	Agriculture	0.0219		Badrivishal Bhardwaj Chandrabhan Ramdutt S/o Ramkhelawan, Rikhiram S/o Gangaprasad, Durvasaprasad Bhagwanprasad Ramnayak Rajdei S/o Shivram R/o Village
			596 A	Private	Agriculture			Ramaasre Shriram S/o Sobhanath, Ashokkumar Virendrakumar Devendra Kumar S/o Bedprakash R/o Village
			597	Private	Agriculture	0.0094		Vishunath S/o Ramesar Prasad R/o Bhadeiya
			598	Private	Agriculture	0.0125		Vishunath S/o Ramesar Prasad R/o Bhadeiya
			603	Govt.	Road	0.0038		Govt. of Uttar Pradesh
			608	Private	Agriculture	0.0333		Sonu S/o Shrivath, Shriram Shrinath S/o Ramsahai R/o Village
			609	Private	Agriculture	0.0190		Ramashankar S/o Raghuraj, Rajkishore S/o Kamlaprasad, Smt. Vidyadevi W/o Lt. Kamlaprasad R/o Village
			610	Private	Agriculture	0.0092		Badriprasad S/o Ramsahai R/o Village
			612	Govt.	Road	0.0138		Govt. of Uttar Pradesh
			613 A	Private	Agriculture	0.0260		Kedarnath Onkarnath S/o Mahaveer, Ramsuresh S/o Muktnath R/o Bhadeiya
			613 B	Private	Agriculture			Sureshchand S/o Muktnath, Satyanarayan S/o Punpun R/o Bhadeiya
			616 B	Private	Agriculture	0.0328		Rajendra S/o Udayraj R/o Village Ramcharitra Ramshiromani Vijay Kumar Manoj Kumar Pradip Kumar s/o Karamraj
			616 A	Private	Agriculture			Kedarnath S/o Ambika Prasad R/o Village Rambodh Chhotela S/o Badarinarayan
			617	Govt.	Banzer	0.0333		Govt. of Uttar Pradesh
			624	Private	Agriculture	0.0130		Devdutt S/o Ramharakh R/o Purebagharai, Ramnewaj S/o Sahodar R/o Village
			625	Govt.	Banzer	0.0090		Govt. of Uttar Pradesh
			626	Govt.	New Land	0.0062		Govt. of Uttar Pradesh
			637	Govt.	Road	0.0035		Govt. of Uttar Pradesh
			1266	Private	Agriculture	0.0110		Ramachhevar Ramajor Ramasre S/o Bhawanidatt R/o Village
			1266 A	Private	Agriculture			Ajaykumar S/o Chedi, Dhapatti W/o Lt. Chedi, Adesh, Adarash & Aaditya Minor age 6, 4, 2 yrs S/o Vijaykumar Gardian Sheeladevi Mata, Sheeladevi W/o Lt. Vijaykumar R/o Village
			1266 B	Private	Agriculture			Ramnarayan S/o Sukhu, Ramakbal Ramakant S/o Pandohi, Pawankumar Adoptd Bhawanibaks R/o Village, Smt. Jaanki W/o Ramjas D/o Rampal R/o Basahu, Smt.

								Sumitra W/o Manojkumar D/o Rampal R/o Payagipur, Smt. Nirmaladevi W/o Banwari Prasad R/o Bhadaiya
			1263	Private	Agriculture	0.0012		Gayadeen S/o Mahadev R/o Village
			1262 B	Private	Agriculture	0.0204		Anilkumar Pradeep kumar Sudhir kumar S/o Vishambharnath R/o Village
			1262	Private	Agriculture			Shivkumar S/o Ramlallan, Smt. Karmadevi W/o Maniklal R/o Village
			1262 B	Private	Agriculture			Savit Ali Imtaj Ali S/o Jaan Mohammad, Mohd. Mohayaddin S/o Parideen, Mohd. Shakil Mohd. Hafij Mohd. Irsad S/o Mohd. Munir Ahmed, Mohd. Rauf Mohd. Ayub Mohd. Maaruf S/o Mohd. Rojai R/o Village
			1262 A	Private	Agriculture			Munir ahmed Abdul Shakur R/o Village
			1077	Govt.	Aabadi	0.0736		Govt. of Uttar Pradesh
			1076	Private	Agriculture	0.0047		Maniklal S/o Girdhari R/o Village
			1075	Private	Agriculture	0.0007		Maniklal S/o Girdhari R/o Village
			1069 A	Private	Agriculture	0.0402		Ramkripal Maaniklal S/o Girdhari R/o Village, Smt. Heerawati Devi W/o Adyaprasad Pandey R/o Jagdishpur
			1069 B	Private	Agriculture			Suleman S/o Yakub R/o Bhadeiya
			1068	Private	Agriculture	0.0024		Suleman S/o Yakub R/o Bhadeiya
			1268	Private	Agriculture	0.0030		Siyaram Shriram Ramphool S/o Gangadin R/o Village
			1269	Private	Agriculture	0.0130		Tribhuwan Brahamdev S/o Ramlakhan, Ramvilash Dubey Divakar S/o Radheyshyam, Smt.Genadevi W/o Lt.Radheyshyam R/o Village
			1270	Private	Agriculture	0.1613		Tribhuwan Brahamdev S/o Ramlakhan, Ramvilash Dubey Divakar S/o Radheyshyam, Smt.Genadevi W/o Lt.Radheyshyam R/o Village
			1273	Private	Agriculture	0.2429		Siyaram Shriram Ramphool S/o Gangadin R/o Village
			1274	Private	Agriculture	0.0188		Badrivishal Bhardwaj Chandrabhan Ramdutt S/o Ramkhelawan, Rikhiram S/o Gangaprasad, Durvasaprasad Bhagwanprasad Ramnayaak Rajdei S/o Shivram R/o Village
			1275	Private	Agriculture	0.0130		Ramdular Jagannath S/o Bhagirathi R/o Village, Lalbahadur S/o Ramsamujh R/o Raychandpur, Krishankumar Vinodkumar S/o Chingan R/o Village, Adyaprasad S/o Brahmdeen R/o Chachpara, Badka urf Kailasi W/o Ramdular, Parasnath S/o Ramdev R/o Village, Hirawati W/o Aadyaprasad R/o Chachpara
			1276	Private	Agriculture	0.1010		Shyamlal S/o Ramsumer, Smt.Mohini W/o Lt Ramsumer R/o Village
			1277	Private	Agriculture	0.1450		Jaybahadur S/o Sahdevsingh, Vishwaprakash S/o Sarjuprasadsingh, Mahendrapratapsingh Rajendra Pratap S/o Tejbahadur, Pankaj Kumar S/o Virendra Pratapsingh, Surendrapratapsingh Kaushalendrapratapsingh Shailendrapratapsingh S/o Gangaprasadsingh, Chakrwati W/o Jitendrapratapsingh R/o Pakhroli, Awnishkumarsingh S/o Dhirendrapratapsingh, Smt. Sunita Singh W/o Lt Dhirendrapratapsingh R/o Village Pramila Singh w/o Avnish Kumar Singh
			1278	Private	Agriculture	0.0397		Smt. Shakuntala Devi W/o Shivmurati R/oSiptapur
			1279	Private	Agriculture	0.0023		Smt. Shakuntala Devi W/o Shivmurati R/oSiptapur
			1290	Govt.	Road	0.0077		Govt. of Uttar Pradesh
			1291	Private	Agriculture	0.0827		Ribairam S/o Bahau, Ramakbal Ramakant S/o Pandohi R/o Village
			1291/ 1818	Private	Agriculture			Ramgopal S/o Lahuri R/o Village
			1291/	Private	Agriculture			Smt. Phoolpatti D/o Jhangai W/o Hardev

			1818				Rana, Munnar S/o Hairani R/o Village
			1292 E	Private	Agriculture	0.0720	Ramfer S/o Mohan R/o Village
			1292	Private	Agriculture		Ramsaran S/o Balikaran & Ramsajan Rammilan S/o Vijay & Smt. Soorsati W/o Lt. Vijay R/o Village
			1293	Private	Agriculture	0.0106	Nandlal Sheetla Prasad S/o Gokulprasad R/o Village, Vidhyadevi W/o Brindavan Tiwari R/o Saraiya Ambarsingh
			1294	Private	Agriculture	0.0130	Rambodh Rampher S/o Ramajore, Pradeepkumar Jagdishprasad Rajeshkumar S/o Jeetlal, Smt. Kaminidevi W/o Lt Jeetlal, Indraj Udayraj S/o Gokulprasad R/o Village
			1295	Govt.	New Land	0.0800	Govt. of Uttar Pradesh
			1295 E	Private	Agriculture		Pawan Kumar Minor 11 years S/o Raghunath Guardian District Magistrate Sultanpur R/o Village
			1299	Private	Agriculture	0.1665	Anirudh Ramujagir Dayaram S/o Kashiram, Jagannath S/o Ramlakhan, Rajpati W/o Kashiram R/o Abhiyakalan
			1300	Private	Agriculture	0.0070	Ramnarayan S/o Sukhu, Ramakbal Ramakant S/o Pandohi, Shatrudhan Yadav S/o Ramnarayan R/o Village, Smt. Jaanki W/o Ramjas D/o Rampal R/o Bashu Teh. Amethi, Smt. Sumitra W/o Manojkumar D/o Rampal R/o Payagipur
			1301	Private	Agriculture	0.0060	Rammanohar S/o Mahadev R/o Village
			1302	Private	Agriculture	0.0296	Ramkaran Ramvahal S/o Ramadhar, Krishnadev Vijabahadur S/o Ramabhilakh, Jankidevi W/o Ramabhilakh R/o Village
			1303	Private	Agriculture	0.2095	Kedarnath S/o Ambikaprasad, Ramcharitra Ramshiromani S/o Karamraj, Ramaasre S/o Ramdhani, Vijaykumar Manojkumar Pradeepkumar S/o Karamraj R/o Village, Smt. Kusuma Pandey W/o Pradeepkumar Pandey R/o Suroli, Smt. Karmavati urf karmadevi W/o Ramkumar R/o Bharthipur, Smt. Kalawati W/o Shivprasad Pandey R/o Raychandpur, Smt. Rita Tiwari W/o Shivkamal Tiwari, Smt. Kirti Tiwari W/o Rajkamal Tiwari R/o Bhawangavan, Vijaylaxmi W/o Dayakant Dubey R/o Village, Vimladevi W/o Gokulprasad Dubey R/o Gangapur Kusum Devi W/o Jawahir Kamala Prasad Ramashankar S/o Raghuraj Rambodh Chhotelal s/o Badarinarayan Vijay Laxami w/o Dayakant Kamla Devi W/o Badelal Kausal
			1304 E	Private	Agriculture	0.0033	Pudan S/o Ramdeen R/o Village
			1304 E	Private	Agriculture		Ramlaut S/o Jhuni, Shekhairam Rambadan S/o Rambahore, Smt. Karmadevi W/o Lt. Rambahore R/o Village
			1306	Private	Agriculture	0.0833	Sandeep Kumar Kapil Kumar Ashish kumar S/o Rmashankar, Gujratidevi W/o Lt. Rmashankar, Rameshkumar Sureshkumar S/o Karsan Prasad, Dineshkumar S/o Karsanprasad, Shivkumar Rajkumar Basantkumar S/o Gherrau R/o Village, Pradeepkumar S/o Ganeshlal Sahu R/o Narendapur Radheshyam Ghanshyam S/o Paragdin
			1307	Private	Agriculture	0.0878	Rameshkumar Sureshkumar Dineshkumar S/o Karsan Prasad R/o Village
			1653	Govt.	Road	0.0264	Govt. of Uttar Pradesh
			1654	Private	Agriculture	0.0190	Ramasre S/o Shobhnath R/o Village
			1661	Private	Agriculture	0.0432	Rudrapratapsingh Vijaypratapsingh Rajendraprasad Singh S/o Jagdishpradsingh, Pawanvikram Ajayvikram S/o Bhanupratapsingh, Smt. Kusum Singh W/o Lt. Bhanupratapsingh R/o Chachpara
			1662	Govt.	Nali	0.0049	Govt. of Uttar Pradesh
			1663	Private	Agriculture	0.0355	Jagdish Prasad Singh S/o Ramdular Singh R/o

								Bhadaiya
			1664 E	Private	Agriculture	0.0630		Kariya S/o Nohar R/o Village
			1665	Private	Agriculture	0.0060		Smt. Kusumdevi W/o Jawaharlal urf Changu R/o Village
			1666	Private	Agriculture	0.0412		Ramtirath S/o Shriram, Smt. Kusum Devi W/o Jawaharlal urf Changu R/o Village
			1667	Private	Agriculture	0.0067		Gangaprasad Jamunaprasad Triveniprasad Sarju prasad S/o Changu, Smt. Kusumdevi W/o Lt Changu R/o Village
			1670	Govt.	Nali	0.0057		Govt. of Uttar Pradesh
			1672	Private	Agriculture	0.1832		Karamraj Rajendra S/o Udayraj R/o Village
			1673	Govt.	Way	0.0080		Govt. of Uttar Pradesh
			1677	Private	Agriculture	0.0286		Karamraj Rajendra S/o Udayraj R/o Village
			1678	Private	Agriculture	0.2417		Rikhiram S/o Gangaprasad, Bhagwanprasad Ramnaya Rajdei S/o Shivram R/o Village, Smt. Anita Tiwari W/o Sampooranand Tiwari R/o Pakhroli Present R/o Tikariparna, Smt. Jhinkali W/o Omprakash Yadav R/o Village
			1691	Private	Agriculture	0.0067		Ramsahay S/o Pale, Pawan Kumar Mangla prasad S/o Ramadhar, Smt. Kailashidevi W/o Lt. Ramadhar R/o Village, Shivchandra Sureshchandra Rameshchandra S/o Bhagelu R/o Dubeypur
			1692	Private	Agriculture	0.0214		Umakant S/o Ramshiromani R/o Village, Devdutt S/o Ramharakh R/o Purevaghay, Ashokkumar S/o Devnarayan R/o Bhawangavan, Kamlaprasad Pandey S/o Ramshankar Pandey, Laltaprasad Mishra S/o Keshavprasad Mishra
			1694 E	Private	Agriculture	0.0042		Krishnaprasad S/o Ramlal R/o Bhadaiya
			1694 E	Private	Agriculture			Kamlaprasad S/o Raghuraj R/o Village
			1694 E	Private	Agriculture			Raghav Ram S/o Bhagauti Prasad Tiwari R/o Babhangavan, Suryanarayan S/o Mahaveer R/o Salahpur, Smt. Sumitradevi W/o Ramchandra, Smt. Sobha Devi W/o Krishanchand Pandey R/o Bhadaiya
			1695	Private	Agriculture	0.0166		Ramaasre Shriram S/o Sobhnath, Ashokkumar Virendra kumar Devendra kumar S/o Bedprakash R/o Village
			1696	Private	Agriculture	0.0079		Kamlaprasad Ramashankar S/o Raghuraj R/o Village
			1697 A	Private	Agriculture	0.0028		Brajendranath Rajendranath Upendranath Rakesh Surendranath S/o Bhagwatprasad R/o Village
			1697 B	Private	Agriculture			Bholaprasad Tiwari S/o Mahadev Tiwari R/o Bhawangavan
			1722	Govt.	Aabadi	0.0023		Govt. of Uttar Pradesh
			1723	Govt.	Aabadi	0.0209		Govt. of Uttar Pradesh
			1724	Private	Agriculture	0.0018		Kallan Kyum S/o Mustkim R/o Village
				<b>Total</b>		<b>3.4947</b>		
		<b>(9) Badhaiya</b>	212	Private	Agriculture	0.0047		Mohd. Idrish Mohd. Musaq Mohd. Iqbaal S/o Abdul Mazid R/o Panna Tikari
			213	Govt.	Aabadi	0.0020		Govt. of Uttar Pradesh
			214	Private	Agriculture	0.0008		Parasnath S/o Balgovind R/o Tikatiparna
			215 A	Private	Agriculture	0.0010		Shivmurti Ramsurti Harinarayan jaynarayan S/o Shriram R/o Village
			215 B	Private	Agriculture			Indraraj Udayraj s/o Gokul Prasad
			216 A	Private	Agriculture	0.0018		Smt. Chandrakali W/o Jagdishbahadur Singh R/o Chachpara
			216 B	Private	Agriculture			Gokulprasad S/o Baliraj R/o Tikari Parna
			217	Private	Agriculture	0.0036		Smt. Chandrakali W/o Jagdishbahadur Singh R/o Chachpara
			218	Govt.	Road	0.0004		Govt. of Uttar Pradesh
			219	Private	Agriculture	0.0011		Ramautar S/o Bideshi R/o Sakva, Smt. Nirmala Devi W/o Jagdev Prasad, Maalti Devi

								W/o Ramsumer, Kaaliprasad Kanhailal Maniram S/o Mewalal R/o Salahpur
			232	Private	Agriculture	0.0184		Rameshkumar Maheshkumar Minor 13 years Ganeshkumar Minor 10 years S/o Shriram Gaurdian Karmadevi Mother R/o Village
			236	Govt.	Aabadi	0.0360		Govt. of Uttar Pradesh
			237	Private	Agriculture	0.0280		Tadaknath S/o Ramnihore, Rmaesh Kumar Shriram Mahesh Kumar Ganesh Kumar minor 15 yrs S/o Shriram Guardian Karma Devi mother R/o Village
			238	Private	Agriculture	0.0740		Bharatlal Gayaprasad Smt. Nirmal Singh W/o Randhir Singh R/o Village Sunchita Singh W/o Musafir Singh Shivkumar Yadav S/o Mehandi Ramdayal Yadav Radha Devi W/o Ramlaut Renu Devi W/o Jaiprakash Reeta Devi w/o Bhanuprakash Geeta Devi W/o Vedprakash D/o Jawahir Lal
			239	Private	Agriculture	0.0428		Smt. Savitadevi W/o Arvindkumargupta R/o Village Jiyalal s/o Pakai Madhuri W/o Ramnaresh Yadav
			250	Govt.	Road	0.0042		Govt. of Uttar Pradesh
			260	Private	Agriculture	0.0451		Gangaprasad S/o Padri R/o Village
			261	Govt.	Nala	0.0058		Govt. of Uttar Pradesh
			262	Govt.	Road	0.0030		Govt. of Uttar Pradesh
			263	Private	Agriculture	0.0437		Bajrangbali Brahmdev Indradev S/o Maharajdeen R/o Village Lalti Devi W/o Rajit Ram
			265	Private	Agriculture	0.0335		Gomati Prasad S/o Tibhupal R/o Village
			268	Govt.	Pond	0.0255		Govt. of Uttar Pradesh
			269	Private	Agriculture	0.0553		Indrajeet Singh Adopt S/o Hubraji Widow W/o Trivenisingh, Jagdishprasadsingh S/o Ramcharan, Jaikrishan S/o Ramadhar R/o Village Horilal adult Sant Kumar Dilip Kumar minor 15, 14 yrs Guardian Prema devi self s/o Bhandari Prema devi W/o Bhandari
			270	Private	Agriculture	0.0175		Sunil Kumar Singh S/o Surju, Rajeshkumar S/o Ashokkumar, Anilkumar Sunil Kumar S/o Surju, Indrapal Singh S/o Fatehbahadur Singh R/o Village
			271	Private	Agriculture	0.0045		Sunil Kumar Singh S/o Surju, Rajeshkumar S/o Ashokkumar, Anilkumar Sunil Kumar S/o Surju, Indrapal Singh S/o Fatehbahadur Singh R/o Village
			274	Private	Agriculture	0.0441		Sheetla prasad Lalchandra Subhash chandra Premchandra S/o Jagannath R/o Village
			275	Private	Agriculture	0.0325		Gangaprasad Jamunaprasad S/o Ramabhilakh, Smt. Prabhawati devi W/o Krishanprasad, Rajesh kumar Ramesh kumar Sukhdev S/o Krishanprasad, Brijbhushan Chandrapratap S/o Arjunprasad R/o Village
			362	Private	Agriculture	0.0020		Shriram S/o Brajlal R/o Village
			363	Private	Agriculture	0.0271		Shriram S/o Brajlal R/o Village
			364	Private	Agriculture	0.0225		Hardaynarayan Indrajeet S/o Ramaasre, Ramadhar S/o Dukhi R/o Village Rajaram Rambabu Anil S/o Bhagwandin Vishwadevi w/o Bhagwandin Ramsagar Sachin S/o Ramkishun Shanti Devi W/o Ramkisun Dhiraj Kumar Niraj Kumar S/o Balkishan Bhola Devi W/o Balkishan R/o village
			365	Private	Agriculture	0.0098		Indrajeet Singh Adopt S/o Hubraji Widow W/o Trivenisingh, Jagdishprasadsingh S/o Ramcharan, Jaikrishan S/o Ramadhar R/o Village Horilal adult Sant Kumar Dilip Kumar minor 15, 14 yrs Guardian Prema Devi self S/o Bhandari Prema Devi W/o Bhandari
			366	Govt.	Road	0.0034		Govt. of Uttar Pradesh
			367	Private	Agriculture	0.0273		Rampiyare Ramkishore Ramnihore Ramajore Rampal S/o Ramlaut R/o Village
			368	Private	Agriculture	0.0065		Ramkewal urf Tibhu S/o Phali, Shushiladevi W/o Babulal, Lalti Devi W/o Dukhi R/o

								Village
			369	Private	Agriculture	0.0048		Gopal Lalchandra S/o Ramkewal R/o Village
			370	Private	Agriculture	0.0061		Krishankumar Ramkumar S/o Tribhuvandutt Pandey R/o Village
			371	Private	Agriculture	0.0052		Sureshkumar S/o Moolchandra R/o Village
			372	Private	Agriculture	0.0028		Ramkripal urf Ramjanak Suryan S/o Ramdev R/o Village
			430	Private	Agriculture	0.0057		Ashok Kumar S/o Rajkaran R/o Mishrapur
			431	Private	Agriculture	0.0137		Vinod Kumar Singh Pramod Kumar Singh Dilip Kumar Singh S/o Tejbahadur Singh R/o Village
			433	Private	Agriculture	0.0011		Vinod Kumar Singh Pramod Kumar Dilip Kumar Singh S/o Tejbahadur Singh, Virendra Kumar Jitendra Kumar Singh S/o Shyam Bahadur Singh, Satish Kumar Singh S/o Krishan Bahadur Singh R/o Village Santosh Kumar Singh Arun Kumar Singh Mahesh Kumar Singh S/o Ravindra Kumar Singh Ramdulari W/o Ravikumar Singh
			443	Private	Agriculture	0.0362		Vinod kumar Singh Pramod kumar Singh Dilip Kumar Singh S/o Tejbahadur Singh R/o Village
			1363	Private	Agriculture	0.0310		Gangaprasad Jamunaprasad S/o Ramabhilakh R/o Village
			1364	Private	Agriculture	0.0669		Gangaprasad Jamunaprasad S/o Ramabhilakh R/o Village
			1365	Private	Agriculture	0.0271		Mohd. Aarif S/o Dargahi, Mohd. Rauf S/o Razzak, Sabbir Saadi Bipat S/o Hasnu R/o Village
			1366	Private	Agriculture	0.0256		Laxminarayan Shivkumar Sanjaykumar S/o Premchandra R/o Village
			1367	Private	Agriculture	0.0056		Laxminarayan Shivkumar Sanjaykumar S/o Premchandra R/o Village
			1368	Govt.	Aabadi	0.0197		Govt. of Uttar Pradesh
			1371	Govt.	New Land	0.0024		Govt. of Uttar Pradesh
			1376	Private	Agriculture	0.0056		Achhelal Rajeshkumar S/o Premchand R/o Village
			1377	Private	Agriculture	0.0005		Mohd. Aarif S/o Dargahi, Mohd. Rauf S/o Razzak, Sabbir Saadi Bipat S/o Hasnu R/o Village
			1378	Private	Agriculture	0.0128		Mohd. Aarif S/o Dargahi, Mohd. Rauf S/o Razzak, Sabbir Saadi Bipat S/o Hasnu R/o Village
			1414	Private	Agriculture	0.0955		Ganpati S/o Kirachi, Ramsukh S/o Saraju, Kohram Hosilaprasad Rambodh Ramharakh S/o Ramlakhan, Smt. Moolwati W/o Bairagi R/o Village
			1429	Govt.	Road	0.0075		Govt. of Uttar Pradesh
			1430	Private	Agriculture	0.0569		Mohd. Mobin S/o Sahadutt R/o Village, Ismuddin S/o Hanifshah R/o Khudauli
			1431	Private	Agriculture	0.0207		Mendai urf Medhai S/o Karamat R/o Village
			1432	Private	Agriculture	0.0176		Saroj Singh w/o Satish Chandra Singh
			1433	Private	Agriculture	0.0263		Sohrab S/o Yaasin R/o Village
			1434	Govt.	Road	0.0053		Govt. of Uttar Pradesh
			1435	Private	Agriculture	0.0207		Abdul Rehman S/o Sattar R/o Village
			1438	Private	Agriculture	0.0950		Mohd. Rafiq Mohd. Rashid Mohd. Latif S/o Mohd. Hanif R/o Village
			1439	Private	Agriculture	0.0502		Ramasre S/o Ramnareshlal R/o Village
			1441	Private	Agriculture	0.0662		Radheyshyam S/o Kedarnath, Kailashnath S/o Jaisukh, Smt. Chandrawati W/o Lt Jaysukh, Satishkumar S/o Shobhnath, Kamladevi W/o Lt Shobhnath, Divakarprasad S/o Kaalu R/o Village
			1442	Private	Agriculture	0.0696		Awdeshkumar S/o Udayraj, Chawiraji W/o Jagarnath, Suryanarayan Harikesh Ketak Kumar S/o Aparval Singh, Sureshkumar Rakesh kumar S/o Amarpal, Chandrabhushan Shashibhushan S/o Rajpati, Ravindra Pratap Virendrapratap Indrapal Singh Rajbahadur



							Singh Narendrabahadur S/o Ramdevsingh, Indarpal S/o Fatehbahadur Singh, Shailendra Pratap Singh Minor 17 years S/o Indrapal Singh Gaurdian Savitri Devi, Lakhraj Singh Rajeshwari Prasad singh Viijaypal Singh Jaigopal Singh S/o Rambahadur Singh Rayjanak Mishra Rajabali Mishra S/o Keshavprasad Mishra Lakhraj Singh Rajeshwari Prasad Singh Viijaypal Singh Jaigopal Singh S/o Rambahadur Singh Jaiprakash Radheshyam Singh S/o Angad Singh Thuri Singh W/o Angad Singh
			1443	Govt.	Banzer	0.0283	Govt. of Uttar Pradesh
			1444 B	Private	Agriculture	0.0060	Satyanarayan Singh Rajkaran Singh Umashankar Singh S/o Sitaram Singh Ramsingh Sukhmangal Singh S/o Mahadev Singh Radheshyam Mataprasad Deviprasad Bhavaniprasad Ramsanmukh S/o Harinandan Chandrabhushan Singh Shashibhushan S/o Rajpati Singh Rambahadur Singh Satyanarayan Singh Suryanarayan Singh Harikesh Singh Ketak kumar Singh S/o Aparpal Singh Anagd Singh S/o Lalbahadur Singh Sureshkumar Singh Rakeshkumar Singh S/o Amarpal Singh Indrapal Singh S/o Fatehbahadur Singh Rampratap Pandey Brajendra Pratap Panday S/o Radheshyam Pandey R/o Village
			1445	Private	Agriculture	0.0256	Satyendra prakash Gunendra prakash Bhashkarendra prakash S/o Radheshyam R/o Village
			1446	Private	Agriculture	0.0219	Siyaram S/o Badali, Manojkumar Sushilkumar Deepakkumar S/o Ramajore, Smt.Meenakumari W/o Ramajore R/o Village Premchandra S/o Jiyawan Bhagelu
			1455	Private	Agriculture	0.0680	Onkarnath S/o Mahaveer, Sureshchandra S/o Muktnath, Harishchandra Premchandra Gulabchadra S/o Kedarnath R/o Village
			1459 A	Private	Agriculture	0.2136	Mataprasad S/o Harinandan R/o Village
			1459 B	Private	Agriculture		Ravindranath S/o Jagai, Samarjeet Amarjeet Sabhajeet S/o Parasnath, Jayakaladevi W/o Parasnath R/o Village
			2535	Private	Agriculture	0.1573	Vijaykumar Dineshkumar S/o Shivmurti, Rammurti Ramajore Ramchandra Krishanchandra S/o Gayaprasad R/o Village
			2538	Private	Agriculture	0.1689	Babulal S/o Jhuri R/o Village, Shivprasad Baijnath Prannath S/o Tidi R/o Dhanupur, Sushmadevi W/o Lalmani R/o Madanpur Paniyar, Vishwanath S/o Rampratap R/o Dhanupur
			2577 A	Govt.	Banzer	0.0178	Govt. of Uttar Pradesh
			2577 B	Private	Agriculture		Bhagni W/o Late Gangadin R/o Village
			2578 B	Private	Agriculture	0.0437	Tirathraj S/o Radheshyam R/o Village
			2578	Private	Agriculture		Laxminarayan urf Balli S/o Ramesar, Omprakash Vijayprakash S/o Kamta, Ramkewal Vishwanath Shivnath S/o Ramesar, Gautamkumar Mishra S/o Rajbahadur Mishra, Smt. Rekhadevi W/o Ravindrakumar, Smt. Mayadevi W/o Aatmalal, Smt. Sangitadevi W/o Rajmani R/o Village
			2579	Private	Agriculture	0.0716	Sunil Kumar adult Badari Prasad minor 16 yrs Ajay Shankar (mental) S/o Parasnath Dubey guardian Heerawati Devi W/o Heerawati Devi W/o Parasnath Dubey
			2586	Private	Agriculture	0.0380	Umesh Kumar Tiwari S/o Shivshyam Tiwari R/o Visava Parg. Baronsa
			2587	Private	Agriculture	0.1016	Vindeshwari Prasad S/o Shivcharan, Virendra Kumar Surendra kumar S/o Rampratap, Rakeshkumar Rajeshkumar S/o Radheshyam, Santoshkumar S/o Bhanupratap, Dukhna W/o Lt. Bhanupratap

								R/o Village
			2588	Private	Agriculture	0.1665		Smt. Geetadevi W/o Ayodhya Prasad R/o Barosa, Rameshkumar Rakeshkumar Suresh kumar Akhileshkumar S/o Nanakprasad R/o Shahpur haribansh
			3210	Private	Agriculture	0.0785		Babulal S/o Jhuri, Shivprasad Baijnath Prannath S/o Tidi R/o Village, Amarbahadur Singh Vimleshkumar Singh S/o Raghuraj Singh R/o Teryen, Ranjeetkumar Pandey S/o Kripashankar Pandey R/o Saraiya Pure Gautam
			3191	Private	Agriculture	0.2307		Anandkumarsingh Alokumar S/o Heerasahabsingh, Bishalkumarsingh Prakashsingh S/o Raysahabsingh, Raysahabsingh Heerasahabsingh S/o Danbahadursingh R/o Shivgarh prg Chanda
			3190 A	Private	Agriculture	0.0775		B.D.D.B Girls Collage Daanbahadur Nagar Badaiya Manager Raysahab Singh S/o Danbahadur Singh R/o Shivgarh
			3190 B	Private	Agriculture			Raysahabsingh Heersingh S/o Danbahadur Singh R/o Shivgarh
			3439	Private	Agriculture	0.0013		Jaiprakash Singh Radheshyam Singh S/o Angad Singh Dulari Singh W/o Angad Singh
			3438	Private	Agriculture	0.0069		Ragghu Ramkumar S/o Ramadhar R/o Parna tikari
			3437	Private	Agriculture	0.0029		Ashok Kumar S/o Devnarayan R/o Babhnagvan
			3418	Private	Agriculture	0.0640		Lakhraj Singh Rajeshwari Prasad singh Vijaypal Singh Jaigopal Singh S/o Rambahadur Singh R/o Village
			3405	Govt.	Nala	0.0051		Govt. of Uttar Pradesh
			3404	Private	Agriculture	0.0249		Bechu S/o Bagwanta R/o Village
			3403	Private	Non Agriculture	0.0060		Kamta Ramkewal S/o Ramesar, Ramkripal urf Ramjanak Suryabhan S/o Ramdev, Vishwanath Shivnath S/o Rameshwar, Brajlal S/o Muneshwar, Baburam Amarchand S/o Ramsewak, krishankumar Minor 15 years S/o Ramsewak Gardian Chameladevi Mother, Dilipkumar S/o Hazarilal, Pradipkumar Minor 12 years S/o Hazarilal Gardian Dilipkumar Brother Saga, Ramnaresh S/o Nageshwar, Bholanath Shyamlal Ramnath S/o Rampyare, Ramchandra S/o Ramjas, Keshavprasad S/o Ramgulam, Suryalal S/o Ramsahay, Harinarayan S/o Nandlal R/o Village
			3402	Private	Agriculture	0.0233		Sitaram S/o Ramakbal, Parasnath S/o Jagannath R/o Salahpur
			3401	Private	Non-Agriculture	0.0060		Gangaprasad Jamunaprasad S/o Ramabhilakh, Smt. Prabhawatidevi W/o Krishanprasad, Rajesh kumar Ramesh kumar Sukhdev S/o Krishanprasad, Brajbhushan Chandrapratap S/o Arjunprasad R/o Village
			3400	Private	Agriculture	0.3127		Smt. Shardadevi W/o Lalbhan Pratapsingh R/o Village Suman Baranbal W/o Dinesh Kumar Baranbal
			3399	Govt.	Road	0.0035		Govt. of Uttar Pradesh
			3398	Private	Agriculture	0.0405		Ramlakhan S/o Panchu, Shivmurti Rammurti Ramchandra Ramanjor Krishanchandra S/o Gayaprasad R/o Village, Bhaktraj S/o Rampratap R/o Kayamuddin
			3397	Private	Agriculture	0.0299		Premchandar Kaushal S/o Suryalal Kaushal R/o Village Ramlakhan W/o Panchu
			3396	Private	Agriculture	0.1548		Ramlakhan S/o Panchu, Bhaktraj S/o Ramprasad R/o Village
			3361	Govt.	Nala	0.0073		Govt. of Uttar Pradesh
			3352	Private	Agriculture	0.2046		Virendra Kumar Surendra kumar S/o Rampratap, Rakeshkumar Rajeshkumar S/o Radheyshyam, Santoshkumar S/o Bhanupratap, Dukhna W/o Lt. Bhanupratap R/o Village Jagdish Prasad S/o Bindeshwari

								Prasad
				3351	Private	Agriculture	0.0250	Kaalu singh S/o Budhu Singh, Fatehbadhur Singh Rambahadur S/o Kalusingh, Danbahadur Singh S/o Ramalakhan Singh, Samarbahadursingh S/o kaalu Singh R/o Village
				3350	Private	Agriculture	0.0110	Anwari Asgari S/o Mohd. Raja, Mohd. Idrish Mohd. Kayum Mustak Ahmed S/o Ayub, Jahil Jalil Jahir Shabbir S/o Khalil, Mohd. Israil Shamad Mohd. Razzak S/o Mohd. Ismail, Smt.Raisha W/o Lt. Mohd. Ismail R/o Village
				3349	Private	Agriculture	0.1058	Anwari Asgari S/o Mohd. Raja, Mohd. Idrish Mohd. Kayum Mustak Ahmed S/o Ayub, Jahil Jalil Jahir Shabbir S/o Khalil, Mohd. Israil Shamad Mohd. Razzak S/o Mohd. Ismail, Smt.Raisha W/o Lt. Mohd. Ismail R/o Village Gayatri Singh W/o Rambahadur Singh
				3347	Govt.	Pond	0.0797	Govt. of Uttar Pradesh
				3346	Private	Agriculture	0.0609	Awdesh kumar Singh S/o Udayraj Singh, Rananjay Singh S/o Brajraj Singh, Ravindra Pratap Singh Virendra pratap singh Satyendra Pratap Singh S/o Indrapal Singh, Suryanarayan Singh Harikesh Singh Ketak Singh Sureshkumar singh Rakesh kumar singh S/o Amarpal Singh Lakhraj Singh Rajeshwari Prasad singh Vijaypal Singh Jaygopal Singh S/o Rambahadur Singh, Indrapal Singh S/o Fatehbadhur Singh R/o Village Jaiprakash Singh Radheshyam Singh S/o Angad Singh Dulari W/o Angad Singh
				3345	Govt.	Nala	0.0334	Govt. of Uttar Pradesh
				3344	Private	Agriculture	0.0897	Fatehbadhur Singh S/o Kalu Singh R/o Village
				3343	Private	Agriculture	0.0270	Rajkumar S/o Sitaram R/o Village
				3282 E	Private	Agriculture	0.0520	Kripashankar S/o Jaynarayan R/o Village
				3281	Private	Agriculture	0.0060	Hanumandeen S/o Ramsamujh, Ravishankar Gayashankar S/o Sangam, Jayshankar Minor 17 years S/o Sangam Gardian Shantidevi Mother, Ganga Lallu S/o Jamuna, Premkishore S/o Jharihag urf Ramgulam R/o Village
				3280	Govt.	Khad Ka Gadda	0.0251	Govt. of Uttar Pradesh
				3276	Govt.	Road	0.0001	Govt. of Uttar Pradesh
				3275	Private	Agriculture	0.0160	Mohd. Aslam S/o Hayatahmed R/o Village
				3274	Private	Agriculture	0.0205	Satish kumar Singh S/o Krishanbahadur Singh R/o Village
				4675	Private	Agriculture	0.0433	Parasnath S/o Prabhu R/o Village
				4677	Govt.	Banzer	0.1196	Govt. of Uttar Pradesh
				4678	Private	Agriculture	0.1236	Ashok kumar Dineshkumar S/o Ramlakhan R/o Village
				4845	Govt.	Banzer	0.1614	Govt. of Uttar Pradesh
				4846	Private	Agriculture	0.0063	Saroj Singh W/o Satish Chandra Singh
				4853	Private	Agriculture	0.0085	Satyendraprakash Gunendraprakash Bhashkarendraprakash S/o Radheshyam, Shashi Kumar Lalitkumar Anilkumar Sushilkumar Nitinkumar S/o Raghouram, Premchand Ishwar chand S/o Ramdayal, Subhashchandra Vikaschandra S/o Tribhawanlal, Avinesh Sarbesh kumar S/o Chotelal, Ramkrishanlal S/o Shivsaranlal R/o Village Saroj Singh w/o Satish Chandra Singh
				4854	Govt.	Banzer	0.0695	Govt. of Uttar Pradesh
				4855	Private	Agriculture	0.0570	Rampal Garg s/o Guruprasad
				4856	Private	Agriculture	0.0607	Ramdular S/o Chitani, Smt. Jairaji W/o Chitani, Onkarnath Devnath S/o Ramsukh R/o Village
				4857	Private	Agriculture	0.0277	Brajendra Pratap Pandey s/o Radheshyam Pandey
				4858	Private	Agriculture	0.0221	Vrajendrapal Deepakpal S/o Hitlal, Kaushalya

								W/o Lt. Hitlal R/o Village
			4859	Private	Agriculture	0.0295		Jafrula w/o Moh. Samir Moh. Jaan s/o Salim
			4860	Private	Agriculture	0.0086		Ramdular Ramkumar S/o Chitani, Smt. Jayraji W/o Chitani R/o Village, Jaisram S/o Shriram R/o Babhangavan
			4861	Private	Agriculture	0.1140		Ramsewak S/o Ramadhar, Ramtirth S/o Ramprakash R/o Village
			4862	Private	Agriculture	0.0017		Kalpu S/o Kaglu R/o Village
			4865	Private	Agriculture	0.0302		Abdul Ajid Abdul Majid Abdul Halim Abdul Jalil S/o Mahmood, Dilawar S/o Yakub R/o Village Udaypratap Singh s/o Brajesh Pratap Singh
			4871	Private	Agriculture	0.0229		Abdul Ajid Abdul Majid Abdul Halim Abdul Jalil S/o Mahmood, Dilawar S/o Yakub R/o Village
			4872	Private	Agriculture	0.0380		Gajendrapalsingh Surendrapalsingh Rajendrapalsingh Atulpalsingh Minor S/o Mrityunjaipalsingh Gardian Father R/o Tendua Dist. Basti Varidah Bhadaiya
			4873	Private	Agriculture	0.0228		Prasidhnarayan Kaalisahay S/o Shivdutt R/o Bhadaiya, Onkarnath Kedarnath Amarnath S/o Sanktha R/o Village
			4876	Private	Agriculture	0.1446		Laxminarayan urf Balli S/o Ramesar, Omprakash Vijayprakash S/o Kaamta, Ramkewal Vishwanath Shivnath S/o Ramesar R/o Village
			4877	Private	Agriculture	0.0380		Onkarnath S/o Mahaveer, Sureshchandra S/o Muktnath, Harishchandra Premchandra Gulabchandra S/o Kedarnath R/o Village
			4878	Private	Agriculture	0.0850		Sitaram Radheyshyam Mataprasad Deviprasad Bhawaniprasad Ramsanmukh S/o Harinandan, Ramvishal S/o Jabdamba, Prasidhnarayan Kaali Sahay S/o Shivdutt, Bhagwatprasad Kamtaprasad S/o Dharmnarayan R/o Village
			4879	Private	Agriculture	0.4343		Deepchandra S/o Onkarnath, Indrawati devi W/o Jantriprasad, Harinarayan Hemant kumar S/o Jaynarayan, Vipin kumar Nitin kumar S/o Ramnarayan, Ramkhelawan S/o Ramdeen, Ramharakh S/o Bhagwandeem, Chitani S/o Mathura, Mahadei W/o Lt. Rampiyare, Ramshromani Dilipkumar Ramsajeevan S/o Rampiyare, Mohd. Rauf Mohd. Harun S/o Babbu Ali R/o Village
			4881	Private	Agriculture	0.1302		Jantri Prasad Rameshkumar S/o Visram, Malti W/o Visram R/o Village
			4882	Govt.	Road	0.0062		Govt. of Uttar Pradesh
			4883	Private	Agriculture	0.0775		Mohd. Muslim S/o Ghasit, krishanchandra Pandey S/o Gayachandra Pandey R/o Village
			4889	Private	Agriculture	0.0480		Vrajendrapal Deepakpal S/o Hitlal, Koushalya W/o Lt. Hitlal R/o Village
			4890	Private	Agriculture	0.1640		Suresh kumar Ramesh kumar S/o Shivadhar Chhotelal s/o Sharda Prasad R/o Pure Nathau Majra Bhadaijan
			4891	Private	Agriculture	0.0547		Nanhku S/o Nohar R/o Village
			4891 B	Private	Agriculture			Dayaram Gangaprasad S/o Bhagirathi Smt. Bhulra W/o Late Bhagirathi R/o Village
			4892 A	Private	Agriculture	0.0475		Surajdin Lahuri Jagdish Budhram pancham S/o Ginduri R/o Village
			4892 E	Private	Agriculture			Ramlochan S/o Udai R/o Village
			4892	Private	Agriculture			Surajdeen S/o Ginthuri R/o Village
			4893	Private	Agriculture	0.1221		Sarju Prasad S/o Satyanarayan, Ramchandra Krishanchandra S/o Gaya Prasad R/o Village
			4900	Private	Agriculture	0.1407		Sarju Prasad S/o Satyanarayan, Ramchandra Krishanchandra S/o Gaya Prasad R/o Village
			4901	Private	Agriculture	0.0933		Ramajore Siyaram S/o Badali R/o Village
			4902	Private	Agriculture	0.0907		Rampiyare S/o Bachai, Jokhna W/o Ramadhar, Dukhi S/o Sukhraj, Brajlal Ramnarayan S/o Borai R/o Village

				4903	Private	Agriculture	0.0524	Rampiyare S/o Bachai Jokhna W/o Ramadhar Dukhi S/o Sukhraj Brajlal Ramnayan S/o Bhorai R/o Village
				4906	Private	Agriculture	0.2144	Siyaram S/o Badali, Manojkumar Sushilkumar Deepakkumar S/o Ramajore, Smt.Meenakumari W/o Ramajore R/o Village
				4907	Private	Agriculture	0.0258	Ramharakh S/o Bhagwandeem, Ramkhelawan S/o Ramdeen, Rajmani S/o Rampyare, Smt. Patti W/o Ramabhilakh R/o Dhanupur Majre
				4908	Private	Agriculture	0.0449	Ramharakh S/o Bhagwandeem, Ramkhelawan S/o Ramdeen, Rajmani S/o Rampyare, Smt. Patti W/o Ramabhilakh R/o Dhanupur Majre
				4909	Govt.	Nala	0.0521	Govt. of Uttar Pradesh
				4910	Private	Agriculture	0.0060	Ramharakh S/o Bhagwandeem, Ramkhelawan S/o Ramdeen, Gopichand S/o Shriramsundar R/o Village
				<b>Total</b>			<b>7.4521</b>	
			<b>(10) Rahayakpur</b>	1	Private	Agriculture	0.2381	Sureshkumar Shyamnarayan S/o Rampalat & Vanshadevi W/o Rampalat R/o Village & Devnarayan, Awdeshnarayan S/o Ramtawkal R/o Village & Abhaynarayan S/o Kedarnath R/o Village & Deviprasad, Vijanarayan, Lalmani, Subhashchandra S/o Sabhapati & Smt. Devmati W/o Lt. Sabhapati R/o Village & Durgaprasad S/o Sobhnath R/o Village & Swaminath S/o Chandani R/o Village & Bhagwan Prasad, Radheymani, Chandrabhan, Anilkumar S/o Rampiyare R/o Village & Smt. Samrulnishan W/o Mohd. Idrish R/o Village & Ambikaprasad S/o Achhebar R/o Village & Smt. Taradevi W/o Sureshkumar & Smt. Challidevi W/o Jairammishra R/o Purenathu Majure Bhadiya & Smt. Devi W/o Ramakbal R/o Veni & Rajpati W/o Nandkishor R/o Ilahabad & Rajnath, Vipendranath, Devendranath S/o Swaminath & Mu. Laldei W/o Swaminath R/o Village
				5	Govt.	Pond	0.0148	Govt. of Uttar Pradesh
				6	Private	Agriculture	0.0003	Devnarayan. Awdeshnarayan S/o Ramtawkal R/o Village & Sabhapati, Udaynarayan S/o Kedarnath R/o Village & Bhagwan Prasad, Radheymani, Chandrabhan, Anil kumar S/o Rampiyare R/o Village & Sobhnath S/o Kalicharan R/o Village & Swaminath S/o Chandani R/o Village & Ambika prasad S/o Acchebar R/o Village & Suresh kumar, Shyamnarayan S/o Rampalat & Vanshadevi W/o Lt. Rampalat R/o Village & Kailashnath, Arvindkumar W/o Shambhunath & Dropti W/o Shambhunath R/o Village
				7	Govt.	Forest	0.0130	Govt. of Uttar Pradesh
				8	Private	Agriculture	0.0045	Ramujagir, Rammilan, Rambhajan S/o Bhagwandeem R/o Village & Devtadeem S/o Ramnath & Smt. Amrita W/o Lt Ramnath R/o Village Jagannath S/o Shivdhari R/o Village & Ramdulare S/o Rambihari R/o Village & Shivkumar Adult Rajkumar Minor 12 Yrs S/o Ramjatan & Smt. Anara W/o Lt Ramjatan R/o Village & Kalawati W/o Pooranmasi R/o Madardeeh & Ramhimachal S/o Ramsamujh R/o Village & Ramachal, Ramdhani S/o Vindhswari R/o Village & Chotki S/o Vishunath R/o Village & Sitaram S/o Nagesar R/o Village & BarsatiYadav, Virendrakumar S/o RamadharYadav R/o Village
				221	Private	Agriculture	0.0085	Ramadhar S/o Shivprasad R/o Village & Ramsundar S/o Malai R/o Village & Santosh Kumar, Ashokkumar, Ajaykumar S/o

								Ramharakh Yadav R/o Rhayakpur
			222	Private	Agriculture	0.1208		Ramsundar S/o Malai R/o Village & Amarbahadur, Vimleshbahadur S/o Raghuraj Singh R/o Village
			224	Private	Agriculture	0.1648		Ramadhhar S/o Shivprasad R/o Village & Ramsundar S/o Malai R/o Village & Santosh Kumar, Ashokkumar, Ajaykumar S/o Ramharakh Yadav R/o Rhayakpur
			225 A	Private	Agriculture	0.0896		Ramyagya, Ramvishal, Ramakbal, Rammurat, Ramsundar S/o Thakurprasad R/o Village
			225 B	Private	Agriculture			Sheetlaprasad Atmanand S/o Dayashankar R/o Shahpur Harivansh & Shivram, Parasnath S/o Mewalal R/o Madanpur
			226 B	Private	Agriculture	0.0203		Triveniprasad, Jamunaprasad S/o Baijnath R/o Village & Devnarayan, Awdeshnarayan S/o Ramatvakal R/o Village & Deviprasad, Vijaynarayan, Lalmani, Subashchandra S/o Sabhapati & Devmati W/o Lt. Sabhapati R/o Village & Abhaynarayan S/o Kedarnath R/o Village & Bhagwan Prasad Radheymani Chandrabhan Anilkumar S/o Rampiyare R/o Village & Ambikaprasad S/o Achhebar R/o Village & Swaminath S/o Chndni Kali R/o Village & KaliPrasad S/o Thakurdin R/o Village & Rambahal S/o Ramnevej urf Bhulan Pandey & Shivsaran Pandey S/o Hariram Pandey R/o Beni & Sureshkumar, Shyamnarayan Rajnath S/o Rampalat & Vanshadevi W/o Rampalat R/o Village & Rajnath, Vipendranath Devendranath S/o Swaminath & Mu. Laldei W/o Swaminath R/o Village
			226 B	Private	Agriculture			Ambikaprasad S/o Achhebar R/o Village & swami Nath S/o Chndni Smt. Kushlavati Devi W/o Rammilan R/o Village Smt. Kesharibegum W/o Abdul Kadir Kali Prasad S/o Thakurdin Bhagwan Prasad Radheymani Chandrabhan Anilkumar S/o Rampiyare R/o Saraiya Rambahal S/o Ramnevej urf Bhulan Pandey Shivsaran Pandey S/o Hariram Pandey R/o Beni Shantidevi W/o Shyamnarayan Mishr Sureshkumar Shyamnarayan Rajnath S/o Rampalat Vanshadevi W/o Rampalat Vipendranath Devendranath S/o Swaminath Laldei W/o Swaminath Deviprasad Vijanarayan Lalmani Subhashchandra S/o Sabhapati Devmati W/o Late Sabhapati Devnarayan Avdheshnarayan S/o Ramtavankal R/o Village
			228 A	Private	Agriculture	0.0505		Ramyagya, Ramvishal, Ramakbal, Rammurat, Ramsundar S/o Thakurprasad R/o Village
			228 B	Private	Agriculture			Sheetla prasad S/o Dayashankar R/o Shahpur & Harivansh, Parasnath S/o Mewalal R/o Madanpur
			234	Private	Agriculture	0.0105		Hariharnath S/o Satyanarayan R/o Village & Ramhimachal S/o Ramsamujh R/o Village & Ramkalap, Ramachal S/o Shambhu & Chedilal, Shyamlal, Shamsheer S/o Gangadeen & Parasnath, Ramlaut, Ramkewal S/o Ramkhelawan R/o Village & Rajmani, Indramani S/o RamPramod R/o Village & Rambahal, Ramsaran S/o Ramdulare R/o Village & Ramkumar, Sureshkumar, Rameshkumar S/o Ramkishore & Laxmidevi W/o Lt Ramkishore R/o Village & Sunil, Pradeep, Harishankar, Sonu, Jitendra S/o Ramawadh & Basantadevi W/o Lt Ramawadh R/o Village & Radheymani, Amarnath, Ranjeet Bahadur S/o Lalaprasad Mishra R/o Village Chhedilal Shyamlal Shaser

				<b>Total</b>			<b>0.7357</b>	
			<b>(11) Bedauli</b>	115	Private	Agriculture	0.0036	Rajkaran S/o Ramnaresh, Awdheshnarayan Dinesh narayan Rameshkumar Rajeshkumar S/o Ramkaran, Smt. Vimladevi W/o Ramkaran, Kamleshnarayan Sureshchandra S/o Rajkaran R/o Madanpur Paniyar, Raysahab Singh S/o Daanbahadur Singh R/o Shivgarh
				119	Private	Agriculture	0.0055	Karamali Islam Ali S/o Mehboob Ali R/o Madanpur Paniyar
				120	Private	Agriculture	0.0036	Karamali Islam Ali S/o Mehboob Ali R/o Madanpur Paniyar
				196	Govt.	Way	0.0052	Govt. of Uttar Pradesh
				197	Private	Agriculture	0.0106	Bhagirathi S/o Bhawanibhikh, Ajay kumar S/o Bhagwandutt, Israji W/o Bhagwandutt R/o Vaini
				204	Private	Agriculture	0.0090	Krishanpratap Rampratap S/o Kunjbihari, Raghoram Salikram Hardayram S/o Tribhuwandutt, Rampratap Ramdhir S/o Kedar, Bhagirathi W/o Bhawanibhikh, Matapher Narayan Chandrabali S/o Bodai R/o Bainsi, Ajay kumar S/o Bhagwandutt, Israji W/o Bhagwandutt, Rambahal S/o Ramnewaj urf Bhulan R/o Village
				205	Govt.	New Land	0.0061	Govt. of Uttar Pradesh
				206	Govt.	Road	0.0055	Govt. of Uttar Pradesh
				207	Private	Agriculture	0.0485	Radheymani Amarnath Ranjeetbahadur S/o Laltaprasad R/o Rahayakpur
				208	Govt.	Road	0.0077	Govt. of Uttar Pradesh
				209	Private	Agriculture	0.0150	Vinod Sharad Krishna S/o Ramachal, Smt. Shanti devi W/o Lt. Ramachal R/o Rahayakpur
				210	Private	Agriculture	0.0085	Ramkalap S/o Maggu R/o Rahayakpur
				211	Private	Agriculture	0.0130	Nawalkishor Mishra S/o Shrinath Mishra R/o Madanpur Paniyar
				213	Private	Agriculture	0.0130	Chedilal S/o Gangadeen, Nawalkishore S/o Shrinath R/o Madanpur Paniyar
				214	Private	Agriculture	0.0160	Sunil Pradeep Adult Harishankar Sonu Jitendra Minor age 17, 14, 10 years S/o Ramawadh Guardian Basanta Mother, Smt. Basanta W/o Lt. Ramawadh R/o Rahayakpur
				217	Private	Agriculture	0.0180	Ramlaut S/o Ramkhelawan R/o Rahayakpur
				218	Private	Agriculture	0.0170	Parasnath S/o Ramkhelawan R/o Rahayakpur, Smt. Durgawati W/o Bhagoutiprasad Pandey R/o Vaini
				219	Private	Agriculture	0.0205	Achhelal Durgaprasad S/o Rampher R/o Madanpur Paniyar
				220	Private	Agriculture	0.0216	Achhelal Durgaprasad S/o Rampher R/o Madanpur Paniyar
				221	Private	Agriculture	0.0886	Mewalal Chotelal S/o Jagannath, Smt. Jagwanti W/o Lt. Jagannath R/o Madanpur Paniyar
				222	Govt.	Road	0.0064	Govt. of Uttar Pradesh
				243	Private	Agriculture	0.0200	Deviprasad Vijaynarayan Lalmani Subhashchandra S/o Sabhapati, Smt. Devmati Lt. Sabhapati R/o Madanpurpaniyar
				244	Private	Agriculture	0.0035	Ramachevar S/o Kalicharan Durga Prasad s/o Shobhnath R/o Rahayakpur
				260	Private	Agriculture	0.0008	Saiyad Mujtaba Ali S/o Raham Ali Madanpur Paniyar
				261	Private	Agriculture	0.0072	Mushir Ahmed Mahmudul Hasan S/o Mohd. Taki, LaikAhmed KhalilAhmed S/o AkilAhmed R/o Madanpur Paniyar, Shabihulhasan W/o Mohd.Taki R/o Village
				267	Govt.	Way	0.0008	Govt. of Uttar Pradesh
				268	Private	Agriculture	0.0009	Shivkumar s/o Ramsiromani R/o village
				269	Private	Agriculture	0.0006	Navosis Ali S/o Mohd. Ali R/o Madanpur Paniyar
				<b>Total</b>			<b>0.3767</b>	

			(12) Madanpur Paniyar	867/117 0	Govt.	New Land	0.0048	Govt. of Uttar Pradesh
				867	Private	Agriculture	0.0086	Ramtirath Ramujagir Ramdular S/o Ramachhebar R/o Village
				868	Private	Agriculture	0.0152	Ramshiromani S/o Ramnewaj R/o Saraiya, Munim Niranjallal S/o Rampratap, Sanjaysingh Rajansingh S/o Hanuman Prasad, Shivam Singh Minor 12 years S/o Shyamsingh Guardian Amrawati Mata, Amravati W/o Shyamsingh, Radheyshyam Udaypratap S/o Tejbahadur R/o Village, Smt. Premadevi W/o Rajendraprasad R/o Saraiya, Smt. Mithlesh Singh W/o Ramkaransingh, Rajendraprasad S/o Gangaprasad, Smt. Nirmala Mishra W/o Ramesh Kumar Mishra R/o Village
				869	Private	Agriculture	0.0593	Ramsumer S/o Budhai R/o Village
				870	Govt.	Road	0.0015	Govt. of Uttar Pradesh
				887	Private	Agriculture	0.0239	Sagir Ahmed Ajim Ahmed S/o Sirajulhaq, Mohd. Mustkim, Mohd. Murslin S/o Samiulla R/o
				888	Private	Agriculture	0.0142	Smt. Anaradevi W/o Jagatpal R/o Village
				889	Private	Agriculture	0.0115	Sohanlal S/o Ramkishore, Urmila W/o Lt. Mohanlal, Saloni Shivani Shiwangi D/o Mohanlal Guardian Mata Urmila
				890	Private	Agriculture	0.0185	Liyakat Ali S/o Varisali R/o Village
				891	Govt.	Way	0.0012	Govt. of Uttar Pradesh
				892	Private	Agriculture	0.0141	Samjhawan S/o Avtar R/o Village
				893	Private	Agriculture	0.0036	Kewalprasad S/o Jagnath, Rajpati S/o Kewalprasad, Prasiddhinarayan S/o Ramharakh, Devmani Lalmani Chandramani S/o Matapher, Mataprasad S/o Chandiprasad R/o Village
				894	Private	Agriculture	0.0114	Ramprasad Ramnewaj S/o Madhav, Ashok kumar Manoj kumar Suresh kumar S/o Ramdeen R/o Village
				927	Govt.	Nali	0.0146	Govt. of Uttar Pradesh
				929	Private	Agriculture	0.0347	Chandrasheshar S/o Mahadev, Avnish kumar S/o Ghanshyam Tiwari, Vindeshwari Sahay S/o Ramanjore, Gaurishankar S/o Radheyshyam R/o Village
				931	Private	Agriculture	0.0715	Krishnachand Chandrashekhar S/o Mahadev, Ramakbal Lalmani Rajmani S/o Ramchandra, Triloki S/o Ramudit, Radheshyam S/o Mahadev R/o Village
				932	Govt.	New Land	0.0777	Govt. of Uttar Pradesh
				1054	Private	Agriculture	0.0093	Ramtirath Ramujagir Ramdular S/o Ramachhebar R/o Village
				1052	Private	Agriculture	0.0342	Mewalal Munna Lal S/o Barsati, Gangaram Bhagautideen Bhulesar Munnelal S/o Late Bharos, Neemar Dubar S/o Jibodh, Radheyshyam Anandkumar S/o Sarjuprasad, Smt. Manorma W/o Sarjuprasad R/o Village
				1049	Govt.	Road	0.0018	Govt. of Uttar Pradesh
				1048	Private	Agriculture	0.0157	Ramajore S/o Bhola, Pramod Kumar Vinod kumar Santoshkumar S/o Santu, Smt. Kewala Devi W/o Santu R/o Village
				1046	Private	Agriculture	0.0016	Deviprasad S/o Gajadhar R/o Village
				1045 B	Private	Agriculture	0.0177	Deviprasad S/o Gajadhar R/o Village
				1045 A	Private	Agriculture		Prasidhinarayan S/o Ramharakh, Devmani Lalmani Chandramani S/o Matapher R/o Village
				1045 A	Private	Agriculture		Prasidhinarayan S/o Ramharakh, Devmani Lalmani Chandramani S/o Matapher R/o Village
				1001	Private	Agriculture	0.0130	Dharmraj Brajraj Rampratap S/o Gayaprasad, Satyendra Neeraj Deepak S/o Ramraj R/o Village



				1010	Private	Agriculture	0.0111	Ramprasad Ramnewaj S/o Madhav, Ashok kumar Manoj kumar Suresh kumar S/o Ramdeen R/o Village
				1005 B	Govt.	Aabadi	0.0060	Govt. of Uttar Pradesh
				1005 A	Govt.	Aabadi	0.0588	Govt. of Uttar Pradesh
				1006	Private	Agriculture	0.0172	Ramprasad Ramnewaj S/o Madhav, Ashok kumar Manoj kumar Suresh kumar S/o Ramdeen R/o Village
				986	Govt.	Aabadi	0.0275	Govt. of Uttar Pradesh
				985	Govt.	Aabadi	0.0219	Govt. of Uttar Pradesh
				984	Private	Agriculture	0.0333	Hariharprasad Hosilaprasad S/o Dwarikaprasad, Bhagwatprasad S/o Gayadeen, Dudhnath Ramabhilakh S/o Ramlakhan, shivmangal S/o Ramsahay, Heerawati W/o Ramsahay R/o Village
				983	Private	Agriculture	0.0813	Kewalprasad S/o Jagganath, Rajpati S/o Kewalprasad, Prasiddhnarayan S/o Ramharakh, Devmani Lalmani Chandramani S/o Matapher, Mataprasad S/o Chandiprasad R/o Village
				976	Private	Agriculture	0.0179	Ramabhilakh Ramachal Ramshabd S/o Ramnewaj, Jokhanlal Sunilkumar S/o Ramnaresh, Rampatti W/o Ramnewaj, Rammilan S/o Santram, Israji W/o Santram R/o Saraiya, Rampher Ramujagir S/o Fodi, Smt. Jaggi Widow W/o Fodi R/o Village
				975	Private	Agriculture	0.0190	Vandi S/o Jhuriha R/o Village
				974	Private	Agriculture	0.0440	Krishnachand Chandrashekhar S/o Mahadev, Ramakbal Lalmani Rajmani S/o Ramchandra, Mahdei S/o Gangacharan, Radheyshyam S/o Mahadev R/o Village, Rammilan S/o Santram, Israji W/o Santram R/o Saraiya
				973	Private	Agriculture	0.0703	Krishnachand Chandrashekhar S/o Mahadev, Ramakbal Lalmani Rajmani S/o Ramchandra, Mahdei S/o Gangacharan, Radheyshyam S/o Mahadev R/o Village, Rammilan S/o Santram, Israji W/o Santram R/o Saraiya
				972	Private	Agriculture	0.0780	Rameshchandra S/o Ramachebar, Arvindkumar S/o Kamleshchandra, Smt.Sushila W/o Kamleshchandra, Dineshchandra Sureshchandra S/o Ramshankar, Durgawati W/o Ramshankar R/o Village
				971	Private	Agriculture	0.0220	Dudhnath Ramabhilakh S/o Ramlakhan, Shivmangal S/o Ramsahay, Hirawatidevi W/o Ramsahay R/o Village
				968	Private	Agriculture	0.0005	Kewalprasad S/o Jagganath, Rajpati S/o Kewalprasad, Prasiddhnarayan S/o Ramharakh, Devmani Lalmani Chandramani S/o Matapher, Mataprasad S/o Chandiprasad R/o Village
				967 A	Private	Agriculture	0.0464	Rajkishore S/o GayatriPrasad, Parasnath Ashokkumar Tribhuwandutt S/o Badriprasad, Jagdishprasad Shrinath S/o Thakurprasad, Shyamnarayan S/o Vishwnath R/o Village
				967 A	Private	Agriculture		Ramchandra S/o Ramyagya, Parasnath Ashokkumar Tribhuwandutt S/o Badriprasad, Jagdish Shrinath S/o Thakurprasad, Shyamnarayan S/o Vishwnath, Mataprasad Rajkishore S/o Ramdular, Patti W/o Rajpati R/o Village
				966	Private	Agriculture	0.0527	Shyamnarayan Lalluprasad S/o Ramabhilakh, Smt. Sushma W/o Lt. Ajaynarayan, Manojkumar Vinod kumar Atul kumar S/o Ramabhilakh, Chandramani Minor 11 years S/o Rajendra Prasad Gaurdian Geetadevi, Geetadevi W/o Rajendra Prasad R/o Village
				965 A	Private	Agriculture	0.0380	Rajkishore S/o GayatriPrasad, Parasnath Ashokkumar Tribhuwandutt S/o Badriprasad, Jagdishprasad Shrinath S/o Thakurprasad,

								Shyamnarayan S/o Vishwnath R/o Village
			965 B	Private	Agriculture			Ramchandra S/o Ramyagya, Parasnath Ashokkumar Tribhuvandutt S/o Badriprasad, Jagdish Shrinath S/o Thakurprasad, Shyamnarayan S/o Vishwnath, Mataprasad Rajkishore S/o Ramdular, Patti W/o Rajpati R/o Village
			964	Govt.	Pond	0.3147		Govt. of Uttar Pradesh
			963	Private	Agriculture	0.2059		Matacharan Rajendra Prasad S/o Ramesar, Bhagautiprasad Krishanbhagwan Narendraprasad S/o Dwarika, Sidharidevi W/o Bhagautiprasad R/o Village
			962	Private	Agriculture	0.0130		Rajendra Prasad S/o Sahdev R/o Parasrampur
			<b>Total</b>			<b>1.6593</b>		
		<b>(13) Murli</b>	186	Govt.	Non Agriculture	0.0815		Govt. of Uttar Pradesh
			187	Private	Agriculture	0.1534		Narsinghnarayan S/o Ramchandra R/o Village
			194	Govt.	Pond	0.0724		Govt. of Uttar Pradesh
			191	Govt.	Road	0.0486		Govt. of Uttar Pradesh
			189	Private	Agriculture	0.1317		Rajendra Prasad S/o Sahdev R/o Parasrampur
			190 A	Private	Agriculture	0.3610		Ramsurat S/o Kalpnath, Brajlal Adopted S/o Basdev, Ramsajeevan Ramdayal S/o Jagdev, Ramawadh Adopted S/o Ramnaresh, Ramkishore S/o Bhagautideen, Ramnihore S/o Mahaveer, Sachidanand Radheykrishan Krishanmohan Rammohan S/o Rajpati, Heerawati W/o Lt. Ishwarchand, Ramjanak S/o Jamunaprasad, Ramabhilakh Ramakbal S/o Adhyaprasad, Ramnihore S/o Mahaveer, Ramkishore S/o Bhagautideen R/o Village
			190 B	Private	Agriculture			Mu. Awadhraji W/o Devbrat R/o Jaisingpur
			344	Private	Agriculture	0.2734		Bholanath S/o Ramjag, Chintamani S/o Ramdinesh R/o Village, Smt. Rajdei W/o Mataprasad, Rajendra prasad Devendra prasad S/o Ramsrijan, Shanti W/o Lt. Ramsrijan, Sureshchandra Rameshchandra Umeshchandra S/o Matacharan R/o Dakahi, Chandrawati W/o Matacharan R/o Madanpur, Sarju Devi W/o Maharajdeen Yadav R/o Bhetora, Krishnanand Krishnmohan Radheykrishan S/o Rampiyare, Smt. Sugnadevi W/o Lt. Rampiyare R/o Village
			343	Private	Agriculture	0.2665		Ramchandra Ramjeet Vishwanath S/o Ramkalap, Ramashankar S/o Ramhit, Luvkush Minor 12 years S/o Umashankar Guardian Amarawati Mother Amarawati W/o Lt. Umashankar R/o Village
			<b>Total</b>			<b>1.3885</b>		
		<b>(14) Bikhari</b>	112 A	Private	Non agriculture	0.0310		Ramsurat S/o Kalapnath, Ramcharan Ramvaran Rmashankar Dayashankar Kripashankar S/o Ramikishore R/o Murali
			112 B	Private	Non agriculture			Ramsurat S/o Kalapnath, Ramcharan Ramvaran Rmashankar Dayashankar Kripashankar S/o Ramikishore R/o Murali
			113	Govt.	Aabadi	0.0290		Govt. of Uttar Pradesh
			114	Govt.	Canal	0.0290		Govt. of Uttar Pradesh
			115	Private	Agriculture	0.3550		Rajaram S/o Mendai, Jagai S/o Pachu, Ramdular S/o Babulal R/o Rampur, Deviprasad S/o Thakurdeen R/o Bikhari, Ajay Kumar Ramesh Kumar Santram S/o Shivraj, Smt. Savitri Devi W/o Ramlal Gupta, Smt. Phoolkumari W/o Shyamlal Gupta, Smt. Gangadevi W/o Badrideen R/o Raipur, Rammurati Ramsurti S/o Mangru Prasad R/o Madanpur Paniyar, Smt. Vinita Devi W/o Ramprakash Dhuriya R/o Saraijughar Manju Devi w/o Rakesh Kumar Yadav Sita Devi w/o Ramsewak Yadav Ramsamer s/o Mohan Dhuriya Omprakash Pandey Lallan Prasad

							Pandey s/o Din Pandey Kamla Devi w/o Makedar Yadav Sushila Devi w/o Dinesh Chnadra Pandey Ramsukh Brajesh s/o Motilal Rampati w/o Motilal Shriram Ramtirth Siyaram s/o Seturam Surja Devi w/o Seturam Asha Devi w/o Kamla Shankar
			62	Govt.	Road	0.0082	Govt. of Uttar Pradesh
			63 A	Private	Agriculture	0.0159	Laltaprasad S/o Sudama R/o Murali
			63 B	Private	Agriculture	0.0173	Laltaprasad S/o Sudama R/o Murali
			64	Private	Agriculture	0.0220	Mithu S/o Dinai, Achevar Rambaran Jokhu S/o Fulesar, Gangadei W/o phulesar R/o Village
			65	Private	Non Agriculture	0.0440	Mithu S/o Dinai, Achevar Rambaran Jokhu S/o Phulesar, Gangadei W/o Phulesar, Ramsumer Budhiram Siddhram Shrivankumar Ramkishun S/o Matabadal, Shriram S/o Bhagirathi, Mu. Parvati W/o Bhagirathi R/o Village
			73	Private	Agriculture	0.1654	Ramsajeevan Ramdayal S/o Jagdev R/o Murli
			74	Private	Agriculture	0.2194	Ramjiyavan S/o Rajdev R/o Murali
			78 A	Private	Agriculture	0.0845	Lalmani Krishanmani S/o Ramlakhan, Anarkali W/o Ramlakhan R/o Murali
			78 B	Private	Agriculture		Lalmani Krishanmani S/o Ramlakhan, Anarkali W/o Ramlakhan R/o Murali
			79 A	Private	Agriculture	0.0692	Ramsureman S/o Ramdihal R/o Murali
			79 B	Private	Agriculture		Ramsureman S/o Ramdihal R/o Murali
			80	Govt.	Road	0.0070	Govt. of Uttar Pradesh
			85	Private	Agriculture	0.1089	Sachidanand Radheykrishan Krishanmohan Rammohan S/o Rajpati, Hirawatidevi W/o Ishwarchand, Ramsurat S/o Kalpnath R/o Murli
			86	Private	Agriculture	0.1142	Indrajeet S/o Ramnewaj, Smt. Katoradevi W/o Lt. Ramnewaj, Sadhu S/o Bhagelu R/o Village
			90	Govt.	New Land	0.0370	Govt. of Uttar Pradesh
			91	Govt.	Aabadi	0.0344	Govt. of Uttar Pradesh
			92 A	Private	Agriculture	0.0412	Mithu S/o Dinai, Achevar Rambaran Jokhu S/o Fulesar, Gangadei W/o phulesar R/o Village
			92 B	Govt.	New Land		Govt. of Uttar Pradesh
			93	Govt.	Aabadi	0.0340	Govt. of Uttar Pradesh
			95	Govt.	Canal	0.0615	Govt. of Uttar Pradesh
			96	Private	Agriculture	0.0911	Mithu S/o Dinai, Achevar Rambaran Jokhu S/o Fulesar, Gangadei W/o phulesar R/o Village
			110	Govt.	Nali	0.0130	Govt. of Uttar Pradesh
			109	Private	Non Agriculture	0.1834	Ramsurat S/o Kalpnath R/o Murali
			108	Private	Non Agriculture	0.1557	Harish S/o Rammurti R/o Chhapar, Sobhawati W/o Narsingharayan Lalji Jaiswal Mata Prasad Jaiswal R/o Murli
			117	Govt.	Road	0.0055	Govt. of Uttar Pradesh
			118 A	Private	Agriculture	0.1314	Budhiram Sidhiram Shrivankumar S/o Ramkishun R/o Village
			118 B	Private	Agriculture		Budhiram Sidhiram Shrivankumar S/o Ramkishun R/o Village
			119 A	Private	Agriculture	0.0517	Shriram S/o Bhagirathi, Mu. Prawatidevi W/o Bhagirathi R/o Village
			119 B	Private	Agriculture		Shriram S/o Bhagirathi, Mu. Prawatidevi W/o Bhagirathi R/o Village
			120	Private	Agriculture	0.0675	Jhoku S/o phulesar, Miththu S/o Dinai R/o Village
			121	Private	Agriculture	0.1778	Achhebar S/o Fulesar R/o Village
			<b>Total</b>			<b>2.4052</b>	
		(15) Dakahi	190	Govt.	Nali	0.0046	Govt. of Uttar Pradesh
			198	Private	Agriculture	0.0985	Ramchandra Ramjeet Vishwanath S/o Kalpnath, Rmashankar S/o Ramhit, Luvkush S/o Umashankar R/o Village
			202	Private	Agriculture	0.0640	Ramchandra Ramjeet Vishwanath S/o Kalpnath R/o Village
			204	Govt.	Nali	0.0121	Govt. of Uttar Pradesh

				205	Govt.	New Land	0.0201	Govt. of Uttar Pradesh
				206	Private	Agriculture	0.0276	Hosila Rammilan Ramtirath S/o Mangru R/o Murali
				207	Govt.	Road	0.0958	Govt. of Uttar Pradesh
				208	Private	Agriculture	0.0218	Rampiyare Ramsagar Shyamsagar S/o Vipati R/o Murali
				209	Private	Agriculture	0.0145	Nirmala Devi W/o Ramsukh, Harkhali Gopal Kheladi S/o Ramdeen R/o Murali
				212	Private	Agriculture	0.0417	Ramdayal Nirhu S/o Daasi R/o Murali
				213	Private	Agriculture	0.0627	Buddu Gangaram Ayodya S/o Khelawan R/o Murli
				214	Private	Agriculture	0.0643	Ramhukum S/o Sampati, Ramcharan S/o Lafudi R/o Chokiya, Dulari Nanhka Reshma D/o Kishun R/o Dakahi, Jethuram S/o Gayadeen R/o Jakhnikalan, Sherbahadur S/o Ramkumar, Jitendra Kumar Minor 13 years S/o Ramkumar Gardian Vidyadevi Mother W/o Ramkumar R/o Village
				215	Govt.	Road	0.0076	Govt. of Uttar Pradesh
				218	Private	Agriculture	0.2360	Ramashankar S/o Ramhit, Lavkush S/o Umashankar R/o Village
				219	Govt.	Way	0.0347	Uttar Pradesh
				220	Private	Agriculture	0.3210	Ramtirth Ramsurat S/o Ramkumar, Ramraj S/o Khemai R/o Village, Israji W/o Ramkumar, Vijay Pratap Verma S/o Ramkalap R/o Village, Ramawadh Ajaykumar S/o Ramnaresh R/o Parasrampur, Bachairam S/o Shriram R/o Dharpur, Smt. Nirmala Devi W/o Ramgopal R/o Atarsuma Prg. Barosa Teh. Sadar, Makkhanlal Suryalal Baburam Nandlal Shivram S/o Ramdayal Mamta Baranbal w/o Satish Kumar Baranbal R/o Garavpur
				221	Private	Agriculture	0.0717	Ramsudhar Pudan S/o Bhaggal R/o Village, Kamladevi W/o Ramai Pal R/o Pilkhani
				222	Govt.	Nali	0.0165	Govt. of Uttar Pradesh
				223	Private	Agriculture	0.3552	Ramsudhar Pudan S/o Bhaggal R/o Village
				224	Private	Agriculture	0.1450	Rambaksh S/o Ramharakh R/o Semri rajapur
				225	Private	Agriculture	0.1488	Ramdeen Lalji Harish Chandra Chotelal Ratanlal S/o Ramgulab R/o Semrirajapur, Ravi Minor Age 10 years S/o Pyarelal Gardian District Magistrate Sultanpur R/o Village
				226	Private	Agriculture	0.1533	Ramjas S/o Ramdev R/o Semrirajapur, Dineshkumar Sureshkumar Ashokkumar Hiteshkumar S/o Phoolchand, Kewladevi W/o Phoolchand R/o Village
				227	Private	Agriculture	0.1016	Saiyad S/o Rehmat R/o Sameri
				228	Private	Agriculture	0.1049	Jamunaprasad Brijlal Nanhku S/o Ramdular R/o Sambhua
				229	Private	Agriculture	0.0220	Jamunaprasad Brijlal Nanhku S/o Ramdular R/o Sambhua
				230	Private	Agriculture	0.0204	Jamunaprasad Brijlal Nanhku S/o Ramdular R/o Lambhua
				232	Private	Agriculture	0.0002	Vidyanand S/o Dhanpati R/o Village
				233	Private	Agriculture	0.0120	Harinarayan Shrinarayan Tarkeshwar S/o Parasnath R/o Village
				234	Private	Agriculture	0.0303	Harinarayan Shrinarayan Tarkeshwar S/o Parasnath R/o Village
				235	Private	Agriculture	0.0143	Geeta W/o Bholanath R/o Lambhua
				236	Private	Agriculture	0.0246	Bholanath S/o Dhanpati R/o Lambhua
				237	Govt.	Nali	0.0203	Govt. of Uttar Pradesh
				238	Private	Agriculture	0.1200	Radhakant W/o Badri R/o Lambhua
				239	Private	Agriculture	0.0220	Jagannath S/o Badri R/o Lambhua
				240	Private	Agriculture	0.0103	Jagdish S/o Badri R/o Lambhua
				243	Govt.	Road	0.0299	Govt. of Uttar Pradesh
				172	Private	Agriculture	0.1079	Ashok Kumar Rajesh Kumar S/o Ramji Vimal Devi w/o Ramesh Kumar Shantiprakash s/o Ramesh Kumar R/o

								Lambhua
			173	Private	Agriculture	0.0364		Faujdar kamlesh kumar S/o Krishnaprasad, Bhanadevi W/o Jamadar, Shivendra Vikram S/o Ramesh kumar R/o Semrirajapur
			245	Private	Agriculture	0.1433		Ajmat Ali Hasmat Ali Isarat Ali S/o Mohd. Ismail R/o Semarirajapur
			246	Govt.	Road	0.0467		Govt. of Uttar Pradesh
			299	Govt.	Road	0.0146		Govt. of Uttar Pradesh
			287	Private	Agriculture	0.2128		Ramchandar S/o Bhaggal R/o Murali, Virendra Pratap Singh Jitendrapratap S/o Hatinarayan Singh R/o Semri rajapur, Jorai Ram S/o Ramnath R/o Parasrampur, Anuj Singh Age 5 years Minor Father Shivbhan Singh 1406/3 Khairabad Shashtri nagar Sultanpur
			286	Govt.	Road	0.1040		Govt. of Uttar Pradesh
			285	Govt.	Banzer	0.0150		Govt. of Uttar Pradesh
			284 B	Private	Agriculture			Sonadevi W/o munnilal R/o Suryabhan Patti
			284 B	Private	Agriculture			Harinarayan Hariram Hanuman prasad S/o Ramautar R/o Lambhua
			284 B	Private	Agriculture			Salikram S/o Ramnayak R/o Maksudan, Ramawadh S/o Ramraj R/o Mampur
			284 B	Private	Agriculture	0.3154		Baijnath S/o Ramraj, Chotelal S/o Ramsunder, Kanhai Ghisai S/o Neemar R/o Garvi, Ramsukh Parasnath Budhiram Shripal S/o Ramajore R/o Suryabhan Patti
			284 B	Private	Agriculture			Rambaran S/o Baijnath R/o Parasrampur
			284 B	Private	Agriculture			Val mukund S/o Ramji R/o Suryabhan Patti
			284 B	Private	Agriculture			Shyamal S/o Ramsunder R/o Garye
			284 B	Private	Agriculture			Sheet kumar S/o Thakurdeen, Swaminath S/o Gangaprasad R/o Nougavan
			278	Govt.	Nali	0.0048		Govt. of Uttar Pradesh
			276	Private	Agriculture	0.0591		Rampher Rambhuval Kashiram Hariram S/o Lahuri R/o Murali
			275	Govt.	Banzer	0.0660		Govt. of Uttar Pradesh
			274	Private	Agriculture	0.0577		Maniram Siyaram S/o Rambaran, Sudhadevi W/o Rambaran R/o Murali
			273	Private	Agriculture	0.0282		Anil kumar Rajendra Kumar S/o Sitaram, Ajit Kumar S/o Pannalal, Nirmala W/o Lt. Sitaram R/o Murali, Sitadevi W/o Ramdular R/o Kakrahi, Smt. Shivpati Devi W/o Sheetla Prasad R/o Raipur Jaislal Ashok Kumar s/o Ramawadh Shobhawati w/o Ramawadh
			272	Private	Agriculture	0.0279		Anil kumar Rajendra Kumar S/o Sitaram, Ajit Kumar S/o Pannalal, Nirmala W/o Lt. Sitaram R/o Murlil Jaislal Ashok Kumar s/o Ramawadh Shobhawati w/o Ramawadh
			271	Private	Agriculture	0.0259		Ramanjor S/o Dasai R/o Murali, Smt. Sudama Devi W/o Pandohi, Ramdeen S/o Ramgulam R/o Village, Sarojadevi W/o Jaislal R/o Murali
			270	Private	Agriculture	0.0315		Nirmala Devi W/o Sitaram, Jaislal S/o Ramawadh R/o Murali
			269	Private	Agriculture	0.0198		Ramabhilakh Ramakwal S/o Adyaprasad R/o Murali
			268	Private	Agriculture	0.0143		Ramjanak S/o Jamuna Prasad R/o Murali
			267	Private	Agriculture	0.0187		Ramnihore S/o Mahaveer, Ramabhilakh Ramakbal S/o Adyaprasad, Ramjanak S/o Jamula Prasad R/o Murali
			266	Private	Agriculture	0.0160		Ramabhilakh Ramakbal S/o Adyaprasad, Ramnihore S/o Mahaveer, Ramjanak S/o Jamula Prasad R/o Village
			265	Govt.	Road	0.0048		Govt. of Uttar Pradesh
			261	Private	Agriculture	0.0302		Narayan S/o Autar R/o Murali, Ramshabd Ramdular Rammilan S/o Ramlaut, Nandlalsingh S/o Babban Singh R/o Village
			260	Private	Agriculture	0.0091		Rampratap Udaypatap S/o Kuldevsingh R/o Murali
			255	Private	Agriculture	0.0020		Ramchandar S/o Bhaggal R/o Murali,

								Jorairam S/o Ramnath R/o Parasrampur
				248	Govt.	Road	0.0788	Govt. of Uttar Pradesh
				249	Private	Agriculture	0.0080	Amarbahadur Vimleshbahadur S/o Raghuraj Terye Prg. Miranpur Dist.Sultanpur, Parwati W/o Tribhuwan R/o Terye, Swamideen Sagardeen Shobhnath S/o Ramanjor R/o Village
				<b>Total</b>			<b>4.0495</b>	
			<b>(16)</b>	5	Govt.	Road	0.0025	Govt. of Uttar Pradesh
			<b>Jagnnathpur</b>	6	Govt.	Nali	0.0025	Govt. of Uttar Pradesh
				<b>Total</b>			<b>0.0050</b>	
			<b>(17) Semri</b>	453	Govt.	Nali	0.0231	Govt. of Uttar Pradesh
			<b>Rajapur</b>	454	Private	Agriculture	0.2262	Ranjeet Randhir Bhimsen S/o Kalpnath R/o Village, Ramdular Rampal S/o Ramdas, Narendrapratap Singh S/o Udairaj Singh R/o Dakahiv, Chandrabhan Singh S/o Satyanarayansigh R/o Village
				455	Private	Agriculture	0.4610	Abhaynarayan S/o Shripati, Dharmendrapratap singh Anandpratapsingh Akhandpratapsingh S/o Ramawadh Singh, Smt. Samlasingh W/o Ramawadh Singh, Ravindrapratapsingh S/o Rajnarayansingh, Smt. Janakdulari W/o Rajnarayan Singh, Makkhanlal Menhilal Rajendraprasad S/o Nanhkau, Smt. Abhilakhi W/o Nanhkau, Shivnarayan S/o Shripati, Jamunaprasad Brajlal S/o Ramdular R/o Lambhua
				456	Private	Agriculture	0.0122	Bhupendra Singh S/o Ashok kumar, Rajeshkumar S/o Vinodkumar R/o Village
				459	Govt.	Road	0.0203	Govt. of Uttar Pradesh
				460	Private	Agriculture	0.0084	Ramdin Lalji Harish Chandra Pyarelal Chhotelal Ratanlal S/o Ramgulam R/o Village
				470	Govt.	Road	0.0034	Govt. of Uttar Pradesh
				471	Private	Agriculture	0.0555	Abhaynarayan S/o Shripati, Ravindra pratap Singh S/o Rajnarayan Singh, Smt. Janakdulari W/o Rajnarayan Singh, Dharmendrapratap Singh Anand Pratap Singh Akhandpratap Singh S/o Ramawadh Singh, Smt. Samla Singh W/o Ramawadh Singh, Jagatnarayan Triveni W/o Rajpati, Shivnarayan S/o Shripati R/o Village
				472	Private	Agriculture	0.7417	Narendrapratap Indrasen Harishchandra S/o Udayraj, Sankathaprasad Bhanuprasad Indrapratap S/o Ramnath R/o Village
				473	Private	Agriculture	0.2510	Jhurhu S/o Ganpati R/o Village
				475	Govt.	Road	0.0162	Govt. of Uttar Pradesh
				476	Govt.	Road	0.0218	Govt. of Uttar Pradesh
				477	Private	Agriculture	0.1523	Sushilkumar S/o Shyammurati R/o Village
				478	Private	Agriculture	0.0063	Virendrapratap Singh Jitendrapratap S/o Hardynarayan Singh R/o Village
				421	Govt.	Nali	0.0810	Govt. of Uttar Pradesh
				422	Private	Agriculture	0.3682	Abhaynarayan S/o Shripati, Ravindra pratap Singh S/o Rajnarayan Singh, Smt. Janakdulari W/o Rajnarayan Singh, Dharmendra pratapsingh Anand pratapsingh Akhand pratapsingh S/o Ramawadh Singh, Smt. Samla Singh W/o Ramawadh Singh R/o Village
				427	Govt.	Road	0.0030	Govt. of Uttar Pradesh
				444	Private	Agriculture	0.0097	Narendra Pratap Surendra Pratap S/o Dwarika Singh R/o Village
				445	Govt.	Road	0.0208	Govt. of Uttar Pradesh
				485	Govt.	Road	0.0286	Govt. of Uttar Pradesh
				403	Private	Agriculture	0.0680	Ramjatan Sitaram Ramaasre S/o Ramsukh R/o Village
				407	Private	Agriculture	0.0184	Vinodkumar S/o Lalbihari Singh, Vijaypratap Singh Lallan Singh S/o Sampati Singh, Sushilkumar Rajeshkumar Brajesh kumar S/o

							Chotelal, Krishankumar Singh Sanjaykumar Alok Kumar S/o Ramchandra Singh, Mahendra Bahadur Rajendraprasad Pramodkumar Dharmendra Kumar S/o Chandrej Singh, Narendra Pratap Surendrapratap S/o Dwarika R/o Village
			408	Private	Agriculture	0.1320	Vinodkumar S/o Lalbihari Singh, Vijaypratap Singh Lallan Singh S/o Sampati Singh, Sushilkumar Rajeshkumar Brajesh kumar S/o Chotelal, Krishankumar Singh Sanjaykumar Alok Kumar S/o Ramchandra Singh, Mahendra Bahadur Rajendraprasad Pramodkumar Dharmendra Kumar S/o Chandrej Singh, Narendra Pratap Surendrapratap S/o Dwarika R/o Village
			411	Private	Agriculture	0.2430	Krishankumar Singh Sanjaykumar Singh Alok Kumar Singh S/o Ramchandar Singh, Lallan Singh Vijaypratap Singh S/o Sampati Singh, Sushilkumar Rajeshkumar Brajesh Kumar S/o Chotelal R/o Village
			412	Govt.	Road	0.0180	Govt. of Uttar Pradesh
			415	Private	Agriculture	0.0530	Smt. Sarojkumari urf Munni W/o Indrajit Singh, Rampal Singh Shivshankar Singh Vinay kumar S/o Bhuvar Singh, Anil kumar Rajesh kumar S/o Indrapaal R/o Village
			417	Private	Agriculture	0.0371	Rampalsingh S/o Bhuvar Singh R/o Village
			418	Private	Agriculture	0.0164	Virendrapratap Singh Jitendrapratap S/o Hardynarayan Singh R/o Village
			419	Govt.	Road	0.0530	Mainmarg, Govt. of Uttar Pradesh
			420	Private	Agriculture	0.0825	Sanktha Prasad Bhanupratap Indra Pratap S/o Rammath R/o Village
			422	Private	Agriculture	0.0137	Abhaynarayan Shivnaryan S/o Shripati, Ravindra Pratap Singh S/o Rajnarayan Singh, Smt. Janakdulari W/o Rajnarayan Singh, Dharmendra Pratap Singh Anand Pratap Singh Akhand Pratap Singh S/o Ramawadh Singh, Smt. Samla Singh W/o Ramawadh Singh R/o Village
			581	Govt.	Road	0.0264	Govt. of Uttar Pradesh
			620	Private	Agriculture	0.0972	Shivshankar Singh urf Shivpujan S/o Bhuvar Singh R/o Village
			621	Private	Agriculture	0.2799	Vinaykumar Singh S/o Bhuvar Singh R/o Village
			622	Private	Agriculture	0.1430	Rampalsingh S/o Bhuvar Singh R/o Village
			623	Private	Agriculture	0.2129	Prabhudei S/o Matafer R/o Village
			632	Govt.	Road	0.0236	Govt. of Uttar Pradesh
			664	Private	Agriculture	0.0445	Baijnath Ramjit Abhinandan S/o Tulsiram, Kaushalya S/o Ramkumar, phuladevi W/o Gayaprasad R/o Village
			665	Private	Agriculture	0.2902	Harishchandar S/o Udayraj Singh R/o Village
			666	Private	Agriculture	0.0103	Narendra Pratap S/o Udairaj Singh R/o Village
			667	Govt.	Nali	0.0300	Govt. of Uttar Pradesh
			668 E	Private	Agriculture	0.6927	Jamunaprasad Brajlal Nanhku S/o Ramdular R/o Lambhua
			668 E	Private	Agriculture		Ram singh Harishchandra Singh Akhilesh Kumar Singh Rajesh Kumar Singh s/o Awdhesh Singh Israwati w/o Awdhesh Singh R/o village
			669	Govt.	Nali	0.0139	Govt. of Uttar Pradesh
			670	Private	Agriculture	0.2661	Radhakant W/o Badri R/o Lambhua
			671	Private	Agriculture	0.0850	Shushila W/o Upendranath R/o Lambhua
			672	Private	Agriculture	0.0008	Harinarayan Shrinarayan Tarkeshwar S/o Parasnath R/o Village
			674	Govt.	Nali	0.0008	Govt. of Uttar Pradesh
			675	Private	Agriculture	0.0010	Jamunaprasad S/o Ramdular R/o Lambhua
			682	Govt.	Nali	0.0169	Govt. of Uttar Pradesh
			684	Private	Agriculture	0.0044	Rampratap Ramtirath Ramujagir S/o Gangadeen R/o Village

				685	Govt.	Road	0.0176	Govt. of Uttar Pradesh
				686	Private	Agriculture	0.0933	Jagdamba Prasad Durga Prasad Shitla Prasad S/o Bullar
				687	Private	Agriculture	0.0632	Laxminarayan S/o Gangaram R/o Village
				688	Private	Agriculture	0.6695	Shivdev S/o Anantram, Dinesh kumar Naresh kumar Durgesh kumar S/o Kapildev, Sandhyadevi W/o Kapildev, Suresh kumar Ramesh kumar Prem kumar S/o Krishandev, Smt. Shail Jha W/o Krishandev, Smt.Khanjana Devi W/o Shivdev jha, Smt. Sitadevi W/o Omprakash R/o Lambhua
				697	Govt.	Nali	0.0202	Govt. of Uttar Pradesh
				792	Govt.	Nali	0.0940	Govt. of Uttar Pradesh
				791	Private	Agriculture	0.0156	Ramaasre Ramachevar S/o Gangaprasad, Arunkumar Kailashi S/o Vishvanath, Baijnath S/o Bachi R/o Villlage Nilam Singh w/o Brijbhan Singh Vandana Gupta w/o Lalji Gupta
				795	Private	Agriculture	0.1734	Kamlesh Singh S/o Krishanprasad Singh, Daddansingh urf Danbahadur Singh S/o Ramsundar Singh, Shivendra Vikram Singh S/o Ramesh kumar Singh, Umesh kumar Singh Pradeep kumar S/o Faujdar Singh, Ramesh kumar S/o Dahan Singh R/o Village, Shripal Singh S/o Udairaj R/o Narharpur, Rambharat S/o Ramdaas R/o Village, Jawahar lal S/o Pannalal R/o Lambhua, Shripal Singh S/o Udairaj Singh R/o Narharpur
				796	Private	Agriculture	0.1480	Israil S/o Rehmat Ali, Jaibulnisha W/o Lt. Jubrail R/o Village
				797	Govt.	Road	0.0150	Govt. of Uttar Pradesh
				798 E	Private	Agriculture	0.0822	Hiramani S/o Sadanand, Ramyagya Banwari Prasad Ramprasad S/o Lalchand urf Rambalak R/o Jafrapur Umesh chandra s/o Dinanath Shyama Devi w/o Dinanath
				798 E	Private	Agriculture		Rampher S/o Gayadeen, Smt.Pramiladevi W/o Chaturbhujji R/o Domanepur
				798 E	Private	Agriculture		Ramsundar S/o Jaidev, Smt. Kalavati Devi W/o Mahima prasad R/o Lambhua, Smt.Ashadevi W/o Vishwanath Gupta R/o Koiripur Mohd. Gandhinagar Vimla devi w/o Mewalal Sahu Pradip Kumar s/o Krishdev Tripathi Kamna Tiwari w/o Shatibhusan Tiwari Manjusa w/o Suresh Kumar Jha Vinay Kumar Jha w/o Ramsunder Jha Ajay Kumar Jha s/o Ramsunder Jha
				798 E	Private	Agriculture		Smt. Kuntidevi W/o Jagmohan R/o Jafrapur
				799	Private	Agriculture	0.0200	Harilal S/o Gayadin R/o Lambhua
				800	Private	Agriculture	0.0210	Chedilal S/o Gayadin R/o Lambhua
				801	Private	Agriculture	0.0378	Mataprasad S/o Lahuri R/o Village
				802	Private	Agriculture	0.0006	Alagu S/o Shitladin R/o Village
				805	Govt.	Nali	0.0149	Govt. of Uttar Pradesh
				806	Private	Agriculture	0.3292	Ramaasre Ratipal S/o Shriram, Smt. Sitadevi W/o Shriram R/o Village
				807	Private	Agriculture	0.0840	Ramsumer S/o Datadin R/o Lambhua
				808	Private	Agriculture	0.0861	Ramashankar S/o Ramdin R/o Lambhua
				809	Govt.	Nali	0.0314	Govt. of Uttar Pradesh
				810	Private	Agriculture	0.1577	Surajmukhi S/o Vidyanath R/o Village
				811	Private	Agriculture	0.0300	Ramshiromani S/o Baijnath, Jagannath Dudhnath S/o Ahibaran R/o Village
				812	Private	Agriculture	0.0092	Ramautar S/o Mohan R/o Village
				813	Govt.	Road	0.0164	Govt. of Uttar Pradesh
				827 E	Private	Agriculture	0.3106	Smt. Heerawati W/o Jagdish Prasad R/o Lambhua
				827 E	Private	Agriculture		Suresh Chandra S/o Shriram R/o Village,



							Vinay Shankar Harishankar Jayshankar Vijayshankar S/o Jagdish Prasad R/o Lambhua
			830	Govt.	Non Agriculture	0.0170	Cooprative Socity Lambhua
			831	Govt.	Non Agriculture	0.1019	Cooprative Socity Lambhua
			832	Private	Agriculture	0.1148	Ramsantosh S/o Lalji, Sunil kumar Dileep kumar Pradeepkumar S/o Jagdishprasad, Smt. Kamladevi W/o Jagdishprasad R/o Lambhua
			833	Private	Agriculture	0.0310	Ramsantosh S/o Lalji, Sunil kumar Dileep kumar Pradeepkumar S/o Jagdishprasad, Smt. Kamladevi W/o Jagdishprasad R/o Lambhua
			834	Private	Agriculture	0.0069	Suresh Chandra S/o Shriram R/o Lambhua
			843	Govt.	Road	0.0137	Govt. of Uttar Pradesh
			859	Private	Agriculture	0.0594	Ramdev Shyamdev Premchand Omprakash S/o Ramnaresh R/o Lambhua, Ashokkumar Vinodkumar Maheshkumar Shivshankar S/o Ramsundar, Mu. Kamladevi W/o Ramsundar R/o Village
			860	Private	Agriculture	0.0500	Jairam S/o Golai R/o Patkhauri
			861	Private	Agriculture	0.0029	Shyamal S/o Ramdutt R/o Lambhua Sanjay Kumar s/o Ramlal Vimla Devi w/o Ramlal
			862	Govt.	Road	0.0128	Govt. of Uttar Pradesh
			863	Private	Agriculture	0.1017	Udairaj S/o Ramdev R/o Lambhua
			864	Private	Agriculture	0.1527	Ramsundar S/o Thangani R/o Lambhua
			866	Private	Agriculture	0.0084	Mataprasad Chedilal Shivprasad Ramprasad S/o Nandlal, Sheetla Prasad Rajesh kumar Arvind kumar Minor 16 Suraj kumar Minor 14 Madan Minor 12 Deepak Minor 10 S/o Jagdamba Prasad Guardian Radhika devi, Radhika devi W/o Jagdamba Prasad R/o Lambhua Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Suryamani Singh Asstt. Engineer third Irrigation Division Sultanpur
			867	Private	Agriculture	0.2470	Jamunaprasad Vrajlal S/o Ramdular, Makhanlal Menhilarajendraprasad S/o Nankau, Smt. Abhilakhi W/o Nankau R/o Lambhua
			868	Private	Agriculture	0.1512	Jamunaprasad Vrajlal S/o Ramdular, Makhanlal Menhilarajendraprasad S/o Nankau, Smt. Abhilakhi W/o Nankau R/o Lambhua
			869	Private	Agriculture	0.0449	Jamunaprasad Vrajlal S/o Ramdular, Makhanlal Menhilarajendraprasad S/o Nankau, Smt. Abhilakhi W/o Nankau R/o Lambhua
			870	Private	Agriculture	0.0014	Mohd. Umar Chunnu Irfan Imran Minor 11, 13 S/o Nankau R/o Lambhua
			871	Govt.	Road	0.0205	Govt. of Uttar Pradesh
			873	Private	Agriculture	0.0092	Kalluram S/o Ramsamujh R/o Village
			874	Private	Agriculture	0.0135	Rajmani S/o Datadin R/o Lambhua
			875	Private	Agriculture	0.0232	Shyamadevi W/o Late Bhagwati Prasad R/o Village Premadevi w/o Kalluram
			876	Private	Agriculture	0.0280	Ramkewal Rammurat Pradip Kumar Ajay Kumar S/o Chandpratap
			877	Private	Agriculture	0.0393	Rampratap S/o Ramlaut R/o Lambhua
			878	Private	Agriculture	0.0288	Ishwardeen Harishchandra Rameshchandra S/o Mahadev R/o Lambhua
			879	Private	Agriculture	0.0280	Rambharose S/o Dukhi R/o Lambhua
			880	Private	Agriculture	0.0256	Lalsahab Raisahab S/o Rajendra prasad, Rajkumar Santosh kumar Pankaj kumar S/o Jawaharlal R/o Lambhua
			<b>Total</b>			<b>9.3647</b>	
		<b>(18)</b>	<b>405</b>	<b>Govt.</b>	<b>Road</b>	<b>0.0296</b>	<b>Govt. of Uttar Pradesh</b>
		<b>Lambhuwa</b>	<b>388</b>	<b>Private</b>	<b>Agriculture</b>	<b>0.0618</b>	<b>Smt. Ajora W/o Babulal R/o Village</b>

								Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			387	Private	Agriculture	0.0445		Bhupendra Singh S/o Sahai & Smt. Jaypali W/o Late Sahai R/o Village Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			386	Private	Agriculture	0.0541		Bhupendra Singh S/o Sahai & Smt. Jaypali W/o Late Sahai R/o Village
			385	Private	Agriculture	0.0882		Rampati W/o Jesraj S/o Mendai R/o Village Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			384	Private	Agriculture	0.0155		Katura, Ajora D/o Algu R/o Village Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			186	Private	Agriculture	0.0027		Rajkumar, Krishna, Santosh S/o Ramdin & Smt. Kamladevi W/o Late Ramdin R/o Village Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			381	Govt.	Non Agriculture	0.0024		Lambhua Minor Canal, Govt. Of Uttar Pradesh.
			379	Private	Agriculture	0.0043		Rampher, Matapher, Ramraj S/o Jokhai & Mangesh, Shankar S/o Shivrath R/o Village Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			380	Private	Agriculture	0.1060		Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			390	Private	Agriculture	0.0982		Rambodh S/o Ramsamujh R/o Village
			378	Private	Agriculture	0.0254		Chameladevi W/o Shivprasad R/o Village
			377	Private	Agriculture	0.0323		Smt. Premadevi W/o Kalluram Dhuriay R/o Village
			376	Private	Agriculture	0.0375		Smt. Sursati Devi W/o Rambodh R/o Village
			375	Private	Agriculture	0.0460		Smt. Premadevi W/o Kalluram Dhuriay R/o Village
			374	Govt.	Road	0.0500		Govt. of Uttar Pradesh
			373	Private	Agriculture	0.0227		Raghuwardayal, Gayaprasad S/o Balgovind R/o Village Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			367	Private	Agriculture	0.1845		Raghuwardayal S/o Balgovind R/o Village
			366	Private	Agriculture	0.4764		Kalluram S/o Ramsamujh R/o Village & Tulsiram S/o Dhanai kori R/o Pathkholi
			365	Private	Agriculture	0.1177		Smt. Anjora W/o Nanhku R/o Village
			364	Private	Agriculture	0.0013		Kalisahay S/o Ramcharan & Balram, Balraj, Bajrangbali, Rambabu, Ramraj S/o Hosilaprasad R/o Village
			363	Govt.	Road	0.0220		Govt. of Uttar Pradesh
			359	Private	Agriculture	0.1036		Raghuwardayal, Gayaprasad S/o Balgovind R/o Village
			358	Private	Agriculture	0.0616		Ramharakh, Ramlakhan S/o Ramkuber & Lalbahadur, Brijlal, Ashok kumar S/o Ram achhebar & Urmila Devi W/o Ramachhebar R/o Village

				357	Private	Agriculture	0.1253	Ramlakhan, Ramharakh S/o Ramkuber & Lalbahadur, Ashokkumar S/o Ramachhebar & Urmila Devi W/o Ramachhebar R/o Village
				356	Private	Agriculture	0.2010	Abdul Malik S/o Abdul Sattar R/o Rupri ka pure Majre Ramgarh
				355	Private	Agriculture	0.1525	Ramlal, Rampyare, Ramdular, Ramsagar S/o Algu R/o Village
				354	Private	Agriculture	0.1674	Badrinarayan, Rampyare, Shyamu S/o Makhodar R/o Village
				353	Private	Agriculture	0.0506	Raghuwardayal, Gayaprasad S/o Balgovind & Mahaveer, Ramraj S/o Sheetladeen R/o Village
				468	Govt.	Road	0.0108	Govt. of Uttar Pradesh
				340	Private	Agriculture	0.0285	Shriram, Shivram S/o Bharos R/o Village
				469	Govt.	Road	0.0245	Govt. of Uttar Pradesh
				452	Private	Agriculture	0.0492	Satyendra Kumar Minor 7 years S/o Makhdum Gupta wali Gardian R/o Village
				453	Private	Agriculture	0.0036	Nirmala Devi W/o Makhdum Gupta R/o Village
				467	Private	Agriculture	0.6908	Badrinarayan, Rampyare, Shyamu S/o Makhodar R/o Village
				471	Govt.	Banzer	0.0250	Govt. of Uttar Pradesh
				472	Private	Agriculture	0.0208	Mu. Ahmed khan, Mu. Alam, Mu. Naim, Mu. Munwar, Mu. Nishar S/o Rafik Khan R/o Village
				473 A	Private	Agriculture	0.1063	Ravishankar, Vijayshankar S/o Sitaram R/o Village
				473 B	Private	Agriculture		Ramajore S/o Bodai & Smt. Kamladevi, Smt. Nirmla devi D/o Ganpati & Ramavadh S/o Ramnath & Gaurishankar, Shivshankar S/o Rambali & Rampiyare, Sitaram S/o Ramkishore & Mu. Vasikali W/o Bachha & Badri, Rampiyare, Shyamu S/o Makhodar & Ramlakhan, Ramvachan S/o Ramdas R/o Village
				473 B	Private	Agriculture		Badrinarayan, Rampyare, Shyamu S/o Makhodar R/o Village
				487 B	Private	Agriculture	0.4425	Udayraj yadav S/o Ramlakhan R/o Shahpurpuran
				487 A	Private	Agriculture		Ramajore S/o Bodai & Ramavadh S/o Ramnath & Gaurishankar, Shivshankar minor 16, 12 years S/o Rambali Gardian Shobhawati mother & Sitaram, Rampiyare S/o Ramkishore & Smt. Kamladevi, Smt. Nirmaladevi D/o Ganpati R/o Village
				487 B	Private	Agriculture		Ranveer S/o Ramsagar & Smt. Rajdei W/o Udayraj & Udayraj S/o Ramdev & Ramsamujh S/o Bajinath R/o Village
				489	Govt.	Banzer	0.0076	Govt. of Uttar Pradesh
				491	Private	Agriculture	0.1766	Ramdev, Ramsamujh, Ramdeen S/o Bajinath R/o Shahpur puran
				492	Private	Agriculture	0.0170	Kalpa Devi W/o Ramnarayan & Smt. Mangradevi W/o Awadh R/o Shahpur puran
				493	Private	Agriculture	0.0270	Ramkrishan S/o Achhevar R/o Village
				494	Private	Agriculture	0.1467	Udayraj S/o Ramdev & Raghuraj, Shivraj, Lalji S/o Ramadhar & Shrimati Pathra W/o Late Ramadhar R/o Village
				495	Private	Agriculture	0.0070	Smt. Rajdei W/o Udairaj R/o Shahpur puran
				496	Private	Agriculture	0.0333	Ramsamujh S/o Bajinath Yadav R/o Shahpur
				497	Private	Agriculture	0.0992	Ramadev, Ramsamujh, Ramdeen S/o Baiju R/o Shahpur puran
				498	Private	Agriculture	0.1641	Avadhu S/o Nepal R/o Shahpur puran
				499	Govt.	Road	0.0130	Govt. of Uttar Pradesh
				500	Private	Agriculture	0.1293	Janardan Kumar Singh S/o Ramashankar Singh R/o Shahpur puran
				502	Govt.	Road	0.0299	Govt. of Uttar Pradesh
				510	Private	Agriculture	0.0072	Girdhari S/o Sarju R/o Village Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th

								Irrigation Division Sultanpur
			511	Private	Agriculture	0.2268		Tulsi S/o Jhinguri R/o Village
			512	Private	Agriculture	0.0306		Rajkumar Brajeshkumar S/o Vijaybahadur Guardian Vidhyadevi Mother R/o Mahmoodpur
			513	Private	Agriculture	0.2315		Janardan Kumar Singh S/o Ramashankar Singh R/o Shahpur puran
			514	Private	Agriculture	0.1981		Udairaj Yadav S/o Ramlakhan R/o Shahpurpuran
			515	Private	Agriculture	0.1564		Karunashankar S/o Jainarayan R/o Shahpurpuran Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			516	Private	Agriculture	0.1506		Savitri devi S/o Ramnath & Chotelal S/o Ramkishun & Ramjatan S/o Ramkripal R/o Village Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			517	Private	Agriculture	0.0429		Mohd. Rasid, Ajj Ahmed, Hafij Ahmed S/o Satai urf Sattar Ali R/o Village Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Umesh Kumar Singh Asstt. Engineer 4th Irrigation Division Sultanpur
			<b>Total</b>			<b>5.6820</b>		
		<b>(19) Sahpur Puran</b>	35	Govt.	Road	0.0160		Govt. of Uttar Pradesh
			37	Private	Agriculture	0.4259		Karunashankar S/o Jainarayan R/o Shahpurpuran
			38	Private/ Govt.	Agriculture/ Non Agriculture	0.2259		Mithailal S/o Badri Prasad R/o Lambhua & Janardan Singh S/o Rmashankar & Mohd. Jalil S/o Mohd. Haasim R/o Village Mahamahim Rajypal U.P. Govt through Superintendent Engineer Irrigation Dept. Sultanpur nominy Suryamani Singh Asstt. Engineer 3rd Irrigation Division Sultanpur & Irrigation department, Sultanpur
			45 E	Govt.	Road	0.0254		Govt. of Uttar Pradesh
			45 E	Govt.	Sharda Canal			Govt. of Uttar Pradesh
			46	Private	Agriculture	0.0883		Badri Prasad, Udayraj, Laltaprasad S/o Mahabir & Gyanprakash, Omprakash, Sunil, Mahendra S/o Bajrangbahadur R/o Village
			<b>Total</b>			<b>0.7815</b>		
		<b>(20) Bedu Para</b>	5	Govt.	Road	0.0108		Govt. of Uttar Pradesh
			11	Private	Agriculture	0.3158		Smt. Urmiladevi W/o Harsh kumar R/o Lodipur
			13	Private	Agriculture	0.0643		Shubhkaran S/o Thakurdin & Ramsajivan Ramgulam Ramjit S/o Jethu R/o Village & Subhashchandra Vishwakarma S/o Ramsajivan Vishwakarma R/o Gajapur
			14	Private	Agriculture	0.0730		Barsati S/o Mathura R/o Gajapur
			15	Govt.	Road	0.0129		Govt. of Uttar Pradesh
			16	Private	Agriculture	0.0303		Ramjit S/o Ramnaresh R/o Village
			17	Private	Agriculture	0.0350		Ramhit Ramshiromani Ramsewak S/o Ramnaresh R/o Village
			18	Private	Agriculture	0.0370		Kapildev S/o Ramharakh R/o Gajapur
			19	Private	Agriculture	0.0101		Ramhit Ramshiromani Ramsewak S/o Ramnaresh R/o Village
			20	Private	Agriculture	0.0365		Chhattu S/o Harkhali R/o Village
			21	Govt.	Road	0.0209		Govt. of Uttar Pradesh
			23	Private	Agriculture	0.0087		Mahaveer S/o Pudan & Harishankar Mahadev S/o Chandrabali R/o Village
			24	Private	Agriculture	0.0315		Rajmani S/o Ramnaresh & Gopichand and

								Harish chandra Ramesh chandra and Suresh chandra S/o Ramshiromani & Smt. Janki W/o Ramshiromani & Satyanarayan Devnarayan S/o Ramnaresh & Umashankar S/o Ramharakh & Dudhnath Shobhnath S/o Raghuvir R/o Village & Anilkumar Dubey S/o Shambhunath R/o Devari & Vikrmajit Sabhajit S/o Bhagauti Prasad & Adhyprasad Omprakash S/o Ramakbal & Dukhharan Deviprasad Laxminarayan S/o Ramkripal & Ramshankar S/o Thakur Prasad & Suryanarayan Rajnarayan Abhayanarayan S/o Yadunath & Santoshkumar S/o Kamlaprasad R/o Village & Ramchandar and Harsh kumar and Sunil kumar S/o Amarnath & Smt. Laldai W/o Lt. Amarnath & Brahmadev Rudradev S/o Lalta prasad & Seetadevi W/o Lt. Lalta prasad R/o Village
				25	Private	Agriculture	0.6331	Bedprakash Hariprakash S/o Sukhdev & Satyanarayan Suryanarayan Krishannarayan Hardaynarayan Shyamnarayan S/o Ramlakhan & Hansasingh S/o Laltaprasad Singh R/o Village & Shyamlal S/o Makhodar R/o Shahpur puran
				26	Private	Agriculture	0.0380	Moolchandra Mahesh Chandra S/o Mahadev R/o Village
				27	Govt.	Road	0.0266	Govt. of Uttar Pradesh
				28	Private	Agriculture	0.0726	Devnarayan Basenuram Harinarayan S/o Ramdayal & Dharmaraj Sabharaj S/o Shivanarayan R/o Gajapur
				29	Private	Agriculture	0.0840	Harinarayan Devnarayan Basenuram S/o Ramdayal & Dharmaraj Sabharaj S/o Shivanarayan & Ramsewak Ramfer Rampadarath R/o Gajapur
				30	Private	Agriculture	0.0705	Devnarayan Basenuram Harinarayan S/o Ramdayal & Dharmaraj Sabharaj S/o Shivanarayan R/o Gajapur
				31	Private	Agriculture	0.0010	Ramsewak Ramfer S/o Rampadarath R/o Gajapur
				33	Private	Agriculture	0.0989	Satairam Satynarayan Santram Shriram s/o Bholanath R/o Gajapur
				34	Private	Agriculture	0.0843	Smt. Premadevi W/o Murali & Kariya S/o Gopal R/o Village Gajapur
				35	Private	Agriculture	0.0860	Urmila devi W/o Gayaprasad R/o Mela Ground Patti Ward No. 6 Prg. & Teh. Patti Distt. Pratapgarh
				36	Govt.	Road	0.0069	Govt. of Uttar Pradesh
				37	Private	Agriculture	0.0257	Kariya S/o Gopal R/o Village Gajapur
				47	Private	Agriculture	0.0339	Ramkaran Ramnewaj Ramsaran Rajkumar S/o Jagannath R/o Gajapur
				48	Private	Agriculture	0.4276	Hariprakash S/o Sukhdev & Satyanarayan Suryanarayan Krishannarayan Hardaynarayan Shyamnarayan S/o Ramlakhan R/o Village & Laltaprasad Singh S/o Mahabir Singh & Shyamlal S/o Makhodar R/o Village Shahpur puran & Vivekkumar S/o Ramasre Varnwal R/o Village Lambhua
				49	Private	Agriculture	0.1010	Harishankar Mahadev S/o Chandrabali & Hariprakash Bedprakash S/o Sukhdev & Satyanarayan Suryanarayan Shyamnarayan Krishannarayan S/o Ramlakhan & Mahabir S/o Pudan & Hardaynaray S/o Ramlakhan R/o Village & Rajeshkumar Vrajeshkumar S/o Bhartanrayna dubuy R/o Ramgarh
				50	Govt.	Road	0.0095	Govt. of Uttar Pradesh
				51	Private	Agriculture	0.1779	Laltaprasad Lalsahab Singh S/o Kedarnath Singh R/o Village & Arun kumar Singh Madanmohan Singh R/o Gajapur & Ajaypal Singh S/o Dadradanpal Singh R/o Teraye

			52	Private	Agriculture	0.0927	Rajkumar S/o Matafther & Radheshayam S/o Gangadeen R/o Lambua & Abhayraj S/o Ramkalap R/o Village
			59	Private	Agriculture	0.1218	Mahendrapal Singh S/o Kamalpal Singh & Ranvir Singh S/o Dadranpal Singh R/o Teraye Prg. Miranpur
			60	Govt.	Road	0.0054	Govt. of Uttar Pradesh
			61	Private	Agriculture	0.1360	Mahabir S/o Pudan R/o Village
			72	Govt.	Banzer	0.0504	Govt. of Uttar Pradesh
			73	Govt.	Banzer	0.0130	Govt. of Uttar Pradesh
			74	Govt.	Pond	0.0250	Govt. of Uttar Pradesh
			87	Govt.	Aabadi	0.2484	Govt. of Uttar Pradesh
			88	Govt.	Aabadi	0.0132	Govt. of Uttar Pradesh
			89	Private	Agriculture	0.0833	Ashokkumar Vinodkumar S/o Ramnarayan & Chintamani S/o Hariprakash & Vedprakash S/o Sukhdev & Bachhu S/o Indrapal & Yashoda W/o Baijnath & Pramodkumar Satyanarayan S/o Ramnarayan & Dinesh chandra Vinodkumar S/o Ramshiromani & Sharda Devi W/o Ramshiromani & Vijaykumar Girishchandra S/o Ramshiromani R/o Village
			90	Private	Agriculture	0.0249	Ashokkumar Vinodkumar S/o Ramnarayan & Chintamani S/o Hariprakash & Vedprakash S/o Sukhdev & Bachhu S/o Indrapal & Yashoda W/o Baijnath & Pramodkumar Satyanarayan S/o Ramnarayan & Dinesh chandra Vinodkumar S/o Ramshiromani & Sharda Devi W/o Ramshiromani & Vijaykumar Girishchandra S/o Ramshiromani R/o Village
			96	Private	Agriculture	0.0402	Mahabir S/o Pudan & Harishankar Mahadev S/o Chandrabali & Bedprakash S/o Sukhdev & Satyanarayan Suryanarayan Krishannarayan Hardaynarayan Shyamnarayan R/o Village & Ramachhebar Pandey S/o Kashiprasad R/o Gajapur & Jadavati Devi W/o Vishvanath R/o Village & Shyambahadur Singh S/o Ramnaresh Singh R/o Village Roopika Purwa Majre Ramgarh Prg. Chanda
			97	Govt.	Road	0.0052	Govt. of Uttar Pradesh
			98	Private	Agriculture	0.1869	Dinesh Chandra Vinodkumar S/o Ramshiromani & Sharda Devi W/o Ramshiromani & Vijaykumar Girishchandra S/o Ramshiromani & Sarladevi W/o Shriram Tiwari & Salikram and Tulsiram S/o Harishankar Gupta R/o Village & Smt. Sunil kumar W/o devnath R/o Village Gajapur & Smt. Asha Pandey W/o Jairam Pandey R/o Bedupara & Smt. Pragya Dubey W/o Shivprasad Dubey R/o Dubauli Prg. Chanda
			123	Govt.	Road	0.0079	Govt. of Uttar Pradesh
			130	Private	Agriculture	0.0909	Shrinetriprasad S/o Ramkhelawan & Anandkumar S/o Ramshiromani & Kamladevi W/o Ramshiromani & Shyamsundar S/o Ramkhelawan & Kamlaprasad Omprakash Amarnath S/o Ramsay R/o Village
			131	Private	Agriculture	0.3382	Hsrishankar S/o Chandrabali R/o Village
			150	Govt.	Road	0.0095	Govt. of Uttar Pradesh
			154	Private	Agriculture	0.0931	Ramnarayan Rameshar R/o Village
			155	Private	Agriculture	0.0799	Suresh Chandra Yamuna Prasad S/o Ramkewal & Smt. Gulabdei W/o Ramkewal R/o Village
			156	Private	Agriculture	0.0543	Ramdas S/o Nageshar R/o Village
			157	Private	Agriculture	0.0262	Premnarayan Avdheshnarayan Achhelal S/o Ramcharan R/o Village
			158	Private	Agriculture	0.0187	Ramvishal S/o Late Jagdamba Prasad R/o Village
			159	Private	Agriculture	0.0241	Rammilan Ramnayan S/o Rameshar &

								Yamuna Prasad Suresh Chandra S/o Ramkewal & Mu. Gulabdei W/o Ramkewal R/o Village
			160	Private	Agriculture	0.0191		Rammilan Ramnayan S/o Rameshar & Yamuna Prasad Suresh Chandra S/o Ramkewal & Smt. Gulabdei W/o Ramkewal R/o Village
			161	Govt.	Banzer	0.0890		Govt. of Uttar Pradesh
			162	Govt.	Banzer	0.0380		Govt. of Uttar Pradesh
			163	Private	Agriculture	0.0168		Suryanarayan Harinarayan Santram Bajrang Lalmani S/o Ramajor & Mu Surajdevi W/o Late Ramajor R/o Village
			164	Private	Agriculture	0.0495		Ramnihar and Shivshankar and Hiramani and Harishankar S/o Ramkishor R/o Village
			165	Private	Agriculture	0.0190		Ramautar S/o Ramsamujh R/o Village
			186	Govt.	Non-Agriculture	0.0643		Govt. of Uttar Pradesh
			187	Private	Agriculture	0.0251		Ramshiromani S/o Shambhu Giri & Shivprasad Hari Prasad Suresh S/o Ramfer & Kewla W/o Ramfer & Deepak kumar and Vipinkumar S/o Kamlesh & Sumitra W/o Kamlesh & Ranjay S/o Ramanjor & Ramprakash Minor age 9 yrs. S/o Sanjay Guardian Mother Self & Smt. Chamela Devi W/o Sanjay R/o Village
			188	Private	Agriculture	0.0829		Shivprasad Hari Prasad Suresh S/o Ramfer & Deepak Kumar and Vipinkumar S/o Kamlesh & Sumitra W/o Kamlesh & Kewla W/o Ramfer R/o Village
			189	Private	Agriculture	0.1802		Ranjay S/o Ramanjor & Ramprakash Minor age 9 yrs. S/o Sanjay Guardian Mother Self & Smt. Chamela devi W/o Sanjay R/o Village
			190	Private	Agriculture	0.0380		Ramshiromani S/o Shambhu Giri & Shivprasad Hari Prasad Suresh S/o Ramfer & Kewla W/o Ramfer & Deepak Kumar and Vipinkumar S/o Kamlesh & Sumitra W/o Kamlesh & Ranjay S/o Ramanjor & Ramprakash Minor age 9 yrs. S/o Sanjay Guardian Mother Self & Smt. Chamela devi W/o Sanjay R/o Village
			191	Private	Agriculture	0.0198		Hariram Siyaram S/o Vachai R/o Gajapur
			194 B	Private	Agriculture	0.0630		Kamlaprasad Amarnath Omprakash S/o Ramshay R/o Village
			194 B	Private	Agriculture			Ramsundar S/o Ramlaut & Ramashankar Ramchandrar Jairam Balram Rakesh Ashokkumar S/o Ramavadh R/o Village
			207	Private	Agriculture	0.0670		Rambharat S/o Lauhar R/o Naharpur
			208	Private	Agriculture	0.0716		Juggi Lal S/o Ramlakhan R/o Village Naharpur
			209	Private	Agriculture	0.0890		Gulabchand S/o Lauhar R/o Naharpur
			210	Private	Agriculture	0.1085		Ramkesh Kumar Rameshkumar S/o Rammurat R/o Naharpur
			212	Private	Agriculture	0.1403		Smt. Sunita W/o Umesh kumar R/o Village Naugawa & Smt. Piyari W/o Somai R/o Village Sheshanpur Prg. Chanda & Smt. Shivkumari W/o Sabhajeet R/o Village Sahinawan Prg. Chanda & Smt. Parwati W/o Roshanlal R/o Village Saraijijhar Prg. Chanda & Chintadevi W/o Ramlal R/o Village Madanpur Paniyar Prg. Chanda Present R/o Bedupara
			213	Private	Agriculture	0.0747		Ramtirath Ramnayan S/o Ramdev Mu. Villi W/o Ramdev R/o Village
			215	Private	Agriculture	0.0550		Dharamraj S/o Ramfer R/o Village
			216	Private	Agriculture	0.0091		Smt. Shakuntala W/o Hariprasad R/o Village
			217	Private	Agriculture	0.0679		Shri Trinetruprasad S/o Ramkhelawan & Anand kumar S/o Ramshiromani & Kamladevi W/o Ramshiromani & Kamlaprasad Amarnath Omprakash S/o Ramsay & Ramshankar Ramchandrar Jayram

							Ashokkumar Baliram Rakesh S/o Ramawadh & Shyamsundar S/o Ramkhelawan & Ramsundar S/o Ramlaut R/o Village
			218	Govt.	Non-Agriculture	0.0536	Govt. of Uttar Pradesh
			226	Private	Agriculture	0.0409	Kishor Brahmdin S/o Shivtahal & Chandrabhan Ramkalp S/o Kutti & Chhotelal Motilal Tihuri S/o Ramdev & Ramkumar Banwari Bhagauti Prasad S/o Ramnath R/o Village
			227	Private	Agriculture	0.0302	Shri Trinetruprasad S/o Ramkhelawan & Anand Kumar S/o Ramshiromani & Kamladevi W/o Ramshiromani & Kamlaprasad Amarnath Omprakash S/o Ramsay & Ramshankar Ramchandar Jayram Ashokkumar Baliram Rakesh S/o Ramawadh & Shyamsundar S/o Ramkhelawan & Ramsundar S/o Ramlaut R/o Village
			228	Private	Agriculture	0.0319	Rammilan Ramnayan S/o Rameshar & Yamuna Prasad Suresh Chandra S/o Ramkewal & Mu. Gulabdei W/o Ramkewal R/o Village
			230	Govt.	Road	0.0057	Govt. of Uttar Pradesh
			232	Private	Agriculture	0.0159	Chandraprakash Chandramohan Ramesh Chandra Nandkishor Prabhaskar S/o Devtadin R/o Barehata
			234	Private	Agriculture	0.0230	Indrashah Singh Mahendrakumar Singh S/o Babban Singh R/o Village Chaukiya
			235	Private	Agriculture	0.0798	Rammilan S/o Rameshwar R/o Village
			236	Private	Agriculture	0.0084	Babulal S/o Magru R/o Village
			237	Private	Agriculture	0.0114	Mu. Gitadevi S/o Bhujenath R/o Village
			238	Private	Agriculture	0.0088	Munnu S/o Chouhar & Shobhnath S/o Muneshar & Lalji S/o Chhotelal R/o Village
			239	Private	Agriculture	0.0135	Shobhnath S/o Muneshar & Lalji S/o Chhotelal R/o Village
			240	Private	Agriculture	0.0128	Munnu S/o Chouhar R/o Village
			241	Private	Agriculture	0.0114	Munnu S/o Chouhar & Shobhnath S/o Muneshar & Lalji S/o Chhotelal R/o Village
			244	Private	Agriculture	0.1403	Smt. Prabhawati W/o Chhotelal R/o Village
			245	Govt.	Way	0.0124	Govt. of Uttar Pradesh
			246	Private	Agriculture	0.0062	Ramlal S/o Nirghin & Ramshiromani S/o Antu & Radheyamohan S/o Ilahi & Heera S/o Lulai & Ramjeet and Ramsevak S/o Nithuri R/o Village
			247	Private	Agriculture	0.0040	Ramshiromani Ramsevak Ramjit S/o Ramnaresh R/o Village
			249	Govt.	Road	0.0100	Govt. of Uttar Pradesh
			250	Private	Agriculture	0.0200	Nanhkuram S/o Khedu R/o Budhupur
			251	Private	Agriculture	0.0127	Shriram S/o Ramprasad & Ramshiromani Ramsevak Ramjit S/o Ramnaresh R/o Village
			252	Private	Agriculture	0.0122	Ramshiromani Ramsevak Ramjit S/o Ramnaresh R/o Village
			253	Private	Agriculture	0.0010	Rameshchand S/o Kamtaprasad R/o Naugavan
			254	Private	Agriculture	0.0080	Ramshiromani Ramsevak Ramudit S/o Ramnaresh R/o Village
			255	Private	Agriculture	0.0020	Suryanarayan S/o Doodhnath R/o Naugawa
			256	Private	Agriculture	0.0020	Smt. Sitardevi W/o Laltaprasad R/o Village
			257	Private	Agriculture	0.0037	Ramanand S/o Mathura R/o Village
			258	Private	Agriculture	0.0406	Ramkumar S/o Gherau R/o Village
			259	Private	Agriculture	0.0022	Ramprasad S/o Gherau R/o Village
			261	Private	Agriculture	0.0849	Rakeshkumar Rajeshkumar S/o Ramdev & Shusil Kumar Shivkumar S/o jawaharlal & Ramsumer Upadhyay S/o Rambharos & Smt. Maltidevi W/o Shyamnarayan & Bhajanlal S/o Ramnaresh & Shaurabhkumar Shambhunath S/o Jawaharlal & Tanmaykumar Tanujkumar S/o Makkhanlal & Anujkumar Minor age 13 yrs. S/o Makkhanlal Guardian Dharmshila Mother & Mu. Dharmshila W/o



							Makkhanlal & Smt.Rupa devi W/o Shyamji R/o Village Lambhua
			262	Govt.	Road	0.0057	Govt. of Uttar Pradesh
			263	Private	Agriculture	0.0444	Nanhu S/o Mohan R/o Village
			267	Private	Agriculture	0.0680	Puranmani Ghisiyavan S/o Ramprasad R/o Village
			268	Private	Agriculture	0.0383	Heera S/o Lusai R/o Village
			269	Govt.	Road	0.0062	Govt. of Uttar Pradesh
			270	Private	Agriculture	0.0544	Subran S/o Ramdin Vidhyasagar and Manoj kumar S/o Jethuram R/o Village
			271	Private	Agriculture	0.0745	Chintamani S/o Hariprakash & Smt. Rajdei S/o Nanhku R/o Village & Akhilesh Baranwal S/o Phulchand Baranwal R/o Village Basrahi Bazaar Present Bedupara
			272	Govt.	Road	0.0085	Govt. of Uttar Pradesh
			273	Govt.	Nali	0.0065	Govt. of Uttar Pradesh
			274	Private	Agriculture	0.0357	Smt. Shardadevi W/o Umashankar & Urmila Devi W/o Kailash Prakash R/o Village
			275	Private	Agriculture	0.0422	Harishankar S/o Chandrabali R/o Village
			276	Private	Agriculture	0.1562	Bachchu S/o Indrajit & Sudamadevi S/o Late Anantram & Smt. Urmiladevi W/o Harshkumar & Smt. Sumanlata W/o Subhash chandra & Laldei W/o Amarnath & Shiladevi W/o Late Ramtirath R/o Village
			277	Govt.	Nali	0.0053	Govt. of Uttar Pradesh
			281	Govt.	Banzer	0.1011	Govt. of Uttar Pradesh
			282	Govt.	Non-Agriculture	0.0056	Girls School Govt. of Uttar Pradesh
			283	Govt.	New Land	0.0711	Govt. of Uttar Pradesh
			285	Private	Agriculture	0.0766	Ramsundar S/o Thakurprasad R/o Village
			287	Private	Agriculture	0.0241	Ramsundar S/o Thakurprasad R/o Village
			288	Private	Agriculture	0.0781	Vishvanath S/o Ramkhelawan R/o Village
			289	Private	Agriculture	0.0045	Kansadevi S/o Kapildev R/o Village
			320	Private	Agriculture	0.2644	Mahaveer S/o Pudan R/o Village
			321	Private	Agriculture	0.0060	Hariprakash S/o Sukhdev & Satyanarayan Suryanarayan Krishannarayan S/o Ramlakhant R/o Village & Smt. Jadavati devi W/o Ramashankar R/o Gajapur & Ramawadh Ramlal S/o Ramcharan R/o Sherpur Pasharampur & Laltaprasad Singh S/o Mahavir & Shyamlal S/o Makhodar R/o Shahpur Puran & Ramesh chandra S/o Shyamacharan R/o Palhipur Prg. Miranpur & Suryalal S/o Chandu R/o Lambhua & Deviprasad S/o Ramnihor R/o Village Ramganj & Pravesh and Sarvesh Minor 15 & 12 yrs. S/o Rambaran Guardian Real Uncle R/o Village Shahpur & Dropadi Devi W/o Sitaram R/o Lambhua
			<b>Total</b>			<b>7.7278</b>	
		<b>(21)</b>	<b>364</b>	Govt.	Road	0.0110	Govt. of Uttar Pradesh
		<b>Narharpur</b>					
			363	Private	Agriculture	0.1699	Kshitish Chand S/o Dindayal & Smt. Patiraji W/o Lt. Dindayal & Hiram Sheshmani S/o Ramnihor & Gangesh chandra Akhilesh chandra S/o Ramshiromani & Mu. Dharma W/o Ramshiromani R/o Village
			362	Private	Agriculture	0.0421	Bairagi S/o Ramsunj R/o Village
			347	Govt.	Nali	0.0068	Govt. of Uttar Pradesh
			334	Private	Agriculture	0.0360	Bhullur prasad S/o Tulsiram R/o Village & Ramharakh Yadav S/o Jagau Yadav R/o Dashvatpur
			333	Private	Agriculture	0.0419	Ramajor S/o Jugnu R/o Village
			332	Private	Agriculture	0.1255	Smt. Ramdulari S/o Mahadev Jaysawal & Smt. Urmila devi W/o Rampradosh R/o Lambhua & Jangbahadur Singh S/o Ramtahal R/o Village & Soorsati D/o Madhuwan Singh R/o Village & Leelawati devi W/o Tirthraj R/o Patulaki
			331	Private	Agriculture	0.0663	Dindayal S/o Ramnihor & Gangesh chandra

								Akhilesh chandra S/o Ramshiromani & Mu. Dharma W/o Ramshiromani & Ramakbal Lalmani Hiraram Jagdishprasad S/o Ramnihor & Vrajesh kumar Umesh chandra W/o Sheshmani & Shakuntla Widow Sheshmani R/o Village
			330	Private	Agriculture	0.0156		Dindayal S/o Ramnihor & Gangesh chandra Akhilesh chandra S/o Ramshiromani & Mu. Dharma W/o Ramshiromani & Ramakbal Lalmani Hiraram Jagdishprasad S/o Ramnihor & Vrajesh kumar Umesh chandra W/o Sheshmani & Shakuntla Widow Sheshmani R/o Village
			329	Private	Agriculture	0.0250		Ramsewak Singh S/o Gayabaksh Singh & Omprakash Singh S/o Mahadev Singh & Ahibaran Singh S/o Gngaprasad Singh & Shubham Singh Minor 14 yrs, S/o Ramnarayan Singh Guardian Vimlesh & Ramdayal and Bedprakask Singh S/o Lalbahadur R/o Village
			328	Private	Agriculture	0.1326		Smt. Krishna Singh W/o Anantbahadur Singh R/o Village
			327	Govt.	Road	0.0093		Govt. of Uttar Pradesh
			326 B	Private	Agriculture	0.3193		Ramsaran Singh S/o Rambadal Singh & Indrajit Yadav Ramjit S/o Ramkaran & Rajaram Yadav S/o Shrinath R/o Village & Smt. Premadevi W/o Ramjatan & Smt. Ramasingh W/o Dahan Singh & Hawaldar Singh Harish Narayan S/o Keshav prasad Singh R/o Ramgarh Smt. Kirshan Singh W/o Aanant Bahadur Singh R/o Village
			320	Private	Agriculture	0.1150		Udrej Singh S/o Harisharan Singh & Premadevi D/o Sherbahadur Singh & Manbahadur Singh S/o Vanshraj Singh & Rudrapal Singh Vijaypal Singh S/o Samar Bahadur Singh R/o Village & Manikchandra S/o Rampalat R/o Village Ramgarh & Ramprasad S/o Shivkumar surname Kallu Shukl & Smt. Ashoka devi W/o Krishanji Dwivedi R/o Village Dulhapur
			319	Private	Agriculture	0.0250		Smt. Chamelidevi W/o Rampratap R/o Kamapur & Amritlal S/o Suraybali & Chandrabhuvan nath S/o Ramlakhan R/o Village & Jashwant Singh Ramshiromani Singh R/o Kithauli
			318	Private	Agriculture	0.0430		Vishvanarayan S/o Ramhit & Virendra pratap Singh S/o Ratanpal Singh R/o Village kuvershahpatti & Pramodkumar S/o Laltaprasad R/o Rupchandapur Teh. Badlapur Dist. Jaunpur
			317 E	Private	Agriculture	0.1486		Neemar Triveni Sukhai S/o Tulan R/o Bhagouti pur
			317 E	Private	Agriculture			Matafer Gayadeen S/o Jaikaran R/o Jaipalpur Narharpur
			317 E	Private	Agriculture			Mohan lal Munna lal Ramsundar S/o Agnu lal R/o Gharwaspur
			317 E	Private	Agriculture			Ramaasre S/o Bhagwanprasad & Sandeep Kumar Minor 17 years S/o Bhagwanprasad Guardian Father R/o Ramgarh
			317 E	Private	Agriculture			Ramsaran Singh S/o Rambadal Singh R/o Village
			307	Private	Agriculture	0.0320		Omprakash Singh S/o Mahadev Singh & Ramvibhuti Singh Ajaykumar Singh S/o Rammurat Singh & Ramsurat S/o Gangsingh & Premnarayan Rajnarayan S/o Rambharat & Ramsewak Singh S/o Gayabaksh Singh & Ramdayal Singh and Vedprakask Singh S/o Lalbahadur Singh R/o Village
			366	Private	Agriculture	0.0380		Ramsewak Singh S/o Gayabaksh Singh & Ramvibhuti Singh Pramod kumar Ajaykumar

								Singh S/o Rammurat Singh & Omprakash S/o Mahadevsingh & Rajnarayan Premnarayan S/o Bharat Singh & Ahivaran Singh Ramsurat Singh S/o Gangaprasad Singh & Ramdayal and Vedprakask Singh S/o Lalbahadur R/o Village	
				369	Private	Agriculture	0.0624	Satish kumar Surendra kumar Sunil kumar S/o Sitaram R/o Village	
				370	Govt.	Road	0.0040	Govt. of Uttar Pradesh	
				371	Private	Agriculture	0.0096	Satish kumar Surendra kumar Sunil kumar S/o Sitaram R/o Village	
				372	Private	Agriculture	0.0458	Ramasre S/o Fahebbahadur Singh & Smt. Pramila Singh W/o Kailash Singh & M/s Amit Milk Products Pro. Subedar Singh S/o Ramkumar Singh R/o Village Lambhua & Bharatraj Giri S/o Matabadal R/o Ramgarh	
				373	Govt.	Nali	0.0054	Govt. of Uttar Pradesh	
				374	Private	Agriculture	0.1167	Ramasre S/o Fahebbahadur Singh & Bharatraj Giri S/o Matabadal Giri R/o Ramgarh	
				375	Private	Agriculture	0.0675	Shashanksheshar Singh Prashantseshar Singh Minor age 14, 12 S/o Siyaram Singh Guardian Smt. Sudhasingh Mother Self & Smt. Sudhasingh W/o Lt. Siyaram Singh R/o 1226/2 Sirwara Road Sadar Sultanpur Ha. Va. Ramgarh	
				376	Private	Agriculture	0.0505	Ramsurat S/o Gangaprasad & Anita devi W/o Rajesh Prakash & Smt. Seema Devi W/o Rakesh Prakash R/o Village & Chandrashekhar Gupta S/o Jamunaprasad Gupta R/o Kubershahpatti & Smt. Sheela devi W/o Lt. Ramtirath R/o Lambhua	
				377	Govt.	Road	0.0019	Govt. of Uttar Pradesh	
				378	Govt.	Banzer	0.0250	Govt. of Uttar Pradesh	
				379	Private	Agriculture	0.0060	Ramasre S/o Fateh bahadur & Ramsingh S/o Tejbahadur Singh & Ranjit Singh Amar bahadursingh S/o Ramkaran Singh & Brajesh kumar singh Avdhes kumar S/o Ranjit Singh R/o Village	
				381	Private	Agriculture	0.0488	Ramsewak Singh S/o Gayabaksh Singh & Ramvibhuti Singh Pramod kumar Ajay kumar Singh S/o Rammurat Singh & Omprakash S/o Mahadevsingh & Rajnarayan Premnarayan S/o Bharat Singh & Ahivaran Singh Ramsurat Singh S/o Gangaprasad Singh & Ramdayal and Bedprakask Singh S/o Lalbahadur R/o Village	
				382	Private	Agriculture	0.0190	Smt. Sitapatti W/o Laxminarayan & Sudamadevi W/o Matafer & Kallu S/o Sarju & Gayatri Devi Punitadevi D/o Hanuman & Deepchandra S/o Madhuvan & Shambhunath S/o Phulchandra & Manikchandra Manilal S/o Mahadev & Shyamlal S/o Sarju R/o Village & Smt. Veenasingh W/o Mahendra bahadur Singh R/o Kubershahpatti Prg. Chanda	
				383	Private	Agriculture	0.1110	Smt. Sitapatti W/o Laxminarayan & Sudamadevi W/o Matafer & Kallu S/o Sarju & Gayatri Devi Punitadevi D/o Hanuman & Deepchandra S/o Madhuvan & Shambhunath S/o Phulchandra & Manikchandra Manilal S/o Mahadev & Shyamlal S/o Sarju R/o Village	
				<b>Total</b>			<b>2.5068</b>		
				(22) Kubershah Patti	348	Private	Agriculture	0.0606	Bhullar S/o Tulasi R/o Gharvaspur & Smt. Anantkumari W/o Ramsewak Tiwari R/o Village & Muhmmad Ali S/o Sardar kha R/o Bhatada
					349	Govt.	Road	0.0042	Govt. of Uttar Pradesh
					350	Private	Agriculture	0.1240	Amarnath S/o Haricharan R/o Naharpur
					328	Govt.	Road	0.0062	Govt. of Uttar Pradesh
					313	Private	Agriculture	0.0256	Sitaram S/o Ramnaresh R/o Naharpur
					312	Private	Agriculture	0.0820	Smt. Kewladevi D/o Ramnaresh W/o Sitaram R/o Naharpur

				311	Private	Agriculture	0.0482	Suryanarayan S/o Bhagwandin R/o Naharpur & Kalawati W/o Gaurishankar R/o Ramgarh
				308	Private	Agriculture	0.0548	Ramchandra Phulchandar Shivnarayan Dineshkumar S/o Ramabhilakh & Rajkumar S/o Santram R/o Naharpur & Vanshbahadur Singh S/o Abhayraj R/o Village
				307	Private	Agriculture	0.1021	Chimanu S/o Bhagautidin R/o Naharpur
				306	Private	Agriculture	0.2646	Shambhunath S/o Phulchand R/o Naharpur
				305	Govt.	Road	0.0135	Govt. of Uttar Pradesh
				292	Private	Agriculture	0.0035	Gorakhnath S/o Ramshankar & Suryanarayan S/o Bhagautidin R/o Naharpur
				290	Private	Agriculture	0.2555	Sitaram S/o Mangaru Jayaswal R/o Ramgarh Roopi ka Pura & Divakar Arunkumar S/o Ramkripal Yadav R/o Ramgarh Warid Haal Visundaspur & Smt. Phoola devi surname Phoolar W/o Seetaram Jaysawal R/o Ramgarh & Jhurahu S/o Ganga R/o Village Amarbahadur s/o Jaikaran R/o Gharwaspur
				289	Govt.	Road	0.0162	Govt. of Uttar Pradesh
				286	Private	Agriculture	0.1279	Ramsanehi Ramlal Hooblal S/o Rajaram R/o Village
				285	Private	Agriculture	0.2251	Kashiram Jhagaruram S/o Ramsumajh R/o Village
				284	Private	Agriculture	0.0888	Jagdish S/o Ramnewaj R/o Village & Manikchandra S/o Rampalat R/o Ramgarh & Subhash chandra S/o Bachairam R/o Shankarpur
				283	Private	Agriculture	0.1397	Ramnyak Jagatnarayan Harinarayan S/o Babulal & Mu. Kewla W/o Babulal & Ashok kumar and Ramkumar Rajesh kumar S/o Ramshankar & Smt. Lilawati W/o Late Ramshankar R/o Village
				282	Private	Agriculture	0.1848	Ambikaprasad S/o Bhawaniprasad Shukl R/o Gopalpur Madhaiya
				281	Private	Agriculture	0.4358	Saroj kumar and Manoj kumar S/o Eklavya Saroj & Smt. Manraji W/o Lt. Eklavya R/o Village
				272	Govt.	Road	0.0291	Govt. of Uttar Pradesh
				261	Private	Agriculture	0.0253	Laxminarayan S/o Ramchandar & Arbind Ravindra S/o Ramaasre & Sursati W/o Lt. Ramaasre & Rambachan Shobhnath S/o Ramchandar R/o Kamapur
				260	Private	Agriculture	0.0297	Shyama Devi W/o Raghuraj Singh R/o Village
				259	Private	Agriculture	0.0039	Sadhu Gherau S/o Pancham & Nokhai Ramnath S/o Murali & Sukhdev S/o Santram R/o Village & Ramsagar S/o Durvali R/o Village
				258	Govt.	Road	0.0390	Govt. of Uttar Pradesh
				257	Private	Agriculture	0.1783	Ramachal S/o Ramlaut & Nankau S/o Bhikha & Santoshi Baiju Birju S/o Satai R/o Village & Radheshyam Ghanshyam S/o Lt. Bachai R/o Village
				256	Private	Agriculture	0.2649	Tribhuvan S/o Ramlakhan R/o Naharpur & Ashokkumar Radheshyam Lalmani S/o Matole R/o Village
				255	Private	Agriculture	0.0167	Amarnath S/o Haricharan R/o Naharpur
				254	Private	Agriculture	0.0170	Umanath S/o Haricharan R/o Naharpur
				253	Private	Agriculture	0.3048	Patumnath S/o Haricharan R/o Naharpur
				252	Govt.	Road	0.0202	Govt. of Uttar Pradesh
				233	Govt.	Nali	0.0299	Govt. of Uttar Pradesh
				240	Private	Agriculture	0.3492	Shyama Devi W/o Raghuraj Singh R/o Village
				241	Govt.	Road	0.0300	Govt. of Uttar Pradesh
				242	Private	Agriculture	0.1014	Santram S/o Shivharakh R/o Gharvaspur
				247	Private	Agriculture	0.0999	Barsati S/o Jiyawan & Smt. Kewla devi W/o Sitaram Jayaswal R/o Village
				248	Private	Agriculture	0.0950	Sudama S/o Hiralal R/o Shahpur
				249	Private	Agriculture	0.1441	Maharajdin S/o Ramnaresh R/o Village

				262	Private	Agriculture	0.1856	Rambahadur Rajbahadur Vimalkumar S/o Jagatnarayan R/o Majhegaon
				261	Private	Agriculture	0.0066	Subaschand and Vipinkumar S/o Laxminarayan & Rajkumari W/o Laxminarayan R/o Kamapur & Arbind Ravindra S/o Ramasre & Sursati W/o Lt. Ramasre & Smt. Anaradevi W/o Mohanlal Jayaswal R/o Gharvaspur & Shobhnath S/o Ramchandrar R/o Kamapur
				259	Private	Agriculture	0.0725	Ramsagar S/o Durvali & Sadhu Gherau S/o Pancham & Nokhai Ramnath S/o Murali & Sukhdev S/o Santram R/o Village
				257	Private	Agriculture	0.0073	Ramachal S/o Ramlaut & Radheshyam Ghanshyam S/o Lt. Bhachi & Nankau S/o Bhikha & Santoshi Baiju Birju Satai R/o Village
				365	Private	Agriculture	0.0185	Shivbaran S/o Chandrabali R/o Kubersshah Patti & Sitapati S/o Thakuridin R/o Naharpur & Balibhadra Ramshiromani Ghabshyam Baijnath S/o Ramnayak & Danbahadur Devraj Shrinarayan S/o Shivbaran R/o Village
				366	Govt.	Non Agriculture	0.0118	Govt. of Uttar Pradesh
				<b>Total</b>			<b>4.3438</b>	
			<b>(23)</b>	<b>440</b>	Govt.	Road	0.0862	Govt. of Uttar Pradesh
				414	Private	Agriculture	0.2401	Santram S/o Shivharakh R/o Village
				415 E	Private	Agriculture	0.3824	Gangadei W/o Ramgulab pal R/o Maharajganj
				415 E	Private	Agriculture		Ramjag Ramsiddh Rajesh Brijesh Subhash Jeetlal S/o Narpati & Dhandai Devi W/o Narpati & Homsagar Premsagar S/o Manohar R/o Village
				416	Private	Agriculture	0.6699	Rambahor S/o Dillu & Rambahadur Samarbahadur S/o Ramnihor & Lalji Rakesh Suresh Avdhesh S/o Ramkishor & Lilawati W/o Phulchand R/o Village
				432	Private	Agriculture	0.4765	Suryanarayan urf Sarju Prasad S/o Rambaran & Smt. Kripali W/o Rambaran & Smt. Parwati devi W/o Suryanarayan & Smt. Shanti devi W/o Ramshiromani R/o Village
				433	Private	Agriculture	0.2577	Chandu S/o Anaru R/o Shahpuran Puran
				438	Private	Agriculture	0.1310	Ghirrau S/o Ramautor & Abhayraj S/o Nankau Govind Minor age 13 yrs. S/o Nankau Guardian Kharpatti Mother Self & Kharpatti W/o Nankau & Rampratap S/o Benai & Raju Minor age 13 yrs. S/o Benai Guardian Shanti Mother & Shanti W/o Benai & Rampyare Ramjas S/o Ganga R/o Village
				437	Private	Agriculture	0.1900	Ramshankar Ramesh chandra Dinesh chandra S/o Balgovind R/o Village
				439	Private	Agriculture	0.2734	Ramkaran S/o Kendar R/o Village
				449	Govt.	Road	0.0166	Govt. of Uttar Pradesh
				452	Private	Agriculture	0.0692	Ramakbal S/o Suryanarayan R/o Sherpur Parsrampur
				453	Private	Agriculture	0.2550	Smt. Kripali W/o Rambaran & Amarbahadur S/o Jaikaran R/o Village & Ramsagar S/o Sitaram R/o Lama Bankatha Majra Ninra & Ramashankar Ramesh Kumar Dinesh kumar S/o Balgovind & Ramnewaj S/o Ramkuber R/o Village
				454	Private	Agriculture	0.2602	Premwati W/o Shriram R/o Hasapur Parg. Aldemau & Shivcharan S/o Vindeshwari R/o Sherpur Parsrampur
				455	Govt.	Road	0.0018	Govt. of Uttar Pradesh
				457	Private	Agriculture	0.0093	Smt. Parwati Devi W/o Shivcharan R/o Sherpur Parsrampur
				458	Private	Agriculture	0.0235	Ramnevaj S/o Ramkuber & Ramhit Hariram S/o Ramsundar R/o Village
				459	Private	Agriculture	0.0325	Shivmurati Devtadin Ramsurat S/o Bachai R/o Sherpur Parsrampur
				460	Private	Agriculture	0.0220	Devtadin Ramsurat S/o Bachai R/o Sherpur

								Parsrampur
			463	Private	Agriculture	0.0111		Shitla Prasad Matapasrad S/o Nirghin R/o Sherpur Parsrampur & Sacchidanand Pandey S/o Shatrughan prasad Pandey R/o Rampur
			465	Private	Agriculture	0.0139		Jagram S/o Thonthi R/o Village
			630	Private	Agriculture	0.0060		Dashrat Prasad Shatrughan Pasad S/o Ramkaran R/o Rampur
			631	Private	Agriculture	0.2451		Sheetla Prasad Matapasrad S/o Nirghin & Shrikant S/o Ramakbal R/o Sherpur Parsrampur
			632	Govt.	Road	0.0460		Govt. of Uttar Pradesh
			633	Private	Agriculture	0.3375		Ramakbal S/o Suryanarayan & Jaiprakash S/o Ramdatt & Krishankumar Abhayraj Kailashnath Amernath S/o Durgaprasad & Vijayraj S/o Ramtavkkal R/o Sherpur Parasrampur & Sachidanand Pandey S/o Shatrudhan Pandey R/o Rampur
			638	Govt.	Road	0.0205		Govt. of Uttar Pradesh
			640	Private	Agriculture	0.0765		Sarjudevi W/o Ramautar R/o Village
			641	Private	Agriculture	0.1460		Rukmuddin shah Hakimuddin Ahmed Rayaj Ahmed Bhuila S/o Munir shah R/o Village
			642	Private	Agriculture	0.5382		Ompakash Devprakash S/o Rambodh & Mu. Chhayarani W/o Late Rambodh R/o Village
			643 E	Private	Agriculture	0.1728		Smt. Sonadevi W/o Alisher R/o Anapur Narayananj & Smt. Lalli devi W/o Chindilal R/o Village
			643 E	Private	Agriculture			Smt. Sonadevi W/o Alisher R/o Anapur Narayananj & Smt. Lalli devi W/o Chindilal & Smt. Fatamabibi W/o Lt. Allabhej R/o Village & Sacchidanand S/o Shatrughan prasad R/o Rampur
			644	Private	Agriculture	0.1056		Kedarnath S/o Ramachhebar R/o Village
			645	Private	Agriculture	0.2318		Munir shah Khalil shah Haiyiddin shah S/o Bashir ahmed R/o Village
			652	Private	Agriculture	0.0203		Nanahku Shimbhu Radheshyam S/o Ramdas & Mu. Bhagna W/o Ramdas R/o Sherpur
			656	Private	Agriculture	0.0439		Abdulsattar and Mohd. Rafik S/o Tunai & Sahina W/o Tunai R/o Village
			657	Private	Agriculture	0.5581		Avdshesh kumar S/o Shivprasad R/o Village
			658	Private	Agriculture	0.1930		Hamid S/o Damadi R/o Keiripur & Surendra Pratap Singh S/o Rampujan R/o Village
			659	Private	Agriculture	0.1988		Jamil S/o Gohar R/o Village
			660	Private	Agriculture	0.1110		Jamil S/o Gohar R/o Village
			661	Govt.	Road	0.0229		Govt. of Uttar Pradesh
			<b>Total</b>			<b>6.4964</b>		
			<b>(24) Sherpur Parasrampur</b>	1	Govt.	Nali	0.0075	Govt. of Uttar Pradesh
				2	Private	Agriculture	0.1016	Mahadev S/o Ghurhu R/o Rahatipur
				5	Private	Agriculture	0.0618	Ramdayal Jhingurai S/o Narayan pur
				7	Private	Agriculture	0.0117	Jagram S/o Thonthi R/o Gharvaspur & Ashokkumar S/o Rambahadur R/o Gharvaspur & Santoshkumar, Satyendrakumar, Shaileshkumar S/o Rambahadur Age : 15, 11, 07 Sanrakha Kewladevi Mata Kewladevi W/o Rambahadur R/o Sa. Gharvaspur
				10	Private	Agriculture	0.0055	Ramnewaj, Ramsumer S/o Ramkuber R/o Gharvaspur
				11	Govt.	Road	0.0003	Govt. of Uttar Pradesh
				12	Private	Agriculture	0.0002	Smt. Jamuna Devi W/o Matapasrad R/o Village
				33	Private	Agriculture	0.3649	Amarnath, Laxmikant Deviprasad Hariprasad Matapasrad S/o Ayugnath R/o Sinhohli & Smt. Babnadevi W/o Vijaypal Singh R/o Gharawaspur & Smt. Shakinbano W/o Mohammad Salim Ansari R/o Lambhua
				34	Private	Agriculture	0.4123	Sheetlaprasad, Matapasrad, Ramprasad S/o Nirghin R/o Village
				35	Govt.	Road	0.0091	Govt. of Uttar Pradesh

				36	Private	Agriculture	0.0850	Ramamol S/o Nirghin R/o Village
				37	Private	Agriculture	0.0403	Smt. Parwati Devi W/o Shivcharan & Shivcharan S/o Vindeshwari R/o Village
				42	Private	Agriculture	0.7618	Parasnath S/o Triloki R/o Village & Rajkumar Vijay Kumar Ramesh Kumar adult Rakesh Kumar Minor Age 10 Yrs S/o Baijnath Gaurdain Mu. Ushadevi Mata Self & Ushadevi W/o Lt Baijnath R/o Village
				43	Govt.	Road	0.0116	Govt. of Uttar Pradesh
				44	Private	Agriculture	0.3306	Saligram, Vijayram S/o Ramtavankal R/o Village & Krishan Kumar, Shrinath, Abhayraj, Kailashnath, Amarnath S/o Durgaprasad R/o Village & Shripati S/o Changu R/o Aanapur Narayanganj & Smt. Parvatidevi W/o Shivcharanlal R/o Sherpurparasrampur Prg. Chanda & Vidhyadevi W/o Shatrudhanprasad Pandey R/o Rajwarerampur prg. Chanda Tehsil Lambhua District Sultanpur
				68	Private	Agriculture	0.1206	Ramlal S/o Ramanand R/o Village & Jaiprakash Choubey S/o Ramdutt Choubey R/o Village & Sobhadevi W/o Ramdutt R/o Village
				69	Private	Agriculture	0.0180	Ramakbal S/o Suryanarayan R/o Village
				<b>Total</b>			<b>2.3426</b>	
			<b>(25) Anapur Narayanganj</b>	133	Private	Agriculture	0.0144	Ramakbal S/o Suryanarayan R/o Sherpur Parasrampur
				132	Private	Agriculture	0.0029	Ramakbal S/o Suryanarayan R/o Sherpur Parasrampur
				124	Private	Agriculture	0.0890	Ramkaran S/o Bihari R/o Village
				123	Private	Agriculture	0.1870	Saiyad Mohd.Afjal Husain, Saiyad Mohd.Afsar Husain S/o Alfraj & HasamulBegum W/o Alfraj R/o Village
				122	Private	Agriculture	0.0257	Saiyad Mohd.Afjal Husain, Saiyad Mohd.Afsar Husain S/o Alfraj & HasamulBegum W/o Alfraj R/o Village
				121 E	Private	Agriculture	0.4823	Vipat S/o Shivdahel R/o Gharvaspur
				121 E	Private	Agriculture		Ghisiyavan, Ghapsu S/o Sardeen R/o Village
				121 E	Private	Agriculture		Santoshi W/o Gurudeen R/o Village
				120	Govt.	Way	0.0069	Govt. of Uttar Pradesh
				106	Private	Agriculture	0.1140	Bhagwandeem urf Bhusunu, Ramrajtan, Ramkaran S/o Bihari R/o Village & Motilal S/o Ramadhar R/o Village
				105	Govt.	Road	0.0053	Govt. of Uttar Pradesh
				90	Govt.	Way	0.0141	Govt. of Uttar Pradesh
				89 E	Private	Agriculture	0.2915	Avdhendra Pratap Singh S/o Durgvijay R/o Kothrakhurd & Satish kumar, Sudhirkumar S/o Balirajsingh R/o Kothrakhurd & Vikaspratap Singh S/o Mangal Singh R/o Kothrakhurd & Krishandev, Omprakash, Ishtdev, Vedprakash S/o Shivprasad R/o Rampur & Rajdev, Ratandev S/o Basdev & Rajkumari D/o Basdev R/o Rampur & Ramakant S/o Sheetalprasad R/o Village & Smt. Balasingh W/o Lt. Gajendrapratapsingh R/o Rampur & Fakir S/o Imamali R/o Gharwaspur & Mohd. Haddish S/o Pir Mohammad R/o Gharwaspur & Abdul Latif S/o R/o Gharwaspur & Shabbir S/o Dilhar R/o Gharwaspur & Ganeshkumar S/o Sitaram R/o Kubershahpatti & Mazid, Sajid, Safik, Rafik, Hakij S/o Sikandar & Isratulnisha W/o Sikandar R/o Gharwaspur & Rambaran, Ramdayal, Sadhu, Mataprasad, Ramsaran S/o Ferai & Mutunadevi W/o Ferai R/o Village
				91	Private	Agriculture	0.0011	Baitali S/o Jogi R/o Village
				92	Private	Agriculture	0.0932	Jagannath S/o Ramabhilakh R/o Village
				93	Private	Agriculture	0.2932	Jokhu, Rajendraprasad S/o Lahuri & Lahuri S/o Algu R/o Village & Bhagirathi, Lalmani S/o Jethu & Gangidevi W/o Jethu R/o Village
				94	Private	Agriculture	0.3951	Avdhendra kumar S/o Durgvijay singh R/o

								Kothrakhurd
			95	Private	Agriculture	0.5153		Avdhendra kumar S/o Durgvijay singh R/o Kothrakhurd
			68	Govt.	Way	0.0157		Govt. of Uttar Pradesh
			76	Private	Agriculture	0.0029		Rambaran S/o Newaj R/o Village & Brijpal S/o Ramkaran & Kailashidevi W/o Ramkaran R/o Village
			75	Private	Agriculture	0.0268		Rajkumar S/o Vishvanath & Sahdei W/o Vishvanath R/o Rampur
			74	Private	Agriculture	0.0400		Rajdei W/o Shripal & Smt. Katoradevi W/o Jethuram Yadav R/o Rampur
			73	Private	Agriculture	0.0101		Jethu S/o Pitamber R/o Village
			67	Private	Agriculture	0.0147		Jaggu S/o Matabadal R/o Rampur
			66	Private	Agriculture	0.2450		Harishchandra S/o Nanhku & Mu. Samoladevi W/o Lt. Nanhku & Barsati W/o Nandha R/o Village
			65	Private	Agriculture	0.4121		Rampratap Singh, Gayaprasad Singh, Arunkumar Singh S/o Raghwendrapratapsingh R/o Kothrakhurd
			61	Private	Agriculture	0.0550		Avdhendrakumar S/o Durgvijaysingh R/o Kothrakhurd
			51	Private	Agriculture	0.0011		Muharram S/o Kasim R/o Village
			50	Private	Agriculture	0.2683		Munshiraja S/o Shahvaj R/o Village
			49	Private	Agriculture	0.0227		Laximan S/o Bhagelu R/o Village
			46	Private	Agriculture	0.4474		Katvaru S/o Mendu R/o Village & Kaluram S/o Ramdas R/o Village & Ghurhu S/o Ramai R/o Village & Magghu S/o Benchu R/o Village & Bhagirathi S/o Bahadur R/o Village & Ramdayal S/o Bahadur R/o Village & Rambaran S/o Ferai R/o Village & Ramlakhan S/o Bhagelu R/o Village & Ram Saran S/o Ferai R/o Village & Sadhu S/o Ferai R/o Village.
			231	Govt.	Way	0.0439		Govt. of Uttar Pradesh
			232	Private	Agriculture	0.1183		Ramkedar S/o Putun & Khunkhun, Bhagirathi S/o Bachai & Hariprasad, Shripal, Lalta S/o Jangali & Ramkaran S/o Bihari R/o Koiripur
			233	Private	Agriculture	0.1595		Ramkedar S/o Putun & Khunkhun, Bhagirathi S/o Bachai & Hariprasad, Shripal, Lalta S/o Jangali & Ramkaran S/o Bihari R/o Koiripur
			234	Private	Agriculture	0.2786		Ramkedar S/o Putun & Khunkhun, Bhagirathi S/o Bachai & Hariprasad, Shripal, Lalta S/o Jangali & Ramkaran S/o Bihari R/o Koiripur
			235	Private	Agriculture	0.1195		Jayraji Devi W/o Ramkedar R/o Kothrakhurd Jitendrapratap Surendra Pratap Virendra Pratap Bhupendra Pratap Dharmendra Pratap Dhirendra Pratap S/o Rameshchandra Singh R/o Rampur Brajesh Pratap Ajaykumar Sanjaykumar S/o Satishchandra Singh R/o Rampur Jayraji Devi W/o Ramkedar Hariram Siyaram Dayaram Ramesh S/o Ramlal R/o Kothrakhurd Sudhnadevi W/o Raghunath R/o Gadma Koiripur Harishankar S/o Ramkedar R/o Kothrakhurd Durgavati devi W/o Ramkripal Pandey R/o Kothrakhurd
			236	Private	Agriculture	0.4674		Jayraji Devi W/o Ramkedar R/o Kothrakhurd Jitendrapratap Surendra Pratap Virendra Pratap Bhupendra Pratap Dharmendra Pratap Dhirendra Pratap S/o Rameshchandra Singh R/o Rampur Brajesh Pratap Ajaykumar Sanjaykumar S/o Satishchandra Singh R/o Rampur Jayraji Devi W/o Ramkedar Hariram Siyaram Dayaram Ramesh S/o Ramlal R/o Kothrakhurd Sudhnadevi W/o Raghunath R/o Gadma Koiripur Harishankar S/o Ramkedar R/o Kothrakhurd Durgavati devi W/o Ramkripal Pandey R/o Kothrakhurd
			310	Private	Agriculture	0.0043		Tirthraj, Udayraj, Dharmraj S/o Ramlal R/o Village
			311	Private	Agriculture	0.1737		Smt. Sudhna Devi W/o Raghunath R/o Gadma



								Koiripur Vibhuti Singh Vaibhav Singh minor Age 12 years S/o Vinod kumar Singh Gardian mother Hemlata self Hemlata W/o Vinod kumar Singh Jairaji devi W/o Ramkeddar R/o Kothrakhurd Rajivkumar Singh Sanjivkumar Singh S/o Brajesh Chandra Singh Kalawati Devi W/o Brajesh Chandra R/o Rampur Jitendra Pratap Singh Bhupendra Pratap Dhirendra Pratap S/o Ramesh Chandra Singh Vrajesh Pratap Ajay Kumar Sanjay Kumar S/o Satish Chandra Singh Pankajkumar Neeraj kumar S/o Surendra Pratap Singh Vidyadevi W/o Surendra pratap Singh Deepak Kumar Sudhirkumar S/o Virendra Pratap Singh R/o Rampur
				316	Private	Agriculture	0.0004	Jitendra Pratap Singh S/o Ramesh chandra singh R/o Rampur
				317	Private	Agriculture	0.0171	Dhirendra Pratap Singh S/o Rameshchandra Singh R/o Rampur
				<b>Total</b>			<b>5.4756</b>	
			<b>(26) Rampur</b>	949	Private	Agriculture	0.0580	Ramlaut Ramdaur S/o Gajadhar R/o Village
				950	Govt.	Banzer	0.0151	Govt. of Uttar Pradesh
				952	Govt.	Road	0.0550	Govt. of Uttar Pradesh
				953	Private	Agriculture	0.0160	Lahuri S/o Ludur R/o Anapur Narayanganj
				954	Private	Agriculture	0.0130	Bahadur S/o Ludur R/o Anapur Narayanganj
				955	Private	Agriculture	0.0150	Jethu S/o Ludur R/o Village
				956	Private	Agriculture	0.3454	Ramraj Ramlal Santram Sukhelal S/o Ramanand R/o Village & Vinodkumar Pramod Manoj S/o Rajesh & Shyampatti W/o Rajesh R/o Village & Dayashankar Ramashankar Kripashankar Ravishankar Harishankar S/o Ramlakhan & Kalawati Devi W/o Ramlakhan R/o Village
				957	Private	Agriculture	0.0189	Jokhu Rajendraprasad S/o Lahri & Lahuri S/o Algu R/o Aanapur Narayanganj & Bhagirathi Lalmani S/o Jethu & Gangadevi W/o Jethu R/o Village
				959	Private	Agriculture	0.0395	Smt. Nirmaladevi W/o Abhayraj R/o Pattipur
				1042	Private	Agriculture	0.1613	Murali Ramlakhan S/o Musai R/o Village & Ramkumar Raghunath S/o Dwarika R/o Village & Ramraj S/o Kalpu R/o Village
				1043	Private	Agriculture	0.3342	Murali Ramlakhan S/o Musai R/o Village & Ramkumar Raghunath S/o Dwarika R/o Village & Ramraj S/o Kalpu R/o Village
				<b>Total</b>			<b>1.0714</b>	
			<b>(27) Gadma Koiripur</b>	12	Private	Agriculture	0.0063	Ramsubhag, Bhagwat S/o Rambali R/o Kothrakhurd
				13	Govt.	Road	0.0056	Govt. of Uttar Pradesh
				14	Private	Agriculture	0.1147	Ramraj, Ramlakhan, Ramabhilakh S/o Ramkewal & Prema devi W/o Ramkewal R/o Village
				15	Private	Agriculture	0.1766	Raghunath S/o Dwarika R/o Village
				16	Private	Agriculture	0.0960	Ramachhebar, Mahendraprakash, Omprakash S/o Rampiyare R/o Village & Shri Prakash S/o Premshankar & Kamlavati W/o Lt Premshankar R/o Village
				17	Private	Agriculture	0.2624	Teerendar Pratap Singh, Dharmendar Pratap Singh S/o Ramesh Chandra Singh R/o Rampur
				28	Govt.	Road	0.0423	Govt. of Uttar Pradesh
				27	Private	Agriculture	0.2878	Rajendra Prasad, Sharda Prasad S/o Ramsamujh & Smt. Umashankar W/o Ramsamujh R/o Village
				26	Private	Agriculture	0.2118	Smt. Bimladevi W/o Deviprasad R/o Village
				25	Private	Agriculture	0.1795	Laxmishankar, Radheyshyam, Gayadeen, Sitaram, Gayaprasad S/o Rambachan & Sirtaji Devi W/o Lt. Rambachan R/o Village
				24	Private	Agriculture	0.0092	Ramkeddar S/o Putun R/o Village
				22	Private	Agriculture	0.0137	Bhagwandeem S/o Girdhari R/o Village
				20	Private	Agriculture	0.0147	Santram, Ramdayal S/o Rampher & Budhna Devi W/o Rampher R/o Village

				36	Private	Agriculture	0.0603	Ramkumar S/o Medai R/o Village
				37	Private	Agriculture	0.0570	Badriprasad, Shripal, Laltaprasad S/o Jangali R/o Village & Ramkedar S/o Putun R/o Rampur & Khun Khun, Vissu S/o Bachai & Bhagirathi W/o Bachai R/o Village
				38	Private	Agriculture	0.0230	Harendrapratap, Jitendrapratapsingh S/o Rameshchandrasingh R/o Rampur & Pankajkumarsingh, Neerajkumarsingh S/o Surendrapratap & Smt. Vidhyasingh W/o Surendrapratapsingh R/o Village
				39	Private	Agriculture	0.0390	Khun Khun S/o Bachai R/o Village
				40	Private	Agriculture	0.0390	Bhagirathi S/o Bachai R/o Village
				41	Private	Agriculture	0.1130	Ramlal S/o Medai R/o Village
				71	Govt.	Road	0.0240	Govt. of Uttar Pradesh
				72	Private	Agriculture	0.0388	Chiutari, Chouthiram S/o Nihore R/o Village
				73	Private	Agriculture	0.0810	Matapher, Rampher, Ramsurat, Rammurat, Ramsukh S/o Barsati R/o Village
				74	Private	Agriculture	0.4043	Vaishraj S/o Rajpati R/o Village
				75	Private	Agriculture	0.0009	Bhagwan Prasad S/o Rambali R/o Kothra Khurd
				77	Private	Agriculture	0.1974	Ramraj S/o Abalu R/o Village
				80	Private	Agriculture	0.5752	Sadabraj, Sarvar Kumar S/o Jagdishprasad R/o Village & Raghunath S/o Dwarika R/o Village
				82	Private	Agriculture	0.1081	Ramjeevan S/o Ramaasre R/o Village
				68	Private	Agriculture	0.0944	Bhagelu Ram S/o Kailash R/o Rampur & Smt. Sombhari W/o Ramaasre R/o Rampur
				66	Private	Agriculture	0.4180	Paramhans urf Jagdish Prasad, Aatmaram S/o Hosila Prasad R/o Village
				63	Private	Agriculture	0.0066	Shravankumar Adult Durgaprasad S/o Ramachal R/o Village & Jagannath S/o Rattipal R/o Village
				243	Private	Agriculture	0.1295	Paramhans urf Jagdish Prasad, Aatmaram S/o Hosila Prasad R/o Village
				244	Private	Agriculture	0.2865	Shudhram, Motilal S/o Deshi R/o Village
				245	Private	Agriculture	0.2264	Kripali S/o Barsati R/o Village & Khun Khun S/o Bachai R/o Village & Bhagwandin S/o Girdhari R/o Village & Ramkumar S/o Vadarika R/o Village & Ramkedar S/o Putun R/o Village & Bissu S/o Basai R/o Village & Hariprasad S/o Jangali R/o Village & Santram, Ramdayal S/o Rampher & Budhna devi W/o Ramfer R/o Village
				246	Private	Agriculture	0.2971	Bihari S/o Muneshwar R/o Village
				247	Govt.	Road	0.1090	Govt. of Uttar Pradesh
				248	Private	Agriculture	0.0204	Dheeraj Kumar minor age 10 years S/o Goverdhan Prasad & Shaikumari D/o Govardhanprasad, Jamunaprasad, Triveniprasad, Gangaprasad S/o Parasram R/o Village & Pradeepkumar Adoptd S/o Ramdutt R/o Ganmakoiripur Godnama
				250	Govt.	Nali	0.0164	Govt. of Uttar Pradesh
				254	Private	Agriculture	0.0002	Parasnath S/o Rudrapal mishra R/o Village
				255	Private	Agriculture	0.7152	Ramachebar, Mahendraprakash, Omprakash S/o Rampiyare R/o Village & Jaiprakash, Shriprakash S/o Premshankar & Kamlawati W/o Lt. Premshankar R/o Village
				256	Private	Agriculture	0.0837	Madhuna Devi W/o Rajpati R/o Village
				257	Private	Agriculture	0.1104	Putene S/o Jharihag R/o Village & Farsati W/o Gangu R/o Village & Sarjuprasad, Ramawadh, Ahaku, Sahdev S/o Lahuri R/o Village.
				258	Govt.	Road	0.0250	Govt. of Uttar Pradesh
				259	Private	Agriculture	0.0658	Kedar S/o Tudi R/o Village
				260	Private	Agriculture	0.0485	Putane, Sitaram, Neemar S/o Jharihag R/o Village
				261	Private	Agriculture	0.1774	Jagannath, Kamadnath S/o Rambali R/o Village
				<b>Total</b>			<b>6.0121</b>	

			(28) Kothra Kalan	40	Private	Agriculture	0.1338	Ramraj S/o Tejai R/o Gadhma Koiripur
				38	Private	Agriculture	0.0112	Mahadev, Sahdev S/o Ramcharan & Ramashankar S/o Mangaru & Sursati W/o Ramcharan & Sidhna W/o Mangaru R/o Village
				37	Private	Agriculture	0.0052	Bhagwat Prasad S/o Rambali R/o Kothra Khurd
				36	Private	Agriculture	0.0280	Ramsubhag S/o Rambali R/o Village
				35	Private	Agriculture	0.2160	Ramsubhag S/o Rambali R/o Kothra Khurd
				34	Private	Agriculture	0.3122	Sadik Ali, Sanne Ali S/o Abbas Ali R/o Village
				33	Private	Agriculture	0.1567	Jabbar Ali, Shubhrati, Sharif S/o Ashik & Munna urf Abdul Ajij R/o Village
				32	Private	Agriculture	0.0444	Rampratap Vinaypratap S/o Umadatt R/o Village
				42	Govt.	Road	0.0173	Govt. of Uttar Pradesh
				78	Private	Agriculture	0.0926	Mehboob S/o Ajimulla R/o Gadma Koiripur
				77	Private	Agriculture	0.2837	Mehboob S/o Ajimulla R/o Gadma Koiripur
				76	Govt.	Road	0.0263	Govt. of Uttar Pradesh
				58	Private	Agriculture	0.0778	Devendra Kumar Singh, Ravindrpratap S/o Udaipal Singh & Dinesh Kumar Singh S/o Rudrapal Singh & Kamleshkumar Singh S/o Vinodkumar Singh & Shardadevi W/o Late Rudrapal Singh & Brajesh Bahadur Singh S/o Krishnapal Singh & Vijaypal Singh, Amarpal Singh S/o Jaisingh Narayan Singh & Shailendrapratap Singh S/o Bodhpal R/o Village
				59	Private	Agriculture	0.2332	Ramadhbar S/o Satai & Ramsharan, Ramkishun, Doodhnath S/o Ramdayal & Munnidevi W/o Ramdayal R/o Village
				72	Private	Agriculture	0.0003	Jagram, Hanuman Prasad, Jeetlal S/o Nanhkuran & Brijlal, Shobhnath S/o Ramkaran R/o Village
				71	Private	Agriculture	0.0297	Jagram, Hanuman Prasad, Jeetlal S/o Nanhkuran & Brijlal, Shobhnath S/o Ramkaran R/o Village
				70	Private	Agriculture	0.2353	Jagram, Hanuman Prasad, Jeetlal S/o Nanhkuran & Brijlal, Shobhnath S/o Ramkaran R/o Village
				69	Private	Agriculture	0.0336	Nannhku S/o Ramnath R/o Kothrankala
				68	Private	Agriculture	0.1221	Rajaram S/o Bhagwandin R/o Village
				67	Private	Agriculture	0.1076	Rameshkumar S/o Ramkaran R/o Village
				66	Private	Agriculture	0.0664	Jagram, Hanuman Prasad, Jeetlal S/o Nanhkuran & Brijlal, Shobhnath S/o Ramkaran R/o Village
				65	Govt.	Road	0.0036	Govt. of Uttar Pradesh
				64	Private	Agriculture	0.0020	Shambhunath S/o Mithai R/o Village
				84	Govt.	Road	0.0189	Govt. of Uttar Pradesh
				93	Private	Agriculture	0.2193	Ramlakhan S/o Ramdayal & Smt. Rafatulnisha W/o Noor Ali & Noor Ali S/o Makhdam & Ramnath, Jagannath S/o Ramdev & Dayashankar S/o Khunkhun & Kaushalyadevi W/o Khun Khun & Ramsamujh S/o Ramdev & Sheshmani, Mithileshkumar S/o Chandrapal Singh & Urmiladevi W/o Shripati R/o Village
				95	Private	Agriculture	0.0687	Laxman Singh S/o Surender Pratap & Chandrabhan Singh, Vijaybhan Singh, Anesh Kumar Singh S/o Jagdishpratapsingh & Shantidevi W/o Jagdishpratapsingh & Wapnil Singh S/o Udaibhan Singh & Shri Lalji Singh Education Institution S/o Kothra Manager Santosh kumar R/o Village
				96	Private	Agriculture	0.0025	Ramchandra S/o Ramanjor R/o Village
				203	Govt.	Road	0.0353	Govt. of Uttar Pradesh
				114	Private	Agriculture	0.0939	Nannhku S/o Ramnath R/o Kothrankala
				115	Private	Agriculture	0.0165	Ramkripal S/o Ramraj & Subhash Minor 13 years S/o Bhagelu Gardian Chandravati Mata self & Chandrawati W/o Bhagelu R/o Village

				118	Private	Agriculture	0.3504	Yogendrapratap, Dhirendrapratap, Raghvendrapratap, Jitendrapratap S/o Vishvnath R/o Village
				120	Private	Agriculture	0.1378	Rammanorath S/o Baschai R/o Village
				130	Private	Agriculture	0.7545	Narendra Bahadur Singh S/o Bajranjbahadur Singh R/o Kothrakalan
				127	Private	Agriculture	0.1212	Avdhesh Pratap S/o Rampratap Singh & Chandrabhan Singh, Vijaybhan Singh, Anesh Kumar Singh S/o Jagdishpratapsingh & Shantidevi W/o Jagdishpratapsingh & Wapnil Singh S/o Udaibhan Singh & Laxman Singh S/o Surender Pratap R/o Village
				128	Private	Agriculture	0.0638	Rajendra Bahadur, Narendra Bahadur S/o Bajranjbahadur R/o Village
				129	Govt.	New Land	0.0593	Govt. of Uttar Pradesh
				125	Private	Agriculture	0.0111	Tidi S/o Lalu R/o Kothrakalan
				126	Private	Agriculture	0.0736	Shivkumar S/o Tidi Sahu R/o Village
				133	Private	Agriculture	0.1580	Ramlal S/o Girdhari R/o Village
				132	Private	Agriculture	0.0924	Rajendra Bahadur, Narendra Bahadur S/o Bajranjbahadur R/o Village
				136	Govt.	Road	0.0183	Govt. of Uttar Pradesh
				158	Private	Agriculture	0.5459	Ramajor S/o Pulli R/o Village
				159	Private	Agriculture	0.1278	Amardev Naba 14 Yrs. S/o Videshi Sanrakha & Smt. Basanti Devi Smt. Basanti Devi W/o Videshi R/o Village
				160	Private	Agriculture	0.0193	Ramkedar S/o Bhulai & Janki W/o Bhola R/o Village
				211	Govt.	Road	0.0379	Govt. of Uttar Pradesh
				213	Private	Agriculture	0.0238	Gokulprasad S/o Datadin R/o Village
				214	Private	Agriculture	0.5112	Dinesh kumar Singh S/o Rudrapal Singh & Kamlesh kumar Singh S/o Vinodkumar Singh & Shardadevi W/o Late Rudrapal Singh R/o Village
				216	Govt.	Way	0.0185	Govt. of Uttar Pradesh
				217	Private	Agriculture	0.0067	Mu. Chohradevi W/o Lt. Rambahore & Nandlal S/o Ramnihor & Phuladevi W/o Ramnihore R/o Village
				<b>Total</b>			<b>5.8253</b>	
			<b>(29) Manapur</b>	28	Private	Agriculture	0.0001	Ramkishun, Ramlal S/o Bhorai & Sanjay S/o Ramnihore & Reenadevi W/o Lt. Ramnihore R/o Village
				35	Private	Agriculture	0.0022	Smt. Kumari devi W/o Rajaram R/o Kothrakalan
				37	Private	Agriculture	0.0314	Rudrapalsingh S/o Narsinghnarayansingh R/o Kothrakalan
				38	Private	Agriculture	0.0103	Laltasingh W/o Hanumat Singh R/o Village & Satyanarayansingh S/o Mataprasadsingh R/o Village & Preamsingh, Ramyagsingh, Ramujagirsingh S/o Bhagwat R/o Village & Kripashankar, Subhadra S/o Budhai R/o Village & Umashankar, Rmashankar S/o Ambikaprasad R/o Village & Subash Minor 17 Yrs, Vikash Minor 10 Yrs S/o Dayashankar Basantadevi R/o Village & Basantadevi W/o Dayashankar R/o Village & Ashokkumar, Anilkumar S/o Rajbahadur R/o Village & Subhdrasingh S/o Bhagelu R/o Village & Bajrangbahadur, Vikrambahadur S/o Vijaybahadur R/o Village & Mahendrakumar, Arvindkumar, Ravindrakumar S/o Fatehbahadur R/o Village & Smt. Rukmina W/o Jhagrusingh R/o Village & Rambahadur, Syambahadur S/o Ramkewal R/o Village & Ramkishun S/o Suryopal R/o Village & Jamunaprasad S/o Mahaveer R/o Village & Bharatraj, Ramswashthya, Ramaarat, Ramtirth S/o Santbakshsingh R/o Village & Indrabahadur, Jeetbahadur, Samarbahadur S/o Awadbihari R/o Village & Smt. Ushadevi W/o

								Jeetbahadur R/o Village & Parmila W/o Samarbahadur R/o Village & Rajkumar Naveenkumar Minor Age 15 & 11 Yrs S/o Sukander Prasad & Vadamdevi W/o Sukander Prasad R/o Village
			39	Private	Agriculture	0.0315		Laltasingh W/o Hanumat Singh R/o Village & Satyanarayansingh S/o Mataprasadsingh R/o Village & Premsingh, Ramyagsingh, Ramujagirsingh S/o Bhagwat R/o Village & Kripashankar, Subhadra S/o Budhai R/o Village & Umashankar, Rmashankar S/o Ambikaprasad R/o Village & Subash Minor 17 Yrs, Vikash Minor 10 Yrs S/o Dayashankar Basantadevi R/o Village & Basantadevi W/o Dayashankar R/o Village & Ashokkumar, Anilkumar S/o Rajbahadur R/o Village & Subhdrasingh S/o Bhagelu R/o Village & Bajrangbahadur, Vikrambahadur S/o Vijaybahadur R/o Village & Mahendrakumar, Arvindkumar, Ravindrakumar S/o Fatehbahadur R/o Village & Smt. Rukmina W/o Jhagrusingh R/o Village & Rambahadur, Syambahadur S/o Ramkewal R/o Village & Ramkishun S/o Suryopal R/o Village & Jamunaprasad S/o Mahaveer R/o Village & Bharatraj, Ramswasthya, Ramaarat, Ramtirth S/o Santbakshsingh R/o Village & Indrabahadur, Jeetbahadur, Samarbahadur S/o Awadbihari R/o Village & Smt. Ushadevi W/o Jeetbahadur R/o Village & Parmila W/o Samarbahadur R/o Village & Rajkumar Naveenkumar Minor Age 15 & 11 Yrs S/o Sukander Prasad & Vadamdevi W/o Sukander Prasad R/o Village
			40	Private	Agriculture	0.2495		Smt. Sushila W/o Lt. Dharmu R/o Kothrakalan
			42	Private	Agriculture	0.1160		Jhagaruram Ashok kumar motilal Harilal S/o Chulbul R/o Village
			44	Private	Agriculture	0.1020		Noor Ali S/o Makhdum R/o Kothrakalan
			45 A	Private	Agriculture	0.2202		Munnalal, Jitlal, Rajendra, Makkhanlal S/o Kashiprasad & Kewlapati W/o Lt. Kashiprasad R/o Kothrakalan
			45 B	Private	Agriculture			Munnalal, Jitlal, Rajendra, Makkhanlal S/o Kashiprasad & Kewlapati W/o Lt. Kashiprasad R/o Kothrakalan
			47	Govt.	Pond	0.0196		Govt. of Uttar Pradesh
			48	Private	Agriculture	0.0157		Ramhit, Ramlaut S/o Sarju R/o Village
			49	Private	Agriculture	0.2484		Rajkumari w/o Ramdas & Shivprasad S/o Gillu R/o Village
			51 A	Private	Agriculture	0.0158		Ramkaran S/o Ramsharan R/o Village
			51 B	Private	Agriculture			Ramkaran S/o Ramsharan R/o Village
			52	Govt.	Non Agriculture	0.0435		Govt. of Uttar Pradesh
			53	Govt.	Pond	0.0226		Govt. of Uttar Pradesh
			72	Private	Agriculture	0.1982		Ramkishun, Ramlal S/o Bhorai & Sanjay S/o Ramnihore & Reenadevi W/o Lt. Ramnihore R/o Village
			73	Private	Agriculture	0.0470		Ramkishun S/o Bhorai R/o Village
			85	Private	Agriculture	0.2396		Bhollan Achhelal S/o Ramacharya R/o Village
			84	Private	Agriculture	0.0824		Rammu, Santu S/o Mohan R/o Village & Girdharilal S/o Dattu R/o Village & Sumiran S/o Bachai R/o Village
			83	Private	Agriculture	0.4158		Avadhraj S/o Dwarika R/o Village
			82	Private	Agriculture	0.0186		Awadhraj S/o Dwarika R/o Village & Rammurti S/o Dharmraj R/o Village & Shripati Sadhuram Madhavram Radheyshyam S/o Vishunraj & Gangadei W/o Vishunraj R/o Village & Ramcharan S/o Kishunraj R/o Village & Rampal Minor Syampal, Satyopal

								Minor Age 16 & 14 Yrs S/o Akhand Pratap Sanr. Mata Sheela & Smt. Sheela W/o Lt. Akhandpratap R/o Village
				117	Private	Agriculture	0.0009	Rajendraprasad S/o Badrilal R/o Pratappur Kamecha
				115	Private	Agriculture	0.0113	Smt. Piyari devi W/o Ramcharan R/o Village
				114	Private	Agriculture	0.0159	Rampal Minor Syampal, Satyapal Minor Age 16 & 14 Yrs S/o Akhand Pratap Sanr. Mata Sheela & Smt. Sheela W/o Lt. Akhandpratap R/o Village & Shripati Sadhuram Madhavram Radheyshyam S/o Vishunraj & Gangadei W/o Vishunraj R/o Village & Awadhraj S/o Dwarika R/o Village & Ramcharan S/o Kishunraj R/o Village & Ramkumar S/o Kedar R/o Village & Rammurti S/o Dharmraj R/o Village
				113	Private	Agriculture	0.0199	Shyammarayan S/o Badrilal R/o Pratappur Kamaicha
				112	Private	Agriculture	0.0185	Smt. Piyari devi W/o Ramcharan R/o Village
				111	Private	Agriculture	0.2192	Omprakash, Lal Bahadur S/o Dodhnath R/o Village
				109 A	Private	Agriculture	0.2322	Rambahadur, Baburam S/o Ramdular R/o
				109 B	Private	Agriculture		Rambahadur, Baburam S/o Ramdular R/o
				108	Private	Agriculture	0.1828	Pappu, Rampravesh, Suryabhan S/o Ramsanehi & Smt. Shanti W/o Lt. Ramsanehi R/o Village & Kalavati W/o Ramsahai R/o Village & Parasnath S/o Ramaasre & Singari W/o Ramaasre & Chandrabhan Naba. Age 14 Yrs. S/o Ramaasre Gaurdian Singari Mata Self R/o Village
				127	Private	Agriculture	0.3052	Jagram, Vishram, Devkaran S/o Gayadeen & Pradeep, Ramashankar S/o Jairam & Mu. Bachi W/o Lt. Gayadeen R/o Pratappur Kamecha
				126	Private	Agriculture	0.2448	Rakeshkumar S/o Rajaram R/o Village
				121	Private	Agriculture	0.0138	Ramcharan S/o Ramkishun urf Krishanrai R/o Village
				130	Private	Agriculture	0.0187	Ramsarju S/o Shibbaran R/o Pratappur Kamecha
				131	Private	Agriculture	0.0399	Vanshidhar S/o Ramasre R/o Pratappur Kamecha
				132	Private	Agriculture	0.0820	Ramsukh, Ramashankar S/o Ramsewak R/o Pratappur Kamecha & Sureshyadav S/o Adhyashankar R/o Manapur
				133	Private	Agriculture	0.4429	Tilakdhari S/o Ramadhar R/o Pratap Kamecha
				134	Private	Agriculture	0.5353	Rajendraprasad S/o Ramshiromani R/o Pratappur Kamecha
				140	Private	Agriculture	0.0848	Balram, Parsuram, Dayaram S/o Ramanjor R/o Village
				<b>Total</b>			<b>4.5985</b>	
			<b>(30) Pratap Pur Kamaicha</b>	145	Govt.	Non Agriculture	0.0130	Govt. of Uttar Pradesh
				146	Private	Agriculture	0.0345	Rajkumari W/o Tilakdhari R/o Village
				157	Private	Agriculture	0.4243	Rajendra prasad S/o Ramshiromani R/o Village
				158	Private	Agriculture	0.0214	Abhaynarayan S/o Bhagoutidin R/o Village
				374	Govt.	Road	0.0014	Govt. of Uttar Pradesh
				375	Private	Agriculture	0.4642	Ramjatan S/o Ramdev R/o Village
				376	Govt.	Banzer	0.0353	Govt. of Uttar Pradesh
				377	Govt.	Road	0.0158	Govt. of Uttar Pradesh
				378	Govt.	Banzer	0.0361	Govt. of Uttar Pradesh
				379	Private	Agriculture	0.1811	Chamela devi W/o Abhay narayan R/o Village
				364	Govt.	Nali	0.0011	Govt. of Uttar Pradesh
				362	Govt.	Nali	0.0240	Govt. of Uttar Pradesh
				361	Private	Agriculture	0.3445	Ramtirath Jaimurati S/o Suryaprasad R/o Village
				358	Govt.	Road	0.0173	Govt. of Uttar Pradesh
				349	Private	Agriculture	0.2909	Shivprasad Ramshiromani S/o Raghunath &

							Ramfer S/o Mahangu & Shivmurat S/o Raghunath R/o Village
			348	Private	Agriculture	0.3262	Rakesh kumar Rajesh kumar S/o Shambhunath & Kewla W/o Shambhunath R/o Village
			347	Private	Agriculture	0.2123	Ramtirath Jaimurati S/o Suryaprasad R/o Village
			344	Private	Agriculture	0.0811	Sabhajit indrajit S/o Bhagwanlala R/o Village
			343	Private	Agriculture	0.0266	Rakesh kumar Krishandev S/o Mandatt R/o Village
			340	Govt.	Road	0.0204	Govt. of Uttar Pradesh
			328	Private	Agriculture	0.1098	Dinesh Brajesh Harikesh Ravindra S/o Laxmikant R/o Village
			327	Private	Agriculture	0.3609	Vijay kumar S/o Shambhunath & Subhash kumar Minor 14 yrs. S/o Shambhunath Guardian Munni devi Mother & Shushila W/o Lallan R/o Village & Ajay kumar Sanjay kumar Arvind kumar Chandan kumar S/o Lalji & Smt. Mangla W/o Lt. Lalji R/o Village
			326	Private	Agriculture	0.1150	Satish kumar and Harish kumar S/o Chhotelal R/o Village
			325	Private	Agriculture	0.3756	Shivprasad Ramshiromani Shivmurat S/o Raghunath R/o Gadhwal Fajjabad & Phulmati Devi W/o Ramakant & Shiladevi W/o Krishankant & Smt. Nanhka W/o Lt. Bhagwanlala Mishr R/o Village & C.B.M. Public School Chanda Vikas Khand Pratappur Kamaicha Teh. Lambhua Distt. Sultanpur throught Manager Indrkesh Mishr S/o Abhayraj Mishr R/o Ishipur & Jatashankar Karuna shankar S/o Devnarayan R/o Village
			324	Govt.	Road	0.0157	Govt. of Uttar Pradesh
			323	Private	Agriculture	0.0809	Dropari W/o Shitlaprasad R/o Village
			319	Private	Agriculture	0.0020	Shivkumar S/o Rammurat R/o Village
			317	Govt.	Road	0.0536	Kacchi Road, Govt. of Uttar Pradesh
			493	Govt.	Nali	0.0340	Govt. of Uttar Pradesh
			316	Private	Agriculture	0.0316	Shivprasad Ramshiromani Shivmurat S/o Raghunath R/o Gadhwal Fajjabad & Nanhka devi W/o Late Bhagwanlal Mishr R/o Village
			511	Private	Agriculture	0.1911	Panna Devi W/o Bhaironprasad R/o Village
			510	Private	Agriculture	0.2838	Bholaprasad S/o Ramacharya & Ramapati Krishan Madhav S/o Ramkirti & Kshamapati Gyanpati Rajpati D/o Bholaprasad R/o Village
			509	Private	Agriculture	0.3379	Arvind Govind Keshav S/o Ramkrishna R/o Village
			508	Govt.	Road	0.0232	Govt. of Uttar Pradesh
			507	Private	Agriculture	0.2634	Chandrashekhar S/o Ramkhelawan R/o Village
			506	Private	Agriculture	0.1163	Shanti Prakash Ramprakash Suryaprakash S/o Bhawaniprasad R/o Village
			505	Private	Agriculture	0.0222	Narendra Kumar Debendra Kumar Raghbendra kumar S/o Durgaprasad & Dharendra kumar Minor 11 yrs. S/o Durgaprasad Guardian Prabhawati devi R/o Village
			500	Govt.	Road	0.0440	Govt. of Uttar Pradesh
			494	Govt.	Banzer	0.0100	Govt. of Uttar Pradesh
			496	Private	Agriculture	0.1362	Jiyalal and Mahesh Rajesh S/o Chhangu & Rakesh and Ramesh Minor age 15 & 11 S/o Chhangu Guardian District Magistrate Sultanpur R/o Village
			497	Private	Agriculture	0.3170	Adyaprasad S/o Ramvali R/o Village
			498	Private	Agriculture	0.1714	Ramtirath Jaimurati S/o Suryaprasad R/o Village
			755	Private	Agriculture	0.3070	Anara W/o Shrinath R/o Village
			712	Private	Agriculture	0.2664	Toniya S/o Suryavali & Rajendra prasad S/o Anantu R/o Village
			711	Govt.	Road	0.0226	Govt. of Uttar Pradesh
			710	Govt.	Road	0.0363	Govt. of Uttar Pradesh

				708	Private	Agriculture	0.2521	Danbahadur Sadhu Rampyare Manoj kumar urf Munshi S/o Ramkishor R/o Village
				707	Private	Agriculture	0.1869	Rajkaran S/o Mandatt R/o Village
				706	Private	Agriculture	0.1257	Kallu Bakai Rajnarayan S/o Jille R/o Village
				705	Private	Agriculture	0.0573	Smt. Kamla devi W/o Swaminath R/o Village
				763	Govt.	Road	0.0028	Govt. of Uttar Pradesh
				702	Private	Agriculture	0.0103	Bhaganta S/o Jaikaran R/o Village
				703	Private	Agriculture	0.1211	Ramlal S/o Rupdhari R/o Village
				704	Private	Agriculture	0.1251	Muniraj S/o Rupdhari R/o Village
				699	Govt.	Road	0.0108	Govt. of Uttar Pradesh
				691	Private	Agriculture	0.0155	Kamlesh Arun Sanjiv Rajiv S/o Sudamaprasad & Rammurat S/o Ramdev & Sheshnarayan Suryanarayan S/o Ramsurat & Smt. Raghunathi W/o Ramsurat R/o Village
				690 AE	Private	Agriculture	0.4169	Mansur S/o Imamdeen & Mohd. Mustkim Mohd. Mustafa Imtiyaz Ahmad urf Israeel Mumtaz Ahmad S/o Abdul Rasid urf Bachai & Kitabulnisha W/o Abdul Rasid urf Bachai & Siraj Ahamd Surfaraz Ahmad S/o Liyakat Ali & Amrulnisha W/o Liyakat Ali & Riyasat Anwar Munvar S/o Samiula & Mohd. Idrish S/o Ismaeel R/o Village
				690 D	Private	Agriculture		Rampal S/o Satyadev & Hosila prasad Ramashankar S/o Parasnath & Bhagwande W/o Parasnath Jaishankar & Shivshankar Dayashankar S/o Parasnath & Indrapal Suryopal Amarpal S/o Ramlakhan & Arbind kumar S/o Yashpal & Govind kumar Minor age 16 years S/o yashpal Guardian mother Sushila & Shubham Minor age 10 years S/o Yashpal Guardian mother Sushila & Sushila W/o Yashpal & Bajrangbali Rajdev S/o Saligram & Dashrath S/o Ramnaresh & Jamuna prasad Raghunath S/o Mahadev & Smt. Sumitra devi W/o Lt. Mahadev & Jagdish prasad Umesh kumar S/o Mahadev & Ramkishor S/o Ramacharya & Chandra Shekhar Rajmani S/o Ramkhelawan & Doodhnath Rajkaran S/o Mandutt & Rammurat Gangaprasad S/o Rammanorath & Shanti Prakash Ram Prakash Surya Prakash S/o Bhawani Prasad & Krishanlal Premnarayan Ramnarayan Jagnarayan Vinod kumar S/o Laxmikant & Kamlesh S/o Laxmikant & Sushila Devi W/o Laxmikant & Ramchandrar Sadhu saran S/o Rampratap & Arun kumar Ajay kumar & Akhilesh S/o Dilip kumar & Smt. Santra W/o Lt. Dilip kumar R/o Village
				690 B	Private	Agriculture		Hiralal Achhelal S/o Kalahu & Sirajahmed Sarfaraj Ahmed S/o Liyakat Ali & Amarulnisha W/o Liyakat Ali & Mohd. Mustkim Mohd. Mustfa Imtiyaz Ahmed urf Israail S/o Abdul Rashid urf Bachai & Kitabulnisha W/o Abdul Rashid urf Bachai & Riyasat Anwar Munavvar S/o Samiulla & Mohd. Idrish S/o Mohd. Ismail R/o Village
				690 B	Private	Agriculture		Deviprasad Shitlaprasad S/o Jailal & Chhotelal Acchhelal S/o Ramabhilakh & Smt. Nanhka W/o Lt. Ramabhilakh R/o Village
				690 A	Private	Agriculture		Mohd. Indrish S/o Ismail & Mohd. Mustkim Mohd. Mustpha Imtiyaz Ahmed S/o Abdul Rashid urf Bachai & Kitabulnisha W/o Abdul Rashid urf Bachai & Riyasat Ali Anwar ali Munawar Ali S/o Samiulla & Sarfraj Siraj S/o Liyakat & Amarulnisha W/o Liyakat & Mohd. Farhan Minor age 8 years S/o Riyasat Ali Guardian Akbari Mother R/o Village
				689 B	Private	Agriculture	0.0172	Swaminath S/o Sabhapati & Sonavati S/o



								Rammurat & Lalji Radheshyam Rakesh kumar S/o Mataprasad & Hosila prasad Ramashankar Jaishankar Shivshankar Dayashankar S/o Parasnath & Bhagwande W/o Parasnath & Jamunaprasad Raghunath Jagdish prasad Umesh kumar S/o Mahadev & Sumitra W/o Mahadev & Indrapal Suryapal Amarpal S/o Ramlakhan & Arvind kumar S/o Yashpal & Govind kumar Minor age 16 years S/o Yashpal Guardian Sushila & Shubham Minor age 10 years S/o Yashpal Guardian Sushila & Sushila W/o Yashpal & Ramchandar Sadhu saran S/o Rampratap & Ramkishor S/o Ramacharya & Rajdev Bajrangi S/o Salikram & Dasrath S/o Ramnaresh & Rampal S/o Satyadev Chandrashekhar Rajmani s/o Ramkhelawan & Doodhnath S/o Mandatt R/o Village & Gangaprasad S/o Rammanorath R/o Khatibpur & Udairaj Abhayraj Manoraj Dharamraj Devraj Shyamraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur & Shantiprakash Ramprakash Suryaprakash S/o Bahwani prasad & Premnarayan Ramnarayan Jainarayan Vinod Kamlesh S/o Laxmiprasad & Sushila W/o Laxmiprasad & Anil kumar Ashok kumar Anup kumar Akhilesh kumar S/o Awdesh kumar & Smt. Vitani W/o Lt. Awdesh kumar & Anand kumar Pramil kumar S/o Brajendra kumar & Arun kumar Ajay kumar Akhilesh S/o Dilip kumar & Smt. Santra W/o Lt. Dilip kumar R/o Village
				689 A	Private	Agriculture		Krishanlal Premnarayan Ramnarayan Jainarayan Vinod kumar Kamlesh kumar S/o Laxmi prasad & Sushila W/o Laxmi prasad & Rajesh kumar Ravindra kumar Arvind kumar S/o Vidhyadhar & Narendra kumar Devendar kumar Raghvendra kumar S/o Durgaprasad & Sonavati S/o Rammurat & Lalji Radheshyam Rakesh kumar S/o Mataprasad & Hosila prasad Ramashankar S/o Parasnath & Bhagwande W/o Parasnath & Jaishankar Shivshankar Dayashankar S/o Parasnath & Jamuna prasad Raghunath S/o Mahadev & Sumitra W/o Mahadev & Jagdish prasad Umesh kumar S/o Mahadev & Indrapal Suryapal Amarpal S/o Ramlakhan & Ramkishun S/o Triveni & Rajendra prasad Surendra S/o Shobhnath & Rajdev Bajrangi S/o Salikram & Dashrath S/o Ramnaresh & Arvind kumar S/o Yashpal & Govind kumar Minor age 16 years S/o Yashpal Guardian Mother Sushila & Shubham Minor age 10 years S/o Yashpal Guardian Sushila & Sushila W/o Yashpal & Rampal S/o Satyadev & Doodhnath S/o Mandatt & Chandra shekhar Rajmani W/o Ramkhelawan & Ramkishor S/o Ramacharya R/o Village & Ganga prasad S/o Rammanorath R/o Khatibpur & Udairaj Abhayraj Manoraj Dharamraj Devraj Shyamraj S/o Chandrabhan R/o Eishipur & Rajkaran S/o Mandatt & Shanti prakash Ramprakash Surya prakash S/o Bahwani prasad & Swaminath S/o Sabhapati & Ramchandar Sadhu saran S/o Rampratap & Arun kumar Ajay kumar Akhilesh S/o Dilip kumar & Smt. Santra W/o Lt. Dilip kumar R/o Village
				675	Private	Agriculture	0.3483	Harikant Shahsikant S/o Rajendra pratap & Krishna devi W/o Rajendra pratap & Swaminath Dubey S/o Sabhapati Dubey & Chiranjilal Baranwal S/o Gokul prasad

								Baranwal & Swaminath S/o Sabhapati Smt. Kamla devi W/o Swaminath R/o Village & Smt. Devki W/o Ramsurat R/o Ishipur & Santosh kumar S/o Suryalal R/o Village
				676	Private	Agriculture	0.1058	Chhotelal S/o Mashodhar & Smt. Maina devi S/o Chhotelal R/o Village
				677	Private	Agriculture	0.1990	Pawan kumar S/o Shrinath & Anara W/o Shrinath & Sumit kumar Minor age 10 years Shyam kumar Minor age 8 years Satyam kumar Minor age 6 years S/o Narendra kumar Gurdian Sushma Mother & Sushma W/o Narendra kumar R/o Village
				678	Private	Agriculture	0.2711	Saroj devi W/o Badrinath & Arvind kumar S/o Lalmani R/o Village Gaura Prg. Chanda
				1111	Govt.	Road	0.1475	Road Pakki, Govt. of Uttar Pradesh
				1116	Private	Agriculture	0.0523	Abhayraj Udairaj Devraj Dharamraj Manoraj Shyamraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur
				1117	Private	Agriculture	0.1070	Udairaj Abhayraj Manoraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur & Indramani S/o Ramavadh R/o Village & Dharamraj Devraj Shyamraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur & Rambahadur S/o Ramdulan R/o Village Ishipur
				1118	Private	Agriculture	0.0100	Udairaj Abhayraj Manoraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur & Indramani S/o Ramavadh R/o Village & Dharamraj Devraj Shyamraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur & Rambahadur S/o Ramdulan R/o Village Ishipur
				1119	Govt.	Non Agriculture	0.1416	Govt. of Uttar Pradesh
				1120	Private	Agriculture	0.0730	Kamladevi W/o Surajlal R/o Village
				1121	Private	Agriculture	0.0257	Ramdular S/o Bachai R/o Village
				1123	Private	Agriculture	0.0161	Matafer S/o Ramai R/o Village
				<b>Total</b>			<b>9.1383</b>	
			<b>(31) Isipur</b>	100	Private	Agriculture	0.5017	Smt. Indrawati W/o Manokanika D/o Ratipal R/o Village Katsari & Smt. Heerwati W/o Deenanath D/o Ratipal & Smt. Pushpa W/o Jagannath D/o Ratipal R/o Village Pokhardaha Teh. Kadipur Distt. Sulutanpur
				108	Private	Agriculture	0.0040	Devnarayan Ramnarayan Jaynarayan Satyam S/o Dukhi & Smt. Lakhpati W/o Lt. Dukhi R/o Pratappur Kamecha
				109	Private	Agriculture	0.0040	Magan S/o Bhagautidin R/o Pratappur Kamecha
				110	Private	Agriculture	0.0159	Matafer S/o Rasai R/o Pratappur Kamecha
				111	Govt.	New Land	0.0152	Govt. of Uttar Pradesh
				112 E	Private	Agriculture	0.0630	Radheyshyam S/o Babulal R/o Village
				113	Private	Agriculture	0.1430	Kalpuram Salikram Malikram S/o Ramdin R/o Pratappur
				114	Private	Agriculture	0.0334	Bajrangbali Rajdev S/o Salikram R/o Pratappur Kamecha
				115	Private	Agriculture	0.0396	Bajrangbali Rajdev S/o Salikram R/o Pratappur Kamecha
				116	Private	Agriculture	0.0408	Muhammad Munir S/o Hakimuddin R/o Pratappur Kamecha
				117	Private	Agriculture	0.0442	Abhayraj S/o Vodai R/o Pratappur
				118	Private	Agriculture	0.0675	Abhayraj S/o Vodai R/o Pratappur
				119	Private	Agriculture	0.2709	Sadashiv S/o Nakched R/o Village
				120	Private	Agriculture	0.0157	Pushpanjili W/o Ashok kumar R/o Pratappur Kamecha
				121	Private	Agriculture	0.1180	Hosilaprasad S/o Ramkumar R/o Village
				122	Private	Agriculture	0.0421	Guruprasad Hardayram Dayaram Baburam S/o Parasnath R/o Village
				123	Private	Agriculture	0.1044	Guruprasad Hardayram Dayaram Baburam S/o Parasnath R/o Village
				194	Govt.	Road	0.0171	Govt. of Uttar Pradesh
				189	Private	Agriculture	0.2027	Guruprasad Hardayram Dayaram Baburam S/o Parasnath & Rajkaran S/o Rampalat R/o Village
				188	Private	Agriculture	0.3010	Guruprasad Hardayram Dayaram Baburam

								S/o Parasnath R/o Village
			187	Govt.	Road	0.0144		Govt. of Uttar Pradesh
			185	Private	Agriculture	0.2655		Guruprasad Hardayram Dayaram Baburam S/o Parasnath R/o Village
			184	Private	Agriculture	0.5114		Sonadevi W/o Guruprasad R/o Village
			183	Private	Agriculture	0.1347		Guruprasad Hardayram Dayaram Baburam S/o Parasnath R/o Village
			182	Private	Agriculture	0.1420		Guruprasad Hardayram Dayaram Baburam S/o Parasnath R/o Village
			181	Govt.	Road	0.0292		Govt. of Uttar Pradesh
			180	Private	Agriculture	0.0121		Ramlakhan urf Bhullan S/o Gudari R/o Pratappurkamecha
			179	Govt.	Road	0.0166		Govt. of Uttar Pradesh
			178	Private	Agriculture	0.1634		Smt. Shanti devi W/o Shardaprasad R/o Village
			173 E	Private	Agriculture	0.0698		Kripashankar S/o Ramsukh R/o Village
			173 B	Private	Agriculture			Hosilaprasad S/o Ramkumar & Gayatri W/o Gangaprasad R/o Village
			173 B	Govt.	Pond			Govt. of Uttar Pradesh
			173 B	Private	Agriculture			Gaurishankar S/o Matabadal & Sheela W/o Lt. Avinash Chandra & Kapildev S/o Amarnath & Shanti Devi W/o Amarnath & Akhilesh Gyanchandra S/o Prathvipal & Janardan S/o Sumiran & Mahanthraj S/o Bharatraj & Guruprasad Hradayram Dayaram Baburam S/o Parasnath R/o Village
			169	Private	Agriculture	0.1809		Santoshkumar Brajeshkumar S/o Sharda Prasad R/o Village
			168	Private	Agriculture	0.1454		Ramasre Ramabhilakh Ramkripal Parasnath S/o Chandrashekhar R/o Village
			165	Private	Agriculture	0.1225		Mutur S/o Shital R/o Pratappur Kamecha
			337	Govt.	Road	0.0218		Govt. of Uttar Pradesh
			341	Private	Agriculture	0.1032		Vidyadhar S/o Ramprasad R/o Village
			342	Private	Agriculture	0.1868		Ramasre Ramabhilakh Ramkripal Parasnath S/o Chandrashehar R/o Village
			343	Private	Agriculture	0.1691		Badriprasad Jaiprakash Hariprakash Vijaprkash S/o Ramsundar & Sushil kumar Varun kumar S/o Omprakash R/o Village
			344	Private	Agriculture	0.2577		Abhayraj Udairaj Devraj Dharamraj Manoraj Shyamraj S/o Chandrabhan R/o Village
			348	Govt.	Road	0.0170		Govt. of Uttar Pradesh
			358	Private	Agriculture	0.2205		Ashok kumar S/o Heeraram & Manoj kumar & Ramesh kumar S/o Rajendra prasad R/o Puni Bhim Patti
			359	Private	Agriculture	0.2172		Abhayraj Udairaj Devraj Dharamraj Manoraj Shyamraj S/o Chandrabhan R/o Village
			361	Private	Agriculture	0.0016		Abhayraj Udairaj Devraj Dharamraj Manoraj Shyamraj S/o Chandrabhan R/o Village
			362	Private	Agriculture	0.0110		Abhayraj Udairaj Devraj Dharamraj Manoraj Shyamraj S/o Chandrabhan R/o Village
			363	Private	Agriculture	0.0138		Shafik Ahmed urf Rajesh kumar S/o Ahmadi R/o Village
			364	Private	Agriculture	0.0226		Meera Begum W/o Asgari & Aslam S/o Asgari R/o Pratappur Kamecha & Akhilesh kumar Singh S/o Ramsurat Singh R/o Ramnagar
			350	Govt.	Nali	0.0250		Govt. of Uttar Pradesh
			437	Govt.	Nali	0.0188		Govt. of Uttar Pradesh
		(32) Punibheem Patti	388	Private	Agriculture	0.1738		Udayraj, Abhayraj, Manoraj, Dharmraj, Devraj, Syamraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur
			389	Private	Agriculture	0.0081		Udayraj, Abhayraj, Manoraj, Dharmraj, Devraj, Syamraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur
			390	Private	Agriculture	0.0892		Vahid Ali S/o Chithru R/o Pratappur Kamecha
			391	Private	Agriculture	0.0971		Udayraj, Abhayraj, Manoraj, Dharmraj, Devraj, Syamraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur
			392	Private	Agriculture	0.0692		Shafik Ahmed urf Rajesh kumar S/o Ahmadi R/o Pratappur Kamecha

			393	Govt.	Road	0.0150	Govt. of Uttar Pradesh
			395	Private	Agriculture	0.0262	Udayraj, Abhayraj, Manoraj, Dharmraj, Devraj, Syamraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur
			396	Private	Agriculture	0.0274	Udayraj, Abhayraj, Manoraj, Dharmraj, Devraj, Syamraj S/o Chandrabhan R/o Ishipur
			397	Private	Agriculture	0.2217	Shamabano W/o Lalji R/o Pratappur Kamecha
			398	Private	Agriculture	0.0104	Shamabano W/o Lalji R/o Pratappur Kamecha
			399	Private	Agriculture	0.1341	Shamabano W/o Lalji R/o Pratappur Kamecha
			400	Private	Agriculture	0.1839	Bharthu S/o Shivjor R/o Village
			402	Govt.	Forest	0.0022	Govt. of Uttar Pradesh
			436	Govt.	Road	0.0479	Govt. of Uttar Pradesh
			448	Private	Agriculture	0.0019	Meera Begum D/o Asgaribegum & Hafiz Ahmed S/o Alibahadur R/o Pratapur Kamecha Prg. Chanda & Sushma D/o Shivrnarayan Tiwari R/o Gaura
			448/522	Private	Agriculture	0.0207	Hafiz Ahmed urf naate S/o Alibahadur R/o P.Kamecha & Ashfak, Ashahab S/o Vittan R/o P. Kamecha
			453	Private	Agriculture	0.0256	Kapilmuni S/o Govind R/o Village
			454	Private	Agriculture	0.1175	Tribhuvan S/o Govind R/o Village
			455	Private	Agriculture	0.1465	Lalmuni S/o Govind R/o Village
			456	Private	Agriculture	0.1596	Vashishthamuni S/o Govind R/o Village
			457	Private	Agriculture	0.2172	Sheshmani S/o Govind R/o Village
			460	Govt.	Road	0.0130	Govt. of Uttar Pradesh
			461	Private	Agriculture	0.0285	Jayprakash Upadhyay S/o Muralidhar Upadhyay R/o Punibheempatti
			462	Private	Agriculture	0.7165	Murli S/o Kalu R/o Village
			467	Private	Agriculture	0.0651	Urmila devi W/o Akhilesh & Prabhadevi W/o Subash Chandra, Harikesh kumar S/o Ramachal R/o Village
			468	Govt.	Aabadi	0.0222	Govt. of Uttar Pradesh
			469	Govt.	Forest	0.0130	Other Bushes Forest, Govt. of Uttar Pradesh
			470	Private	Agriculture	0.6292	Sheshmani, Sanjaykumar S/o Baldev R/o Village
			471	Private	Agriculture	0.0510	Ramacharya S/o Sampatti R/o Village
			472	Govt.	Non Agriculture	0.0401	Wood Forest, Govt. of Uttar Pradesh
			473	Private	Agriculture	0.0009	Rambhor S/o Ramnaresh R/o Village & Ramacharya S/o Sampatti R/o Village
			482	Govt.	Road	0.0179	Govt. of Uttar Pradesh
			492	Private	Agriculture	0.6224	Chhotelal S/o Ramavadh R/o Village
			<b>Total</b>			<b>4.0335</b>	
		(33) Dhakupur	4	Private	Agriculture	0.0070	Sarjudei W/o Suryanarayan R/o Village
			5	Private	Agriculture	0.0056	Sarjudei W/o Suryanarayan R/o Village
			9 A	Private	Agriculture	0.1090	Hariom Singh S/o Suryanarayan Singh & Smt. Sarjudei W/o Suryanarayan Singh R/o Village
			9 B	Private	Agriculture		Hariom Singh S/o Suryanarayan Singh & Smt. Sarjudei W/o Suryanarayan Singh R/o Village
			10 A	Private	Agriculture	0.1008	Hariom Singh S/o Suryanarayan Singh & Smt. Sarjudei W/o Suryanarayan Singh R/o Village
			10 B	Private	Agriculture		Hariom Singh S/o Suryanarayan Singh & Smt. Sarjudei W/o Suryanarayan Singh R/o Village
			11	Private	Agriculture	0.0420	Hariom Singh S/o Suryanarayan Singh & Smt. Sarjudei W/o Suryanarayan Singh R/o Village
			12 A	Private	Agriculture	0.0145	Lalta Prasad, Dinesh Kumar, Suresh Kumar, Umesh Kumar S/o Rambhore & Smt. Shanti Devi W/o Lt. Rambhore R/o Poonibheem Patti
			12 B	Private	Agriculture		Lalta Prasad, Dinesh Kumar, Suresh Kumar, Umesh Kumar S/o Rambhore & Smt. Shanti Devi W/o Lt. Rambhore R/o Poonibheem Patti

			13	Govt.	Road	0.0360	Govt. of Uttar Pradesh
			14	Private	Agriculture	0.1810	Ramlaxmansingh, Hawaldarsingh, Talukdarsingh S/o Keshawsingh R/o Village & Vijaykumar, Ajaykumar, Vikaskumar S/o Subedar Singh & Prabhadevi W/o Subedarsingh R/o Village & Ramujagir, Surendrapratapsingh S/o Shriramsingh R/o Village
			16 A	Private	Agriculture	0.1619	Yogendrakumar S/o Shivmurati Prasad R/o Koiripur & Jagannath S/o Ramdular R/o Koiripur & Smt. Kewladevi W/o Ramdev Agrahari R/o Village Koiripur
			16 B	Private	Agriculture		Yogendrakumar S/o Shivmurati Prasad R/o Koiripur & Jagannath S/o Ramdular R/o Koiripur & Smt. Kewladevi W/o Ramdev Agrahari R/o Village Koiripur
			17	Private	Agriculture	0.0620	Jagdishprasad, Jogendraprasad S/o Laxmiprasad & Smt. Munnani Devi W/o Lt Laxmiprasad R/o Village & Rajivkumar Sunilkumar S/o Ramcharan R/o Poonibheempatti & Manojkumar S/o Ramawadh & Smt. Nirmaladevi W/o Lt Ramawadh R/o Poonibheempatti
			18 A	Private	Agriculture	0.1039	Ramdev, Rajdev S/o Ramlakhan R/o Punibheempatti
			18 B	Private	Agriculture		Ramdev, Rajdev S/o Ramlakhan R/o Punibheempatti
			23	Private	Agriculture	0.0206	Matasaran, Dukhram S/o Sitaram R/o Punibheempatti
			24	Private	Agriculture	0.0172	Smt. Sonadevi W/o Shuduram R/o Punibheempatti
			25	Private	Agriculture	0.0220	Smt. Sarjudei W/o Suryanarayansingh Hariomsingh S/o Suryanarayansingh R/o Village & Sonadevi W/o Shuduram R/o Punibheempatti
			26	Private	Agriculture	0.1320	Sarfaraj Halim Abdul S/o Ali Bahadur R/o Pratappur Kamecha & Hariomsingh S/o Suryanarayan Singh & Smt. Sarjudei W/o Suryanarayan R/o Village
			27	Private	Agriculture	0.1168	Sheshmani, Sanjaykumar S/o Baldev R/o Punibheempatti
			28	Private	Agriculture	0.1012	Ramacharya S/o Sampatti R/o Punibheempatti
			29	Private	Agriculture	0.1000	Akhilesh Kumar, Subhashchandra, Harikesh kumar S/o Ramachal R/o Village
			30	Private	Agriculture	0.0481	Anantbahadursingh, Vijaybahadursingh, Udairajsingh S/o Ramphersingh R/o Village
			51	Private	Agriculture	0.0697	Smt. Meerasingh W/o Hariomsingh & Ashishkumarsingh Shaktisingh Minor S/o Mainbahadur R/o Village & Ramlaxman, Subedar, Hawaldar, Talukdar S/o Keshavsingh R/o Village & Prabhawati W/o Ramsundar R/o Village & Laljisingh S/o Kedarsingh R/o Village & Subhadra W/o Sherbahadur R/o Village & Danbahadur, Omprakash S/o Ramdularsingh R/o Village & Rambadansingh, Ramkaransingh, Ramvaransingh S/o Bajranjisingh R/o Village & Satyanarayan, Rajmurat, Panchbahadur S/o Lahuri Singh R/o Village & Hariomsingh S/o Suryanarayansingh & Smt. Sarjudei W/o Suryanarayansingh R/o Village & Vishalsingh Minor age 10 years S/o Omprakash Singh Guardian Ramdularsingh R/o Village & Sherbahadur, Danbahadur S/o Lt. Ramdular & Smt. Banshraj W/o Lt. Ramdularsingh & Vishal Minor age 9 years S/o Omprakash Singh Guardian Smt. Banshraj Grandmother Ramujagir Surendrapratap Singh S/o Shriram Singh R/o Village
			52	Private	Agriculture	0.0005	Sitaram S/o Judavan R/o Village
			65	Private	Agriculture	0.0053	Anantbahadur, Vijaybahadur, Udairaj S/o

								Rampher R/o Village
			67	Private	Agriculture	0.0126		Anantbahadur, Vijaybahadur, Udairajsingh S/o Rampher R/o Village & Smt. Rajeshwaridevi W/o Amarnath Pandey R/o Ganapur Prg. Aldemau Tehsil Kadipur Present Address R/o Punibheempatti Prg. Chanda
			68 A	Private	Agriculture	0.0190		Anantbahadur, Vijaybahadur, Udairaj S/o Ramphersingh R/o Village & Kishorilal S/o Manik R/o Rajepur & Mewalal S/o Mali R/o
			68 B	Private	Agriculture			Anantbahadur Vijaybahadur Udairaj S/o Rampher R/o Village & Arvindprasad S/o Bhawaniprasad R/o Barani & Smt. Rajnadevi W/o Ramtirth R/o Barani & Kamleshchandra S/o Muralidhar R/o Shekhpura & Smt. Shushmadevi W/o Rameshkumar R/o Pratappur Kamecha & Jawaharlal S/o Pritamdas R/o Rajepur & Geetadevi W/o Makhnallal R/o Punibheempati & Shobhawati W/o Mishrilal R/o Rajepur & Sitadevi W/o Ramyas R/o Dhakapur & Sangeetadevi W/o Rajendrakumarmishra R/o Eisipur & Smt. Archnadubey W/o Kunjdev dubey R/o Pathanipur
			59 A	Private	Agriculture	0.0053		Hariom Singh S/o Suryanarayan Singh & Smt. Sarjudei W/o Suryanarayan Singh R/o Village
			59 B	Private	Agriculture			Hariom Singh S/o Suryanarayan Singh & Smt. Sarjudei W/o Suryanarayan Singh R/o Village
			57 A	Private	Agriculture	0.0882		Ramlaxmansingh, Hawaldarsingh, Talukdarsingh S/o Keshawsingh R/o Village & Prabhawati W/o Ramsundar R/o Village & Vijaykumar, Ajaykumar, Vikaskumar S/o Subedar Singh & Prabhadevi W/o Subedarsingh R/o Village & Ramujagir, Surendrapratapsingh S/o Shriramsingh R/o Village
			57 B	Private	Agriculture			Ramlaxmansingh, Hawaldarsingh, Talukdarsingh S/o Keshawsingh R/o Village & Prabhawati W/o Ramsundar R/o Village & Vijaykumar, Ajaykumar, Vikaskumar S/o Subedar Singh & Prabhadevi W/o Subedarsingh R/o Village & Ramujagir, Surendrapratapsingh S/o Shriramsingh R/o Village
			56	Private	Agriculture	0.0821		Rambadalsingh, Ramkaransingh, Ramvaransingh S/o Bajrangi Singh R/o Village
			55	Govt.	Road	0.0066		Govt. of Uttar Pradesh
			54	Private	Agriculture	0.0818		Abhilakh, Baligurudeen, Pudai S/o Ahibaran R/o Village
			<b>Total</b>			<b>1.7527</b>		
		<b>(34)</b>	<b>37</b>	Private	Agriculture	0.0727		Badriprasad, Tulsiram, Ramsurat S/o Lallu R/o Village & Mitthu S/o Harkhani R/o Village
			38	Private	Agriculture	0.0094		Aahku S/o Mahangu R/o Village & Somai S/o Bachai R/o Village & Rangai S/o Bahadur R/o Village & Devraji W/o Bipati R/o Dhakapur
			39	Private	Agriculture	0.0694		Gangadeen S/o Ramkhelawan R/o Daudapur & Chathu S/o Lodi R/o Pakadikhurd & Ramji S/o Ramkuber R/o Semarikhurd & Aahku S/o Ramdhan & Somari W/o Banshi R/o Village
			40	Private	Agriculture	0.0596		Ramraj S/o Jagesar R/o Village & Kedarnath S/o Ramnarayan R/o Dhakapur & Rangai S/o Bahadur Chamar R/o Village
			41	Private	Agriculture	0.0549		Ramraj S/o Jagesar R/o Village & Kedarnath S/o Ramnarayan R/o Dhakapur
			42	Private	Agriculture	0.0463		Ramraj S/o Jagesar R/o Village & Indrajeet, Rangbahadur S/o Jaynath & Sudamadevi W/o Lt. Jaynath R/o Village & Ramsundar S/o

							Muneshwar R/o Village & Gaurishankar, Shivshankar S/o Gangadeen R/o Village
			43	Govt.	New Land	0.0060	Govt. of Uttar Pradesh
			44	Private	Agriculture	0.0793	Badriprasad, Tulsiram, Rammurat S/o Lallu R/o Village
			45	Govt.	Road	0.0079	Govt. of Uttar Pradesh
			47	Private	Agriculture	0.1151	Vijaybahadursingh S/o Ramphersingh R/o Dhakapur & Kailashnath S/o Ramadhar R/o Dhakhapur
			48	Private	Agriculture	0.1739	Smt. Premadevi W/o Ganeshprasad R/o Village & Sadhu, Harilal, Chotelal S/o Jagdev R/o Village
			49	Private	Agriculture	0.1183	Gaurishankar, Shivshankar S/o Gangadeen R/o Village
			50	Private	Agriculture	0.1070	Indrajeet, Rangbahadur S/o Jaynath & Sudamadevi S/o Lt. Jaynath R/o Village
			51	Govt.	Aabadi	0.0130	Govt. of Uttar Pradesh
			52	Private	Agriculture	0.6824	Ramraj S/o Jagesar R/o Village
			54	Private	Agriculture	0.0302	Rangai S/o Bahadur R/o Village
			55	Private	Agriculture	0.0310	Badriprasad, Tulsiram, Ramsurat S/o Lallu R/o Village
			56	Private	Agriculture	0.0223	Mitthu S/o Harkhani R/o Village
			57	Private	Agriculture	0.0166	Balai, Somai S/o Khelawan R/o Village
			58	Govt.	Road	0.0009	Govt. of Uttar Pradesh
			59	Private	Agriculture	0.0113	Gangadeen S/o Ramkhelawan R/o Village & Chathu S/o Lodi R/o Pakadikhurd & Ramji S/o Ramkuber R/o Semarikhurd
			66	Private	Agriculture	0.1773	Mahaveer S/o Ram Khelawan & Smt. Dropadi W/o Ram Khelawan R/o Village
			78	Private	Agriculture	0.1686	Vijaybahadur, Udairajsingh, Anantbahadursingh S/o Ramphersingh & Ramphersingh Education Society Dhakhapur Tamarespur Maharani West Sultanpur
			79	Govt.	Non Agriculture	0.0244	Pond, Govt. of Uttar Pradesh
			80	Govt.	Non Agriculture	0.0305	Wild Bushes, Govt. of Uttar Pradesh
			81	Govt.	Non Agriculture	0.0160	Khad Gadde, Govt. of Uttar Pradesh
			82	Govt.	Banzer	0.0164	Govt. of Uttar Pradesh
			92	Private	Agriculture	0.0660	Sadhu S/o Jagdev R/o Village
			93	Private	Agriculture	0.0009	Ramnath S/o Ramesher R/o Village
			96	Govt.	Road	0.0069	Govt. of Uttar Pradesh
			97	Private	Agriculture	0.0663	Ramanand, Ramjeet Minor S/o Salikram R/o Village & Ramdaur S/o Munesar R/o Village
			98	Private	Agriculture	0.0630	Ramkalaval S/o Ramkhelawan R/o Village
			99	Private	Agriculture	0.0223	Rajbahadur, Rajpati, Danbahadur S/o Laxmin R/o Village
			111	Govt.	Aabadi	0.0221	Govt. of Uttar Pradesh
			112	Govt.	Banzer	0.0170	Govt. of Uttar Pradesh
			117	Private	Agriculture	0.0009	Ramkumar, Ramnath S/o Ramesar R/o Village
			<b>Total</b>			<b>2.4259</b>	
		<b>(35) Benti Khurd</b>	317	Private	Agriculture	0.3458	Kamlaprasad S/o Ramcharitra R/o Village
			318	Private	Agriculture	0.1966	Tirathraj S/o Sarju R/o Village
			312	Govt.	Way	0.0150	Govt. of Uttar Pradesh
			311	Private	Agriculture	0.1451	Sitaram, Rajaram, Radheyshyam S/o Anganu R/o Village & Smt. Krishnadevi W/o Radheyshyam Bari R/o Baithikhurd & Sushmadevi W/o Motilal Bari R/o Baithikhurd & Sangeetadevi W/o Santosh kumar Bari R/o betikhurd
			310	Private	Agriculture	0.1324	Ramsager S/o Rajnarayan R/o Village
			309	Private	Agriculture	0.1663	Devnarayan S/o Pullu R/o Village
			308	Govt.	Road	0.0270	Govt. of Uttar Pradesh
			307	Private	Agriculture	0.4291	Kamlaprasad S/o Ramcharitra R/o Village
			322	Private	Agriculture	0.1210	Chotelal, Badelal, Ramapati, Rmakant,

								Rmashankar, Sabhapati S/o Sheshnarayan R/o Village & Ramadhar S/o Gangadeen R/o Village & Devnarayan S/o Pullu R/o Village & Ramsagar S/o Rajnarayan R/o Village & Kamalprasad S/o Ramcharitra R/o Village & Chandrakant, Krishankant, Ravikant S/o Pratapnarayan R/o Village
			323	Private	Agriculture	0.0791		Chotelal, Badelal, Ramapati, Rmakant, Rmashankar, Sabhapati S/o Sheshnarayan R/o Village & Ramadhar S/o Gangadeen R/o Village & Devnarayan S/o Pullu R/o Village & Ramsagar S/o Rajnarayan R/o Village & Kamalprasad S/o Ramcharitra R/o Village & Chandrakant, Krishankant, Ravikant S/o Pratapnarayan R/o Village
			324	Govt.	Non Agriculture	0.3700		Govt. of Uttar Pradesh (Gyanoday Small Sec. School Surya nagar Baiti)
			325	Private	Agriculture	0.0621		Premkumar S/o Bachi R/o Vithuwakala & Jokhram S/o Ramajore Pathak & Pradeep Kumar Pathak, Pravesh Kumar Pathak S/o Lt Sashibhushan Pathak R/o Shafipur & Rmapati, Sabhapati, Chotelal, Rmakant, Rmashankar, Badelal S/o Sheshnarayan R/o Village & Chotelal S/o Ramraj R/o Vithuwakala
			326	Govt.	Nali	0.0128		Govt. of Uttar Pradesh
			27	Private	Agriculture	0.1200		Mahaveer, Jagdish S/o Doodhnath R/o Sultanpur Kaka
			28	Private	Agriculture	0.0382		Rajdev S/o Videshi R/o Village & Rajbahadur, Syambahadur, Lalbahadur Minor Age 14,12 Yrs S/o Tihuri Gaudian Ghimni R/o Village
			29	Govt.	Road	0.0029		Govt. of Uttar Pradesh
			30	Private	Agriculture	0.0040		Soman S/o Pudan R/o Rajepur & Harilal, Hiralal S/o Sukhdev R/o Rajepur
			31	Govt.	Banzer	0.0280		Govt. of Uttar Pradesh
			32	Private	Agriculture	0.0535		Kamalprasad S/o Ramcharitra R/o Village & Tihuri S/o Mahangu R/o Village
			<b>Total</b>			<b>2.3488</b>		
		<b>(36) Benti Kalan</b>	224	Private	Agriculture	0.1842		Sachidananda S/o Kamla prasad R/o Baitikhurd & Krishankant S/o Bhagauti prasad & Smt. Indu W/o Tirathraj & Ramautar Tripathi S/o Kamla prasad & Gaurav kumar Minor S/o Rammurat Guardian Baba Real Vasdev & Amit kumar Minor S/o Ravindra kumar Guardian Baba Vasdev R/o Tamrasepur
			225	Private	Agriculture	0.1054		Smt. Pathra devi W/o Shivmurti & Santosh Kumar Minor S/o Shanti devi P. Bhillar urf Parasnath R/o Baitikhurd
			226	Govt.	Road	0.0057		Govt. of Uttar Pradesh
			227	Private	Agriculture	0.2220		Satyanarayan S/o Ramabhilakh R/o Baiti Khurd
			228	Private	Agriculture	0.0570		Satyanarayan S/o Ramabhilakh R/o Baiti Khurd
			230	Private	Agriculture	0.2014		Ramkaran S/o Ramsamujh & Sanjay kumar Ajay kumar S/o Balikaran R/o Village
			235	Govt.	Road	0.0091		Govt. of Uttar Pradesh
			236	Private	Agriculture	0.0720		Udayraj Awdhesh kumar S/o Ramlaut R/o Village Baiti khurd
			237	Private	Agriculture	0.2477		Ramfer Ramlaut Doodhnath S/o Ramdayal R/o Tamarsepur
			238	Private	Agriculture	0.0696		Ramfer Ramlaut Doodhnath S/o Ramdayal R/o Tamarsepur
			240	Govt.	Road	0.0032		Govt. of Uttar Pradesh
			241	Private	Agriculture	0.1665		Gohar ali Liyakat ali S/o Mohd. Yusuf & Sabrun W/o Mohd. Yusuf & Mohd. Jamil S/o Bhulai R/o Village & Ahsan ali S/o Malihuddin & Mukhtar ahmad S/o Abdul Ajj



							R/o Sarai Gopalpur
			246	Private	Agriculture	0.0400	Kismat ali urf Kallushah & Hiyatali urf Mallushah & Muhrram ali & Shakir ali & Islamshah S/o Ibrahim shah & Isratulnisha W/o Lt. Ibrahim R/o Village
			251	Private	Agriculture	0.0067	Mohd. Jamil S/o Bhulai & Shohrab Ali Shehraj Ali S/o Mohd. Idrish R/o Village & Gauhar ali & Liyakat ali S/o Mohd. Yusuf & Sabrun W/o Mohd. Yusuf R/o Village
			258	Private	Agriculture	0.0630	Ramkuber Ramkumar S/o Khiyali R/o Village
			259	Private	Agriculture	0.0054	Ramkuber Ramkumar S/o Khiyali R/o Babhanpur
			261	Private	Agriculture	0.0061	Mohd. Jamil S/o Bhulai & Shohrab Ali Shehraj Ali S/o Mohd. Idrish R/o Village & Gauhar ali & Liyakat ali S/o Mohd. Yusuf & Sabrun W/o Mohd. Yusuf R/o Village
			262	Private	Agriculture	0.0320	Munshiraja and Ali Raja S/o Badlu & Rabiya W/o Badlu & Mumtaj and Murtaja D/o Badlu R/o Village
			263	Private	Agriculture	0.0160	Munshiraja and Ali Raja S/o Badlu & Rabiya W/o Badlu & Mumtaj and Murtaja D/o Badlu R/o Village
			264	Private	Agriculture	0.0160	Munshiraja and Ali Raja S/o Badlu & Rabiya W/o Badlu & Mumtaj and Murtaja D/o Badlu R/o Village
			265	Private	Agriculture	0.1089	Ramsevak S/o Ramajor & Anil kumar S/o Ramkeval & Basant kumar and Rakesh kumar S/o Ramkripal & Shobhawati W/o Ramkrapal R/o Village Tamarsepur & Preetish kumar Vishwas S/o Lt. Praphull kumar R/o Village Purv Shimuliya Post Gangsara (Majre Village) & Smt. Shanti devi W/o Rammurti Morya R/o Village & Smt. Premdevi W/o Indarjeet Yadav R/o Village Babhanpur & Rammurti Morya S/o Ramfer Morya R/o Village Baitikalan & Smt. Santosh kumari W/o Arun kumar Tiwari R/o Village Baksha Distt. Jaunpur Haal Warid Baitikalan
			272	Govt.	Road	0.0008	Govt. of Uttar Pradesh
			285	Govt.	Non Agriculture	0.0037	Sector Road, .Govt. of Uttar Pradesh
			290	Private	Agriculture	0.0391	Ramkuber Ramkumar S/o Ramkhiyal R/o Village
			291	Private	Agriculture	0.0334	Ramkaran S/o Ramsamujh & Sanjay kumar Ajay kumar S/o Balikaran R/o Village
			292	Private	Agriculture	0.0552	Ramkaran S/o Ramsamujh & Sanjay kumar Ajay kumar S/o Balikaran R/o Village
			294	Govt.	Aabadi	0.0200	Govt. of Uttar Pradesh
			295	Private	Agriculture	0.0187	Suraj Minor age 17 yrs. S/o Ramkeval & Shantadevi Mother & Shantadevi W/o Ramkeval R/o Babhanpur
			296	Govt.	Nali	0.0012	Govt. of Uttar Pradesh
			297	Private	Agriculture	0.0192	Kamlaprasad S/o Ramawadh R/o Babhanpur
			303	Govt.	Road	0.0018	Sector Road, Govt. of Uttar Pradesh
			304	Private	Agriculture	0.0192	Kamlaprasad S/o Ramawadh R/o Babhanpur
			305	Private	Agriculture	0.0099	Subhash Chandar Harishchandar S/o Kamlaprasad R/o Babhanpur
			306	Private	Agriculture	0.0031	Subhash Chandar Harishchandar S/o Kamlaprasad R/o Babhanpur
			462	Govt.	Way	0.0067	Govt. of Uttar Pradesh
			463	Govt.	New Land	0.0301	Govt. of Uttar Pradesh
			464	Govt.	New Land	0.0481	Govt. of Uttar Pradesh
			467	Private	Agriculture	0.2201	Sarju Prasad S/o Ramdhan R/o Village
			468	Private	Agriculture	0.1216	Sabhapati Ramgarib S/o Ram Akbal R/o Village
			494	Govt.	Road	0.0063	Sector Road, Govt. of Uttar Pradesh
			495	Govt.	Khad Ka Gadda	0.0240	Govt. of Uttar Pradesh
			496	Govt.	Aabadi	0.0496	Govt. of Uttar Pradesh
			497	Govt.	New Land	0.0105	Govt. of Uttar Pradesh

			498	Private	Agriculture	0.2024	Ramaasre and Rampravesh Ramji and Ramsringar Ramkishore S/o Prahlad & Kewla Devi W/o Prahlad R/o Village
			500	Govt.	Road	0.0066	Govt. of Uttar Pradesh
			502	Private	Agriculture	0.0905	Shripal S/o Panchu R/o Village
			502/ 1521	Private	Agriculture	0.0320	Rammurat Ramsurat Shivmurt Harinath S/o Rambaran R/o Marchha & Ramdhari Ramashankar Ramprasad S/o Mahadev R/o Village
			503	Govt.	Non Agrculture	0.0550	Bhita, Govt. of Uttar Pradesh
			1106 E	Private	Agriculture	0.0877	Amarawati Devi W/o Salikram R/o Village & Shivanath Vishvanath Budhiram S/o Ayodhya R/o Malhipur & Harilal S/o Ramajor & Sumitra Devi W/o Harilal & Ramcharan S/o Algu R/o Koiripur & Ramadhar Mahabeer R/o Village & Udayraj Devraj Abhayraj S/o Ramabhilakh R/o Banhara
			1106 E	Private	Agriculture		Chotelal S/o Ramnihore R/o Bhamanpur & Shivanath Vishwanath Bhudiram S/o Aiyodha R/o Malhipur & Harilal S/o Ramajor & Sumitra Devi W/o Harilal & Hoshilaprasad Ramcharan S/o Algu R/o Koiripur & Ramadhar S/o Mahaveer R/o Village
			1107 E	Private	Agriculture	0.0272	Bajrangbali Yadav S/o Nanhkau Yadav R/o Village Shafipur
			1107 E	Private	Agriculture		Ramjeet S/o Iderjeet R/o Chattona kala & Ramapati Sabhapati Rajpati S/o Murlidhar & Gangadei W/o Murlidhar & Ramsamujh S/o Khedu R/o Village & Tribhuvan Singh Jagdish Singh Jaiprakash Raviprakash Rakesh kumar S/o Rajpati & Israji W/o Rajpati R/o Village Chattona kala
			1110 E	Private	Agriculture	0.0329	Doodhnath Ramlaut Ramfer S/o Ramdayal Yadav R/o Tamarsepur
			1110 E	Private	Agriculture		Dayashankar Girijashankar S/o Ramsumer R/o Village
			1111	Private	Agriculture	0.0079	Ramkrapal S/o Ramjas R/o Village
			1113	Govt.	Road	0.0012	Govt. of Uttar Pradesh
			1116	Private	Agriculture	0.0024	Smt. Sushila Devi W/o Durgaprasad R/o Chhatauna Kalan
			1196	Govt.	Road	0.0080	Govt. of Uttar Pradesh
			1197	Private	Agriculture	0.0240	Sheshmani Sheshdhar Dharmendar Kumar S/o Ramhit & Smt. Dhanraji W/o Ramhit R/o Barni
			1205	Private	Agriculture	0.0053	Mahajan Rajitram S/o Jaikaran R/o Tamarsepur
			1209	Private	Agriculture	0.0451	Ramdev S/o Matai R/o Tamarsepur
			1210	Private	Agriculture	0.0375	Anil Kumar S/o Shivraj R/o Tamarsepur & Smt. Phoolpatti Devi W/o Balikaran & Smt. Prabhawati Devi W/o Achchhelal R/o Village Baitikhurd & Smt. Prema W/o Jagram R/o Village Tamarsepur
			1212	Private	Agriculture	0.0632	Ramkaran S/o Ramsamujh R/o Babhanpur & Ramesh Kumar and Rambahadur S/o Parasnath & Doodhnath Kedarnath Bajjnath S/o Ramdev & Dilraji W/o Ramdev R/o Village & Dayashankar S/o Ramanand R/o Tamarsepur & Sanjay Kumar Ajay Kumar S/o Balikaran R/o Babhanpur
			1213	Govt.	Road	0.0031	Govt. of Uttar Pradesh
			1216	Private	Agriculture	0.0344	Rajnath Shobhnath S/o Ahibaran & Butna S/o Jhagru & Mutuna S/o Ahibaran R/o Tamarsepur
			1217 B	Private	Agriculture	0.1315	Krapashankar S/o Babunandan & Subhash chandra S/o Jamunaprasad & Satai S/o Ramnath Nishad R/o Tamarasepur Suresh chandra S/o Jamuna prasad R/o Village Tamarsepur Prg. Chanda Teh. Lambhua Distt. Sultanpur & Janki prasad S/o Ramdev & Smt.

				1217 A	Private	Agriculture		Jadawati devi W/o Salikram R/o Village Barni Chhotelal Ramapati Sabhapati S/o Sheshnarayan & Chandarkant Krishankant Ravikant S/o Pratapnarayan & Badelal Ramakant Ramashankar S/o Sheshnarayan & Yadunath S/o Gayadeen & Devnarayan S/o Pullu R/o Baitikhurd & Harishchandar Ojha S/o Jamuna Prasad Ojha R/o Tamarsepur & Afsana Khatun W/o Irshad Ahmad R/o Saray Gopal
				1219	Private	Agriculture	0.2020	Devraj S/o Jharhag & Girjashankar S/o Chhahiraj & Mataprasad Abhayraj S/o Abhilash R/o Babhanpur
				1220	Private	Agriculture	0.0007	Abhayraj S/o Ramabhilakh & Achhelal & Shyamkesh & Chandrajeet S/o Mataprasad & Kalli W/o Lt. Mataprasad R/o Babhanpur
				1221	Govt.	Non Agriculture	0.0007	Khad ke Gadde, Govt. of Uttar Pradesh
				1222	Govt.	Non Agriculture	0.0006	Skin Removing Place, Govt. of Uttar Pradesh
				1223	Private	Agriculture	0.0096	Rajbahadur S/o Ramdev & Ramadhar S/o Ramprasad R/o Village Babhanpur & Rajdev Yadav S/o Ramdular R/o Village Babhanpur Present R/o Baitikala
				1254	Govt.	Non Agriculture	0.0680	Govt. of Uttar Pradesh
				1255	Govt.	New Land	0.0872	Govt. of Uttar Pradesh
				1256	Govt.	New Land	0.0587	Govt. of Uttar Pradesh
				1257	Private	Agriculture	0.1274	Udrej Singh S/o Basdev Singh & Vinay shankar Singh Shivshankar Singh S/o Amrej & Ramfer S/o Ramharakh & Ramkeval S/o Ramraj & Rajaram S/o Bhulai R/o Village & Ramachhewar S/o Munesar R/o Pathanipur & Najeer Ahmad S/o Asgar Ali R/o Saraigopal & Ashok Kumar Shivkumar Vijay Kumar Jagdish Kumar Dilip Kumar S/o Rajaram & Rampiyare S/o Munnu R/o Village & Hadisulnisha W/o Kismat ali surname Kallu R/o Village & Girja shankar Yadav S/o Chhviraj Yadav R/o Babhanpur & Rajdev Yadav S/o Ramdular Yadav R/o Baitikala & Usha devi W/o Ramashankar Gupta R/o Baitikala & Krapa shankar singh urf Udrej singh R/o Baitikala
				1258	Private	Agriculture	0.0991	Sadlu S/o Bihari & Ramesh Kumar and Rajbahadur S/o Parasnath & Doodhnath Kedarnath Bajjnath S/o Ramdev & Dilraji W/o Ramdev & Vicheti S/o Gayadeen R/o Village & Gangadeen Ramnarayan Satyanarayan Keshav Rajje S/o Ramdhan & Badri & Anantu S/o Brajlal & Ramkuber Ramkumar S/o Khiyalipal & Rajaram S/o Bharos & Ramajor S/o Ramratan & Sundar S/o Khushhal R/o Babhanpur & Harilal Ramlal S/o Sampati & Hubraji W/o Sampati & Dhanpatti W/o Khiyalipal R/o Village & Ramkaran S/o Ramsamujh & Sanjay kumar Ajay kumar S/o Balikaran R/o Village
				1259	Private	Agriculture	0.1533	Sadlu S/o Bihari & Ramesh Kumar and Rajbahadur S/o Parasnath & Doodhnath Kedarnath Bajjnath S/o Ramdev & Dilraji W/o Ramdev & Vicheti S/o Gayadeen R/o Village & Gangadeen Ramnarayan Satyanarayan Keshav Rajje S/o Ramdhan & Badri & Anantu S/o Brajlal & Ramkuber Ramkumar S/o Khiyalipal & Rajaram S/o Bharos & Ramajor S/o Ramratan & Sundar S/o Khushhal R/o Babhanpur & Harilal Ramlal S/o Sampati & Hubraji W/o Sampati & Dhanpatti W/o Khiyalipal R/o Village & Ramkaran S/o Ramsamujh & Sanjay kumar

							Ajay kumar S/o Balikaran R/o Village Babhanpur
			1260	Govt.	Non-Agriculture	0.0134	Govt. of Uttar Pradesh
			1261	Govt.	Non-Agriculture	0.0212	Govt. of Uttar Pradesh
			1262	Private	Agriculture	0.1298	Gangadeen Rajnarayan Satyanarayan Keshav Rajje S/o Ramdhan R/o Village
			1263	Private	Agriculture	0.0121	Dhanpatti W/o Chothi R/o Babhanpur
			1269	Govt.	Road	0.0089	Govt. of Uttar Pradesh
			1270	Private	Agriculture	0.0815	Rajaram S/o Bharos R/o Babhanpur
			1276	Govt.	Road	0.0089	Govt. of Uttar Pradesh
			1277	Private	Agriculture	0.1592	Anantu S/o Mohan & Brijlal S/o Santu R/o Babhanpur & Shivkumar Rajendra prasad S/o Badri & Smt. Badaka W/o Lt. Badri R/o Village
			1278	Govt.	Nali	0.0040	Govt. of Uttar Pradesh
			1279	Private	Agriculture	0.3360	Kamlaprasad S/o Ramawadh R/o Babhanpur
			1280	Govt.	Nali	0.0150	Govt. of Uttar Pradesh
			1281	Private	Agriculture	0.1058	Uday chandra Abhishek chandra W/o Rajdev R/o Village Babhanpur
			1282	Private	Agriculture	0.0377	Rambaran S/o Ramdular R/o Babhanpur
			1285	Govt.	Road	0.0105	Govt. of Uttar Pradesh
			1286	Govt.	Banzer	0.0185	Govt. of Uttar Pradesh
			1287	Private	Agriculture	0.2097	Ramwali S/o Ramdular & Ramraj Udayraj Chhotelal S/o Ramnihor & Ramawadh S/o Matabadal & Indarjeet Ram akbal S/o Ramadhar & Ramaasre Sabhapati Ramapati S/o Ramabhilakh & Sitaram Vijay Kumar S/o Rampratap R/o Village & Devraj Jharihag Surendar pratap Rajendar pratap S/o Ramjeet & Salikram S/o Rampratap R/o Village & Abhayraj S/o Ramabhilakh R/o Babhanpur & Ramshiomani & Ramchandar S/o Satai & Smt. Ishraji W/o Lt. Satai R/o Village Babhanpur & Ramjeet & Ramakbal S/o Ramdaur & Dharmadevi W/o Lt. Ramdaur R/o Village Babhanpur & Achhelal & Shyamkesh & Chandrajeet S/o Mataprasad & Kalli W/o Lt. Mataprasad R/o Village
			1288 A	Private	Agriculture	0.0626	Udairaj Lalji S/o Ramsamujh R/o Babhanpur
			1288 B	Private	Agriculture		Kamlaprasad S/o Ramawadh R/o Babhanpur
			1288 A	Private	Agriculture		Ramsamujh S/o Bhagautidin R/o Babhanpur
			1289	Govt.	Road	0.0200	Govt. of Uttar Pradesh
			1290	Govt.	Non-Agriculture	0.1189	Govt. of Uttar Pradesh
			1317	Private	Agriculture	0.1924	Krishankant S/o Ramkishor R/o Village
			1318/1506	Private	Agriculture	0.0742	Krishankant S/o Ramkishor R/o Village
			1318 E	Private	Agriculture		Sona S/o Laltaprasad R/o Village
			1319 A	Private	Agriculture	0.1449	Rampal S/o Bharos R/o Malhipur & Bhagautideen Harishankar Ramashankar S/o Ramachhebar R/o Village & Mahadev S/o Ramdatt & Parasnath S/o Sumer & Yamunaprasad S/o Ramsundar & Nanhu S/o Ramnaresh & Jaishree Indar S/o Bachai R/o Babhanpur
			1319 B	Govt.	New Land		Govt. of Uttar Pradesh
			1361	Private	Agriculture	0.4268	Parasnath S/o Sumer & Jaishree Indar S/o Bachai R/o Village & Mahadev S/o Ramdatt R/o Babhanpur & Ramlal S/o Bharos R/o Nanan & Nanhu S/o Naresh & Mahadev S/o Ramdev R/o Village & Achhebar Ramlal S/o Bharos R/o Malhipur & Salikram Harikesh bahadur Umesh chandra Birendra kumar S/o Jamuna & Govindi W/o Jamuna R/o Village Babhanpur
			1362 A	Private	Agriculture	0.0729	Rampal S/o Bharos R/o Malhipur &

								Bhagautideen Harishankar Ramashankar S/o Ramachhebar R/o Village & Mahadev S/o Ramdatt & Parasnath S/o Sumer & Yamunaprasad S/o Ramsundar & Nanhu S/o Ramnaresh & Jaishree Indar S/o Bachai R/o Babhanpur
				1362 B	Private	Agriculture		Ramlakhan Ramnarayan S/o Sitaram & Ramasre S/o Ramdular R/o Village
				1388	Private	Agriculture	0.0362	Krishan kumar S/o Ramlakhan & Parana devi W/o Lt. Ramlakhan R/o Village
				1426	Govt.	Road	0.0031	Govt. of Uttar Pradesh
				1427	Private	Agriculture	0.0290	Ramjas Shankar Kalpu Ramwali S/o Ramdular R/o Village
				1428	Private	Agriculture	0.0205	Ramjas Shankar Kalpu Ramwali S/o Ramdular R/o Village
				1429 E	Private	Agriculture	0.0344	Munnalal and Udayraj S/o Ramfer & Kewla Devi W/o Lt. Ramfer R/o Village
				1429 E	Private	Agriculture		Ramjas Shankar Kalpu Ramwali S/o Ramdular R/o Village
				1432	Govt.	Non Agriculture	0.0032	Sector Road, Govt. of Uttar Pradesh
				1433	Private	Agriculture	0.0440	Heeralal Virendar Kumar Lalmani S/o Basdev R/o Village & Jitendar Kumar S/o Virendarnath R/o Village Shivpur
				1434	Private	Agriculture	0.0640	Rampal Ramadhar S/o Mahavir R/o Village
				1435	Govt.	Road	0.0146	Govt. of Uttar Pradesh
				1437	Govt.	Aabadi	0.0799	Govt. of Uttar Pradesh
				1439	Govt.	Aabadi	0.0269	Govt. of Uttar Pradesh
				1442	Private	Agriculture	0.0926	Shivprasad Shobhnath Jagnarayan S/o Santu & Adarsh Kumar Minor 11 yrs. S/o Sabhajeet Guardian Lalita Devi Mother & Lalita Devi W/o Sabhajeet & Mu. Rajwanti W/o Santu R/o Village
				1443	Private	Agriculture	0.0488	Kariyau S/o Jethu R/o Village
				1444	Private	Agriculture	0.0409	Ramapati and Sabhapati Rajpati S/o Murlidhar & Gangadai W/o Murlidhar R/o Village
				1445	Private	Agriculture	0.0288	Ratipal Bhagwandeem s/m Ramjas R/o Village
				1488	Govt.	Road	0.0165	Pakki Road, Govt. of Uttar Pradesh
				<b>Total</b>			<b>6.9568</b>	
			<b>(37)</b>	101	Govt.	Road	0.0029	Govt. of Uttar Pradesh
			<b>Temrsepur</b>	102	Govt.	Aabadi	0.0240	Govt. of Uttar Pradesh
				103	Private	Agriculture	0.0371	Dayashankar S/o Prithvipal R/o Village
				109	Private	Agriculture	0.1499	Udayraj Chotelal S/o Ramnihore R/o Babhanpur & Sanjeev Kumar Ashok kumar S/o Ramraj R/o Babhanpur
				110	Govt.	Road	0.0046	Govt. of Uttar Pradesh
				111	Private	Agriculture	0.1865	Smt. Indarpati Devi W/o Vishvmbarnath R/o Village & Smt. Shobhawatidevi W/o Dayashankar Morya R/o Village Betikala & Smt. Seetadevi W/o Rammilan R/o Baitikalan & Gangaprasad S/o Motilal R/o Sheshpura Prg. Chanda & Ramvaran S/o Kedarnath R/o Ghatampur
				112 E	Private	Agriculture	0.0433	Kedarnath Ramsurat S/o Rajkishore R/o Village
				112	Private	Agriculture		Smt. Indrapati devi W/o Vishambhar Nath Smt. Shobhavat Devi W/o Dayashankar Morya R/o Bentikalan
				113	Govt.	Nali	0.0357	Govt. of Uttar Pradesh
				<b>Total</b>			<b>0.4840</b>	
			<b>(38)</b>	26	Private	Agriculture	0.0167	Jaishree S/o Bachai R/o Village
			<b>Bamanpur</b>	27	Private	Agriculture	0.0069	Jaishree S/o Bachai R/o Village
				28	Private	Agriculture	0.0360	Mahadev S/o Ramdatt R/o Village & Bhumi K.C.C Bank Bandhak
				29	Govt.	Road	0.0059	Govt. of Uttar Pradesh
				30	Private	Agriculture	0.0694	Lalbahadur S/o Sahdev R/o Village
				<b>Total</b>			<b>0.1348</b>	

			(39) Khandhar Patti	1	Govt.	Non Agriculture	0.0233	Village Road, Govt. of Uttar Pradesh
				2	Govt.	Aabadi	0.0200	Govt. of Uttar Pradesh
				3	Private	Agriculture	0.0080	Khuddu S/o Ramkhelawan R/o Baitikala & Ramchandar, Phoolchandar S/o Birju R/o Baitikalan
				4	Govt.	New Land	0.0200	Govt. of Uttar Pradesh
				5E	Private	Agriculture	0.0668	Ramsamujh, Mahadev S/o Givadhan R/o Sonawa
				5 E	Private	Agriculture		Ramchandar, Phoolchandar S/o Birju R/o Baitikalan
				10	Govt.	Nali	0.0069	Govt. of Uttar Pradesh
				11	Private	Agriculture	0.0742	Babulal S/o Makhdum R/o Baitikalan
				12	Private	Agriculture	0.0980	Smt. Amarawati Devi W/o Ramchandar Mishr R/o Sonawa & Shantidevi W/o Shriprakash Pandey R/o Sadapur & Smt. Sushiladevi W/o Sankthaprasadmishr R/o Chatonakalan
				13	Private	Agriculture	0.0886	Bachai Upnaam Shankar S/o Buddhu R/o Baitikalan
				38	Govt.	Road	0.0113	Govt. of Uttar Pradesh
				40	Private	Agriculture	0.0530	Syamshankar Dayashankar S/o Shriram R/o Sonawa
				41	Private	Agriculture	0.3235	Khuddu S/o Ramkhelawan R/o Baitikalan
				42 E	Private	Agriculture	0.1354	Dayaram, Ramsajeewan S/o Tidiram R/o Lalu ka pura Majre Sonawa
				42 E	Private	Agriculture		Munnalal, Udayraj S/o Rampher & Kewla Devi W/o Lt. Rampher R/o Baitekala
				42 E	Private	Agriculture		Kishori Devi W/o Bhusai Singh R/o Malhipur
				42 E	Private	Agriculture		Sadanand S/o Ramnarayan R/o Koiripur
				43	Private	Agriculture	0.0067	Ramchandar, Phoolchandar S/o Birju R/o Baitikalan
				89	Private	Agriculture	0.0005	Mitthu S/o Mahaveer R/o Village
				91	Govt.	Road	0.0120	Govt. of Uttar Pradesh
				92 E	Private	Agriculture	0.1150	Smt. Sursati Devi W/o Shivprasad R/o Koiripur
				92 E	Private	Agriculture		Satyanarayan, Shivkumar, Santosh Kumar S/o Gulabchand R/o Koiripur
				92 E	Private	Agriculture		Arjun S/o Ramsundar R/o Mahuli Puredhani
				92 E	Private	Agriculture		Bhagoti Prasad S/o Ramsamujh R/o Village
				92 E	Private	Agriculture		Rmashankar S/o Ramkishore R/o Sadapur & Shriram S/o Chuni R/o Sadapur & Ram Niyam S/o Ramchandra R/o Newajgarh
				92 E	Private	Agriculture		Rampher S/o Jhuripal R/o Village
				92 E	Private	Agriculture		Rambali S/o Lakhai R/o Sonawa
				92 E	Private	Agriculture		Shivprasad S/o Mahaveer R/o Koiripur
				92 E	Private	Agriculture		Munnalal, Udayraj S/o Rampher & Kewla Devi W/o Lt. Rampher R/o Baitekala
				93	Private	Agriculture	0.1757	Ramdayal S/o Bhagotideen R/o Village
				94	Govt.	Road	0.0056	Govt. of Uttar Pradesh
				95 E	Private	Agriculture	0.1874	Juggilal S/o Bhagotideen R/o Koiripur
				95 E	Private	Agriculture		Dhudnath, Parasnath, Ramdhani S/o Ramnarayan R/o Sariya Prg Saremu Jaunpur
				95 E	Private	Agriculture		Danbahadur S/o Ramsamujh R/o Village
				95 E	Private	Agriculture		Ramchandra S/o Ramashankar R/o Village
				95 E	Private	Agriculture		Jijadevi W/o Lt. Lalbahadur R/o Village & Sanaudevi W/o Achelal Sahu R/o Village Shahgarh
				95 E	Private	Agriculture		Smt. Shobhawati W/o Kailashchandra R/o Koiripur & Radheshyam S/o Babulal R/o Koiripur & Smt. Shantidevi W/o Radheshyam R/o Village & Motilal, Kapoorchand S/o Thakurdeen & Jaankidevi W/o Thakurdeen R/o Village
				129	Govt.	Road	0.0035	Govt. of Uttar Pradesh
				130	Govt.	Non Agriculture	0.0630	Govt. of Uttar Pradesh
				131	Private	Agriculture	0.0460	Rampiyare S/o Ramsumer R/o Sonawa
				140 A	Private	Agriculture	0.0601	Rampiyare S/o Ramsumer R/o Sonawa

				140 B	Private	Agriculture		Mitthu S/o Mahaveer R/o Village
				139	Private	Agriculture	0.0181	Ramdayal S/o Bhagotideen R/o Village & Ramkripal, Ramraj, Rampal S/o Jairaj R/o Village & Ramsamujh S/o Jagtaar R/o Sonawa & Rajaram, Seetaram S/o Ramsamuj R/o Sonawa & Sheetla Prasad Deviprasad Shivprasad Rajendarprasad Krishan Kumar S/o Ramanjore R/o Village
				138	Private	Agriculture	0.0450	Ramdayal S/o Bhagotideen R/o Village & Daanbahadur S/o Ramsamujh R/o Village & Ramkripal, Ramraj, Rampal S/o Jairaj R/o Village & Ramnarayan S/o Algu R/o Koiripur & Mithu S/o Mahaveer R/o Village & Sheetla Prasad, Deviprasad, Shivprasad, Rajendarprasad, Krishan Kumar S/o Ramanjore R/o Village
				137	Private	Agriculture	0.1560	Gangadei S/o Ramdeen R/o Village & Mittu S/o Mahaveer R/o Village & Ramdayal S/o Bhagotideen R/o Village & Vijaykumar S/o Basantkumar R/o Village & Sheetlaprasad, Deviprasad, Shivprasad, Rajendarprasad, Krishankumar S/o Ramanjore R/o Village
				142	Private	Agriculture	0.0002	Brijlal S/o Mahaveer R/o Sadapur & Savitri Devi S/o Shivnath R/o Malhipur
				143 A	Private	Agriculture	0.0167	Baishraj S/o Muneshwar Yadav R/o Sadapur
				143 B	Private	Agriculture		Chirkuti urf Bhagwandeem S/o Somai R/o Village & Pannelal, Bankelal S/o Gangaprasad R/o Safipur
				144	Private	Agriculture	0.0451	Ramkripal, Ramraj, Rampal S/o Jairaj R/o Village & Mithu S/o Mahaveer R/o Village & Ramjibaranwal, Subhashchand S/o Ramnayan R/o Koiripur & Kaluram S/o Makkharam R/o Koiripur & Radheshyam S/o Babulal R/o Koiripur & Ramashankar, Ramakant, Umachandra S/o Shriram R/o Koiripur & Sanjaykumar S/o Rabindarnath R/o Shafipur & Rajendraprasadsingh S/o Udaypalsingh R/o Safipur
				147	Private	Agriculture	0.0120	Ramkrupal Ramraj Rampal S/o Jairaj Mitthu S/o Mahaveer Awdhesh Kumar S/o Mithailal R/o Koiripur Sahdev S/o Ramfal Smt. Dharm W/o Ramanjor R/o Rajpur Ramratan S/o Gangaram R/o Marchha
				148	Private	Agriculture	0.0650	Ramratan S/o Gangaram R/o Marchha
				149	Private	Agriculture	0.0080	Ramratan S/o Gangaram R/o Marchha & Ramawadh, Ramnath S/o Golhai R/o Sonawa & Rmashankar, Umashankar, Dayashankar, Gulavi, Shyamshankar S/o Jaikaran R/o Village Sonawa
				150	Private	Agriculture	0.0562	Ramkripal S/o Jairaj R/o Village & Chaviraj S/o Ramsaran Yadav R/o Marcha & Ramkumar, Ramnarayan, Ramnayan S/o Ramsumer R/o Marcha & Rampher S/o Ramsher R/o Barhupur & Kishorilal S/o Feru R/o Koiripur & Durvji S/o Ramdeen R/o Koiripur & Ramraksha S/o Laltaprasad R/o Shafipur & Sheetlaprasad, Lallan, Lalji S/o Ramchandar & Rajkumari W/o Lt Ramchandar R/o Village Koiripur
				151	Private	Agriculture	0.0238	Ramkishore S/o Jagesar R/o Sadapur & Ramkumar S/o Magru R/o Sadapur & Ramchandar Munnar S/o Kunju R/o Sonawa & Vijay Kumar, Praveen Kumar, S/o Basant Kumar R/o Koiripur & Rajbahadur Vijaybahadur Omprakash S/o Ramlavat R/o Village & Chaviraj S/o Ramsaran R/o Marchha & Ramraksha S/o Lalta Prasad & Ramkumar, Ramnarayan S/o Ramsumer R/o Sa. Safipur
				152	Govt.	Aabadi	0.0120	Govt. of Uttar Pradesh
				153	Private	Agriculture	0.0400	Rampiyare S/o Ramsumer R/o Sonawa

			154	Govt.	Banzer	0.0080	Govt. of Uttar Pradesh
			177 A	Private	Agriculture	0.0015	Vijay Kumar, Praveen Kumar, Ravi Kumar, Manish Kumar S/o Basant Kumar R/o Koiripur
			177 B	Private	Agriculture		Rajaram, Sitaram, Shriram S/o Ramsamujh R/o Sonwan
			<b>Total</b>			<b>2.1121</b>	
		<b>(40) Sonawa</b>	215	Private	Agriculture	0.0198	Smt. Marjaadi W/o Rajaram R/o Village
			216	Private	Agriculture	0.1675	Karunashankar S/o Banshraj R/o Village
			217	Govt.	Nali	0.0098	Govt. of Uttar Pradesh
			383	Private	Agriculture	0.0046	Udayraj Vijayshankar Ugrasen Satyadev Panchdev Bramhdev Chandradev Surykant S/o Rajitram Smt Prabhawati w/o Rajitram
			235	Govt.	Nali	0.0048	Govt. of Uttar Pradesh
			218	Private	Agriculture	0.3490	Karunashankar S/o Banshraj R/o Village
			219	Private	Agriculture	0.1964	Ramsurati, Chandarban Narayan S/o Rammurati Mishr R/o Village
			233	Private	Agriculture	0.0584	Shobnarayan s/o Rajmani
			234	Govt.	Road	0.0111	Govt. of Uttar Pradesh
			251	Private	Agriculture	0.1809	Shridhar S/o Sheetladeen & Ramshiromani, Motilal, Harishankar S/o Shripati & Ashok Prasad, Keshavprasad S/o Phoolchandar & Saroja Devi W/o Lt. Bedprakash & Shyamashankar, Dayashankar S/o Shriram & Shrinath, Vidhyadhar S/o Sitaram & Iswardeen, Kartikshyam S/o Shivbaran & Jagdish S/o Abhaynarayan & Ramadhar, Shyamdhara, Sabhakant S/o Shivmurti & Gopichandar S/o Ram Akbal R/o Village
			252	Govt.	Khad Ka Gadda	0.0475	Govt. of Uttar Pradesh
			253	Govt.	Road	0.0095	Govt. of Uttar Pradesh
			256	Private	Agriculture	0.1361	Harishchandar S/o Rajnarayan R/o Bikepur
			257	Private	Agriculture	0.1162	Ramnarayan Laxminarayan Maheshnarayan Jagatnarayan Suryanarayan S/o Ramchandar R/o Village
			258	Private	Agriculture	0.0714	Panchnath Mishr S/o Suryapal R/o Village
			259	Private	Agriculture	0.1266	Smt. Vijay Laxmi Mahendar Pratap R/o Ganmakoiripur
			260	Private	Agriculture	0.0680	Ramnarayan, Laxminarayan, Maheshnarayan, Jagatnarayan, Suryanarayan S/o Ramchandar & Sarju Prasad, Nanakchand, Kamta Prasad, Vishvnath S/o Rammanorath R/o Village
			266	Govt.	Road	0.0115	Govt. of Uttar Pradesh
			312	Private	Agriculture	0.2283	Ramsurati, Chandarban Narayan S/o Rammurati Mishr R/o Village
			313 E	Govt.	New Land	0.0153	Govt. of Uttar Pradesh
			314	Govt.	Aabadi	0.0055	Govt. of Uttar Pradesh
			316	Govt.	Road	0.0010	Govt. of Uttar Pradesh
			1161	Private	Agriculture	0.0069	Umaraj, Umashankar, Radharaman S/o Gayadeen & Santosh, Akhilesh S/o Tribhuwannath R/o Village
			1160	Private	Agriculture	0.0061	Devtadeen Matadeen S/o Bhagelu R/o Village
			1166	Private	Agriculture	0.0111	Devtadeen S/o Jaikaran & Lohari S/o Indarjeet & Rammurti, Rajaram, Ramraj S/o Payag & Gangaram S/o Ramsundar & Shivaasre, Sabhapati, Pyarelal S/o Ramnaya & Matadeen urf Nafait S/o Shrirang & Udayraj S/o Namun urf Rammanorath & Rammilan, Sunil Kumar S/o Lt. Ramsamujh & Smt. Hansraji W/o Lt. Ramsamujh & Arun Kumar, Anil Kumar, Anup Kumar, Ajay Kumar S/o Brijbhusan & Smt. Malti W/o Brijbhusan & Phoolchandra, Lalchandar, Harishchandar, Subhashchandar, Kewachandar, Premchandar S/o Ramlaut Manraji Devi W/o Ramlot R/o Village
			1167	Private	Agriculture	0.0214	Lohari S/o Indarjeet & Rammurti, Rajaram, Ramraj S/o Payag & Gangaram S/o



								Ramsundar & Shivaasre, Sabhapati, Pyarelal S/o Ramnayaak & Matadeen urf Nafait S/o Shrirang & Rammilan Sunil Kumar S/o Lt. Ramsamujh & Smt. Hansraji W/o Lt. Ramsamujh & Arun Kumar, Anil Kumar, Anup Kumar, Ajay Kumar S/o Brijbhusan & Smt. Malti W/o Brijbhusan & Phoolchandar, Lalchandar, Harishchandar, Subhashchandar, Kewalchandar, Premchandar S/o Ramlaut & Smt. Manraji Devi W/o Ramlaut & Sarjuprasad Mishr S/o Rammanorath R/o Village
			1168	Private	Agriculture	0.0120	Lohari S/o Indarjeet & Rammurti, Rajaram, Ramraj S/o Payag & Gangaram S/o Ramsundar & Shivaasre, Sabhapati, Pyarelal S/o Ramnayaak & Matadeen urf Nafait S/o Shrirang & Rammilan Sunil Kumar S/o Lt. Ramsamujh & Smt. Hansraji W/o Lt. Ramsamujh & Arun Kumar, Anil Kumar, Anup Kumar, Ajay Kumar S/o Brijbhusan & Smt. Malti W/o Brijbhusan & Phoolchandar, Lalchandar, Harishchandar, Subhashchandar, Kewalchandar, Premchandar S/o Ramlaut & Smt. Manraji Devi W/o Ramlaut & Sarjuprasad Mishr S/o Rammanorath R/o Village	
			1169	Private	Agriculture	0.0080	Lohari S/o Indarjeet & Rammurti, Rajaram, Ramraj S/o Payag & Gangaram S/o Ramsundar & Shivaasre, Sabhapati, Pyarelal S/o Ramnayaak & Matadeen urf Nafait S/o Shrirang & Rammilan Sunil Kumar S/o Lt. Ramsamujh & Smt. Hansraji W/o Lt. Ramsamujh & Arun Kumar, Anil Kumar, Anup Kumar, Ajay Kumar S/o Brijbhusan & Smt. Malti W/o Brijbhusan & Phoolchandar, Lalchandar, Harishchandar, Subhashchandar, Kewalchandar, Premchandar S/o Ramlaut & Smt. Manraji Devi W/o Ramlaut & Sarjuprasad Mishr S/o Rammanorath R/o Village	
			1170	Private	Agriculture	0.0120	Lohari S/o Indarjeet & Rammurti, Rajaram, Ramraj S/o Payag & Gangaram S/o Ramsundar & Shivaasre, Sabhapati, Pyarelal S/o Ramnayaak & Matadeen urf Nafait S/o Shrirang & Rammilan Sunil Kumar S/o Lt. Ramsamujh & Smt. Hansraji W/o Lt. Ramsamujh & Arun Kumar, Anil Kumar, Anup Kumar, Ajay Kumar S/o Brijbhusan & Smt. Malti W/o Brijbhusan & Phoolchandar, Lalchandar, Harishchandar, Subhashchandar, Kewalchandar, Premchandar S/o Ramlaut & Smt. Manraji Devi W/o Ramlaut & Sarjuprasad Mishr S/o Rammanorath R/o Village	
			1175	Private	Agriculture	0.0947	Surendarnath, Swaminath, Premnarayan, Ashok Kumar, Anil Kumar S/o Ramchandar & Shobhawati W/o Ramdas R/o Village Sursati w/o Ramkewal	
			1177	Private	Agriculture	0.0733	Arun Kumar S/o Ramaasre R/o Village	
			1178	Private	Agriculture	0.0349	Vijayshankar, Ugrsen, Panchdev, Brahmdev, Chandardev, Suryakant S/o Rajitram & Reeta Devi W/o Bholaprasad R/o Village	
			1179	Private	Agriculture	0.0515	Surendar Kumar, Narendar Kumar, Rajendar Prasad S/o Amrabahadur R/o Village	
			1230	Govt.	Road	0.0044	Govt. of Uttar Pradesh	
			1235	Private	Agriculture	0.0703	Heeralal, Pannalal, Motilal, Jawahirlal S/o Suryanarayan & Chandarbhan S/o Daanbahadur & Smt. Vidhyadevi W/o Chaturbhan & Smt. Madhuri W/o Ashok Kumar R/o Village	
			1236	Private	Agriculture	0.0440	Satyanarayan S/o Ramyagy & Sunil Kumar, Anjani Kumar S/o Rajnarayan & Geetadevi	

							W/o Lt. Rajnarayan & Amarawati Devi W/o Amarnath R/o Village
			1237	Govt.	Road	0.0032	Govt. of Uttar Pradesh
			1265	Private	Agriculture	0.0457	Ramkewal Ramkalap S/o Sitaram R/o Village
			1267	Private	Agriculture	0.0585	Kashiprasad S/o Rammanohar R/o Manapur
			1268	Private	Agriculture	0.0440	Jagroop, Ramkalap, Phoolchand S/o Ramlal & Lalmani, Jiledaar, Hawaldaar Tehsildaar Talukdaar Mukhtar S/o Mallu & Rahul S/o Jamadaar & Vishmbharnath S/o Bhagwanta & Ramfer S/o Salikram Dubey & Shyamlal S/o Chhotelal R/o Village Sonpura
			1269	Private	Agriculture	0.0280	Lalji S/o Ramnaresh & Suryanarayan S/o Shivshankar & Balbhadar S/o Laxminarayan & Suraj Singh S/o Ashok Kumar Singh & Manju Devi W/o Ashok Kumar Singh R/o Malhipur
			221	Govt.	Non Agriculture	0.1295	Pili River, Govt. of Uttar Pradesh
			222	Private	Agriculture	0.0040	Sarjuprasad, Nanakchandar S/o Rammanorath & Ramnarayan, Laxmi Narayan, Maheshnarayan, Jagatnarayan, Suryanarayan S/o Ramchandar & Kamtaprasad, Vishwanath S/o Rammanorath & Bashishtnarayan S/o Ramsundar & Shribhagwan, Ramkrishan S/o Ambika Prasad & Harinath, Panchnath, Siddhnath S/o Suryapal & Girdawal, Vijayprakash, Chandarprakash S/o Harinarayan & Bablu, Omprakash S/o Heeraram & Panchnath Mishr S/o Suryapal R/o Village
			223 A	Private	Agriculture	0.0530	Chandarbhyan Narayan S/o Rammurati & Neeraj Kumar S/o Ramsurati R/o Village
			223 B	Private	Agriculture		Surendarnath, Swaminath, Premnarayan, Ashok Kumar, Anil Kumar S/o Ramchandar R/o Village
			224 A	Private	Agriculture	0.6420	Umaraj Umashankar Radharaman S/o Gayadeen Ashok Prasad Kesav prasad S/o Phoolchandra Saroja Devi W/o Lt. Bedprakash Karunashankar S/o Banshraj Santosh Akhilesh S/o Tribhuvan nath Ramsamujh S/o Ramotar Ram adhar Sabhakant Shyamdhhar Shrikant S/o Shivmurat Jagdish prasad S/o Abhay narayan Shridhar S/o Sheeladeen Ramshiromani Motilal Harishankar S/o Shripati Shyamshankar Dayashankar S/o Shriram Vidhyadhar Shrinath S/o Seetaram Indrajeet S/o Jainarayan Shribhagwan S/o Jagatnarayan Rajaram Radheshyam S/o Ramlakhan Girjakant S/o Rambaran Ramakant S/o Kashi Baburam S/o Nagesar Ishwardeen Kartik Shyam S/o Shivbaran Sheshnarayan S/o Rajmani Udayraj Vijayshankar Ugrasen Satyadev Panchdev Barhamdev Chandardeve Suryakant S/o Rajitram Prabhawati Devi W/o Lt. Rajitram Rajaram Radheshyam S/o Ramlakhan Smt. Vijaylaxmi W/o Mahendra pratap R/o Village
			224 B	Private	Agriculture		Ram Akbal S/o Lohar & Sampati S/o Bachha & Salikram, Tulsiram S/o Dukhi R/o Village
			224 B	Private	Agriculture		Surendra, Swaminath, Premnarayan, Ashok Kumar, Anil Kumar S/o Ramchander & Jaiprakash, Ramprakash, Sriprakash S/o Bhaogtiprasad & Omprakash S/o Aadyaprasad & Hardyanarayan S/o Girjashankar & Ramsajivan S/o Hardyanarayan & Ramsurti, Chandrbhan, Narayan S/o Rammurti Mishr R/o Village & Rajaram Shriram Seetaram S/o Ramsamujh Jangbahadur S/o Ramadhar Rampiyare S/o Ramsumer Ramjas Phoolchand S/o Sherai Rajbahadur

								Omprakash Vijaybahadur S/o Ramlaut Matal S/o Saroop Munnu S/o Kalika Shyamdatt Gyandatt S/o Shivmurati Indrawati W/o Lt. Shivmurati Jaikaran Ramjaggi Tulsi S/o Bhagotideen Rajpati Shripati Ramapati Raghupati Samsher bahadur S/o Hansraj Dilraji W/o Hansraj Ramawadh Ramnath S/o Golai Smt. Hubbi W/o Lt. Naresh Smt. Yasoda W/o Salikram Manraji Devi W/o Ramakbal R/o Village & Sampati S/o Bachha & Salikram, Tulsiram S/o Dukhi & Ram Akbal S/o Lohar R/o Village & Surendranath, Swaminath S/o Ramchander & Ramsurati, chandraban, Narayan S/o Rammurti Mishra & Premnarayan, Ashok Kumar, Anil Kumar S/o Ramchander R/o Village.
				225	Private	Agriculture	0.0321	Shridhar S/o Sheetaldeen & Ramshiromani, Motilal, Harishankar S/o Shripati & Ashok
				226	Private	Agriculture	0.0570	Jaikaran, Ramji, Tulsi S/o Bhagotideen & Shyamdutt, Gyandutt, Indarawati S/o Lt. Shivmurti & Ramsingar, Dalsingar, Ramaasre, Dilla S/o Shubhakaran & Dharmraj S/o Sarju & Rajpati, Shripati, Ramapati, Raghupati, Shamsheerbahadur S/o Hansraj R/o Village
				227	Private	Agriculture	0.0280	Umaraj, Umashankar, Radharaman S/o Gayadeen & Shashikant, Krishan Kumar S/o Kripashankar & Smt. Sushma W/o Lt. Dinesh & Subhashchandra, Sailesh Kumar, Brijesh Kumar S/o Kripashankar & Smt. Rajkumari W/o Kripashankar & Karunashankar S/o Banshraj & Santosh, Akhilesh S/o Tribhuwannath & Sheshnarayan s/o Rajmani Udayraj Vijayshankar Ugrasen Satyadev Panchdev Bramhdev Chandradev Surykant s/o Rajitram Smt Prabhawati w/o Rajitram R/o Village
				228	Private	Agriculture	0.0450	Umaraj, Umashankar, Radharaman S/o Gayadeen & Shashikant, Krishan Kumar S/o Kripashankar & Smt. Sushma W/o Lt. Dinesh & Subhashchandra, Sailesh Kumar, Brijesh Kumar S/o Kripashankar & Smt. Rajkumari W/o Kripashankar & Santosh, Akhilesh S/o Tribhuwannath & Smt. Patiraji W/o Tilakdhari & Karunashankar S/o Banshraj R/o Village Sheshnarayan s/o Rajmani Udayraj Vijayshankar Ugrasen Satyadev Panchdev Bramhdev Chandradev Surykant s/o Rajitram Smt Prabhawati w/o Rajitram R/o Village
				229	Private	Agriculture	0.2172	Chhotelal, Hariprasad, Subhashchandra S/o Harinarayan & Atul Kumar S/o Shivprasad & Neelam W/o Lt. Shivprasad & Kashideen S/o Khunkhun & Pannalal S/o Suryanarayan & Smt. Budhana W/o Kashideen R/o Village Rohit Kumar S/o Sharda Prasad Sharda Devi W/o Ramsajivan Mishra
				230	Private	Agriculture	0.1777	Shashikant, Krishan Kumar S/o Kripashankar & Smt. Sushma W/o Lt. Dinesh & Subhashchandra, Sailesh Kumar, Brijesh Kumar S/o Kripashankar & Smt. Rajkumari W/o Kripashankar R/o Village
				1276	Private	Agriculture	0.0332	Panchnath S/o Suryapal & Rajesh Kumar S/o Panchnath & Smt. Urmila Devi W/o Chandra Prakash & Vidhyadevi W/o Harinath R/o Village
				1275	Private	Agriculture	0.0581	Baburam S/o Nagesar R/o Village
				1273	Private	Agriculture	0.0706	Lallan Lalmani S/o Shripal R/o Village
				1831	Govt.	Road	0.0024	Govt. of Uttar Pradesh
				1840	Private	Agriculture	0.0593	Omprakash S/o Adhaprasad R/o Village
				1841	Private	Agriculture	0.0353	Ramsajivan S/o Hridaynarayan R/o Village
				1842	Private	Agriculture	0.0340	Sheshnarayan S/o Rajmani & Akhilesh Kumar S/o Shriram R/o Village

				1843	Govt.	Non-Agriculture	0.0022	Govt. of Uttar Pradesh
				1849	Private	Agriculture	0.0916	Siddhnath S/o Suryapal & Smt. Nirmala W/o Vijendar R/o Village
				1851	Govt.	Non-Agriculture	0.0030	Govt. of Uttar Pradesh
				1853	Private	Agriculture	0.0978	Shiv Aasre, Sabhapati, Pyarelal S/o Ramnaya & Arun Kumar urf Saheb Lal S/o Ramaasre R/o Village
				1855	Private	Agriculture	0.0179	Arun Kumar S/o Ramaasre R/o Village
				1978	Private	Agriculture	0.2293	Ramakant S/o Suryabali & Ayodhya Prasad S/o Chothi & Pannalal S/o Ramdular & Shridhar, Shripati S/o Sheetaldeen & Shrinath, Vidhyadhar S/o Sitaram & Ramakbal S/o Mataprasad & Jagdishnarayan S/o Abhaynarayan & Ramadhar, Shyamdhar, Sabhakant, Shrikant S/o Shivmurat & Ramujagir, Lalchand S/o Suryanarayan & Smt. Sugna W/o Suryanarayan & Diwakarnath S/o Ramsaran & Ramkeval, Ramaasre S/o Molai Prasad Rajak & Thakurprasad S/o Bodai & Smt. Chamela Rani W/o Jagdev R/o Village Shyamshankar Dayashankar s/o Shriram
				1979	Private	Agriculture	0.0216	Ramjiyawan, Rammilan S/o Gangadeen R/o Village
				1980	Private	Agriculture	0.0402	Krishan Kumar, Arjun, Ramsabhag S/o Shamsher Bhadur R/o Village
				1981	Govt.	Non-Agriculture	0.0052	Govt. of Uttar Pradesh
				1982	Private	Agriculture	0.0601	Surendra Kumar Narendra Kumar Rajendra Prasad S/o Amerbahadur R/o Village
				1983	Private	Agriculture	0.1477	Krishan Kumar, Arjun, Ramsabhag S/o Shamsher Bhadur R/o Village
				1994	Govt.	Road	0.0065	Govt. of Uttar Pradesh
				1996	Private	Agriculture	0.1332	Ramvilas, Ramnayan S/o Chotelal & Ramujager, Lalchand S/o Surya Narayan & Smt. Sugna W/o Surya Narayan & Rammurti, Omprakash S/o Vishvnath & Smt. Virja Devi W/o Vishvnath & Ramkumar S/o Chotelal & Smt. Manidevi W/o Chotelal & Devilal S/o Ahaku R/o Village
				1997	Private	Agriculture	0.0250	Ashok Kumar, Rajesh Kumar, Dinesh Kumar S/o Satyanarayan & Chamela Devi W/o Satyanarayan R/o Village
				1998	Private	Agriculture	0.0712	Ganga Prasad S/o Jhokhu R/o Village
				1999	Private	Agriculture	0.0335	Smt. Nirmaladevi W/o Parasnath & Parasnath, Kamta Prasad S/o Ramnihor R/o Village
				2000	Govt.	Non-Agriculture	0.0061	Govt. of Uttar Pradesh
				2001	Private	Agriculture	0.0221	Smt. Jadawati W/o Hari Prasad & Laltidevi W/o Vijaybahadur & Durgawati Devi W/o Narendar bahadur & Smt. Bindu W/o Surendar Kumar R/o Bhairopur
				2002	Private	Agriculture	0.1498	Magru S/o Jagesar R/o Village
				<b>Total</b>			<b>5.3117</b>	

[ F. No. NHAI/11013/01/2013-LA-56-Notif/BOT/PIU-Varanasi]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.